



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 21—अक्टूबर 27, 2006 (आश्विन 29, 1928)
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 21—OCTOBER 27, 2006 (ASVINA 29, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

मुंबई-400005, दिनांक 26 सितम्बर 2006

बैपवि. सं. पीएसबीडी. 2915/16.01.103/2006-07--भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ख) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा दिनांक 2 सितंबर 2006 से उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को निकालने का निदेश देता है :

“दि गणेश बैंक ऑफ कुरुडवाड लिमिटेड”

आनंद सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2006

निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.17/सीएमडी/2006--राष्ट्रीय आवास बैंक जनहित में एवं इस बात से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ यह आवश्यक समझता है कि ऐसा करना

अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987/53) की धाराओं 30ए तथा 31 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 में निम्नानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं, अर्थात् :

आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

“जमा राशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध”

3.(1) कोई भी आवास वित्त कंपनी तब तक कोई भी सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार या उनका नवीनीकरण नहीं करेगी जब तक कि आवास वित्त कंपनी ने किसी एक अनुमोदित रेटिंग एजेंसी से अपनी सावधि जमाओं के लिए वर्ष में कम से कम एक बार, न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त न की हो और रेटिंग की प्रति राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रेषित की जाए तथा कंपनी सभी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करती हो, बशर्ते कि :

(i) आवास वित्त कंपनी ने उपरोक्त अनुसार अपनी सावधि जमाओं के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग से नीचे प्राप्त न की हो और सभी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करती हो, तब कंपनी अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के पांच गुणा से अधिक सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकती है।

(ii) आवास वित्त कंपनी जिसे अपनी सावधि जमाओं के लिए अपेक्षित रेटिंग प्राप्त न हुई हो, अधिसूचना की तारीख से छह माह के

अंदर या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमत्य वृद्धिकाल में, जो उसे अपनी सावधि जमाओं के लिए निर्दिष्ट रेटिंग प्राप्त करने के लिए दिया गया हो, उसे प्राप्त करेगी।

अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम फिलहाल निम्नानुसार हैं :--

- (क) दि क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसेज आफ इंडिया लि.
- (ख) आईसीआरए लि.
- (ग) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि. (केयर)
- (घ) फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लि.

(2) कोई भी आवास वित्त कंपनी सार्वजनिक निक्षेपों सहित कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं करेगी, जिसकी सकल राशि और उसके द्वारा धारित अन्य राशियां, यदि हों, जिनका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I की उप-धारा (बीबी) की धाराओं (iii) से (vii) में किया गया है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से लिये ऋण या अन्य सहायता की राशि उसकी निवल स्वाधिकृत निधि के सोलह गुणा से अधिक हो।

(3) जब आवास वित्त कंपनी इन निर्देशों के लागू होने की तारीख पर उपर्युक्त (1) में निर्धारित सीमा से अधिक सार्वजनिक जमा राशियां और उसे अनुमत्य अनुसार या उपर्युक्त (2) में उल्लिखित मदों में जमाओं

की राशि उपर्युक्त (2) में उल्लिखित सीमा से अधिक धारित करती हो, तो वह--

- (i) नई जमा राशियां स्वीकार नहीं करेगी या नए जमा खाते नहीं खोलेगी, या
- (ii) मौजूदा जमाओं का नवीनीकरण नहीं करेगी या जब किसी आवृत्ति योजना के तहत जमा राशियां प्राप्त करती है, योजना अवधि समाप्त होने के बाद उस योजना के तहत किस्तें प्राप्त करती है,
- (iii) परिपक्वता होने पर भुगतान करके उन फालतू जमा राशियों को घटा देती है।
- (4) निवेश ग्रेड से नीचे किसी भी स्तर क्रेडिट रेटिंग कम होने की दशा में, आवास वित्त कंपनी--
 - (i) स्थिति रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक को पन्द्रह दिन में भेजेगी,
 - (ii) नई जमा राशियां स्वीकार करना तत्काल प्रभाव से बंद कर देगी, और
 - (iii) परिपक्वता होने पर भुगतान करके उन फालतू जमा राशियों को घटाएगी।

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग
(केन्द्रीय कार्यालय)

मुंबई, दिनांक 27 सितम्बर 2006

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत तथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसार, अगस्त 2006 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
भायखला, मुंबई सकल 9% राहत पत्र 1999 (डीमैट)					
जीपीएच बी.सी.एन. 021558	रु. 1,00,000/-	इब्राहीम बुशेरी पाशाह बुशेरी (कोई एक या उतरजीवी)	19/4/2000	इब्राहीम बुशेरी पाशाह बुशेरी	06.25.93 10.5.2005

सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
भायखला, मुंबई सकल 9% राहत पत्र 1999 (डीमैट)					
जीपीएच बी.सी.एन. 020061	रु. 3,00,000/-	राजा जी. कुलकर्णी कुसुम आर. कुलकर्णी	4/5/2000	राजा जी. कुलकर्णी कुसुम आर. कुलकर्णी	06.25.94 19.8.2005

जे. एम. बावा
सहायक प्रबंधक

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 15 सितम्बर 2006

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3एनसीए(8)/2/2004-2005 : इस इंस्टीट्यूट को यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 10(i) के क्लॉज (iii) के द्वारा यह इंस्टीट्यूट निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनको प्रेक्टिस सर्टिफिकेट की आवश्यकता न होने के कारण मैम्बरशिप रजिस्टर से नाम के समक्ष दी हुई तिथि से वापस लेता है ।

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
1.	003962 श्री सतलवार राज कुमार एसीए 9 निजामुद्दीन ईस्ट न्यू दिल्ली-110013	01/12/2004	7.	015683 श्री मुरगई सतीष कुमार एफसीए 6/ एमआईजी फ्लैट्स प्रसाद नगर न्यू दिल्ली-110005	01/04/2004
2.	006461 श्री जैन मोती लाल एफसीए एम जैन एन्ड कं. 864 सेक्टर 14 (हरियाणा) गुडगाँव-122001	04/09/2004	8.	015947 श्री सक्सेना सतीष कुमार एसीए अप राज्या विद्युत उत्पादन निगम लि. 8 फ्लोर, शक्ति भवन एक्स. अशोक मार्ग, लखनऊ-226001	04/08/2004
3.	008904 श्री विजय राम एफसीए आर.पी. विजय एन्ड कं. 2/94, रूप नगर दिल्ली-110007	01/04/2004	9.	016688 श्री तार्यल विष्णु भगवान एफसीए 1141 न्यू हाऊसिंग बोर्ड कालोनी पानोपत	01/06/2004
4.	009548 श्री जैन नरेन्द्र कुमार एफसीए 71 कामधेनु अपार्टमेंट्स प्लॉट नं. 51 सेक्टर-IX रोहिणी दिल्ली-110085	01/04/2004	10.	017026 श्री गुप्ता ललित एफसीए ललित गुप्ता एन्ड कं. ए-372 सरिता विहार न्यू दिल्ली-110044	13/07/2004
5.	011112 श्री नय्यर शशि भूषण एफसीए सी-73 लाजपत नगर-II न्यू दिल्ली-110024	01/04/2004	11.	017651 श्री अजमेरा सत्यनारायण एफसीए 1 महेश्वरी अपार्टमेंट्स सेक्टर 14 प्लॉट 6 रोहिणी, दिल्ली-110085	01/04/2004
6.	013460 श्री बहुलेयान एम आर ए-118 मंगल अपार्टमेंट्स प्लॉट नं. 16 बसुंधरा अन्वलेव दिल्ली-110096	30/04/2004	12.	017958 श्री अगरवाल अशोक कुमार एफसीए एफ 3/16 वसंत विहार दिल्ली-110057	01/04/2004
			13.	032757 श्री सुब्रमण्यन माधवन एफसीए प्राईस वॉटर हाऊस सुचेता भवन बी डी मार्ग, न्यू दिल्ली-110002	05/06/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
14.	036092	श्री गुलाटी देवेन्द्रा एफसीए 8/2 ओल्ड राजेन्द्र नगर न्यू दिल्ली-110060	01/04/2004	22.	071365	श्री गुप्ता छगन लाल एफसीए बी-1/22 राजस्थानी अपार्टमेंट्स पीतमपुरा, दिल्ली-110034	01/04/2004
15.	037232	श्री श्रीनिवासन एफसीए त्यागराजन टी टास्कीएसोसिएट्स जी-7 होटल अशोक प्लाजा 12ए/14 डबल्यू ई ए करोल बाग न्यू दिल्ली-110005	20/11/2004	23.	071595	श्री गर्ग प्रदीप एसीए डिप्टी जनरल मैनेजर (कोरपोरेट फाइनेंस) कोरपोरेट फाइनेंस डि., मारुति उद्योग लि. पाल्म गुडगीव रोड, गुडगीव-122015	02/08/2004
16.	050509	श्री सोनी लक्ष्मी प्रकाश एफसीए एएन/21-सी शालीमार बाग दिल्ली-110052	09/07/2004	24.	071748	श्री वर्मा अनुप एसीए 1485 सेक्टर 17 गुडगीव-122001	31/03/2004
17.	052045	श्री पिल्लई शशि धर एसीए 59/बी पुष्पांजलि विकास मार्ग एक्स. 2 दिल्ली-110092	01/07/2004	25.	072300	श्री गर्ग सुबोध कुमार एफसीए केयर ऑफडीएससीएल शृंगर अजबापुर विल अजबापुर, पी ओ मुल्लतपुर डिस्ट. लक्ष्मीपुर खेरी लक्ष्मीपुर खेरी-261505	15/09/2004
18.	055634	श्री तिबरेवाल सुशील कुमार एफसीए केयर ऑफ आर के खन्ना एन्ड कं. आर के खन्ना टेनिस स्टेडियम टेनिस कॉम्प्लेक्स अफ्रीका एवेन्यू न्यू दिल्ली-110029	29/03/2004	26.	073619	श्री जैन सुभाष चंद एसीए केयर ऑफ श्री गर्ग प्लॉट नं. 1026 सेक्टर-4, गुडगीव	15/02/2005
19.	056666	श्री शर्मा प्रवीण कुमार एफसीए के-117 फर्स्ट फ्लोर कीर्ति नगर न्यू दिल्ली-110015	01/01/2005	27.	073826	श्री गुप्ता सुनील कुमार एफसीए केयर ऑफ कौल मंगला एन्ड कं. 55, चावला कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट नं. 1, ए-215 शकर पुर विकास मार्ग दिल्ली-110092	15/12/2004
20.	057282	मिस अग्रवाला रितु एफसीए केयरऑफ सुमित अग्रवाला अमरपाली अपार्टमेंट फ्लैट 188 56 इंदिराप्रस्था एक्सटेंशन पटपरगंज, दिल्ली-110092	01/01/2005	28.	075287	श्री अग्रवाल कैलाश चन्द्रा एफसीए डबल्यूजेड-820 गली नं. 18-सी साध नगर-II, पाल्म कालोनी न्यू दिल्ली-110045	01/01/2005
21.	062074	श्री अग्रवाल विनोद कुमार एसीए जे-3/260 डी डी ए फ्लैट्स कालकाजी 2 फ्लोर न्यू दिल्ली-110019	05/11/2003	29.	076993	श्री गुप्ता राजन दास एफसीए फ्लैट नं. 147 शिवानी अपार्टमेंट्स 63 आई. पी. एक्सटेंशन पटपरगंज, दिल्ली-110092	23/02/2005

क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
30. 077202 श्री सरीन अमित एफसीए एफ-103, ग्रीन वैली अपार्टमेंट्स सेक्टर-22, प्लॉट नं. 18 द्वारका, न्यू दिल्ली-110045	06/09/2004	39. 082025 श्री आनंद राजिन्दर कुमार एफसीए एफ-147, सरिता विहार न्यू दिल्ली-110044	31/03/2004
31. 077709 श्री भित्तल सौरभ एफसीए मिल्कफूड लिमिटेड 5 फ्लोर, भंडारी हाऊस न्यू दिल्ली	15/03/2004	40. 083134 श्री ओम प्रकाश सरस्वत एफसीए 1568 सेक्टर 9 फरीदाबाद-121006	27/01/2005
32. 079675 मिस माधुर मेघना एसीए ईसी-264 भाया अनक्लेव जी-8 एरिया, न्यू दिल्ली-110064	01/04/2004	41. 083576 श्री मनचंद समीर एफसीए ए-89 निजामुद्दीन इस्ट न्यू दिल्ली-110013	01/12/004
33. 079832 श्री पोटदार अनुराग एसीए 5190 लाहोरी गेट दिल्ली-110006	01/01/2005	42. 083866 श्री वाचवान गुरदर्शन एसीए एम-243 गुरु हरकृष्ण नगर पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110087	07/10/2004
34. 080630 श्री खरे राजीव एफसीए सी-511 चित्तरंजन पार्क न्यू दिल्ली-110019	01/04/2004	43. 083883 श्री दयाल विवेक एसीए - ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस इंडिया वाई एम सी ए लाइब्रेरी बिल्डिंग 1, जय सिंह रोड न्यू दिल्ली-1100001	31/08/2004
35. 080885 श्री गोयल बलदेव सहाय एफसीए डायरेक्टर (फाईनैस) भारतीय नैपिकीय विद्युत निगम लि. (भाविनी) (ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्टेअरिज) कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, कांचीपुरम कलम्बकम-603102	04/09/2004	44. 084064 श्री मनकतला विनीत एसीए केयर ऑफ श्रीमति रुबी अरोड़ा ई-305 नरवाना अपार्टमेंट्स आई पी एक्स.-II पटपरगंज, दिल्ली-110092	24/12/2004
36. 081660 श्री प्रदीप कुमार एफसीए एच नं. 122, सेक्टर-4 पंचकुला-134112	31/03/2005	45. 084490 श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह एफसीए सी-7/105 यमुना विहार दिल्ली-110053	31/03/2004
37. 081715 श्री नरेश कुमार एफसीए जी-18, फेज-1 अरुण विहार दिल्ली-110052	31/03/2004	46. 084492 श्री माधुर विजेश कुमार एफसीए 501 एलीफैंटा हाईट्स प्लॉट नं. 41 सेक्टर 10 द्वारका, न्यू दिल्ली-110045	05/08/2004
38. 081908 श्री नवल किशोर एफसीए 43, बैंक अनक्लेव लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	09/10/2004	47. 084507 श्री शर्मा विवेक कृष्णा एफसीए सी-67 निजामुद्दीन इस्ट न्यू दिल्ली-110013	27/12/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
48.	084510	श्री जैन बिजेन्द्र पॉल एफसीए 81, पोकेट ए-3 सेक्टर 3, रोहिणी दिल्ली-110085	01/03/2005	57.	085966	मिस वाधवानी मंजु एफसीए 4623, ओसेज डा. बेटाऊन टीएक्स 77521 यूएसए	23/06/2004
49.	084620	श्री शर्मा प्रवीण एफसीए सी-123 अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052	01/04/2004	58.	086009	श्री पाहूजा कमल कुमार एफसीए एडी/80सी शालीमार बाग दिल्ली-110052	28/12/2004
50.	084987	श्री भारगवा देवेन्द्र डी एफसीए 26 नेताजी सुभाष मार्ग दरिया गंज, न्यू दिल्ली-110002	23/02/2005	59.	086829	श्री भाधरा पंकज रॉय एफसीए 71/127 प्रेम नगर जनक पुरी, न्यू दिल्ली-110058	01/08/2004
51.	085193	श्री जोनेजा प्रवीण कमल एफसीए 3/1, पंजाबी बाग एक्स. न्यू दिल्ली-110026	30/08/2004	60.	086917	श्री शिवा कुमार बी एफसीए 330-डी पोकेट-II मयूर विहार फेज-I दिल्ली-110091	19/01/2005
52.	085374	श्री गुप्ता संजीव कुमार एफसीए फाईनैस मैनेजर शकुन ट्रेडिंग कं. एलएलसी पी ओ बाक्स 26957 दुबई, यूएई	30/09/2004	61.	087049	श्री जैन संजय एफसीए सी-603, मयूर अपार्टमेंट्स सेक्टर-9, रोहिणी दिल्ली-110085	15/10/2004
53.	085604	श्री राजेन्द्र कुमार एम एफसीए ई ए/15, इंदरपुरी, न्यू दिल्ली-110012	05/05/2004	62.	087206	श्री संजीव विजय एफसीए जी-111 न्यू सरस्वती सोसाएटी प्लॉट नं. 26/1 सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली-110085	23/03/2004
54.	085833	श्री शिव कुमार एफसीए शिव मयंक एन्ड एसोसिएट्स 538ए/15, चिंत पुरनी कालोनी (नियर शर्मा हॉस्पिटल) सेक्टर 14, सोनीपत-131001	15/11/2004	63.	087283	श्री जैन अतुल एफसीए 4732/21 सेकंड फ्लोर दयानंद मार्ग, दरिया गंज न्यू दिल्ली-110002	01/04/2004
55.	085834	श्री सरस्वतुला एफसीए सुधाकर 359-डी पोकेट-II मयूर विहार फेज-I दिल्ली-110091	16/02/2005	64.	087757	श्री कपूर राजीव एसीए 43/71 पंजाबी बाग न्यू दिल्ली-110026	01/04/2004
56.	085888	श्री सैगल राज कुमार एफसीए 168 फेज-II अरबन स्टेट दुगरी रोड, लुधियाना	23/02/2004	65.	087803	श्री जैन अतुल एफसीए सी4ई/24, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जनक पुरी, न्यू दिल्ली-110058	30/09/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
66.	087855	श्री चतुर्वेदी कैलाश नाथ एफसीए एच नं. 1764, सैक्टर 16 फरीदाबाद-121002	27/09/2004	77.	088787	श्री रस्तोगी राकेश कुमार एफसीए सी-1-ए/111-सी जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	25/08/2004
67.	087901	श्री मेहरा संजीव एफसीए संजीव मेहरा एन्ड एसोसिएट्स हाऊस नं. 226, सैक्टर 15-ए फरीदाबाद-121007	02/11/2004	78.	089009	श्री शर्मा चन्द्र मोहन एफसीए ए-10 अनुपम अपार्ट्स बी-बी वसुंधरा अनक्लेव दिल्ली-110096	23/03/2004
68.	088026	श्री मेंदीरत्ता जगमीत सिंह एफसीए डी-2/93, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	01/04/2004	79.	089114	श्री अग्रवाल संजीव एफसीए संजीव सुमन एन्ड एसोसिएट्स 1906 सैक्टर 16 फरीदाबाद-121002	31/03/2004
69.	088092	श्री अरोड़ा रोहिन कुमार एफसीए 118 सुखदेव विहार न्यू दिल्ली-110025	01/06/2004	80.	089193	श्री साधवानी दीपक कुमार एफसीए ए2/2 मयूर अपार्टमेंट सैक्टर 9, रोहिणी दिल्ली-110085	20/03/2004
70.	088111	श्री मखीजा आशीष कुमार एफसीए 707 सुनेजा टॉवर II 12 डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी, न्यू दिल्ली-110058	12/01/2005	81.	089347	श्री जेरथ मनीष एफसीए इंजी क्लिफ लि. 51, 3 फ्लोर ओखला इंड. स्टेट 3 न्यू दिल्ली-110020	06/02/2005
71.	088220	श्री चावला अरूण एफसीए 20/22 पंजाबी बाग न्यू दिल्ली-110026	31/03/2004	82.	089584	श्री अग्रवाल राजीव एफसीए 21 ग्रेटमैन क्रैस थॉनहिल, ऑन एलउटी 5एल9 थॉनहिल-0, कनाडा	19/07/2004
72.	088369	श्री अग्रवाल मुकेश चन्द्रा एफसीए ए-6, तकशिला अपार्टमेंट्स 57, पटपरगंज, दिल्ली-110092	30/09/2004	83.	089726	श्री गोयत सत्या प्रकाश एफसीए फ्लैट नं. डी-01 इंसपटिका अपार्टमेंट्स फ्लैट नं. 29 सैक्टर-4 ह्रातका, न्यू दिल्ली-110045	30/11/2004
73.	088485	मिस रस्तोगी विनीता एफसीए बी-466 नेहरू ग्राउंड निट, फरीदाबाद-0	01/08/2004	84.	089740	श्री महाजन संदीप एफसीए सी4ई/24, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जनकपुरी, न्यू दिल्ली-110058	30/09/2004
74.	088522	श्री नंदा विक्रम एसीए बी-58सी राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली-110027	05/05/2004	85.	089821	श्री कपूर अजय एफसीए 112, बैंक अनक्लेव लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092	01/04/2004
75.	088630	श्री खुराना रजनीश एफसीए 45 न्यू प्रगतिशील अपार्टमेंट्स वसुंधरा अनक्लेव, दिल्ली-110096	01/04/2004				
76.	088771	श्री जैन सुनील कुमार एफसीए सुनील रेनू एन्ड एसोसिएट्स 43 किरन विहार, करकरडूमा, दिल्ली-110092	16/06/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
86.	089959	श्री गुप्ता दिनेश कुमार एफसीए दिनेश टीप्टि एन्ड कं. 292 ससूनज रॉय स्ट्रीट दिल्ली गेट, न्यू दिल्ली-110002	01/03/2004	95.	090773	श्री नवीन अरोड़ा एफसीए पी ओ बाक्स नं. 18048 दुबई-0, यू.ए.ई	15/09/2004
87.	090070	श्री कपूर कमल एफसीए ए-3/54 सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली-110085	12/10/2004	96.	090857	श्री चावला एफसीए विरेंद्र कुमार 30 सेक्टर-15 फरीदाबाद-121007	27/08/2004
88.	090172	श्री बाधवान राजन एफसीए डी-12, लाजपत नगर-III न्यू दिल्ली-110024	23/12/2004	97.	090953	श्री स्वतंत्र कुमार एसीए पीओ बॉक्स 41761 जिरोरे रोड इंडस्ट्रियल एरिया नैरोबी-00100, केन्या	12/01/2005
89.	090213	श्री जैन तरुण कुमार एफसीए स्वास्तिक सदन अपो. एसपी ऑफिस सोहना रोड गुडगांव-122001	17/03/2004	98.	090996	श्री अक्लेश शर्मा एसीए केयर ऑफ श्री ए. के. शर्मा बी-3/2सी, गस्ता हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स, पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110063	26/04/2004
90.	090252	श्री मुंजल नवीन एसीए ए 38 डेरावाल नगर दिल्ली-110009	05/10/2004	99.	090999	श्री गर्ग नीरज एफसीए 73 आनंद विहार पीतम्पुरा, दिल्ली-110034	31/03/2004
91.	090345	श्री रमाकांत एफसीए एसी-1/181-बी शालीमार बाग दिल्ली-110088	05/05/2004	100.	091161	श्री बहल रजनीश एफसीए ए-5/बी-177 पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110063	30/09/2004
92.	090533	मिस शर्मा उर्मिला एफसीए केयर ऑफ विकास सिंह एफ-16बी, साकेत न्यू दिल्ली	06/10/2004	101.	091263	श्री विक्रम एफसीए कोठी नं. 101, फेज-IX मोहाली-160062	10/09/2004
93.	090621	श्री मित्तल जय कुमार एफसीए ए-15, III फ्लोर फ्लैट नं. 3ए, प्रियादर्शनी विहार दिल्ली-110092	10/03/2005	102.	091448	श्री घोष सौम्यो एसीए ब्लॉक डी-1, एच नं. 4 ग्रैंड फ्लोर यूनीटेक साऊथ सिटी-II गुडगांव-122001	24/06/2004
94.	090629	श्री जैन रजनीश एफसीए ए-27 गुजरावाला टाऊन पार्ट-I, दिल्ली-110033	23/12/2004	103.	091727	श्री मलिक सुशील कुमार एफसीए यू-10/20, 21 I फ्लोर, डीएलएफ फेज-III गुडगांव-122002	30/09/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
104.	091772 श्री माटिया मिलिंद कुमार एसीए 67-बी, सिंगल स्टोरी रमेश नगर न्यू दिल्ली-110015	15/04/2004	114.	092572 श्री सेठी राजीव एफसीए सी-195, विवेक विहार दिल्ली-110095	31/03/2004
105.	091804 श्री कंस्तु रजत एसीए बी-18, टैगोर रोड आदर्श नगर दिल्ली-110033	24/03/2005	115.	092577 श्री मखीजा मनीष एफसीए बी-102, शिवालिक नियर मालविया नगर न्यू दिल्ली-110017	15/03/2004
106.	091975 श्री पाहुजा दिनेश एफसीए 15/9 न्यू कालोनी मोर गुडगाँव-122001	01/04/2004	116.	092629 श्री बेग ईरफान एफसीए 1437 गांदी स्ट्रीट कलान महल, दरिया गंज न्यू दिल्ली-110002	16/09/2004
107.	092041 श्री प्रवीर एसीए एच नं. 228, सैक्टर-22 हुडा, गुडगाँव-122002	13/05/2004	117.	092663 श्री रजनीश कुमार एफसीए रजनीश के जैन एन्ड कं. गढ़ी गेट, अपोजिट टैगोर पार्क होशियारपुर-146001	18/10/2004
108.	092202 श्री जैन अदेश एफसीए एफ-1/यू-134 विशाखा अनक्लेव पीतमपुरा दिल्ली-110034	08/02/2005	118.	092675 मिस जैन पूर्णिमा एफसीए 3072/6एम, स्ट्रीट नं. 10 रंजीत नगर न्यू दिल्ली-110008	01/01/2005
109.	092232 मिस कामो रंजना एफसीए 443 सैक्टर 21 अरबन स्टेट हुडा, गुडगाँव-122001	31/03/2004	119.	092763 श्री दुआ राजेश एसीए 13/71, नीला कालोनी दिल्ली-110031	30/12/2004
110.	092280 श्री अनंद गोपाल कृष्ण एफसीए 3523/16 बालाजी मार्केट गाजी हकीम बाका चावरी बाजार, दिल्ली-110006	01/04/2004	120.	092772 श्री शर्मा दिनेश एफसीए केयर ऑफ प्रकाश एन्ड कं. टिम्बर मर्चेन्ट्स बांगू रोड, पठानकोट-145001	01/04/2004
111.	092438 श्री चांदी सुधीर एफसीए ए-1/274 पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110063	20/09/2004	121.	092793 श्री राजेश कुमार स्वामी एसीए 2 गांधी सदन मंदिर मार्ग, न्यू दिल्ली-1100001	31/03/2004
112.	092528 मिस उषाल अभिलाषा एसीए बीएम-75 (वेस्ट), शालीमार बाग दिल्ली-110052	23/03/2004	122.	092858 मिस खेरा बबीता एफसीए सी-508, प्रभु अपार्टमेंट्स प्लॉट नं. 11, सैक्टर-23 हारक, न्यू दिल्ली-110045	18/05/2004
113.	092544 श्री तायल एफसीए नक्कीत भूषण 75-बी/डीजी II, डीडीए फ्लैट्स विकास पुरी न्यू दिल्ली-110018	01/10/2004	123.	092892 श्री केडी पंकज एसीए ए-73, स्ट्रीट नं. 6, जगत पुरी, कृष्ण नगर, दिल्ली-110051	01/04/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
124.	092968	श्री यादव अनुराग एफसीए हाऊस नं. 315, सैक्टर 11 पंचकुला-134109	31/01/2005	133.	093835	श्री कक्कर पुनीष एफसीए हाऊस नं. 288 सैक्टर-23 गुडगाँव-0	30/03/2004
125.	092982	श्री अग्रवाल आशीष एफसीए फ्लैट नं. 71, वसंत अपार्टमेंट्स मयूर विहार, फेज-1 एक्स., दिल्ली-110091	05/09/2004	134.	093869	श्री गुप्ता राजेश एफसीए फ्लैट नं. बी-1/6 शिवाजी अपार्टमेंट प्रशांत विहार सैक्टर-14 रोहिणी दिल्ली-110085	12/09/2004
126.	093016	श्री चौपड़ा समीर एफसीए फ्लैट नं. 908, ब्लॉक-14, हेरीटेज सिटी, गुडगाँव-121002	23/08/2004	135.	093884	मिस जगदी रचना एसीए 1724 आऊटराम लाईन्स किंग्सवे कैम्प दिल्ली-110009	22/07/2004
127.	093179	श्री दुग्गल विक्रम एफसीए 29, मॉडल टाऊन, स्ट्रीट नं. 2, अमृतसर-143001	15/06/2004	136.	093895	श्री गुप्ता अनमोल एफसीए 37, ब्रदर्स सीजीएचएस 16, आई. पी. एक्सटेंशन दिल्ली-110092	03/02/2005
128.	093229	श्री सचदेवा अनिल एफसीए 158 ए पोकेट-1 फेज-1 मयूर विहार दिल्ली-110091	19/03/2005	137.	093913	श्री कालरा अमित एसीए ए-101 रोजेडुड अपार्टमेंट्स मयूर विहार, फेज-1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091	26/03/2004
129.	093338	श्री जोषी योगेश एसीए फार्नैशियल कंट्रोलर ताज डेनिस आईलैण्ड पीओ बाक्स नं. 404 माहे, विक्टोरिया-0 सिकैलेस	21/03/2005	138.	093932	श्री गुप्ता आशीष एसीए आरयू-97 एमआईजी फ्लैट्स पीतम पुरा, दिल्ली-110034	01/09/2004
130.	093342	मिस रस्तोगी रितु एसीए डबल्यूजेड-1408 नागल राया, न्यू दिल्ली-110046	31/08/2004	139.	093982	श्री धवन उदय एसीए सी-398 डिफेंस कालोनी न्यू दिल्ली-110024	31/03/2004
131.	093491	श्री उपरेड्री मनीष एफसीए 70बी, डीडीए फ्लैट्स कटवारिया सराय न्यू दिल्ली-110016	08/10/2002	140.	094120	श्री महेश्वरी सर्वेश एफसीए 'भोती कुंज' डी-6/एए, राणा प्रताप बाग दिल्ली-110007	01/04/2004
132.	093697	मिस बर्मन पारुल एफसीए केयर ऑफ गुफ्ता रेहानी एन्ड एसोसिएट्स 18 टोडरमल रोड बंगाली मार्केट न्यू दिल्ली-110001	01/04/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
141.	094131 श्री बंसल निपुन एफसीए 356, ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड कालोनी करनाल-132001	25/03/2004
142.	094168 श्री धनधारिया आनंद एफसीए सी-8/8027 वसंत कुंज अपो. पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली-110070	31/03/2004
143.	094194 श्री राकेश कुमार एसीए 676 2 फ्लोर डबल स्टोरी न्यू खजिन्दर नगर न्यू दिल्ली-110060	30/03/2004
144.	094242 श्री जैन मनीष कुमार एसीए डी-51 घरौंदा श्रेष्ठा विहार दिल्ली-110092	04/03/2005
145.	094275 श्री गुप्ता पंकज कुमार एफसीए जी-124 अशोक विहार फेज-I, दिल्ली-110052	22/03/2004
146.	094345 श्री गुलाटी रजनीश एसीए फ्लैट नं. 146, एपॉट नं. 34 यूनाइटेड सीजीएचएस, सैक्टर-4 द्वारका, न्यू दिल्ली-110045	02/02/2005
147.	094393 श्री विश्वाकर्मा राकेश एफसीए वेल वोलिन क्यूमिन्स लि. 52, ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट फेज-III न्यू दिल्ली-110020	16/09/2004
148.	094429 श्री अरविनी कुमार एफसीए एच नं. 85, गुरदेव नगर निबर न्यू ग्रेन मार्केट जालंधर-144008	09/08/2004
149.	094508 श्री गुप्ता संदीप एसीए फ्रैंकलीन स्ट्रीट-35 40479 डिस्सेल्डोर्फ जर्मनी	03/03/2005

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
150.	094533 श्री काबरा अमित एसीए 3852 गली लोहे वाली चावरी बाजार दिल्ली-110006	13/09/2004
151.	094625 श्री जैन समीर एफसीए सी-59, तकशिला अपार्टमेंट्स 57, आई पी एक्सटेंशन पटपर गंज, दिल्ली-110092	29/09/2004
152.	094719 श्री गुप्ता संदीप कुमार एफसीए पी ओ बाक्स नं. 9653 जनक पुरी, न्यू दिल्ली-110058	06/12/2004
153.	094770 श्री खुल्लर विनीत एसीए 190 अरावली अपार्टमेंट्स अल्फनंस, कालकाजी न्यू दिल्ली-110019	28/03/2004
154.	094792 श्री दिवान नीरज एफसीए 193, एसएफएस अपार्टमेंट्स हॉल खास, न्यू दिल्ली-110016	01/04/2004
155.	094869 श्री पेश्वर विनोद कुमार एफसीए जी-8, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-II, न्यू दिल्ली-110049	31/03/2004
156.	094923 श्री भारगवा रोहित एसीए 103 सैक्टर 7 पंचकुला	01/10/2004
157.	094951 श्री आनंद संजीव कुमार एसीए केयर ऑफ मै. विजय मुकेश एन्ड कं. डी-4, नवीन शाहदरा दिल्ली-110032	16/08/2004
158.	095035 श्री प्रवीण कुमार एसीए सी-4/43 सैक्टर -B5 रोहिणी, दिल्ली-110085	14/09/2004
159.	095040 श्री अरोड़ा संजय एसीए बी 314 प्रसांत विहार दिल्ली-110085	14/06/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
160.	095066	श्री टैगर उमा राव सिंह एफसीए 31 ओल्ड कैपिटल बस स्टैण्ड न्यू मार्किट, बल्लभगढ़ फरीदाबाद	27/02/2004	169.	095588	श्री चौपड़ा लोकेश एसीए हाऊस नं. 206 सेक्टर 21-बी फरीदाबाद-121001	29/09/2004
161.	095148	श्री गुप्ता संजीव एफसीए 64 दयानंद विहार विकास मार्ग एक्स. दिल्ली-110092	21/10/2004	170.	095592	श्री चौपड़ा युगेश एसीए 206 सेक्टर 21-बी फरीदाबाद-121001	29/09/2004
162.	095307	श्री महानन नवदीप एसीए एच नं. 327 सेक्टर-11 पंचकुला-147001	30/04/2004	171.	095654	श्री महरोत्रा राहुल एफसीए जीएच-4/33, मीरा अपार्टमेंट्स पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली-110063	23/03/2005
163.	095310	श्री सचदेवा पंकज एफसीए हाऊस नं. 482 सेक्टर-14, फरीदाबाद-121007	29/06/2004	172.	095707	मिस गुलशन एफसीए 2-6096-1 देव नगर करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005	01/04/2004
164.	095312	श्री सिंचल अमित एफसीए बीके-आईएसटी-180 शालीमार बाग, दिल्ली-110088	09/09/2003	173.	095731	श्री मंदीप सिंह एसीए केयर ऑफ सहारा मशीनरी स्टोर लाहेरी रोड अपो. लखीर कॉम्प्लेक्स खन्ना-141401	20/06/2004
165.	095340	श्री सपुरा रजनीश एसीए बी-7, आरबीआई ऑफिसर्स फ्लैट्स पूर्वी मार्ग, वसंत विहार न्यू दिल्ली-110057	20/05/2004	174.	095762	श्री सोनी प्रिंस एफसीए 304-बी, डिफेंस ऑफिसर्स सोसाइटी राजास्वा सीजीएचएस फ्लैट # 33, सेक्टर-4 द्वारका, न्यू दिल्ली-110045	01/04/2004
166.	095403	श्री माधुर राहुल एसीए ए-14 द्रोणाचार्य अपार्टमेंट्स मयूर विहार फेज-1 एक्स. दिल्ली-110091	29/03/2004	175.	095845	श्री बुद्धिराजा अमित एफसीए बी-89 अशोका अनक्लेव-II सेक्टर 37, फरीदाबाद-121003	19/01/2005
167.	095405	मिस गुप्ता रेश्मा एसीए केयर श्री एन सी गुप्ता 31, देशबंधु अपार्टमेंट्स कालकाजी, न्यू दिल्ली-110019	01/02/2005	176.	095851	मिस झाम्ब ज्योति एसीए # 50 हीरो अपार्ट्स सेक्टर-15 पार्ट-II, गुडगांव	17/03/2004
168.	095551	श्री जैन सतीश एफसीए 1/7439, ईस्ट गोरखा पार्क, नेहरू मार्ग, लेन नं. 14 शाहदरा, दिल्ली-110032	01/08/2004	177.	095996	श्री अरोड़ा दीपक एसीए 1/3168-ए, राम नगर शाहदरा, दिल्ली-110032	03/09/2004
				178.	096022	श्री विन्दा मनिन्दर पाल सिंह एसीए 125, सौधनेसी पल्लवल कॉटेज, ऑन कनाडा-एनटीटी रोड कन्हाडा	29/03/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
179.	096059	श्री गुप्ता विनीत एसीए एच नं. 681-ए/2 स्ट्रीट नं. 3बी, पटेल नगर गुडगांव-122001	01/04/2004	188.	096626	मिस बहुलेयान अर्चना एसीए ए-118 मंगल अपार्टमेंट्स प्लॉट नं. 16, बसुंधरा अनक्लेव दिल्ली-110096	14/01/2005
180.	096178	मिस गुप्ता सोनू एसीए ए-204, साईबाबा अपार्टमेंट्स सेक्टर-9, रोहिणी दिल्ली-110085	01/04/2004	189.	096692	मिस कौर तजिन्दर एसीए जे-5/158, राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली-110027	01/02/2005
181.	096276	श्री सोफत शिविन्दर एफसीए # 27-डी, छोटी बारादरी पटियाला-147001	01/06/2004	190.	096756	श्री सिंह मनमोहन एसीए जे-ए/32 एफ एलआईजी फ्लैट्स जी 8 एरिया राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली-110064	01/12/2004
182.	096409	मिस पाठक रेखा एफसीए एच नं. बी-9, सेक्टर-14, पी यू कैम्पस चंडीगढ़-160014	24/12/2004	191.	096796	श्री अग्रवाल विपुल एसीए ए-5 बी/181-बी, जनकपुरी, न्यू दिल्ली-110058	13/12/2004
183.	096410	श्री शालिन्दर कुमार एसीए 18-ए, कमला नगर, दिल्ली-110007	21/06/2004	192.	096842	श्री हुडा विकास सिंह एसीए 1240, सेक्टर-3 रोहतक	08/02/2005
184.	096430	श्री युवराज सिंह एफसीए 62 दयानंद मार्ग दरिया गंज, न्यू दिल्ली-110002	30/06/2004	193.	096846	श्री तोरानीवाल मुरली मनोहर एसीए डी 3/31 राजस्थली अपार्टमेंट्स नियर मधुबन चौक पीतामपुरा, दिल्ली-110034	25/03/2004
185.	096498	मिस रस्तोगी रुचि एसीए के पी एम जी 1-2, डोरसेट राईज लंदन ईसी4वार्ड 8एएफ लंदन-0, यू के	16/08/2004	194.	096906	मिस गोयल सीमा एफसीए 979/23, डी एल एफ कालोनी रोहतक	30/01/2005
186.	096523	श्री जैन रजनीश एसीए सीयू-114 विशाखा अनक्लेव पीतामपुरा, दिल्ली-110088	20/09/2004	195.	097082	श्री शर्मा अनिल एसीए 166 मॉल अपार्टमेंट्स मॉल रोड, दिल्ली-110054	17/02/2005
187.	096525	श्री राम कुमार गोयल एसीए केयर ऑफ श्री राज कुमार राधे स्थान शिवाजी राम ठेकेदार स्ट्रीट जवाहरके रोड (पंजाब), मंसा-151 505	01/03/2004	196.	097163	श्री आर नारायणन एसीए 78/सी दीप अनक्लेव पोकेट डी फेज-III अस्सेक विहार, दिल्ली-110052	19/10/2004
				197.	097164	श्री अग्रवाल राजेश एसीए केयर ऑफ सविन्या इन्क. 318 अन्सल चैम्बर-II बीकानी काम्प प्लेस न्यू दिल्ली-110066	01/04/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिभूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिभूवल ता.
198.	097300	मिस सीमर प्रीत कौर एसीए 565/2, घेर सोधियान पटियाला-147001	31/08/2004	208.	097609	श्री माधुर गौरव एसीए ईसी-264 (एसएफएस) माया अनक्लेव जी-8 एरिया न्यू दिल्ली-110064	01/04/2004
199.	097355	श्री जिंदल कुलभूषण एसीए हाऊस नं. 3300-ए गेट हाजी रतन, पटिंडा-151001	07/02/2004	209.	097650	श्री अग्रवाल विपुल एफसीए 50-51, लोअर बाजार सुबाधु-173206	22/12/2004
200.	097362	मिस उषल गुंजन एसीए एफ-296, न्यू राजिन्दर नगर न्यू दिल्ली-110060	15/02/2005	210.	097720	श्री जलान मनोज कुमार एफसीए 56/3 पटराम गेट, बारी नं. 1, भिवानी-127021	16/11/2004
201.	097408	श्री बंसल प्रवीण एसीए 9 ओल्ड हॉस्पिटल रोड बिहाइंड पालिका बाजार पानीपत-132103	23/08/2004	211.	097768	श्री सचदेवा अमित एसीए 41/12, अशोक नगर न्यू दिल्ली-110018	01/02/2005
202.	097438	श्री जैन रिषभ एसीए जीडी-113 पीतमपुरा दिल्ली-110034	17/01/2005	212.	097813	श्री अग्रवाल आशीष एसीए केयर ऑफ एस पी मल्होत्रा डीई-132, फर्स्ट फ्लोर टैगोर गार्डन, न्यू दिल्ली-110027	07/07/2004
203.	097478	मिस शर्मा सुगुना एफसीए डी-122, सरोजिनी नगर न्यू दिल्ली-110023	01/10/2004	213.	098100	श्री मलिक शैलेष एसीए एससीओ-3171, सैक्टर-23-डी चंडीगढ़-160022	01/05/2004
204.	097485	श्री जोषी संजीव एसीए सी-2ए/244सी पोकेट-16 जनकपुरी, न्यू दिल्ली-110058	23/03/2005	214.	098107	श्री गुप्ता अभिनव एसीए एव नं. 1सी/51, नेसन हट न्यू टाऊन फरीदाबाद-121001	07/03/2005
205.	097531	श्री गोयल विपिन कुमार एसीए सन ऑफ श्री जे डी गोयल बुरिया 135 101 यमुनानगर	16/08/2004	215.	098133	श्री अतुल प्रताप एसीए 11 ए(युए) जवाहर नगर (पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग) दिल्ली-110007	25/03/2004
206.	097598	श्री रजत कुमार एसीए 19/37 (एफएफ) ओल्ड राजिन्दर नगर न्यू दिल्ली-110060	15/06/2004	216.	098198	श्री गोयल पुनीत एसीए ई/10 भगवान दास नगर ईस्ट पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली	19/05/2004
207.	097602	श्री शर्मा अरविन्द कुमार एसीए 40 राजा पार्क महेश नगर, अंबाला-133001	29/03/2004	217.	098306	श्री भाटिया गुरविन्दर सिंह एसीए एफ-78, फर्स्ट फ्लोर लाजपत नगर-I न्यू दिल्ली-110024	01/04/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
218.	098315	श्री गर्ग सौरभ एसीए एच नं. 499 सैक्टर 30 फरीदाबाद	15/09/2004	227.	098761	श्री प्रस्टी बी रविन्द्र कुमार एसीए आई-143, थर्ड फ्लोर ललिता पार्क लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	31/03/2004
219.	098331	मिस कालरा सुनीता एसीए 141, सैक्टर 14 गुडगांव-122001	29/03/2004	228.	098837	श्री भटेजा नितिन एसीए ई-242, नारायणा विहार न्यू दिल्ली-110028	01/06/2004
220.	098460	श्री गोस्वामी गौरव एसीए 1764 आऊटराम लार्न्स जी टी बी नगर, दिल्ली-110009	03/02/2005	229.	098841	श्री गोयल मनीष एसीए एच नं. 819 सैक्टर-8 पंचकुला-134109	07/01/2005
221.	098465	श्री मोहनती ज्ञानरंजन एसीए केयर ऑफ चौधरी नवल सिंह 213ए/1 चार्ज नं. 1 महरोली, न्यू दिल्ली-110030	01/04/2004	230.	098882	श्री अग्रवाल विकास एसीए 895, डा. मुखर्जी नगर दिल्ली-110009	01/09/2004
222.	098535	श्री गुप्ता सुनील एसीए फ्लैट नं. एच-401 फ्रैन्ड्स अपार्टमेंट्स फ्लॉट नं. 49 पटपरगंज, आई पी एक्स. दिल्ली-110092	31/03/2004	231.	098904	श्री अजय कुमार एसीए एच नं. 1208, जवाहर कालोनी नित, फरीदाबाद-121005	29/11/2004
223.	098600	श्री भूटानी पुनीत एसीए 3/42 मोती नगर न्यू दिल्ली-110015	15/11/2004	232.	098956	मिस बागरी शालू एसीए 4812, माधुर लेन 24, दरिया गंज न्यू दिल्ली-110005	03/08/2004
224.	098602	श्री आनंद भित्तन एसीए 5662, कृष्ण खान चंद नई सड़क, दिल्ली-110006	21/06/2004	233.	098959	श्री गुप्ता दीपक 53, मॉडल बस्ती निय फिल्मीस्तान न्यू दिल्ली-110005	23/03/2004
225.	098620	श्री अग्रवाल जय प्रकाश एसीए बी-208, नंद देवी अपार्टमेंट्स फ्लॉट नं. 19, सैक्टर-10 झारका, न्यू दिल्ली-110045	25/02/2005	234.	098962	मिस घोष बिंदिता एसीए बी-449, सुरांत लोक फेज-1, गुडगांव-122022	26/05/2004
226.	098724	श्री गुप्ता गोपाल कृष्ण एसीए हाऊस नं. 189 स्कीम 19 विवेकानंद नगर भिंद-126102	26/03/2004	235.	098998	श्री जैन महावीर प्रसाद एसीए हाऊस नं. 50 गांधी मंडी पानीपत-132103	22/01/2005
				236.	099070	श्री जे कार्तिकेयन एसीए 238-डी/डीजी-II विकास पुरी, न्यू दिल्ली-110018	31/07/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
237.	099111	श्री सरकार सृजय एसीए एच-44, साऊथ एक्स. पार्ट-I, न्यू दिल्ली-110049	02/11/2004	247.	099582	श्री सक्सेना मनीष एसीए 2384 सैक्टर-डी पोकेट-2 वसंत कुंज न्यू दिल्ली-110070	19/08/2004
238.	099117	श्री गुप्ता सौरभ एसीए 58 सम्मान बाजार जंगपुरा भोगल न्यू दिल्ली-110014	09/08/2004	248.	099599	श्री सेहरा कमलजीत सिंह एसीए हाऊस नं. 1051 सैक्टर-39 अपो. वर्षमान मिल पी ओ फोकल पाएंट लुधियाना-141010	31/03/2004
239.	099267	मिस जैन मंजरी एसीए कोठी नं. 343, सैक्टर 21-ए चंडीगढ़-160022	01/04/2004	249.	099609	श्री राठौर सुरेन्द्र सिंह एसीए 597, सैक्टर-22ए नियर पुलिस मैस गुडगाँव-120015	02/09/2004
240.	099378	श्री अग्रवाल सौरभ एसीए डबल्यू जेड-238-ए इंदर पुरी न्यू दिल्ली-110012	08/12/2004	250.	099664	श्री अगीवाल सुनील एसीए 7161 बिरला स्टॉफ क्वार्टर्स कमला नगर, दिल्ली-110007	01/09/2004
241.	099431	श्री गुप्ता प्रशांत एसीए एच नं. 1/5121 स्ट्रीट नं. 4 बलबीर नगर शाहदरा, न्यू दिल्ली-110032	30/12/2004	251.	099667	श्री सेनी अशोक कुमार एसीए एच नं. 67 टाईप सी हिल टाऊनशिप, न्यू मोती नगर न्यू दिल्ली-110015	01/04/2004
242.	099446	श्री अरोड़ा अजय एसीए सी-56 न्यू गोविंदपुरा स्ट्रीट नं. 10 पी ओ कृष्णा नगर दिल्ली-110051	01/03/2005	252.	099671	श्री नौटियाल संजय एसीए एमपीटी-401 सरोजिनी नगर, न्यू दिल्ली-110023	19/05/2004
243.	099487	श्री भूपिन्दर कुमार सहगल एसीए 88 नेहरू नगर तहसील टाऊन, पानीपत-132103	24/02/2004	253.	099755	श्री जैसवाल शंकर नाथ एसीए पादरी बाजार गोरखपुर-273014	31/03/2004
244.	099526	श्री वाषवा सदेश पाल एसीए एएन-12 डी शालीमार बाग दिल्ली-110088	25/03/2004	254.	099841	मिस संघु अनुरित एसीए 19, सूर्या निकेतन विकास मार्ग, दिल्ली-110092	22/05/2004
245.	099539	श्री रेलहान गौरव एसीए जीपी-10, मौर्या अनवलेख पीतमपुरा, दिल्ली-110034	29/09/2004	255.	099847	मिस घोष लवली एसीए 133, निर्माण अपार्टमेंट्स मयूर विहार फेज-1 दिल्ली-110092	07/03/2004
246.	099561	मिस मिश्र सिवानी एसीए एच नं. 62, जी एच टी पी पॉवर कार्पोने, लेहरा मोहल्ला घटिडा-151111	29/09/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
256.	099885	श्री सैमयाल विकास एसीए एफ-228/8, अपो. राधा कृष्ण टेम्पल तलाब टिल्लो, जम्मू तवी-180002	20/09/2004	265.	401507	मिस सबलोक पुनीता एसीए 14 न्यू रोहतक रोड अपो. जे डी टाईटलर स्कूल न्यू दिल्ली-0	21/09/2004
257.	099951	मिस दीपा एसीए 431-जी पोकेट-II मयूर विहार फेज-1 दिल्ली-110091	04/11/2004	266.	401519	मिस सैलानी राखी एसीए एन-212 सैक्टर-8 आर के पुरम न्यू दिल्ली-110022	09/12/2004
258.	099969	श्री गोस्वामी दीपक नाथ एसीए 7042 मंडी वास पहाड़ी धीरज दिल्ली-110006	08/01/2005	267.	402381	श्री गुप्ता मनीष कुमार एसीए फ्लैट नं. 202 जे-4/18-डी खिड़की एक्स. मालविया नगर न्यू दिल्ली-110017	01/01/2005
259.	104816	श्री एट्रोली नितिन एसीए स्टार इंडिया प्रा. लि. 205, ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट फेज-III, न्यू दिल्ली-110020	11/06/2004	268.	402603	श्री तिवारी अमरीश एसीए मैनेजर (एक्वाइटी) सांघी ब्रदर्स (इंदौर) प्रा. लि. पारसिया रोड, छिंडवाड़ा	01/03/2004
260.	111597	मिस अपर्णा एसीए बी 116 चंदर नगर ए ब्लॉक जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	01/08/2004	269.	500034	श्री अजय कुमार एसीए ए-155 विकासपुरी न्यू दिल्ली-110018	29/12/2004
261.	202801	मिस फिलखाना प्रसांति एसीए 404बी, हैमलिटन कोर्ट डीएलएफ सिटी-फेज-IV, हरियाणा, गुडगांव-122002	01/04/2004	270.	500080	मिस अनुभा राजन एसीए सैक्टर बी-8/6048 कस्तूर कुंज न्यू दिल्ली-110070	01/08/2004
262.	400159	श्री गुलाटी अतुल एसीए डी-153 III फ्लोर लाजपत नगर-I न्यू दिल्ली-110024	13/01/2004	271.	500106	श्री गुप्ता नितिन एसीए सी-2 कैरबल कार्लोनी न्यू दिल्ली-110048	23/08/2004
263.	400419	श्री बच्चानी संजय कुमार एसीए 86 देसाय अपार्ट्स कालका जी न्यू दिल्ली-110019	15/06/2004	272.	500123	श्री सैनी संदीप कुमार श्रीमति परमिन्दर कौर सैनी मौहल्ला हरि नगर नियर कमल पैलेस हैसियारपुर	06/12/2004
264.	400685	श्री वरुण आनंद एसीए 3 फ्लोर के 1/55 सी आर पार्क न्यू दिल्ली-110019	13/10/2004	273.	500133	मिस मेहदी फौजिया एसीए 75 अजुल फज़ल अपार्ट्स 22, वसुंधरा अन्वलेव दिल्ली-110096	27/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
274.	500139 श्री मनचंद विनीत एसीए सुंदर नगरी स्ट्रीट नं. 5 अबोहार-152116	15/11/2004	283.	500294 श्री गोयल सुनील एसीए 27ए, महाराजा टैगोर रोड सुर-प्रीति अपार्टमेंट फ्लैट नं. ए-2 धाकुरिया, कोलकाता-700031	30/03/2004
275.	500155 मिस अनांद रितु एसीए ए-2/163-बी एमआईजी फ्लैट्स लॉरेन्स रोड, दिल्ली-110035	23/02/2004	284.	500305 श्री देवी सरन एसीए 185-1 ब्लॉक हरि नगर एक्स. सौरभ विहार, बदरपुर न्यू दिल्ली-110044	31/03/2004
276.	500167 श्री महेश अभिवेक एसीए एक्स-17 चित्र गुप्ता रोड पहाड़गंज, न्यू दिल्ली-110055	29/10/2004	285.	500338 श्री जोषी अमित एसीए सी-1/1071 वसंत कुंज न्यू दिल्ली-110070	31/03/2004
277.	500175 श्री सिंह सुनील कुमार एसीए बी-11/7ए, राइट्स फ्लैट्स अशोक विहार फेज-III, दिल्ली-110052	25/08/2004	286.	500442 श्री माधोक मनीष एसीए हाऊस नं. 1856 सैक्टर-9 फरीदाबाद-121006	15/06/2004
278.	500177 श्री लूथरा विकास एसीए 71/85, फर्स्ट फ्लोर प्रेम नगर, जनकपुरी न्यू दिल्ली-110058	27/08/2004	287.	500526 श्री हेमंत कुमार एसीए 3/114 स्ट्रीट नं. 3 ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092	25/02/2005
279.	500212 श्री वशिष्ठ अमित एसीए सी-555, सरस्वती विहार दिल्ली-110034	09/11/2004	288.	500546 श्री अजय कुमार एसीए एच नं. 191/8 नियर भजनाश्रम स्कूल वी एन्ड पीओ बेरी झज्जार-124201	18/08/2004
280.	500228 श्री खेरा संजीव कुमार एसीए एकजीक्यूटिव ऑफिसर लिगल डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आई पी मार्ग, न्यू दिल्ली-110002	14/02/2005	289.	500573 श्री जैन संजीव कुमार एसीए बी-IX-44 चौक हीरा हल्द्वानी, लुधियाना-141008	27/12/2004
281.	500257 श्री शुक्ला शिव नंदन एसीए केयर ऑफ जय गोपाल एस-124, स्कूल ब्लॉक राकरपुर, दिल्ली-110092	20/09/2004	290.	500580 श्री दत्ता शुभम एसीए ब्लॉक सी-4-ए फ्लैट नं. 4बी जनकपुरी, न्यू दिल्ली-110058	01/04/2004
282.	500288 श्री गोयल अमित एसीए बी-22, मिडवनी रोड आदर्श नगर दिल्ली-110033	10/07/2003	291.	500586 श्री मिश्र अभिनंदन एसीए फ्लैट नं. 5, गली नं. 3 कृष्णपुरी, शांति मंदिर मार्ग मंडवली, दिल्ली-110092	12/01/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
292.	500594	श्री राजीव कुमार एसीए सी-3/43, सेक्टर-15 रोहिणी, दिल्ली-110085	09/03/2004	303.	500913	मिस अग्रवाल अचला एसीए हाऊस नं. 484, सेक्टर-9 पंचकुला-134113	31/03/2004
293.	500598	श्री गौतम दिवेश कुमार एसीए 1019 सेक्टर-28 फरीदाबाद-121008	15/03/2005	304.	500988	श्री सहगल राहुल एसीए 357 शास्त्री नगर लॉरेन्स रोड अमृतसर-143001	01/09/2004
294.	500615	श्री माधुर नितिन एसीए ब्लॉक एच हाऊस नं. 18/बी साकेत, न्यू दिल्ली-110017	15/09/2004	305.	501007	मिस अग्रवाल प्रीति एसीए एफ/353, कृष्णा गली कोटला मुबारक पुर न्यू दिल्ली-110003	15/03/2004
295.	500710	श्री सिंगला अजय एसीए 1085/19 ओल्ड अलू गोदाम अंबाला-प33001	22/03/2004	306.	501046	श्री सांची गुंजन एसीए 197 आरपीएस फ्लैट रोख सराय 1 न्यू दिल्ली-110017	30/12/2003
296.	500768	श्री गुप्ता नितिन एसीए पोस्ट-1/68-बी दिलशाद गार्डन दिल्ली-110095	15/03/2005	307.	501063	श्री पल्ला संजीव कुमार एसीए 17/21 सुभाष नगर न्यू दिल्ली-110027	30/03/2004
297.	500805	श्री अमित कुमार एसीए एच-23 सालीमार बाग दिल्ली-110088	24/03/2004	308.	501133	मिस कपूर पायल एसीए बी-205 यूनीको अपार्टमेंट्स 55- आई पी एक्सटेंशन दिल्ली-110092	27/07/2004
298.	500821	श्री मेहरा अनुज एसीए जी 40 कीर्ति नगर न्यू दिल्ली-110015	02/12/2004	309.	501240	श्री मुद्गली दिव्यासिंह एसीए नरिन्दर गर्ग एन्ड कं. बी 1-222 राम नगर हंसा बस्ती, डिस्ट. संगरूर (पंजाब) सुनाम-148028	20/09/2004
299.	500834	श्री श्रेवर हेमंत एसीए बी-7/7ए डबल स्टोरी रमेश नगर, न्यू दिल्ली-110015	24/07/2004	310.	501276	श्री मितल सौरभ एसीए एच नं. 916, सेक्टर 37 फरीदाबाद-121003	01/04/2004
300.	500837	श्री लक्ष्म्या मनीष कुमार एसीए 96-ए, जे-एक्सटेंशन गली नं. 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	22/02/2005	311.	501287	श्री कदीर नितिन एसीए बी-343, प्रसाद विहार रोहिणी, सेक्टर-14 दिल्ली-110085	04/02/2005
301.	500853	मिस गुप्ता मोनिका एसीए आर/ओ बी-30, गली नं. 2 चंदर नगर, दिल्ली-110051	20/10/2004				
302.	500864	श्री गर्ग दिनेश कुमार एसीए एच नं. 616, सेक्टर-5 अरबन स्टेट, कुरुक्षेत्र-136118	01/02/2005				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
312.	501303	श्री गुप्ता अतुल एसीए ए-16, जितार नगर परवाना रोड दिल्ली-110051	01/03/2004	321.	501439	मिस अग्रवाल राधा एसीए 84 यूनाइटेड इंडिया अपार्ट मयूर विहार 1 दिल्ली-110091	06/09/2004
313.	501317	श्री अमित कुमार एसीए टी-5 न्यू स्टाफ फ्लैट्स श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली-110007	26/03/2004	322.	501533	मिस गुप्ता प्रीति एसीए 4, सम्राट अनक्लेव पीतमपुरा, दिल्ली-110034	01/10/2004
314.	501335	श्री यादव सुनील एसीए ए 504 स्ट्रीट नं. 5 20 फ्रीट रोड मीत नगर नियर गोकुलपुर मेन कजीराबाद रोड दिल्ली-110094	29/03/2004	323.	501545	श्री तनेजा अमित एसीए जीएच-13/496 पश्चिम विहार न्यू दिल्ली-110087	28/09/2004
315.	501340	श्री जयेश कुमार एसीए टी-545, बलजीत नगर मंदिर मार्ग, न्यू दिल्ली-110008	31/03/2004	324.	501548	श्री ओझा राजेश कुमार एसीए 1/4762 गली नं. 7 बलबीर नगर एक्सटेंशन शाहदरा, दिल्ली-110032	30/05/2004
316.	501365	श्री भाटिया सचिन एसीए 24 सम्राट अपार्ट्स बी-11 वसुंधरा अनक्लेव दिल्ली-110096	30/11/2004	325.	501549	मिस चौधरी शालिनी एसीए 336, डीडीए फ्लैट्स जय देव पार्क, न्यू दिल्ली-110026	17/09/2004
317.	501380	श्री सुभाषेन्द्र कुमार एसीए एस-16 सुंदर ब्लॉक गली नं. 1, राकरपुर, दिल्ली-110092	01/12/2004	326.	501570	मिस वीनू कुमारी एसीए डी/12/21, सैक्टर 8 रोहिणी, दिल्ली-110085	02/11/2004
318.	501422	श्री सचदेवा गिरीश कुमार एसीए 10/120 गीता कालोनी दिल्ली-110031	31/07/2004	327.	501585	श्री कुमार राकेश एसीए केयर ऑफ श्री ए एल गोयल 28/2-एच, गली नं. 3 नियर हाजी फैक्ट्री ईस्ट आज़ाद नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051	08/07/2004
319.	501426	श्री अरोड़ा रोहित एसीए बी-198 वैस्ट पटेल नगर न्यू दिल्ली-110008	19/03/2004	328.	501646	श्री अग्रवाल सौरभ एसीए विल्ल नं. 12, फर्स्ट फ्लोर ब्लॉक-5, चार्मकुंड, सुरजकुंड रोड फरीदाबाद-121009	27/04/2004
320.	501436	श्री अदलखा सोनल एसीए 166 स्टेट बैंक नगर पश्चिम विहार दिल्ली-110063	28/02/2005	329.	501658	श्री गुप्ता अजय एसीए फ्लैट नं. 2 गली नं. 3 शालीमार पार्क एक्स. शाहदरा, दिल्ली-110032	10/01/2005

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
330.	501685	श्री सूरि नितिश एसीए जेडी-68 डी, पीतमपुरा दिल्ली-110088	01/12/2004	339.	501779	श्री गोयल मुकुल एसीए केयर ऑफ श्री मनमोहन गुप्ता 521, अमरिक सिंह रोड भटिंडा-151005	01/03/2004
331.	501689	श्री शर्मा धीरज एसीए 9/5075 ए, शांति मौहल्ला गांधी नगर, दिल्ली-110031	19/02/2005	340.	501781	मिस गुप्ता शिल्पी एसीए डीडीए एसएफएस फ्लैट नं. 313 सेक्टर 9, पोकेट 2 हारका फेज-1 न्यू दिल्ली-110045	03/03/2005
332.	501692	श्री जोषी विपिन चंद एसीए 74 गुरु गोबिंद सिंह नगर मजिया रोड अमृतसर-143001	31/12/2004	341.	501812	श्री झुमरा अमित एसीए ए-38 पार्ट I, अनुप नगर, पी ओ उत्तम नगर न्यू दिल्ली-110059	01/04/2004
333.	501703	श्री अद्यतिया प्रतीक एसीए 84-सी पोकेट यू एन्ड वी ब्लॉक-बी, शालीमार बाग दिल्ली-110088	17/06/2004	342.	501859	श्री जैन जितेन्द्र एसीए एल-127 लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092	30/09/2004
334.	501715	श्री पंचार संजीव एसीए बी-21 ईस्ट अर्जुन नगर शाहदरा, दिल्ली-110032	14/07/2004	343.	501893	मिस पसरिया पूजा एसीए 25/24 ईस्ट पटेल नगर न्यू दिल्ली-110008	20/09/2004
335.	501745	श्री जैन अमित एसीए 1169 गली घरमशाला कृष्ण फाटीराम बाजार सीता राम दिल्ली-110006	01/01/2005	344.	501897	श्री शर्मा अमित एसीए सी4 डी/39 सी जनक पुरी न्यू दिल्ली-110058	17/09/2004
336.	501748	श्री मेहरा नवीन एसीए बी 36 विपिन गार्डन कारोला मोड, उत्तम नगर न्यू दिल्ली-110059	16/09/2004	345.	501942	श्री महाजन पारस एसीए डी72 नवीन शाहदरा दिल्ली-110032	01/04/2004
337.	501754	मिस शर्मा रघुनाथ एसीए 242/11 बान सिंह नगर आनंद पर्वत, दिल्ली-110005	22/03/2004	346.	501944	मिस हांडा पायल एसीए 133-एच सारणा नगर लुधियाना-141001	17/09/2004
338.	501756	श्री रावत सैलेन एसीए ए 44 मेन रोड नियर नल्लंड स्कूल मंडावली फजलपुर दिल्ली-110092	31/03/2004	347.	501948	श्री मोहित कुमार एसीए केयर ऑफ श्री रजनीश आग्रवाल 179, एजीसीआर अन्नमलेव पी ओ लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092	01/04/2004
				348.	501961	श्री श्रीराम पंकज एसीए एच-64 विकास पुरी न्यू दिल्ली-110018	31/05/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
349.	501989 श्री चोना रवि कुमार एसीए एक्स/3390 स्ट्रीट नं. 2 रघुबरपुरा नं. 2 गांधी नगर, दिल्ली-110031	31/05/2004	359.	502269 श्री अग्रवाल विनय कुमार एसीए फ्लैट नं. 503 पोकेट 6/2 सेक्टर-2 रोहिणी दिल्ली-110085	16/12/2004
350.	502023 श्री यादव नरेन्द्र एसीए 142-बी गौतम नगर न्यू दिल्ली-110049	28/03/2005	360.	502284 श्री अग्रवाल अनुज एसीए सी/1/24 मॉडल टाऊन-III दिल्ली-110009	06/08/2004
351.	502120 श्री दिनेश कुमार एसीए केयर ऑफ श्री सुंदर लाल विल एन्ड पी.ओ. गोकुल गढ़ डिस्ट. अंबाला, अंबाला-133203	10/07/2004	361.	502309 श्री गुप्ता मनीष एसीए 559/5 सी स्ट्रीट नं. 10 विजय पार्क, मौजपुर दिल्ली-110053	19/08/2004
352.	502148 श्री तोपनीलाल बिबेक एसीए केयर ऑफ अमृता ब्यूटी पार्कर एफ-186ए, स्ट्रीट नं. 2 मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092	22/09/2004	362.	502311 श्री भूटानी सौरभ एसीए सी-41, सुदर्शन पार्क न्यू दिल्ली-110015	31/05/2004
353.	502206 श्री के हर्यूसी केश पैट्रो एसीए आई 209 करमपुरा न्यू दिल्ली-110015	25/11/2004	363.	502327 श्री जग्गा राहुल एसीए 248 सी, एमआईजी फ्लैट्स राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली-110027	02/02/2005
354.	502243 श्री बंसल अजय एसीए बी-6, विकल्प अपार्टमेंट 92, 9 एकेन्यू, आई पी एक्स., दिल्ली-110092	10/08/2004	364.	502352 श्री शर्मा राजन एसीए 126 2 फ्लोर, गेल्फ लिंक न्यू दिल्ली-110003	01/10/2004
355.	502252 श्री चावला हितेश एसीए 720 डबल्स स्टोरी, न्यू राबिन्दर नगर न्यू दिल्ली-110060	08/04/2004	365.	502387 श्री मालपानी दीपक कुमार एसीए केयर ऑफ एम एल सोनी एक्स/3527 गली नं. 2 शांति मोहल्ला गांधी नगर, दिल्ली-110031	31/03/2004
356.	502259 श्री सभरवाल संदीप एसीए एफ/सी 82, टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली-110027	08/12/2004	366.	502416 श्री नरेश कुमार एसीए एच नं. 413, पोकेट डी दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095	10/09/2004
357.	502260 मिस गुप्ता सविता एसीए 13-ई बहुबल एक्स. नियर करकरडुमा दिल्ली-110092	01/12/2004	367.	502432 श्री गुप्ता आलोक एसीए पी-63, पांडव नगर मयूर विहार, फेज-1 दिल्ली-110091	14/03/2005
358.	502268 मिस जैन गीतिका एसीए 2063/39, हरि सिंह नाल्वा स्ट्रीट 2 फ्लोर, करोल बाग न्यू दिल्ली-110005	06/02/2005	368.	502476 मिस अरोड़ा ज्योति एसीए 254/7, निजातम नगर बी.ए.एफसीए सोनी एन्ड कं. जालंधर-14402	25/03/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
369.	502501	श्री सिंगला अमित एसीए सन ऑफ श्री धरम पॉल सिंगला साईंस टीचर, वार्ड नं. 2 वी.पी.ओ. घनापुर तहसील-राजपुरा पटियाला-140702	01/04/2004	378.	502748	श्री अग्रवाल संजय 128/10 2 फ्लोर वैस्ट गुरु अंगद नगर दिल्ली-110092	01/01/2005
370.	502526	श्री गोयल नितिन एसीए फ्लैट नं. 301, एसबीआई ऑफिसर्स फ्लैट्स जी ब्लॉक, ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली-110065	16/09/2004	379.	502767	श्री चटराना रितेश एसीए एच नं. 2343 स्ट्रीट नं. 22 गौशाला रोड अबूहार-152116	19/08/2004
371.	502532	श्री अग्रवाल दिनेश एसीए 41 आनंद विहार पीतापुरा, दिल्ली-110034	01/04/2004	380.	502782	श्री त्रिलोक कुमार एसीए आई-152 लक्षिता पार्क लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली-110092	01/3/2005
372.	502557	श्री कक्का राजत एसीए बी 10/121 फार्मा अपार्ट. फ्लैट नं. 88, आई पी एक्स. (नियर पटपरगंज डिपो) दिल्ली-110092	21/10/2004	381.	502789	मिस जैन चावना एसीए सी-128/1 II फ्लोर मोहम्मदपुर, न्यू दिल्ली-110066	31/01/2005
373.	502583	श्री गंभीर सचिन कुमार एसीए 717 महावीर कालोनी अपो. गुगा मंडी यमुना नगर-135001	08/03/2005	382.	502833	श्री अग्रवाल शिव शंकर एसीए 373/13 वैस्ट गुरु अंगद नगर लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	01/03/2005
374.	502633	मिस गोयल हर्षति एसीए 1923 गली कलहत्या सीता राम बजार दिल्ली-110006	24/03/2004	383.	502877	श्री सरपाल अनुज एसीए 18/ए ह्यू अपार्ट्स सेक्टर 13, रोहिणी दिल्ली-110085	31/03/2004
375.	502644	मिस अरोड़ा कनिका एसीए केयर ऑफ श्री भूपिन्दर सिंह अवर 110 नियर बुध्म मंदिर मंडला टाऊन 3, दिल्ली-110009	01/04/2004	384.	502894	श्री तेजिन्दर सिंह एसीए एच नं. 1/9157 स्ट्रीट नं. 4 वैस्ट रोहतास नगर साहदरा, दिल्ली-110032	23/11/2004
376.	502645	श्री जैन विपुल एसीए 433 सेक्टर 29 फरीदाबाद-121002	17/11/2004	385.	502953	श्री रॉय पुनीत एसीए ई-2/16 वार्ड हाऊस 1 फ्लोर, अंतरी रोड दरिया गंज, न्यू दिल्ली-110002	06/08/2004
377.	502701	श्री कन्नू विष्णु एसीए 1/9482 स्ट्रीट नं. 7 वैस्ट रोहतास नगर साहदरा, दिल्ली-110032	01/04/2004	386.	502990	श्री सुखवीर सिंह एसीए केयर ऑफ एस जसवंत सिंह 223-224 एकरूप अवेन्यू नौरोरा, मनीषा रोड अमृतसर-143001	12/04/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
387.	503013	श्री चौधरी सौरभ एसीए केयर ऑफ इंटरनेट पैवीलियन पार्क रोड, कैथल-136027	12/02/2005	397.	503181	श्री असवाल अनुराग सिंह एसीए फ्लैट नं. 156, शुभम अपार्टमेंट्स पटपरगंज, दिल्ली-110092	22/05/2004
388.	503035	श्री मोहम्मद रुबानी एसीए अहरजेड-163 गली नं. 9-बी कैलाशपुरी (एक्स.) न्यू दिल्ली-110045	21/08/2004	398.	503279	श्री किशन कुमार एसीए अपो. शिव मंदिर नियर लाईब्रेरी मार्किट हेली मंडी, गुडगांव-123504	21/03/2005
389.	503062	श्री सेठी मोहित एसीए # 301, सेक्टर 30 ए चंडीगढ़-160030	08/03/2004	399.	503323	श्री पंजेता परविन्दर सिंह एसीए केयर ऑफ आर रेवती फ्लैट नं. 008, ब्लॉक नं. 8 हैरीटेज अपार्टमेंट्स केलाहंका न्यू टाऊन बंगलौर-560064	26/07/2004
390.	503076	श्री गर्गन दीप सिंह एसीए 5174 रामलाल बिल्डिंग बसंत रोड, फाहड़ गंज न्यू दिल्ली-110055	16/08/2004	400.	503370	श्री सिंघी कुलदीप कुमार एसीए 241, पोकेट-ए सरिता विहार, मधुरा रोड न्यू दिल्ली-110044	30/07/2004
391.	503097	श्री ऐज़ल इंसलाम एसीए 856 ऐमीनिया हाऊस चूरी बालन, दिल्ली-110006	01/04/2004	401.	503374	मिस कोचर एकता एसीए 278 डबल स्टोरी न्यू राजिन्दर नगर न्यू दिल्ली-110060	07/12/2004
392.	503098	श्री अविनाश एसीए एच नं. 3029, सेक्टर 15 डी चंडीगढ़-160015	05/07/2004	402.	503419	श्री गोयल अभिषेक एसीए सन ऑफ श्री वेद प्रकाश गोयल बी III/70, नाभा गेट संगरूर-148001	12/01/2005
393.	503137	श्री सनी टी सी एसीए एल 32 ए सक्सेस न्यू दिल्ली-110017	10/12/2004	403.	503427	श्री सद्गल अंकुश एसीए 201 न्यू मॉडल टाऊन लुधियाना-141002	04/02/2005
394.	503167	श्री गंगीर संदीप एसीए 1866, सिविल लार्डन जगाधरी-135003	01/04/2004	404.	503482	श्री पंजीमार विश्वास एसीए 143, अरेख विहार, दिल्ली-110092	27/04/2004
395.	503173	श्री जैन विकास एसीए 433 सेक्टर 29 फरीदाबाद-121002	17/11/2004	405.	503500	श्री रैना प्रणव एसीए ए-6 पंपोव अन्वलेव ग्रेटर कैलाश-1 न्यू दिल्ली-110048	30/07/2004
396.	503175	श्री गुप्ता गौरव एसीए एच नं. सी4 1444 न्यू कालोनी, गोमती मोडल जगाधरी-135003	02/10/2004				

क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
406. 503520 श्री शर्मा अनुनय एसीए यू 131 शकरपुर दिल्ली-110092	12/01/2005	416. 504088 श्री बजाज पंकज एसीए एन 30 चित्तरंजन पार्क न्यू दिल्ली-110019	17/03/2005
407. 503673 श्री जैन रावव एसीए बी 386 न्यू फ्रेंड्स कालोनी न्यू दिल्ली-110065	05/07/2004	417. 504197 श्री ग्रोवर फलजीत सिंह एक्जीक्यूटिव ऑफिसर सर्क ऑफ आईसीएआई 16/77, सिविल लाईन्स था मॉल (यूपी) कानपुर-208001	21/12/2004
408. 503694 श्री कक्कर दिनेश एसीए एच नं. 483, सेक्टर 6 अरबन स्टेट करनाल-132001	06/09/2004	418. 504210 श्री गुलाटी अमित एसीए सन ऑफ श्री ओम प्रकाश गुलाटी बी-8/35, विलेज-बोपरॉय पी. ओ. गोरया, जालंधर गोरया-144409	01/01/2005
409. 503722 श्री शर्मा गणेश एसीए एच नं 711/12 राम नगर कालोनी नियर जय भारती स्कूल कुरुक्षेत्र-136118	17/11/2004	419. 504271 श्री गुप्ता राम नारायण एसीए 33-ए सरोजिनी पार्क शास्त्री नगर, गली नं. 14 दिल्ली-110031	14/03/2005
410. 503827 मिस आर अनंतलक्ष्मी एसीए 272-एफ पोकेट-II मयूर विहार, फेज-I दिल्ली-110091	01/02/2005	420. 504291 श्री नागिया विनीत एसीए ए711 परवाना विहार सेक्टर 9 प्लॉट नं. 52 रोहिणी, दिल्ली-110085	30/10/2004
411. 503847 श्री पचौरी नरेश एसीए 17/बी-1, हिंदुस्तान टाईम्स अपार्ट्स दिल्ली-110091	09/12/2004	421. 504375 मिस परमिन्दर कौर एसीए 80/3, शाहीद बाबा दीप सिंह नगर पठानकोट रोड, जालंधर	17/01/2005
412. 503934 श्री जैन अमित एसीए 20/7 शक्ति नगर दिल्ली-110007	01/01/2005	422. 504389 श्री पुंज अमित एसीए बी-8/73, विल. -बोपाराई पी ओ गोरया, तह. फिलौर डिस्ट. जालंधर, जालंधर-144409	27/12/2004
413. 503994 मिस रचना एसीए बी-11 260 कृष्ण मूदन हिंदी बाजार, लुधियाना	07/12/2004	423. 504567 श्री गुप्ता रोहित एसीए डी 28-ए विकास नगर उत्तम नगर, न्यू दिल्ली-110059	22/03/2005
414. 504012 श्री गर्ग अमित एसीए मकान नं. 492 न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी बरनाला रोड सिरसा-125055	31/01/2005	424. 504730 श्री बंसल राहुल एसीए ए 163 विवेक विहार, फेज 1, दिल्ली-110095	02/03/2005
415. 504033 श्री आलोक कुमार एसीए केयर ऑफ श्री रामसुंदर रौठ डी 374 ए, वैस्ट विनोद नगर दिल्ली-110092	19/02/2005		

डा. अशोक हल्दिया

सचिव

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

कोलकाता-700 071, दिनांक

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

न. 3 ईसीए/4/3/2004-2005, चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में (एतद्) द्वारा यह सुचित किया जाता है की चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 के धारा 20 उप धारा (1) (C) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम फिस न देने के कारण दिनांक 01/10/2004 से हटा दिया गया है।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता
1.	000309	मि. गोश्वामि ज्योतिष चन्द्र ३४ए, आनन्द पालित रोड कोलकाता - ७०० ०१४
2.	001999	मि. सेन गुप्ता असीम कुमार ४९/६८, गुलाम महम्मद शाह रोड कोलकाता - ७०० ०३३
3.	002126	मि. गांगुलि गंगाधर दे एंड गांगुलि ३/१, मैगो लेन कोलकाता - ७०० ००१
4.	002693	मि. मित्रा शलिल कुमार एस के मित्रा एंड कं टावर हाउस, दो तल्ला २ए, चौरंगी स्कोयार कोलकाता - ७०० ०६९
5.	002903	मि. देव मनीषी कुमार ८/२, किरण शंकर राय रोड रुम नं २१ एवं २२, प्रथम तल्ला कोलकाता - ७०० ००१
6.	003320	मि. मित्रा अरुण कुमार ११२, जतिन्द्र मोहन एविन्यु दुसरा तल्ला कोलकाता - ७०० ००५
7.	004616	मि. भोतिका गोविन्द प्रसाद २४, आर एन मुखार्जी रोड तिसरा तल्ला कोलकाता - ७०० ००१

8.	004796	मि. शर्मा केशर दे मेसर्स के डि शर्मा एंड कं २३/१, डवसन रोड हाउडा - ७११ १०१
9.	004833	मि. राय चिन्ता हरन एन - ४/८०, नया पल्ली आइ. आर. सि. मिलेज भुवनेश्वर - ७५१ ०१२
10.	005614	मि. मविनुद्दिन मोहम्मद मानेक ए. डावर एंड कं ८, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट कोलकाता - ७०० ००१
11.	006870	मि. मुखार्जी अमलेश चन्द आई ३९८, सल्ट लेक सिटी सेक्टर १ कोलकाता - ७०० ०६४
12.	007797	मि. मेहता राजकुमार चंद्र ८८ए, हरिष मुखार्जी रोड कोलकाता - ७०० ०२५
13.	007824	मि. बनार्जी अशोक ११ए, एलेनबाई कोलकाता - ७०० ०२०
14.	008019	मि. कमलानि अबदुल करिम पोस्ट बक्स - ८८ शारजा, यू ए ई
15.	008725	मि. नाग तुषार कान्ति ६९९-बि, न्यु आलिपुर, ब्लक - पि कोलकाता - ७०० ०५३
16.	009153	मि. कुन्दु नित्या रंजन के पि एम जि, पोस्ट बक्स - १५१९ गार्वन, कोटशाना
17.	010148	मि. लाला परेश चन्द्रा सि जि - २२४, सल्ट लेक सेक्टर २ कोलकाता - ७०० ०११

18. 010371 मि. तुलशियान ओमप्रकाश
४ तल्ला
४, जास्टिस द्वारका नाथ रोड
कोलकाता - ७०० ०२०
19. 010522 मि. जैन सम्मत लाल
११, क्लाइव रो.
दुसरा तल्ला, रुम नं. १३
कोलकाता - ७०० ००१
20. 012053 मि. गुहठाकरता श्यामल चन्द्रा
६ए, के एस राय रोड
टॉप तल्ला, रुम नं - १९
कोलकाता - ७०० ००१
21. 012129 मि. घोष अजय
202, कालिकापुर रोड
कोलकाता - ७०० ०७८.
22. 012418 मि. खास्तगीर स्वपन
पि - ११२, लेक टाउन
बल्क - ए
कोलकाता - ७०० ०८९
23. 012653 मि. सोनथालिया राजेन्द्र प्रकाश
१३५ए, विप्लवी राशविहारी बासु रोड
कोलकाता - ७०० ००१
24. 013905 मि. वर्मन प्रसान्त कुमार रय
१४०ए/४, एन. एस. सि वोस रोड
कोलकाता - ७०० ०९२
25. 013932 मि. राय शिव प्रसाद
४४ए, पाम एविन्यु
४ तल्ला
कोलकाता - ७०० ०१९
26. 014162 मि. कर अतनु
ए कर एंड एसोसियेट
२० एफ, वालिगंज टेरास
कोलकाता - ७०० ००१
27. 014525 मि. चक्रवर्ती दिपांकर
आयरनसाइड को-ऑपरेटिव हाउजिंग
सोसाइटी लिमिटेड
फ्लाट नं ए - ९०
११/३बि, ओल्ड वालिगंज दुसरा लेन
कोलकाता - ७०० ०१९
28. 014761 मि. भेकटरामानी के
सिनियर को-आरडिनेटर
एनार्जी एण्ड एनभायोरमेंट प्रोग्राम
एसीयान एण्ड पैसिफिक डेवलपमेंट सेन्टर
पोस्ट बक्स ७२२२८ पिसीयारन दुता,
५०७७०, कुयालालामपुर,
मालयेशिया
29. 015719 मि. दत्ता जगवन्धु
१०८/६ए, मनोहर पुरुर रोड
कोलकाता - ७०० ०२६
30. 016433 मि. गुहा नीरमल कुमार
बि-१७/१४ अम्युदय
इ. सि. टि.पि. फेज - ४
पोस्ट : ईस्ट कोलकाता टाउनशीप
कोलकाता - ७०० १०७
31. 016621 मि. नन्दि दीपक कुमार
भिलेज : श्रीपुर बाजार
हुगली - ७१२ ५१४
32. 017854 मि. गुप्ता चित्तजीत
सि एल - ८३
सेक्टर - २
कोलकाता - ७०० ०९१
33. 017964 मि. बासु असोक
असोक बासु एण्ड कं
५५/१/बि, स्टेन्ड रोड
रुम नं - ७, तिसरा तल्ला
कोलकाता - ७०० ००६
34. 017993 मि. भौमिक पार्थ प्रसाद
अरीन्दम फ्लाट १ए
२४६/४ आर. वि.सि रोड
कोलकाता - ७०० ०२८
35. 021953 मि. मैकटेश्वर राय के
एच. पि. एपार्टमेंट
फ्लाट नं. ३/सि
६९/१, डि. एच. रोड
बिसाईड सतकर्ता एच. पि.
पेट्रल पान्य,
कोलकाता - ७०० ०३८
36. 042856 मि. जोन जेकब
फ्लाट नं. सि मेन एनंगान
२३, उस्ताद आलाउद्दिन खान सरनि
बल्क इ निउ आलिपुर
कोलकाता - ७०० ०५३
37. 045505 मि. मजुमदार कौस्तभ भृगांक
विडि - ८५, सल्ट तेक सिटि, सेक्टर - १
कोलकाता - ७०० ०६४
38. 048096 मि. अग्रवाल सुधीर
मार्फत एम. पि. ग्लीकेम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड
विजयरामचक - वार्ड नं - ९
दुर्गाचक
हल्दिया - ७२१ ६०२

- | | | | | | |
|-----|--------|---|-----|--------|--|
| 39. | 050152 | मि. सेठ अलोक नाथ
३५, उपेन्द्र चन्द्र वैनाजी रोड
कोलकाता - ७०० ०५४ | 49. | 050743 | मि. मुखोपाध्याय सोमेश कुमार
११८, विद्यासागर एविन्यु
दुर्गापुर - ७१३ २०५. |
| 40. | 050218 | मि. राय वीरा रन्जन
डेपुटी जेनरल मैनेजर (एफ एन्ड ए)
हस्पिटल भवन
दुर्गापुर स्टील प्लान्ट
डिस्ट : वर्धमान
दुर्गापुर - ७१३ २०३ | 50. | 050797 | मि. चक्रवर्ती नीशिथ रंजन
चिफ मैनेजर आइ. आर. आर. डिपार्टमेंट
इन्डियन बैंक
६६, राजाजी शलई
चेन्नाई - ६०० ००१. |
| 41. | 050232 | मि. मित्र तरुन कुमार
मेडिकेप लिमिटेड
एपार्टमेंट ५वी सोमना कोर्ट
५५, सुखुम्भीत ५०१५९
क्लिंगटोली, थाइलैन्ड | 51. | 050804 | मि. आलुनी अरुन कुमार
अशोका
१११, साउथार्न एविन्यु
कोलकाता - ७०० ०२९. |
| 42. | 050303 | मि. दत्त देब कुमार
वांक मास्काट एस ए ओ जि
पोष्ट बक्स - १३४
रुई - ११२
सलतनत आफ उमेन | 52. | 051051 | मि. बैनर्जी पार्थासारथि
२५५/२, गरियाहाट रोड
जोधपुर पार्क
कोलकाता - ७०० ०६८. |
| 43. | 050435 | मि. केजरिवाल दिलीप कुमार
मेसर्स डि के केजरिवाल एन्ड के
२३ ए, नेताजि सुभाष रोड
प्रथम तल्ला, रुम नं ६
कोलकाता - ७०० ००१ | 53. | 051208 | मि. सेठ दिलिप कुमार
श्रीपुर वाजार
डि: हुगली
हुगली - ७१२ ५१४. |
| 44. | 050570 | मि. दास मृनाल कान्ति
एम के दास एन्ड एसोसियेट
३३ के, मनोहर पुकुर रोड
कोलकाता - ७०० ०२९. | 54. | 051283 | मि. दास गौतम
मार्फत डि पि एस सि लिमिटेड
प्लट नं - एक्स - १, २ एन्ड ३
ब्लक - इ पि, सेक्टर - ५.
सल्ट लेक इलेक्ट्रनिक कॉम्प्लेक्स
कोलकाता - ७०० ०९१. |
| 45. | 050623 | मि. दास गुप्ता अशोक कुमार
४, कसबा रोड (इन बिटुइन हालतु बाजार
एन्ड तरुन सर्मिस स्टेशन)
कोलकाता - ७०० ०७८ | 55. | 051289 | मि. उमेश आनन्द
५३-ए, टाउन्स एन्ड रोड
कोलकाता - ७०० ०२५. |
| 46. | 050636 | मि. घोष अमित
डरकिन हाउस एपार्टमेंट
ईवि ३, बागुडआदि रोड
फ्लाट - १ वि, प्रथम तल्ला
कोलकाता - ७०० ०५९ | 56. | 051344 | मि. राय श्याम सुन्दर
मार्फत ड. पि. के. सामन्त
३२, चंचल सरणी
कोलकाता - ७०० ०७५ |
| 47. | 050648 | मि. गौरी सहाय अरुन कुमार
२९, वाटरलु स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ०६९ | 57. | 051359 | मि. बन्धोपाध्याय पार्थ प्रसाद
३०/२, बैनार्जी पाड़ा लेन
ढाकुरिया
कोलकाता - ७०० ०३१. |
| 48. | 050678 | मि. वीर पुलिन कुमार
डेपुटी जेनरल मैनेजर (फाइनान्स)
क्वाटर नं - डि ४३, नालको नगर टाउनशिप
डि: अंगुल
नालको नगर - ७५९ १४५ | 58. | 051452 | मि. भगत जय प्रकाश
सागर निवास
उषाग्राम, भगत पाड़ा
डि. वर्धमान
आसनसोल - ७०३३०३ |

59. 051672 मि. मोहन जे
जेनरल मैनेजर (फाइनेन्स)
ए एल फुटेम (पि मि टि) लिमिटेड
पोष्ट बक्स - १५२
दुवई (यु ए ई)
60. 051765 मि. घोष दिपक कुमार
ओरविट ईक्युपमेंट एन्ड सर्विसेस लिमिटेड
पोष्ट बक्स - ४७७३३
नाईरोबी, कनिया
आफ्रिका
61. 051843 मि. मिश्रा अमय
मार्फत राजेश चतुर्वेदी एन्ड एसोसियेट्स
३३७, पर्णश्री पल्ली
कोलकाता - ७०० ०६०.
62. 051944 मिस. भसुधारिनी एन
ग्रुप फाइनेन्सियल एकाउंटेंट
वाटेर ए १, मुल्ला ब्रोस
पोष्ट बक्स - १७७ सफेद १३००२
कुर्येत
63. 052000 मिस. दत्ता प्रतिमा
१५३०, गड़िया मेन रोड
सत्यम शिवम सुन्दरम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स
फ्लाट नं - २३ जे (शिवम)
कोलकाता - ७०० ०८४.
64. 052042 मि. मोहता अशोक कुमार
२ बि वि दि वाग (ईस्ट)
दुसरा तल्ला
कोलकाता - ७०० ००१.
65. 052106 मि. अग्रवाल संजय कुमार
७४, गल्फ क्लब रोड
सफेरी कोर्ड
फ्लाट ४ए
कोलकाता - ७०० ०३३.
66. 052275 मि. त्यागी ललित मोहन
ललित मोहन त्यागी एन्ड कं
लर्ड्स ५११
७/१, लर्ड सिन्हा रोड
कोलकाता - ७०० ०७१.
67. 052334 मि. प्रमीन चांद
सि सि - १११, चांदनी कॉम्प्लेक्स
प्रथम तल्ला, पानपोश रोड
राउरकेल्ला - ७६९ ००४.
68. 052345 मि. झुनझुनवाला राजेश
१६२/८३, लेक गार्डन्स
कोलकाता - ७०० ४५.
69. 052400 मि. चटर्जी भार्गव
२३/२, हिन्दुस्तान पार्क
कोलकाता - ७०० ०२९.
70. 052537 मि. झनोवार अरुन कुमार
१ ई. सत्यम
४६ डि, रफी अहमद किदवाई रोड
कोलकाता - ७०० ०१६.
71. 052553 मि. शर्मा सन्तोश कुमार
४७/७, प्रिन्स गुलाम होशेन शाह रोड
कोलकाता - ७०० ०३२.
72. 052570 मि. गंगोपाध्याय पार्थ
डि एन्ड गांगुली
३/१, मैंगो लेन, प्रथम तल्ला
कोलकाता - ७०० ००१.
73. 052625 मि. सिंह इन्द्र मोहन
७०० बि, एल मि डि स्ट्रीट ४ जे
उहायकेन एन जे ०७०८७
यु एस ए
74. 052729 मि. खेतान अनिल कुमार
७० ए, जतिन दास रोड
कोलकाता - ७०० ०२९.
75. 052730 मि. केजरिवाल विमल कुमार
मार्फत आई डि के ट्रेडिंग कं
७४, पगेया पट्टी स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ००७
76. 052764 मि. सीपानी शुभ करण
सीपानी एन्ड कं
३ए, मैंगो लेन, दुसरा तल्ला
कोलकाता - ७०० ००१.
77. 052809 मि. चतुर्वेदी राजेश
३३७, पर्णश्री
कोलकाता - ७०० ०६०.
78. 052972 मि. बैनार्जी गोतम
जि बैनार्जी एन्ड कं
२५५/२, गड़ियाहाट रोड
जोधपुर पार्क
कोलकाता - ७०० ०६८.
79. 053337 मि. केजरीवाल अजय
८८ एफ, एन एस सि बोस रोड
दलिंगज
कोलकाता - ७०० ०४०.
80. 053363 मि. मनसाता गीरीश
३२/१, लेनिन सरनि
कोलकाता - ७०० ०१३.

81. 053385 मि. सेनगुप्ता पार्थ प्रतिय
एम - ५, क्लस्टर एस
पुर्वांचल हाउसिंग एस्टेट
सल्ट लेक सिटी
कोलकाता - ७०० ०६४.
82. 053423 मि. चट्टोपाध्याय अतिन्द्रनाथ
पोष्ट - राधानगर रोड
डाउन साईड
बार्नपुर - ७१३ ३२५.
83. 053427 मि. झा शशीधर
६३, बेंटिक स्ट्रीट
प्रथम तल्ला
कोलकाता - ७०० ००१
84. 053435 मि. घोष तपन कुमार
१, आशु बाबु लेन
खिदिरपुर
कोलकाता - ७०० ०२३
85. 053502 मि. रमेश एस
१३५०, किलमिंटन कोर्ट
आलफारेता
जर्जीया - ३०००४
यु एस ए
86. 053576 मि. जैन विजय राज
३२, एजरा स्ट्रीट
रुम नं - १०६२, दश तल्ला
कोलकाता - ७०० ००१.
87. 053595 मि. अग्रवाल शम्भु कुमार
मंगलम एपार्टमेंट
फ्लाट नं - १ ए, प्रथम तल्ला
पि - ८८८, क्लक ए. लेक टाउन
कोलकाता - ७०० ०८९
88. 053892 मि. सेन विश्वरूप
सेन एन्ड खान
२४ ए, शांखारी पाड़ा रोड
कोलकाता - ७०० ०२५.
89. 053922 मि. राजत तारक चन्द्र
ऑफिस ऑफ जी एम
महानदी कोलफिल्डस लिमिटेड
हींगुलीया, परीया, पोष्ट - देरा
अंगुल, - ७५९१०३
90. 054025 मि. साहा अशोक
एफ/एफ १, हातियाड़ा रोड,
जैगड़ा
कोलकाता - ७०० ०५९.
91. 054054 मि. मजुमदार मृग
फाईनान्स डिपार्टमेंट
महानदी कोलफिल्ड लिमिटेड
पोष्ट - जायरीति बिहार
सम्बलपुर - ७६८ ०२०.
92. 054148 मि. बरुआ प्रद्युत कुमार
मैनेजर (फाईनान्स एन्ड एकाउन्ट्स)
नुमालीगड रिफाईनरीज लिमिटेड
पोष्ट - एन आर एल कॉम्प्लेक्स
आसाम, गोलाघाट - ७८५ ६९९
93. 054235 मि. मुखार्जी गोतम
१३८/१, प्रिन्स गुलाम होशेन शाह रोड
ग्राउन्ड तल्ला
कोलकाता - ७०० ०३२.
94. 054244 मि. शिल तपन कुमार
२१/सि. देवदार स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ०१९.
95. 054336 मि. टंडन विजय
एच बि २९२/१, सल्ट लेक
सेक्टर ३
कोलकाता - ७०० ०९१.
96. 054340 मि. रजनीश रवी
बि डि २७३ सल्ट लेक सिटी
कोलकाता - ७०० ०६४.
97. 054428 मि. लोयालका राजेश कुमार
१६२ डि, आर बि बैनार्जी रोड
पोष्ट - रानीगंज, डि: बर्धमान
रानीगंज - ७१३ ३४३.
98. 054435 मि. मंगल प्रदिप कुमार
रुम नं - सि ४५८
४ तल्ला
७१ बि, आर बि बासु रोड
कोलकाता - ७०० ००१
99. 054462 मि. महापात्र अक्षय कुमार
अभिषेक एपार्टमेंट
नीलकान्त नगर
भुबनेश्वर - ७५१ ०१२
100. 054503 मि. कुमार शशी एम
डिरेक्टर एन्ड चिफ एक्सिक्युटिव ऑफिसर
भारत मार्गारेट लिमिटेड
वाईट हाउस, ११२, पार्क स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ०१६.
101. 054597 मि. चक्रवर्ती चन्दन
ए ई १०६ सेक्टर
सल्ट लेक सिटी
कोलकाता - ७०० ०६४.

102. 054640 मि. बागोदिया पुनीत
४४, बालिगंज सार्कुलर रोड
कोलकाता - ७०० ०१९.
103. 054641 मि. सरकार जय
फ्लाट नं ३ बि, ब्लाक ए
१२२, रुबिपार्क (स्टेट)
कोलकाता - ७०० ०७८.
104. 054642 मि. अग्रवाल प्रमोद कुमार
१३७, कटन स्ट्रीट, तिसरा तल्ला
कोलकाता - ७०० ००७.
105. 054657 मि. घोष प्रदिप कुमार
११ सि, वेस्ट रोड
पार्क सर्कस
कोलकाता - ७०० ०१७.
106. 054690 मि. गुप्ता अमर नाथ
मार्फत बि एम गुप्ता
सि एल - १३७, सेक्टर - २
कोलकाता - ७०० ०९१.
107. 054758 मि. चक्रवर्ती पृथुल
मोहीनी एपार्टमेंट
फ्लाट नं १ डि
१/के, शहीद एच के बोस सरनी
दम दम
कोलकाता - ७०० ०७४.
108. 054768 मि. आचार सन्दिप
४४, एस आर दास रोड
फ्लाट ५ए
कोलकाता - ७०० ०२६.
109. 054805 मि. मुखार्जी सुर्यती
चिफ मैनेजर फाइनान्स
बर्जर पेंट्स इन्डिया लिमिटेड
१२९, पार्क स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ०१७.
110. 054811 मि. दास सन्दिप
१८/१७ बि, फर्न रोड
कोलकाता - ७०० ०१९.
111. 054816 मि. अग्रवाल अशोक कुमार
१/१२, लाल बाजार स्ट्रीट
तिसरा तल्ला, ब्लाक बि
कोलकाता - ७०० ००१.
112. 054818 मि. नन्दि अभिजित
४२, मयरा डांगा रोड
कोलकाता - ७०० ०३६.
113. 054867 मि. सर्वजाना प्रबीर कुमार
३४२, नेताजी क्लोनि
कोलकाता - ७०० ०९०.
114. 054891 मि. चटर्जी तन्मय
१७३/१ क्यु, पिकनिक गार्डन रोड
कोलकाता - ७०० ०३९.
115. 054935 मिस. दत्ता जयन्ति
२८० ए, राशबिहारी एविन्यु
कोलकाता - ७०० ०१९.
116. 055094 मि. दाम प्रान्तिक कुमार
१३/सि, भट्टाचार्या पाड़ा
डि: २४ परगना (नर्थ)
बाराकपुर - ७४३ १०१.
117. 055133 मि. बिहानी चन्द्र किशोर
ए - १ - ८, करुनामयी हाउसिंग एस्टेट साल्ट लेक,
कोलकाता - ७०० ०९१.
118. 055153 मि. नासार्निया प्रदिप कुमार
३६, स्ट्रैण्ड रोड
रुन नं - ९९, द्वितीय तल्ला
कोलकाता - ७०० ००१.
119. 055157 मिस. जैन डिम्पल
पि ६८, सि आई टि रोड
कोलकाता - ७०० ०१४.
120. 055172 मि. दत्ता सोमोब्रतो
प्राईस वाटर हाउस
प्लट नं - वाई १४, ब्लाक - ई पि, सेक्टर
साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स
बिधान नगर
कोलकाता - ७०० ०९१.
121. 055183 मि. अग्रवाल उदय कुमार
२६/२ बि, के सि रोड
कोलकाता - ७०० ००२.
122. 055186 मि. पान्डे राजिव कुमार
फ्लाट नं - बि - ४ - ई
स्नेह गार्डन
२८, राय बाहादुर रोड
कोलकाता - ७०० ०५३.
123. 055325 मि. बनार्जी सिद्धार्थओ
एपार्टमेंट/१४ बि १११, साउदर्न एविन्यु
कोलकाता - ७०० ०२९.
124. 055338 मि. बान्शीया मनोज कुमार
१०१२, कृष्णा, दश तल्ला
२२४, ए जे सि बोस रोड
कोलकाता - ७०० ०३३.
125. 055526 मि. मिश्र उदयन्दु
सि / १०३, निरुपमा एपार्टमेंट
नया पल्ली
भुवनेश्वर - ७५१ ००९.
126. 055664 मिस. घोष सुदिप्ता
७७, लेनिन सरनी
प्रथम तल्ला
कोलकाता - ७०० ०१३.

127. 055705 मि. देसिकान कुमार
२८/१०/१ बि. नकुलेश्वर भट्टाचार्या लेन
कोलकाता - ७०० ०२६.
128. 055750 मि. दास अमरज्योति
मेसर्स ए जे दास एन्ड एसोसियेट्स
अमराबती पथ
चीसटियान बस्ति
गुयाहाटि - ७८१ ००५.
129. 055765 मि. मुराका विवेक
५/८, सेवक वेद्य स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ०२९.
130. 055804 मि. बरुया भास्कर ज्योति
आसाम टि वार्करस प्राइमेट लिमिटेड
रुक्मनिनगर, जि एस रोड
गुयाहाटि - ७८१ ००६.
131. 055816 मि. सरकार सुमित
६/ए. एस आर दास रोड
कोलकाता- ७०० ०२६.
132. 055837 मि. चक्रवर्ती काजल
३७/६/१, बंकु विहारी घोष लेन
बेलुङ मठ
हाउड़ा - ७११ २०२.
133. 055882 मि. मार्दा मनोज कुमार
एम के मार्दा एण्ड कं
३२८, केनेल स्ट्रीट
पोष्ट: श्रीभुमि द्वितीय तल्ला
कोलकाता - ७०० ०४८.
134. 055915 मि. सुबुद्धि संजया कुमार
मार्फत एस के हाउस
कोकस कलानी
बेहारामन
झारसुगुडा
135. 055961 मि. बासु देबजीत
एकाउन्ट्स ऑफिसर
दि कटन कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड
कन्सटान्टिया, द्वितीय तल्ला
११, ड. यु. एन ब्रह्मचारी स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ०१७.
136. 056022 मि. नियोगी सन्दीप
मैनेजर (फाइनेन्स)
मेसर्स सी ए - टी सी जी सफ्टवेयर प्राइमेट
लिमिटेड
बंगल इन्टेलीजेन्स पार्क बिल्डिंग ए
ब्लाक - इ पी एन्ड जी पी, सेक्टर - ५
सल्ट लेक
कोलकाता - ७०० ०९१.
137. 056040 मि. बन्दोपाध्याय बिकाश कुमार
३६, राजा राम चन्द्र घाट रोड
पोष्ट : पानिहाटि
कोलकाता ७०० ११४.
138. 056065 मि. व्यास देबेन्द्र कुमार
१३८/२, मुयेन राय रोड
वीलस पार्क, वेहाला, मैन्टन
कोलकाता - ७०० ०३४.
139. 056086 मि. टक्रवर्ती पार्थ सारथी
६७/ए/७, हारान बैनर्जी लेन
कोत्रगर,
हुगली - ७१२ २३५.
140. 056238 मि. केशरी जीतेन्द्र कुमार
१० ए, कृष्ण राम बोस स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ००४.
141. 056291 मि. कर हृदानन्द
२४/१८, साधत बिहार (नियर VII - एच - १८)
सैलश्री बिहार
भुबनेश्वर - ७५१ ०२१.
142. 056320 मि. यामिनिक सुधिर
१६९, मुक्ताराम बाबु स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ००७.
143. 056339 मि. लाल अनुपम
११६, आशुतोष मुखार्जी रोड, चार तल्ला
कोलकाता - ७०० ०२५.
144. 056377 मि. झावार गीरधर गोपाल
८/१९, डायमंड हारवर रोड
४ तल्ला
कोलकाता - ७०० ०२७.
145. 056390 मि. तालुकदार शीबाजी
मार्फत बर्जर पैन्ट्स
बर्जर हाउस
१२९, पार्क स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ०१७.
146. 056472 मि. बागचि बासब प्रसाद
ए- १०/३०२, पोष्ट : कल्याणी
नदिया
कल्याणी-७४१ २३५
147. 056571 मि. विश्वनाथ गाथानी
१११, काशिपुर रोड
कोलकाता - ७०० ००२
148. 056595 मि. बासु पराग
१०६/सी, ब्लाक - एफ, प्रथम तल्ला
न्यू आलिपुर
कोलकाता - ७०० ०५३.

149. 056626 मि. झा नवीन कुमार
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
१, एलगिन रोड
कोलकाता - ७०० ०२०.
150. 056628 मि. बिजयी अनिल कुमार
१००, डायमंड हारबार रोड
खिदिरपुर
कोलकाता - ७०० ०२३.
151. 056922 मि. अग्रवाल संजय
मार्फत संजय मिथि एन्ड कं
स्युट नं - १५, (तिसरा तल्ला)
चोपड़ा हाउस
१३३, केनिंग स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ००१.
152. 057041 मि. मजुमदार आशिस
१८८/६१, प्रिन्स आनवार शाह रोड
कोलकाता - ७०० ०४५.
153. 057060 मि. जुठानी राजीव आर
२१, कनडेडाइन लेन
तिसरा तल्ला
बहुबाजार
कोलकाता - ७०० ०१२.
154. 057136 मि. बनसल सुनील कुमार
१०६, किरन चन्द्र सिन्हा रोड
गंगेश गार्डन, सि - २, तिसरा तल्ला
शिवपुर
हाउड़ा - ७११ १०२.
155. 057162 मि. डालमिया राकेश रोशन
मार्फत मेर्सस श्री सिमेंट लिमिटेड
२१, स्टैन्ड रोड
कोलकाता - ७०० ००१.
156. 057171 मि. दास अरुणाम
मार्फत मि. पबित्र कुमार दास
रुदाली पथ, जनकपुर
काहिली पाड़ा
गुयाहाटि - ७८१ ०१९.
157. 057174 मि. सरयगी सुरेश कुमार
३७, ड. अवनी दत्त रोड
गगानचल कॉम्प्लेक्स
हाउड़ा - ७११ १०६.
158. 057290 मि. अग्रवाल नवल कीशोर
५२, वेसटन स्ट्रीट
५ तल्ला, रुम नं ५२
कोलकाता - ७०० ०१२.
159. 057436 मिस. केडिया सुनिता
२, रोस मारि लेन
हाउड़ा - ७११ १०१.
160. 057445 मि. मट्टाचार्या निशिथेष
१/१, मधुसुदन दास लेन
शिवपुर
हाउड़ा - ७११ १०३.
161. 057464 मिस. सुषमल वन्दना
१, चांदनि चौक स्ट्रीट
ब्लाक - बी (ब्रेवर्न कोर्ट)
कोलकाता - ७०० ०१७.
162. 057478 मि. बन्दोपाध्याय अरिजित
पि १, एश वी आई क्वाटर
एल एन मोतिलाल रोड
कोलकाता - ७०० ०६१.
163. 057518 मि. गुप्ता अरुण कुमार
२३२/ बि ४, जी टी रोड
बेलुड़ बाजार
हाउड़ा - ७११ २०२.
164. 057542 मि. सेन संजय
७३, एन ए बि ओ बि सि आर
टरेन्टो ऑन
एम आई बि २२१
कानाडा
165. 057581 मि. पाल बिश्वजित
एकाउन्ट्स ऑफिसर
इन्डियन ऑयेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
गुयाहाटि रिफाइनारिस, नुनमाटि
गुयाहाटि - ७८१ ०२०.
166. 057588 मि. घोष हीरक
३५८, पि ए शाह रोड
कोलकाता - ७०० ०४५.
167. 057629 मि. चट्टोपाध्याय सुदीप कुमार
१५/४, हिन्दुस्तान रोड
कोलकाता - ७०० ०२९.
168. 057712 मि. दागा सन्दिप
४७/१, सर हरिराम गोयेंका स्ट्रीट
तिसरा तल्ला
कोलकाता - ७०० ००७.
169. 057735 मि. सारदा भिनित
२३ ए, नेताजी सुभाष रोड
दुसरा तल्ला, स्युट नं १३
कोलकाता ७०० ००१.
170. 057747 मि. सन्दिप पी
१, बिपिन पाल रोड
कोलकाता - ७०० ०२६.
171. 057755 मिस. जैन जयश्री
पी ६८, सि आइ टि रोड
कोलकाता - ७०० ०१४.
172. 057768 मिस लाला चटर्जी जयिता
२०, ग्रीन हिल क्लोस
फिन्चले
एन ३२, जे एस लंडन
यु के.

173. 057792 मि. अग्रवाल दिनेश कुमार
४०, वेस्टन स्ट्रीट
तिसरा तल्ला
कोलकाता - ७०० ०१३.
174. 057872 मि. आचार्य जयदेवा
एकाउन्ट्स ऑफिसर
एन टि पि सि
टि एस टि पि पि
पोष्ट - द्वीपशिखा
अंगुल - ७५९ १४७.
175. 057873 मि. तिवारी राकेश कुमार
फ्लाट नं १ प्रीन्स टावर
३१/२, गोवीन्द बैनर्जी लेन
कोलकाता - ७०० ०३३.
176. 057890 मि. महेश्वरी केशव
मार्शल हाउस, ५ तल्ला
रुम नं ५०६
३३/१, एन एस रोड
कोलकाता - ७०० ००१.
177. 057897 मि. दत्ता सुदिप्त नाथ
बि इ - ३९, सेक्टर १
सल्ट लेक
कोलकाता - ७०० ०६४.
178. 057942 मि. गुप्ता बिमल कान्त
२/२४, आज्ञादगड़
रिजेन्ट पार्क
कोलकाता - ७०० ०४०.
179. 057951 मिस. सेनगुप्ता देवी
६, ड० सत्यानन्द राय रोड
कोलकाता - ७०० ०२९.
180. 057965 तुलशियान गौतम
४, जास्टिस द्वारकानाथ रोड
कोलकाता - ७०० ०२०.
181. 057969 मिस. राय दासगुप्ता धीतिप्रिया
१८/१९, फर्न रोड
ग्राउन्ड तल्ला
कोलकाता - ७०० ०१९.
182. 057999 मि. पानिग्राहि हरेकृष्ण
एन - १/३४२, आइ आर सि मिलेज
भुवनेश्वर - ७५१ ०१५.
183. 058013 मिस. कपूर दीपा
७, सर्कस एविन्यु
फ्लाट नं ७,
कोलकाता ७०० ०१७.
184. 058017 मिस. बाफना कमल
ओ एन आइ सि होलडिंग्स एस ए ओ जी
पोष्ट : २२५४
पि सि ११२
रुई
सुलतानेट ऑफ ओमान
185. 058022 मि. अग्रवाल राकेश कुमार
३९, स्ट्रैन्ड रोड
४ तल्ला, रुम नं ७५
कोलकाता ७०० ००१.
186. 058025 मि. सिन्हा राय दिव्येन्दु
२७/२१, राजा राम मोहन राय रोड
कोलकाता - ७०० ००८.
187. 058046 मि. अग्रवाल सन्दिप
आकाश गंगा एपार्टमेंट
एसि - २८७, रवीन्द्रपल्ली
कृष्णपुर
कोलकाता - ७०० १०१.
188. 058051 मि. गारोदिया राजेश कुमार
१९६/सि, चित्तरंजन एविन्यु
कोलकाता - ७०० ००७.
189. 058187 मिस. सेठ तयत्री
फ्लाट नं ४ बि, बसेरा
२२४/३, एन एस सि बोस रोड
कोलकाता - ७०० ०४७.
190. 058191 मि. बैनार्जी प्रबोले कुमार
१३ एच बालिगंज प्लेस ईष्ट
कोलकाता - ७०० ०१९.
191. 058248 मि. पाटनी संदीप
६२ बी, नेताजी शुभाष रोड
तिसरा तल्ला
कोलकाता ७०० ००१.
192. 058301 मि. मिमानी नन्दन
२३, महर्षि देबेन्द्र रोड
कोलकाता ७०० ००७.
193. 058307 मि. जैन सौरभ
२डि, मिडलटन रो
कोलकाता - ७०० ०७१.

194. 058327 मि. मजुमदार घिरदीप
मार्फत युनिटेक पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
५३ ए. रफी अहमद किदवाई रोड
कोलकाता ७०० ०९६.
195. 058411 मिस. प्रमाला रश्मी
लर्डस ५९९
७/९, लर्ड सिन्हा रोड
कोलकाता - ७०० ०७९.
196. 058444 मि. धानुका पवन कुमार
पि - २९५, सि आइ टि रोड
स्कीम - ४ एम
कोलकाता - ७०० ०८५.
197. 058456 मि. पटवारी सुनील कुमार
पि - ९७, ब्लाक - बि
लेक टाउन
कोलकाता - ७०० ०८९.
198. 058477 मिस. राय नबनीता
९६४/सि/२८/९, लेक गार्डन्स
प्रथम तल्ला
कोलकाता ७०० ०४५.
199. 058481 मि. नायक लक्ष्मीवन्ता
एटि + पोष्ट विश्वनाथपुर
भाया - गालोन्थारा
गंजम
उड़िशा - ७६९ ००८.
200. 058635 मि. शाहा मुकेश कुमार
४२४/९, जि टि रोड
पीलखाना (नर्थ)
कपुर गली, द्वितीय तल्ला
हाउडा - ७९९ ९०९.
201. 058641 मि. पोदार बिकास
मार्फत मनिष एन्टारप्राइसेस
५९, चन्डितला मेन रोड
कोलकाता - ७०० ०५३.
202. 058664 मि. अग्रवाल शिवनाथ
७२, बांगुर एविन्यु
ब्लाक - ए
कोलकाता - ७०० ०५५.
203. 058665 मिस. दुग्गर पारस
टाकर कॉम्प्लेक्स प्रथम तल्ला
अरुनाचल प्रदेश
नाहार लेगुन - ७९९ ९९०
204. 058688 मि. अरोड़ा पंकज
२९, मुक्ताराम बाबु स्ट्रीट
तिसरा तल्ला
कोलकाता - ७०० ००७.
205. 058752 मि. अरोड़ा पंकज
पि - ९२, ब्लाक - बि
तिसरा तल्ला
बांगुर एविन्यु
कोलकाता - ७०० ०५५.
206. 058855 मि. सिंह तारलोक
९३/९, मोहनलाल बहालवाला रोड
(नियर पोष्ट ऑफिस)
बाली - ७९९ २०२.
207. 058862 मि. राय चौधुरी प्रसुन
४/९, शान्तालाल स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ०३०.
208. 058872 मि. लोसाल्का राजन
सिनियर एकाउन्ट्स ऑफिसर
एच पि सि एल
ईन्डास्ट्री हाउस
९०, कैमक स्ट्रीट, ७. तल्ला
कोलकाता - ७०० ०९७.
209. 058882 मि. राय सोम्य
सि एल - ९५, सेक्टर २
सस्ट लेक सिटि
कोलकाता - ७०० ०९९.
210. 058957 मि. दोवराह रुपेश
५, लोयार राउडन स्ट्रीट
६ तल्ला, आकाशद्वीप
कोलकाता - ७०० ०२०.
211. 058981 मि. जैन प्रमोद कुमार
५९, नलिनी सेट रोड
६ तल्ला, रुम नं. ९८
कोलकाता - ७०० ००७.
212. 059003 मि. शर्मा राजेन्द्र कुमार
८, गुहं पार्क
डिस्ट. हाउडा
लिलुआ - ७९९ २०८.
213. 059099 मि. मल्लिक राजश्री चरण
६, अरुनोदय नगर
लिक रोड
कटक - ७५३ ०९२.
214. 059111 मि. अग्रवाल अनिल
मार्फत मि. नगरमल अग्रवाल
गगनद्वीप एपार्टमेंट
फ्लाट ५ए, ब्लाक - ए
४९३/बी/२, जी टी रोड (साउथ)
हाउडा - ७९९ ९०२.

215. 059133 मि. बन्धोपाध्याय दिव्येन्दु
पि - ४५६, सि आइ टि स्कीम ४७
केयातला
कोलकाता - ७०० ०२९.
216. 059176 मिस. साहा शालिनी
प्रथम तल्ला, जीबनदीप कॉम्प्लेक्स
एस आर सि बि रोड
फैंसि बजार
गुयाहाटि - ७८१ ००१.
217. 059305 मि. समुल मरुघेष
नलिनी कुटिर
पेटोनशाही
कटक - ७५३ ००१.
218. 059350 मि. पाठक मनोज कुमार
बनसल बिल्डिंग, मैन रोड
राउडकेल्ला - ७६९ ००१.
219. 059423 मिस. तोशनिवाल कपिल
८७/२१, एन के बैनार्जी स्ट्रीट
पोष्ट: रिषड़ा
हुगली - ७१२ २४८.
220. 059431 मि. खास्तगीर उदयन
२६/८, लेक इष्ट ४ रोड
सन्तोषपुर
कोलकाता - ७०० ०७५.
221. 059464 मिस. अगरवाल रश्मी
पि - १४१, सि आइ टि रोड
स्किम - ६ एम
कोलकाता - ७०० ०५४.
222. 059482 मि. अगरवाल बिकास कुमार
मार्फत राज कुमार अगरवाल
६२, सनातन मिस्त्री लेन
४ तल्ला, शलकिया
हाउडा - ७११ १०६.
223. 059484 मि. भट्टाचार्या शुभमय
८३ सि/१ ए, चेतला रोड
कोलकाता - ७०० ०२७.
224. 059512 मि. नियोगी सिद्धार्थ
२, बिरेश्वर बीनार्जी स्ट्रीट
हुगली
भद्रकाली - ७१२ २३२.
225. 059598 मि. तूलशायन वीष्णु कुमार
२/३५, राजेन्द्र प्रसाद कलोन
प्रिन्स आनवार शाह रोड
कोलकाता - ७०० ०३३.
226. 059635 मि. बजाज मनोज
४१८/३, जि टि रोड (नर्थ)
पीलखाना
हाउडा - ७११ १०१.
227. 059764 मि. राय प्रदीप
बालटिकुरी (सेठ पाड़ा)
हाउडा - ७११ ४०२.
228. 059781 मि. घोष कौस्तभ कुमार
४/१, ओरियेन्ट रो
पार्क सर्कस
कोलकाता - ७०० ०१७.
229. 059839 मि. अगरवाल संजय कुमार
बि ई - २०४, सल्ट लेक सिटि
कोलकाता - ७०० ०६४.
230. 059863 मि. पट्टनायक बालामुकुन्द
२८/२, गडियाहाट रोड (साउथ)
कोलकाता - ७०० ०३१.
231. 059913 मि. बगला प्रकाश
२१८ बी, चित्तरंजन एविन्यु
कोलकाता - ७०० ००६.
232. 059990 मि. आचार्या शोभन कुमार
शान्तिमार्ग
हाकिमपाड़ा
अंगुल - ७५९ १४३.
233. 060109 मि. चक्रवर्ती सुमन
३०, फकिर पाड़ा रोड
कोलकाता - ७०० ०३४.
234. 060114 मि. बैश्या मनोजीत
१११/५, मिदनापुर रोड
गीर्जा पाड़ा
रानीगंज - ७१३ ३४७.
235. 060208 मि. सराफ रोहीत
११, ए. कलाकार स्ट्रीट
कोलकाता ७०० ००७.
236. 060216 मि. अगरवाल अमित
११३/१ बि, सि आर एविन्यु
८ तल्ला
कोलकाता - ७०० ०७३.

237. 060221 मि. भालोतिया ललित कुमार
७९, केनिंग स्ट्रीट
४ तल्ला, रुम नं सि ४५२
कोलकाता - ७०० ००९.
238. 060332 मि. झालरीया अमित कुमार
पि - १२२, ब्लाक - बि
लेक टाउन
कोलकाता - ७०० ०८९.
239. 060381 मिस. बैद मेघना
मार्फत केशरी चन्द महेशकुमार
१४, नुरमल लोहीया लेन
कोलकाता - ७०० ००७.
240. 060461 मि. बुबना शुभाष कुमार
गंगन आंचल कॉम्प्लेक्स
३७, ड. अबनी दत्त रोड
रुम नं १२२, ग्राउन्ड तल्ला
शालकिया
हाउडा - ७११ १०६.
241. 060508 मि. चन्दाक अभिषेक
मेसर्स प्राइस वाटर हाउस
बी - ३/१, गीलीन्डर हाउस
८, एन एस रोड
कोलकाता - ७०० ००९.
242. 06०५०९ मि. केडिया बिकाश कुमार
मार्फत ज्योती
बेनायिती
दुर्गापुर - ७१३ २१३.
243. 060553 मि. अग्रवाल श्यामसुन्दर
मेसर्स श्याम कृष्ण अग्रवाल एन्ड कं
५४/५ए, स्टैन्ड रोड
उम भवन, तिसरा तल्ला
कोलकाता - ७०० ००६.
244. 060615 मि. कौशल शेखर
६२/ए, काली कृष्ण टेगोर स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ००७.
245. 060636 मि. सारोगी ईश्वरी
७८/१, नीमतला घाट स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ००६.
246. 060712 मि. लोहीया जीतेन्द्र
एन एस बी रोड
स्कूल मोड़, चाउ कॉम्प्लेक्स
रानीगंज - ७१३ ३४७.
247. 060764 मि. पुरोहित घनश्याम
पी - ७, कलाकार स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ००७.
248. 060804 मि. चौधुरी अमिक
डि - ३, पलाश एपार्टमेंट्स
१५/१बि, शुद्धाह स्ट्रीट रोड
कोलकाता - ७०० ०१०.
249. 060813 मि. गिलरा आशिस
फ्लाट नं ७०१,
३७, डायमंड हारवर रोड
कोलकाता - ७०० ०२७.
250. 060815 मिस. नमालाखा सीमा
फ्लाट नं ३ एफ ई (लोटस टावर)
चित्रलेखा लेन, उषा नगर
दिसपुर
गुयाहाटि - ७८१ ०२४.
251. 060816 मि. राउत राजेश कुमार
प्लट नं ए/११८
सहिद नगर
मुबनेश्वर ७५१ ००७.
252. 060831 मि. महान्ति देबाशिस
६२२, रसुलगड़
सबर साहि
मुबनेश्वर - ७५१ ०१०.
253. 060880 मि. राय सागरनील
प्राइस वाटरहाउस
प्लट नं वाई - १४
ब्लक - इपि सेक्टर ५
सल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स
बीघान नगर
कोलकाता - ७०० ०९१.
254. 060896 मि. राई आनन्द प्रकाश
१५२/७, हरदत्त राय घामारिया रोड
हावड़ा - ७११ १०१.
255. 060956 मि. गुप्ता सुरेश कुमार
४०/१, टंगरा रोड
ब्लक - के ५
कोलकाता - ७०० ०१५.
256. 060968 मि. केडिया रमि
मार्फत ब्रीज चन्ध
८, सार्कस मार्केट प्लेस
कोलकाता - ७०० ०१७.
257. 060971 मि. दत्त प्रोसेन्जीत
बी/२, रिजेन्ट एस्टेट
कोलकाता - ७०० ०९२.
258. 060984 मि. गोयेल संजीव कुमार
२७, उपेन्द्र कृष्ण मण्डल लेन
टलिंगज फौडि
कोलकाता - ७०० ०३३.
259. 061058 मि. माथार राजा
३१, जि टि रोड. (नर्थ)
४ तल्ला
हाउडा - ७११ १०१.
260. 061067 मिस. अरोड़ा मीनाक्षी
७-इ, गार्डेन एपार्टमेंट्स
२५, गडियाहाट रोड (साउथ)
कोलकाता - ७०० ०३१.
261. 061070 मि. खान वेल्लउद्दिन
हाउस नं २१ एपिटि नं ५
ब्रोक्लेन एविन्यु.
पोष्ट बक्स नं एन - ७२५०
नासाउ बाहामास

262. 061080 मि. पाटनी मनीष
२, राम लोचन मल्लिक स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ०७३.
263. 061109 मि. गुप्ता सुमित
ब्लक नं ५९, फ्लाट नं १
गोपाल कुंज
शेर-ए-पंजाब सोसाइटी
अन्धेरी (ई),
मम्बई - ४०० ०६९.
264. 061123 मि. त्रीभेदि अमित कुमार
१६०, महात्मा गांधी रोड
कोलकाता - ७०० ००७.
265. 061141 मि. गुप्ता राहुल
१२९/४, एस. एन. राय रोड
नितु आलिपुर (साउथ)
कोलकाता - ७०० ०३८.
266. 061143 मिस. कपूर मलि
६६ ब्लक - बि
बांगुर एविन्यु
कोलकाता - ७०० ०५५.
267. 061168 मि. सिन्हा नीलांजन
११, टाला पार्क एविन्यु
कोलकाता - ७०० ०३७.
268. 061191 मि. सारोगि राजा
८५, बलराम दे स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ००६.
269. 061235 मि. खातुया गुरु नारायण
मार्फत आहेंद आलि मन्डल
४१९/ए, पन्चानन तला रोड
कोलकाता - ७०० ०४१.
270. 061237 मि. महेश्वरी आदीत्य कुमार
वर्धन मार्केट
एम. जि. रोड, खालपाड़ा
सिलिगुड़ी - ७३४ ४०५.
271. 061244 मि. शाहा महेश
मेसर्स मनोहिल (प्रा लि)
निजारिया
लागस, निजारिया
272. 061284 मि. गन्ता सतीश कुमार
एस/ओ. जि रामा राव
पावेल्ले लेन
बेहरामपुर ७६० ०२२
273. 061303 मि. घोष जयदीप
१०/डि, मुखार्जी पाड़ा लेन
कालिघाट
कोलकाता ७०००२६.
274. 061325 मि. जैन सन्दिप
मार्फत जयश्री केमिकल्स एन्ड फार्टिलाईजर्स
नन्द बोस रोड
डि: २४ परगणा (नर्थ)
कोलकाता - ७०० ११७.
275. 061330 मि. महता मृनाल
११६/३, राउन्ड टैंक लेन
तिसरा तल्ला
हावड़ा - ७११ १०१.
276. 061360 मि. माहान्त मित्र भानु
मार्फत उद्धवा चरण महान्त
एटि : वस्ति रोड
डि: केओनझार
वरवील - ७५८ ०३५
277. 061372 मि. शर्मा बिकाश
मार्फत विनय सिमेन्ट लिमिटेड
७५ सि. पार्क स्ट्रीट, ६ तल्ला
कोलकाता ७०० ०१६.
278. 061468 मि. कयाल आशिस
५डि. रामेशवर एपार्टमेन्ट
११९, शरत बोस रोड
कोलकाता - ७०० ०२०.
279. 061497 मि. रावल मिहिर
४७/१ए, श्यामबाजार स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ००४.
280. 061512 मिस देव रिमा
५२, ढाकुरिया ईष्ट रोड
कोलकाता - ७०० ०७८.
281. 061546 मि. अग्रवाल सुनिल कुमार
३८, पंचानन घोष लेन
प्रथम तल्ला, आमहास्ट स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ००९.
282. 061610 मि. शर्मा श्रीकान्त
४/२५, आजादमड़
पोस्ट - रिजेन्ट पार्क
कोलकाता - ७०० ०४०.

283. 061621 मि. अग्रवाल अजय
मार्फत मेसर्स एस आर बाटलिवय एण्ड कं
२२, कैमाक स्ट्रीट
ब्लक सि, तिसरा तल्ला
कोलकाता - ७०० ०१६.
284. 061653 मि. घोष सौगत
३९/१, आर के स्ट्रीट
फ्लाट नं ४०१
उत्तरपारा - ७१२ २५८.
285. 061777 मि. अग्रवाल संजय कुमार
मार्फत विनोद अग्रवाल
शिल डांगा
कुलटि - ७१३ ३४३.
286. 061796 मि. गुटगुटिया रवि
मार्फत मेसर्स ए डि अग्रवाल
७४, ब्लक डि
वांगुर एविन्यु, फ्लाट नं ४ बि
कोलकाता - ७०० ०५५.
287. 061889 मि. अग्रवाल दिपक कुमार
२६२/२, जि टि रोड
लिलुया
हावड़ा - ७११ २०४.
288. 061892 मि. झुनझुनवाला ज्योति
४ए सेंट ऐन्थनि कोयल स्ट्रीट
टी भी नगर (आनन्धा इन बैंक साइड)
पंडिचेरी - ६०५ ००३.
289. 061934 मि. शाहा राकेश
४२४/१, जि टि रोड
कपुर गलि, पिलखाना
५ वा तल्ला
हावड़ा - ७११ १०९.
290. 061945 मि. शर्मा हेमंत कुमार
२९, मल्लिक स्ट्रीट, बड़ा बाजार
कोलकाता - ७०० ००७.
291. 061985 मि. सेक्सारिया रोहित
१३, जेलिया पाड़ा
प्रथम वाई लेन (४ तल्ला)
रामकृष्ण पुर
हावड़ा ७११ १०१.
292. 062002 मि. पटनायक दुर्गाप्रसाद
२०१, गणपति टावर
वमिखाल
भुवनेश्वर ७५१ ०१०.
293. 062024 मि. शर्मा सुमित
९६, मुक्ताराम बाबु स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ००७.
294. 062030 मि. जैन योगेश
मार्फत सि बि एम सिक्युरिटिस
नुतनगंज
कनग्रामठ
बाँकुड़ा ७२२ १०१.
295. 062041 मि. बगला पंकज
२७८ बि, चित्तरंजन एविन्यु
कोलकाता - ७०० ००६.
296. 062080 मि. चैटर्जी कौशिक
५९ बि, आशुतोष मुखर्जी रोड
प्रथम तल्ला
कोलकाता - ७०० ०२५.
297. 062120 मि. सानवरिया शेखर
मार्फत लाभलक एंड लुईस
सल्ट लेक ईलेक्ट्रनिक कॉम्प्लेक्स
प्लट नं ४/१४, (बिधान नगर)
ब्लक ईपि सेक्टर १
कोलकाता ७०० ०९१.
298. 062128 मि. अग्रवाल अशोक
मार्फत जैन अमर स्टोर
मेन रोड
राउरकेल्ला - ७६९००१
299. 062164 मि. शाहा किरण
२०९, पुर्व सिथि रोड
(घोष पाड़ा)
दम दम
कोलकाता - ७०० ०३०.
300. 062169 मिस राय चौधुरी श्रावन्ती
मार्फत प्राईस वटर हाउस
प्लट नं वाई - १४
ब्लक ईपि सेक्टर ५
सल्ट लेक ईलेक्ट्रनिक कॉम्प्लेक्स
(बिधान नगर)
कोलकाता ७०० ०९१.
301. 062180 मि. अग्रवाल आदित्य
ऐसिस्टेंट मैनेजर
आई सि आई सि आई बैंक लिमिटेड
स्काई स्टार विल्डिंग
सेवक रोड
शिलिगुडि ७३४ ४०१.
302. 062262 मि. लाल चन्द्र देवजीभाई
९, खेलात घोष लेन
ऑपोजिट - लोहिया हस्पिटल
कोलकाता ७०० ००६.
303. 062299 मि. झुनझुनवाला विकास
अरित्र ऐपार्टमेंट.
ब्लक आई ८ रवीन्द्रपल्ली
केष्टोपुर मेन रोड
कोलकाता ७०००५९.
304. 062336 मि. प्रधान रमेश चन्द्र
फ्लाट नं २०२, दुसरा तल्ला
सिद्धार्थ टावर
रवि टॉकिज स्कोयार
भुवनेश्वर ७५१ ००२.

305. 062352 मि. शर्मा सन्दिप
वृन्दावन गार्डन
ब्लक ए, फ्लाट ४/सि
प्रणामी मन्दिर रोड
फन्नावी पाड़ा
शिलिगुड़ी ७३४ ४०१.
306. 062388 मिस हरललका नेहा
मार्फत मि. पि के हरललका
१९६/सि, चित्तरंजन एविन्यु
कोलकाता ७०० ००७.
307. 062416 मि. राठी दिनेश
मैनेजर
आई सि आई सि आई बैंक लिमिटेड
२बि, गोरकि टेरस
कोलकाता ७०० ०१७.
308. 062424 मि. चौधुरी सन्दिप
मार्फत मेसर्स बि पि अग्रवाल एंड एसोसियट
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
४०८, कमलालया सेन्टर
१५६ए, लेनिन सरणि
कोलकाता ७०० ०१३.
309. 062541 मि. वारिक प्रसान्त कुमार
मार्फत श्री प्रभुदत्त मिश्र
फ्लाट नं ४, प्रमाति ऐपार्टमेंट
४०/१५, मुर ऐविन्यु
कोलकाता ७०० ०४०.
310. 062544 मिस सिरकार मौ
१३१/बि, बहु बजार स्ट्रीट
कोलकाता ७०० ०१२.
311. 062554 मि. लोधा संजय कुमार
मार्फत मि. अनिल कुमार केडिया
१६१/१, एम जि रोड
प्रथम तल्ला
रुम नं १८ (बांगुर विल्डिंग)
कोलकाता ७०० ००७.
312. 062571 मि. केडिया समिर
२०७, बांगुर ऐविन्यु
ब्लक नं ए
कोलकाता ७०००५५
313. 062589 मि. जैशवाल सुनिल
३१/३सि, हरितकि वागान लेन
कोलकाता ७०० ००६
314. 062649 मि. दत्त देवराज
७/२५, नेतजी नगर
पोष्ट - रिजेन्ट एस्टेट
कोलकाता ७०० ०९२.
315. 062667 मि. पात्र किशोर कुमार
रम्पा स्ट्रीट
डि. गंजाम
बहरमपुर ७६० ००१.
316. 062690 मि. जैन राहुल
मार्फत प्रदिप जैन
४३, ब्रीज हुलाल स्ट्रीट
प्रथम तल्ला
कोलकाता ७०० ००६.
317. 062700 मि. सेनापती प्रफुल्ल कुमार
मार्फत श्री एन जी नाथ
फ्लाट नं १०१
माधव निलायम ऐपार्टमेंट
तुईस रोड
भुवनेश्वर ७५१ ०१४.
318. 062763 मि. जैन रिशम
टेकर कॉम्प्लेक्स
प्रथम तल्ला
अरुनाचल प्रदेश
नाहार लेगुन ७९१ ११०
319. 062784 मिस. सराफ पायल
ब्लाक बि.एल १६, सेक्टर २
सल्ट लेक सिटी
कोलकाता ७०० ०९१.
320. 062910 मि. जैन मनिष
मार्फत शर्मा मैनसन
१४, रामेश्वर मालिया लेन
तिसरा तल्ला
हावड़ा - ७११ १०१.
321. 062980 मि. अग्रवाल राजेश
रुम नं १०७, टि सि लेखारु मार्केट
ऑपोजिट - रुपश्री सिनेमा
ए टि रोड
गुयाहाटि ७८१ ००१.
322. 063007 मि. चौधुरी अनिरुद्ध
सि एस २/१ फेस १
गल्फ ग्रीन
आरवान कॉम्प्लेक्स
कोलकाता ७०० ०९५.

323. 070930 मि. गुहा तरुन कुमार
बेरि पुर
मि. चंदन हाटि
पोष्ट - वादु, डि. २४ परगणा (नर्थ)
वारासात ७४३ २०२.
324. 072857 मि. सिपानि प्रसान कुमार
थाई कार्वन ब्लाक कं. लि.
पोष्ट बक्स - १, ४४ मु १, पोसा
मांग, एनथंग १४०००
थाईलैन्ड १०३३०
325. 074479 मि. अग्रवाल नन्दकिशोर
चैरियट सिमेंट कं.
इन्डस्ट्रीयल एस्टेट
डि. सुन्दरगड
कलुंगा ७७० ०३१.
326. 074570 मि. सेन गुप्ता असिम
संगीता ऐपार्टमेंट (विल्डिंग नं १)
प्लाट नं ७, तिसरा तल्ला
२२/२३, फिडर रोड
बेलघाडिया ७०००५६
327. 080965 मि. गोयेल रामकुमार
बनसल विल्डिंग, मैन रोड
राउरकाल्ला ७६९ ००१.
328. 086042 मि. ईस्ताकुर रहमान
मार्फत मेसर्स तेलेउदीन आहमेद
फईयाज आहमेद रोड
मावखोया
गुयाहाटि ७८१ ००९.
329. 090952 मि. महेश्वरी सुधिर
जे के पेपर मिलस
क्यु १७ बी, जयकारा पुर
डि. रायगाडा
रायगाडा ७६५ ०१७.
330. 093202 मि. परिदा संजय कुमार
बि - १६७
डि. अंगुल
नैलकोनगर ७५९ १४५
331. 093246 मि. वनसल मनोज कुमार
वनसल विल्डिंग
मैन रोड
राउरकेल्ला ७६९ ००१.
332. 094136 मि. पटनायक राजिव लोचन
एटि/पिओ - सैनकुल
उडिशा
केवनडर ७५८ ०४३
333. 094490 मि. शाहा संजिव
४१०/१, ब्लाक जि, प्लाट ६
न्यु आलिपुर
कोलकाता ७०० ०५३.
334. 095078 मि. सिंह सुरोजीत
देव निवास
कोटापेटा (जी एम)
बरहमपुर ७६० ००४.
335. 097741 मि. प्रसाद सत्यनारायण
३११/१ बी, ग्राउन्ड तल्ला
प्रीन्स आनवर शाह रोड
कोलकाता ७०० ०४५.
336. 098526 मि. गुप्ता अशोक कुमार
रुम नं ६
रामकृष्ण वायन शीक्षा संघ
दुसरा तल्ला, पानि टांकि मोड़
सेवक रोड
शिलिगुडि ७३४ ४०१.
337. 098671 मि. पन्त कपिल
इन्डियन ऑयेल कॉर्पोरेशन लि.
(पाईप लाईन डिभिजन)
गुयाहाटि
शिलिगुडी प्रोडाक्ट पाईपलाइन
पोष्ट - नुनमाटि
गुयाहाटि ७८१ ०२०.
338. 100166 मि. बनार्जी उत्तीयो
सनी भीयु ऐपार्टमेंट
दुसरा तल्ला
६१ आर, सुरेन सरकार रोड
कोलकाता - ७०० ०१०.
339. 101396 मि. शाहा कौशल परान कुमार
एण्डे - ७४, सेक्टर - १
सल्ट लेक सिटी
कोलकाता ७०० ०६४.
340. 102171 मि. पती विश्वजीत
डि ५५, मैत्री विहार
ग्राउन्ड तल्ला.
पोष्ट ईसि रेलवे कलोन
भुवनेश्वर ७५१ ०२३
341. 113382 मि. संघाई सुमित कुमार
आई सी आई सी आई बैंक लि.
२ बी, गकी टेरस
गकी सदन
कोलकाता ७०००१९.
342. 204348 मि. महान्ति हनुमत्साद
ब्लाक १०८ - ०५ - ७०३
सेरागन, नर्थ मेन्यु १
सिंगापुर - ५५० १०८

343. 206029 मि. जोष जोषेफ
मैनेजर फाईनान्स - मेटल एण्ड पावर
इन्डियन ऐलुमिनियम कं. लि.
१, मिडल्टन स्ट्रीट
कोलकाता ७०० ०७१.

344. 212170 मि. जेना राम पद
गार्फत संकर नाथ सबजाना
प्लट नं १०४३
एटि : लक्ष्मीसागर (नियर त्रीनाथ टेम्पल)
पोस्ट - बुधेश्वरी
मुवनेश्वर ७५१ ००६.

डा. अशोक हल्दिया
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2006

संख्या: यू.16/53/2005/चि.2(केरल) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त, केरल द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

<u>डॉक्टर का नाम</u>	<u>अवधि</u>	<u>केन्द्र का नाम</u>
डॉ. एम.जी.येसुदासन	7.8.2006 से 6.8.2007	कोट्टारुक्का

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 27 सितम्बर 2006

संख्या: यू.16/53/पी.टी.एम.आर./मुंबई/चि.-2 : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

<u>डॉक्टर का नाम</u>	<u>अवधि</u>	<u>केन्द्र का नाम</u>
डॉ. एस.आर.करनालकर	1.10.2006 से 30.9.2007	चालिसगांव (महाराष्ट्र)

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली-110058, 26 सितम्बर, 2006

सं. २०-१०/२००५-एस.आर. (केरल) जबकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव किया है जिसमें उम व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जो केरल राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं ।

अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् , नई दिल्ली एतद् निदेश देता है कि भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में होगा ।

टिप्पणी:- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन जनवरी १९६७ से फरवरी २००५ तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (केरल) का संकलन करने में प्रत्येक सावधानी बरती गई है, और उसमें यदि कोई छूट/सुधार अपेक्षित हो तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् , 61-65, संस्थांत्रिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए ।

प्रेमराज शर्मा
रजिस्ट्रार
भारतीय चिकित्सा केन्द्र परिषद्
नई दिल्ली
नई दिल्ली।

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

केरल

भाग I आयुर्वेद

के.पं.संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं पंजीयन तिथि	पता
91769	अब्दुल हफील ए.एम. मोहिनुद्दीन ए.के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९६८	7323 12.2.01	अम्बालट, पो.आ.शेयक्काटु, जिला थरिस्सूर ।
91770	अब्दुल खादर पी.के. यूसूफ हाजी	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६६	7072 10.12.99	पी.के.हाउस, थरिओडे नोर्थ पोस्ट, जिला ब्यानाडु, केरल ।
91771	अब्दुल खादर पी.टी. अब्दुल हनीफ पी.टी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २०००	7154 8.6.2000	किझक्केल्लायी हाउस, त्रिपरंगोडे पो.आ., जिला मालप्पुरम, केरल ।
91772	अब्दुल मुनीर ई. हयदु ई.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7181 5.7.2000	इल्लिकल हाउस, चेम्माराम, नाडुक्क पो.आ., वाया वन्दूर, जिला मालप्पुरम ।
91773	अब्दुल रफीक ओ.पी. कुन्हालन कुट्टी ओ.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7751 28.12.02	एम.वी.एस. आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्र, बाई पास रोड, कोनटोत्ती, जिला मालप्पुरम ।
91774	अब्दुल रशीद वलियापोयिल पोेट्टामल कोयकुट्टी के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7407 4.7.01	वलियापोयिल पोेट्टामल, साउथ आर्यनकोडे, वेल्लासेरी पो.आ. आर.ई.सी. वाया, जिला कोझिकोडु ।
91775	अब्दुल सबूर पी. अब्दुल शुम्कूर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7766 31.12.02	शुक्रिया, पारप्पुर पो.आ., कोट्टाकल, जिला मालप्पुरम, केरल ।

91776	अब्दुल शेरिफ ए.एम. एन.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट	7095 10.12.99	अम्पनाथ हाउस, मनालिथारा पो.आ., जिला थरिसूर, केरल ।
91777	अब्दुल सुक्कुर एम. मोहम्मद अब्दुल खरीम	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट	7110 23.12.99	पुलारी हाउस, कोलावनमोक्कु, कोयलमना पो.आ., जिला पलक्कड केरल ।
91778	अब्दुल वारिस एम. इब्राहिम एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट	7182 5.7.2000	99/३२०-ए, एदापल्ली, कोलथारा पो.आ. जिला कोडिक्कोडु केरल
91779	अब्दुन्नास्सार अब्दुल्ला इलायादथ	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट	8293 25.1.05	पुलिककट हाउस, पनीथारा पो.आ., एडवना वाया, जिला मालपुरम, केरल
91780	अभिलाष के.एच. हरिदास के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर	7503 24.1.02	कन्दन कुमारथ कलापील, पुलपल्ली पो.आ., जिला वनाडु, केरल ।
91781	अभिलाष एम भास्करण एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट	7820 6.6.03	हरिया सान्थी नगर, पारपुर पो.आ., कोट्टाकल, जिला मालपुरम, केरल
91782	अभिलाष एम.जे. जैकब एम.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट	7740 27.12.02	मुथुपीदिका हाउस, ग्रामोथरनम रोड, ओलुर, जिला थरिसूर, केरल ।
91783	अभिलाष एस.आर. रवीन्द्रन पी.जी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर	7490 27.12.01	एस.एन.बी. बंगला, पटनापुरम, जिला कोल्लम, केरल ।
91784	अभिमान पी.एम. पावेर पी.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट	7640 15.7.02	अम्बट हाउस, चेस्वनुर पो.आ., मेणायुर वाया, जिला कोडिक्कोडु, केरल ।

91785	अबू बकर पी.ए. अब्दुल रहमान	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6979 20.02.99	पक्यारा हाउस, उदमा पो.आ., कसारगोड ।
91786	अबतार मोहम्मद पी.ए. अब्दुल रहमान पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २००३	7839 11.7.03	अबतार महल, इरीम्बिलियम पो.आ. वालनवेरी वाया, जिला मालपुरम ।
91787	अबू जे. मंगलासेरिल अबू जोसफ मंगलासेरिल	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्य साइंस, बंगलौर २००५	8315 23.2.05	मंगलासेरिल हाउस, मुडावूर पो.आ., मुबट्टुपुन्ना, जिला एर्नकुलम, केरल
91788	अबू बकर के. कुन्हाकुट्टी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8007 12.4.04	कुन्दुवायल हाउस, जरायिंगल, कडापुन्ना पो.आ., जिला मालपुरम, केरल
91789	अबी फिलिप फिलिप अब्राहम	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7625 10.7.02	वरिकनीकुन्नियल हाउस, वरामबेट्टा पो.आ., जिला व्थनाडु, केरल ।
91790	अचुथन पी. कलियेदन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8053 27.7.04	पनाचिकल हाउस, पो.आ. इडप्पट्टा, मेलोट्टूर वाया, जिला मालपुरम, केरल ।
91791	अग्नेस क्लीतस क्लीतस के.जे.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6993 6.3.99	कस्तुवीटी हाउस, पो.आ. इलायुलथ, लावूर, जिला थरिसूर, केरल ।
91792	अजल पी.जे. जयप्रकाशन पी.के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २०००	7221 4.8.2000	पुलाचिकट्टी हाउस, अस्पताल रोड, पो.आ. मन्नारकड, जिला पलक्कड, केरल
91793	अजलकुमार के.एस. सुब्रामनियन के.बी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २०००	7157 8.6.2000	कुन्नाथुल्ली हाउस, पो.आ. इडक्कलाथुर, जिला थरिसूर, केरल ।

91794	अजय पी. वासुदेवन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि.,चेन्नई १६६६	7142 31.3.2000	फलीरी हाउस, पो.आ. कूट्टेगड, जिला पलक्कड, केरल ।
91795	अजयकुमार एस. श्रीधरण पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २०००	7254 21.10.2000	एस.एन.वी. सदनम, पो.आ. चक्कुवराक्कल, जिला कोल्लम, केरल ।
91796	अजयन यू. उनीकृष्णन पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7287 22.11.2000	टीसी २७/१६३९, श्रीधरण, चिराकुलम रोड पुथेन रोड जक्शन, थिरुवनन्थापुरम ।
91797	अजी अलेक्जन्डर अलेक्जन्डर सी.जे.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	7018 16.7.99	कोच्चुपुराक्कल हाउस, के.पी. १-१६४, पो.आ. मुट्टडा, टीवीएम-२५ थिरुवनन्थापुरम ।
91798	अजील कुमार वी.पी. कुरुष वी.जी.पी.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि.,कोटायम १६६६	6734 22.1.97	एस.आई. बी कम्प्लैक्स, वर्वाट नं. .111/१, करशका रोड, जिला एर्नाकुलम केरल ।
91799	अजीथ पी.आर. पीथम्बरन पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7445 15.9.01	चेरुकारा वीडु, चेक्कलविलाकम, पो.आ. कडाक्कूर, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
91800	अजीथ ए. के.वी. रामाचन्द्रन नावियार	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईंसिस, बंगलौर २००४	8301 25.1.05	श्री देवी, पल्लिकारा रोड, पो.आ. पेरिया, जिला कर्नागोडु, केरल ।
91801	अजीथ जोस कुट्टीक्कट जोस के.जे.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००२	7545 16.3.02	पो.आ. थलक्कोट्टुकारा, कवेरी वाया, जिला थरिसूर, केरल ।
91802	अजीथ कुमार एम.एल. माधवन नायर के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6745 7.2.97	पलविला मलाय पुथेन बंगला, पो.आ. कडिक्कूर, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल

91803	अजीथ कुमार आर. रवीन्द्र कुरुप	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९६६	7134 3.3.2000	अरुण निवास, पो.आ. नैवकुलम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
91804	अजीथ कुमार टी.पी. पविथरन टी.के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १९६६	6750 29.3.97	थिरुथेक्कट्टु, कुरुपनकुलगारा पो.आ. चेट्ट पो.आ. चेरथला, जिला अलापुझा, केरल ।
91805	अजीथ कुमार वी. चन्दन वैद्यार बी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7621 9.7.02	तिन्नु निवास, पो.आ. थिरुवली, मंजेरी वाया, जिला मालपुरम, केरल ।
91806	अजीथ के.एस. संकरन नाबूदीरीपाद के.एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	7089 10.12.99	कनीयपूर माना, पो.आ. ब्रह्मकुलम, थलक्कड वाया, जिला थरिसूर, केरल ।
91807	अजीथ वी. विजयकुमार बी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7581 7.6.02	अजीथ भवन, पुल्लुकोनम, पो.आ. विझिजम, नेय्यट्टीनकारा, थिरुवनन्थापुरम ।
91808	अजीथा टी.आर. शशमल रामू टी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7654 16.7.02	शशमल हाउस, पल्लपराम, पो.आ. पोन्नानी, जिला मालपुरम, केरल ।
91809	अजीथकुमार के.सी. कोरन टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7354 15.3.01	अरस भवन, निकट ए.के.जी. स्टेडियम, पो.आ. कुट्टीक्कोल, थलिपरम्बा वाया जिला कन्नूर ।
91810	अजीथकुमार वी.एस. वासुदेवन नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7467 6.11.01	सुसी निलायम, टी.सी. ५०/४२७, क्काडी, पो.आ. करामना, जिला थिरुवनन्थापुरम केरल ।
91811	अजु जी. जार्ज ए. जार्ज कुट्टी	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	7960 6.2.04	वट्टाविला वीडु, पलकोड, पो.आ. एडक्कीडम, इडुकोन वाया, जिला कोलम, केरल ।

91812	अजुमल ए.एम. अहमद कुंजु लीबा	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००४	7980 9.3.04	नूरमहल, पो.बी. नोर्थ, पो.आ. थडवा, करुणागणपल्ली, जिला कोल्लम, केरल ।
91813	अम्बिका के.आर. जी. मुलीधरन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००४	8174 25.10.04	कोवुपनामगट्टु वीडु, पो.आ. कुन्नाथूर, जिला कोल्लम, केरल ।
91814	अम्बिका सोनी वी.एन. लक्ष्मनन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	7979 9.3.04	वरीसेरिल हाउस, पो.आ. मधुनम कालोनी, पुलपल्ली, जिला वनाडु, केरल ।
91815	अम्बिली के. के.पी. करुणाकरण	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	7884 28.11.03	कविनल हाउस, उलावुकाडु, पो.आ.नूरन्द, जिला अलापुझा, केरल ।
91816	अम्बिली प्रभाकर प्रभाकान नायर ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००९	7419 11.7.01	त्रिपुरा हाउस, पो.आ. चुंगथरा, जिला मालपुरम, केरल ।
91817	अम्बली दास एन. दास एन.सी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००९	7592 10.6.02	नीलन कविल हाउस, कयाकुन्दू रोड, अंगदीपुरम, जिला मालपुरम, केरल ।
91818	अमजय एस. ससिधरन के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००४	8181 25.10.04	चास्विलापुथेन वीडु, पो.आ. कितीकोल्लूर, पुनथलथाझम, जिला कोल्लम, केरल ।
91819	अमृथा एस. सोमनाथन टी.एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7862 10.10.03	सिवराविन्दम, के.पी. ८/३५६, पो.आ. कराकुलम, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
91820	अमरुथा आर. नायर रामाचन्द्रन नायर पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7825 6.6.03	अमरुथा राज विहार, पो.आ. वराप्पेट्टी, कोथमंगलम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।

91821	अमुदा जी.आर. गोपीनाथन नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	7023 17.7.99	गोकुलम, पक्कालूर, पो.आ. पत्तलीचल, टी.वी.एम.-२०, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
91822	आनन्द थामस थामस के.पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६८	7013 28.4.99	कल्लुराक्कल हाउस, कल्लुपलाम रोड, अंगामली, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
91823	आनन्द बी. सेथु माधवन के.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7818 6.6.03	अतुल्य कोविलाकम रोड कोट्टपायी, कोट्टाक्कल, जिला मालप्पुरम, केरल
91824	आनन्दा लक्ष्मी के.एन. कृष्णन नायर आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६८	6915 18.8.98	'निर्मल' ई-२४, सास्त्रीनगर, कारमाना, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
91825	आनन्दारमण पी.बी. वेंकटरामा शर्मा पी.ए.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००२	8029 17.5.04	अनन्था निवास, पो.आ.पाडी, कोडली, जिला थरिसूर, केरल ।
91826	अंची पी. सन्नी सन्नी पी.जे.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६८	6862 24.4.98	क्वार्टर नं. ए-१७, फ़ैक्ट टाउनशिप, उदयोगपण्डल, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
91827	अंगना टी.टी. टी.टी. अरविन्दरत्न	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००४	8215 15.12.04	पेरिल्लमकन्दीपील हाउस, पो.आ. पुडुपानम, वटकारा, जिला कोझिकोडु, केरल ।
91828	अनी पदमानथान पदमानथान टी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६७	6951 22.12.98	थलामिट्टाथे हाउस, पो.आ. एडवनाक्कड, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
91829	अनिल अलेक्जन्डर अलेक्जन्डर टी.के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7390 29.5.01	पदीपुराक्कल थेंगुविलायिल, पो.ओ.कोमल्लूर, चासमिडु वाया, जिला अलापुझा ।

91830	अनिल कुमार एस. सिवकुमारन नायर पी.आर.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००४	7964 1.3.04	सिव राधा, जिला कोर्ट वाई, पो.आ. थथमबल्ली, जिला उलापुझा, केरल ।
91831	अनिल कुमार आर. राघवन जी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7258 24.10.2000	मंगलाविल वीडु, मुरुकोनम, पो.आ. वैजरापुडु, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
91832	अनिल वी. कैमल वासुदेवा कैमल टी.एन.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १९६६	6902 22.6.98	‘श्रीनिलायम’ पो.आ.थरिक्कारियूर, कोयमंगलम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
91833	अनिल जी. गोविन्दा शैलेश वी.वी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १९६७	6794 6.8.97	वलिथा परम्बुपुरेन माधम कलाडी रोड, पेरुम्बवावूर, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
91834	अनिला एम. एस. मुल्लीधरन नायर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००४	8185 25.10.04	ससुथी ए-६२, श्रीनगर, वैचवोड, श्रीकरियम, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
91835	अनिला आर.एस. रामावन्न नायर एस.	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पू वि.वि., शंकरघट्टा २००१	7426 17.7.01	सुराविला, के.पी. लेन, पो.आ. पेरुत्तकाडा, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
91836	अनिल कुमार पी. प्रसन्ना कुमार	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7389 29.5.01	मनालिल पदिनजट्टथील, कुरियुझा, पो.आ. कवनाडु, जिला कोल्लम, केरल ।
91837	अनीश जर्ज मैथु कुरियस मैथु कुरियस	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पू वि.वि., शंकरघट्टा २००१	7469 6.11.01	कुरियस हाउस, पो.आ. कट्टमपक, जिला कोट्टायम, केरल ।
91838	अनिथा मैथु मैथु टी.सी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7694 21.10.02	थलकुलाथी हाउस, पो.आ. अथीओडी, कूराचुन्दु, जिला कोझिकोडु, केरल ।

91839	अनिषा सुकुमार के. सुकुमारन के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	7011 8.4.99	पत्नी पीथम्बरन एन.एन. नेल्लीपरम्बिल हाउस, पो.आ. इलयुरुथ, जिला थरिसूर ।
91840	अनिषा वर्गज वर्गज ई.टी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६७	6772 15.5.97	इन्दुरायिल एयेन वीडु, पो.आ. पेरुनगला, कयमकुलम, जिला अलापुझा, केरल ।
91841	अनिषा बी. सहदेवन एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६८	6910 17.8.98	लक्ष्मी मन्दिरम, चेन्नैसेरी भागम, पो.आ. चावरा, जिला कोल्लम, केरल ।
91842	अंजलि सिवाराम सिवारमण नायर पी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7521 14.3.02	वृन्दावन, चलक्कारा, न्यू महे, महे जिला कोझिकोडु, केरल ।
91843	अंजलि वी. जी.बालाकृष्णा कुरुप	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईसिस, बंगलौर २००४	8087 13.9.04	पुथूर हाउस, पो.ओ. कदुमभागम, थिरुवत्ता, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
91844	अंजना कृष्ण राधाकृष्णन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईसिस, बंगलौर २००४	8160 13.10.04	स्वपना निवास सात्री रोड, वाडुथला, कोचीन, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
91845	अंजना एन. वी.एन. नारायणा पिल्लई	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईसिस, बंगलौर २००४	8132 25.9.04	नाम्बियानायु हाउस, पो.आ. फातिमापुरम, चंगासेरी, जिला कोट्टायम, केरल ।
91846	अंजना नाम्बियार टी.के. नाम्बियार	बी.ए.एम.एस. गोआ वि.वि., गोवा २००३	8314 23.2.05	कोट्टन हिल रोड, वर्षा, तिरुवनुर, जिला कोझिकोडु, केरल ।
91847	अंजना रामचन्द्रन रामचन्द्रन नायर	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १९६६	7138 -31.3.2000	नारायणा मन्दिरम, पो.आ. ऊरमाना, जिला एर्नाकुलम, केरल ।

91848	अंजना एम. नारायणस्वामी के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7250 16.9.2000	नीलामना रोशनी, पो.ओ. इरियेल्लुर, चेलानुर, जिला कोडिकोडु, केरल ।
91849	अंजू सी नायर चेल्लपन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8098 13.9.04	ईशकुन्नेल हाउस, पो.आ. किझकोबु, कूशट्टुकुलम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
91850	अंजू थामस थामस वी.जे.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	7955 3.2.04	अंजलि टी.सी. १३/७६६, वदयाक्काडु जंक्शन, पो.आ. कुन्नुकुडी, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
91851	अंजुनाथ ए. पदमानथान पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7893 5.12.03	कनकश्री हाउस, निकट अनक्कुझिक्कारा, पो.आ. पोवट्टुपरम्बा, जिला कोडिकोडु, केरल ।
91852	अन्ना पाल के. पाल जोसफ के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7742 27.12.02	किझक्केदथ हाउस, पो.आ. थीक्काट्टुसेरी, ओल्लूर, जिला थरिसूर, केरल ।
91853	अनूप वी.आर. रामचन्द्रन वी.ए.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि वि.वि., चेन्नई १९६६	7035 17.9.99	वेनमेनाड हाउस, पो.आ. पावरट्टी, जिला थरिसूर, केरल ।
91854	अंसी मैथु मैथु पी.जी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	7001 6.3.99	पुथेनपुराक्कल हाउस, पो.आ. पथोले, टी.सी. आर. ४, जिला थरिसूर, केरल ।
91855	अन्दोनी के.ए. के. आई. अंग्स्टीन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	7989 29.3.04	कच्चापिल्ली हाउस, कोडुंगल्लुर, जिला थरिसूर ।
91856	अनुपा जी. पंक्कजन्तन टी.एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7455 18.10.01	अम्पाडी, थोन्नाल्लूर, पो.आ. पंडालम, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।

91857	अनुपमा कृष्ण अनन्या कृष्ण	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7594 10.6.02	आनन्दापदमान, एडुकोडे, पो.आ. नेमोम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
91858	अनुपमा वी.के. मोहनदास एम.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7529 14.3.02	श्रीनिलायम, ऊराकम मेलमुरी पो.आ. जिला मालप्पुरम, केरल ।
91859	अनुराग तलवार कैलाश तलवार	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १९६८	7043 25.9.99	देवी कृपा धन्वन्तरी नगर, सी.एन. पुरम पो.आ. जिला पलक्कड, केरल ।
91860	अंजी एम.एस. ए.के. मोहम्मद कुंजु	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हेलथ साइंस, बंगलौर २००४	8214 22.11.04	शनीना मंजिल, मिक्क सोसायटी रोड, बी स्ट्रीट, पो.आ. नानथावाडी, जिला व्यनाडु ।
91861	अपर्णा दास टी.आर.एस. दास	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हेलथ साइंस, बंगलौर २००३	7987 9.3.04	कुन्नुमपुरथ, वाडुवाडी, पो.आ. थडक्करा, मेवलिककरा, जिला अलापुझा, केरल ।
91862	आरथी पी.एस. सुन्दरा गौड़ा पी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर, केरल वि.वि. १९६०, १९६४	6944 23.11.98	कनकमपल्लम फार्म, नल्लेपिल्ली पोस्ट, जिला पलक्कड, केरल ।
91863	अरविन्द ए.वी. वासु ए.आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7775 1.2.03	अलपट हाउस, पो.आ. अरिम्पुर, जिला थरिसूर, केरल ।
91864	अरिफा वी.पी. अबूबाकर वी.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7763 31.12.02	वालुपोथिल हाउस, पो.आ. कक्कावायल, वाया कलपेट्टा, जिला व्यनाडु, केरल ।
91865	असलिन निसम कबीर कबीर वी.सी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २०००	7252 10.10.2000	निराम कोटेज, पो.आ. वडाक्केवी, अलायुर, जिला पलक्कड, केरल ।

91866	अशाद पी. अब्दुल सलाम पी.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7350 13.3.01	दारुस्सलाम, कुरुपय कोनदोली, जिला मालप्पुरम, केरल ।
91867	अस्ल ज्योथी आर. राजा सिंह वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7826 6.6.03	किन्नक्केवीडु, पो.आ.शट्टमला, जिला कोल्लम
91868	अरुणा एस.एस. नाम्बूथी के.एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7224 10.8.2000	शैवास, टी.सी. ३४/७३५, एसआरए-४८, पो.आ.वट्टीथूरकावु जिला थिरुवनन्थापुरम ।
91869	अरुणथी के.एस. संकरण के.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7459 18.10.01	कुटोथ हाउस, पो.आ. एडाथिरिनी, वाया इरिजलाकुडा, जिला थरिसूर, केरल ।
91870	अरुणकुमार आर. रामकृष्ण	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8217 15.12.04	अरुणोदयम, मुल्लेशेरिचिरा, मुहम्मा पोस्ट, चेरथला, जिला अलापुझा, केरल ।
91871	अरुणकुमार बी. वासु आचरी आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९८	6961 24.12.98	वलिया वीडु, पो.आ.अरकुलम, जिला इडुक्की ।
91872	आर्य पी.ई. पी.ई. कृष्णन नाबूदीरी	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8318 23.2.05	थैक्कटुमना, आनन्दापुरम, जिला थरिसूर ।
91873	आशा बोहरा भीम सिंह बोहरा	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8123 25.9.04	ग्राम मुदियानी, पी.ओ.टी.क्यू. जिला चम्पावट उत्तरांचल स्टेट ।
91874	आशा जार्ज थामस जार्ज थामस	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8195 6.11.04	मडोलिल हाउस, पो.आ. पुल्लड, थिरुवल्ला जिला पठनमथिट्टा, केरल ।

91875	आशा रानी एम.एस. अभ्युपन एम.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7453 4.10.01	२६, कलपका नगर, चक्कल, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
91876	आशा रानी एस.एस. सिवानन्दन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7398 11.6.01	के.वी. निवास, पो.आ.अय्यथी, कोल्लम-१९, जिला कोल्लम, केरल ।
91877	आशा ए. अणुकुट्टन पिल्लई आर.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोट्टायम १९६६	6725 16.1.97	गीथा भवन, पो.आ. चोथीपारा, जिला इडुक्की, केरल ।
91878	आशा पी. पीथम्बरन ई.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7201 5.7.2000	आशा मन्दिरम्, रविपुरम रोड, कोची, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
91879	आशा पी. सदानन्दन पी.के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7716 19.11.02	पुत्तियास्सेरी मना, मन्नारकाड, जिला पलक्कड, केरल ।
91880	आशा एस. करुणाकरन पी.के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7772 1.2.03	पंचाविलियल हाउस, मल्लिका, पो.आ. थट्टायिल, वाया पंडालम, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
91881	आशा एस.टी. ध्यागराजन सी.एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६७	6780 20.5.97	'वृन्दावनम्' इन्दिरा गांधी रोड, कुरुक्कनी, वरक्का, पो.आ. थिरुवनन्थापुरम ।
91882	अशिवा वासुदेवन वासुदेवन सी.एच.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९६७	6800 6.8.97	'गोहिणी', पट्टुरैक्कल, थरिसूर, केरल ।
91883	असीष राफेल पी. राफेल पी.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7738 27.12.02	परमबन हाउस, पो.आ. चिथयाराम, जिला थरिसूर, केरल ।

91884	आस्कर अली थोदेगल मोहम्मद अली टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7626 10.7.02	थोदेगल हाउस, पो.आ. अरिपरा, अंगदीपुरम, जिला मालप्पुरम, केरल ।
91885	अस्वथी मोहन मोहनन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ. हेल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8089 13.9.04	उषास, अदूरम्बु, मुवट्टुपुझा, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
91886	अस्वथी एस. राजेन्द्रन नायर के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7514 28.01.02	अंजलि टेम्पल रोड, पो.आ. थिरुवल्लम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
91887	अथिरा पाणिकर रविन्द्रनाथ पाणिकर के.आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7672 26.7.02	देवी कृपा, अम्बट्टुपलायम, चिट्टूर कालेज पो.आ., जिला पलक्कड केरल ।
91888	अगस्टीन फिदासि ई. एडवर्ड फिडालिस	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7746 28.12.02	रेनु निवास, टी.सी. ४५/८६५, वैटस रोड, वलिपथुरा, पो.आ. वल्लक्कडावु, थिरुवनन्थापुरम
91889	आजमी एम. राज मोहम्मद राजा	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7808 4.6.03	हिदायथ, अलीसेरी वाई जिला अलापुझा केरल ।
91890	बबिया ई. गोपालाकृष्णन के.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ. हेल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	7968 3.3.04	मनोहर हाउस, पो.आ. सिविल स्टेशन, जिला कोझिकोडु, केरल ।
91891	बबिया कुमारी बी. हरिदासन नायर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7131 3.3.2000	कैलासमन्दिरम, कोट्टक्कल, जिला मालप्पुरम, केरल ।
91892	बेबी सुमद्रा के. रामाकृष्णन एम्बान्थीरि	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7328 26.2.01	नारायणालायम, पो.आ. थरिक्कलानगोडे, मंजेरी, जिला मालप्पुरम, केरल ।

91893	बैजू पी.आर. राधुवन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7555 16.3.02	पल्लथेरी हाउस, पो.आ. मुरिकीनगल, जिला थरिसूर, केरल ।
91894	बाजीसेन वल्लभासेरी आर. सुदेवा पाणिकर	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९९७	6812 20.9.97	वल्लभासेरिल हाउस, पो.आ. पल्लम, जिला कोट्टायम, केरल ।
91895	बालाकृष्ण एम.टी. शनकालू एम.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7304 11.1.01	मेक्कोट्टील हाउस, पेलक्कट्टुपय्यूर, कून्ममूची, जिला थरिसूर, केरल ।
91896	बालामुरली गोपालाकृष्णन भट्ट बी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९९७	6810 20.9.97	'भिरिनिवास' पो.आ.एडनीर, वाया चेंनाला, जिला कसारागोडु, केरल ।
91897	बालासुब्राह्मणियन पी. पासुपलान जी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7832 12.6.03	थट्टाट्टे किझक्कथिल, पो.आ. मंगद, जिला कोल्लम ।
91898	बालासुब्राह्मन्या एस.. हरिकृष्णा भट्ट एस.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९९४	6811 20.9.97	सिद्दन्कैरे हाउस, पो.आ. मुलियूर जिला कसारागोडु, केरल ।
91899	बतराज बी. पेराक्कुटी बी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २००१	7422 11.7.01	वेलुथाय हाउस, पो.आ. कनथुर, वाया कुन्नामंगलम, जिला कोझिकोडु, केरल ।
91900	बासपिन के. धरमन के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7204 5.7.2000	इन्द्रप्रस्थम, पो.आ.वलापद, जिला थरिसूर ।
91901	बीगुम फौसिया एस.एम. शाहउल हमीद	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7375 28.4.01	शमीर निवास, हाउस नं. ४१, मैत्री नगर, श्रीकरियम, थिरुवनन्थापुरम ।

91902	बीना ए.जी. एम. गोपालकृष्ण पिल्लई	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	8024 17.5.04	प्रसादम, पो.आ.मंगद, जिला कोल्लम, केरल ।
91903	बीना के.टी. पी.एन. राजन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7901 5.12.03	चिथरमल्ली हाउस, पो.आ. करुमबरम, मंजेरी, जिला मालपुरम, केरल ।
91904	बीना के. दास सथ्यदास जे.आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि., १६६६	7050 18.10.99	कार्थिकापल्ली वीडु पौनगुम्मडु मेडिकल कालेज पो.आ., थिरुवनन्थापुरम ।
91905	बीना एम.डी. धामोयन नायर पी.जी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६६	7147 22.5.2000	मरनाट्टु हाउस, पो.आ.पुथुसेर्मिला, रन्नी, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
91906	बीना पी. वासुदेवन के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २०००	7325 14.2.01	निलाबुर वैद्यसाला, पो.आ. निलाबुर, जिला मालपुरम, केरल ।
91907	बीना पी.जी. गोविन्दनकुट्टी सी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7109 23.12.99	अक्षय कक्कीदीपुरम, पो.आ. अलनकोड, जिला मालपुरम, केरल ।
91908	बिजोय वी.जे. जर्नादन वी.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7321 12.2.01	वडुकुमचेरी हाउस, थरिथल्लुर वेस्ट पो.आ., जिला थरिसूर, केरल ।
91909	बेन्नी मैथु मैथु वर्गज	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7416 7.7.01	पुल्लनगिकलायिल हाउस, पो.आ.एलमनूर, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
91910	विनय एन.जे. जर्नादन एन.के.	बी.ए.एम.एस. एस.सी.एस.वी.एम.कांचपुरम २००२	7602 1.7.02	नजराकल हाउस, पो.आ.वेल्लारामकुन्नु, कुमिल, जिला इडुकी, केरल ।

91911	भाय लक्ष्मी पी. पंकजाक्षन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8097 13.9.04	अम्बाडी, पो.आ. पुनपरा, जिला अलापुझा ।
91912	शविद्या उमानाथ उमानाथ के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९६८	6930 17.9.98	५/६८१, 'यादव' रास्तिम रोड, जिला कोझिकोडु, केरल ।
91913	बीबी कैथरीन अन्टोनी जोसफ अन्टोनी	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8092 13.9.04	इल्लीमट्टील हाउस, पो.आ. अन्थीनाडु, पत्ता, जिला कोट्टायम, केरल ।
91914	बिबीन एम. जैकब ए.टी. चाको	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8019 22.4.04	अस्मथारा हाउस, पो.आ. कैथपराम, कन्नूर केरल ।
91915	बिजी गोपीनाथन केसवन गोपीनाथन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	8226 21.12.04	बिजी कोटेज, सिवागिरी रोड, पो.आ.वरकला, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
91916	बिजी वी.वी. विसम्भरन वी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8311 5.2.05	वेल्लमपरम्बिल हाउस, पो.आ.पलाझी, वाया पुडुक्कड, जिला थरिसूर, केरल ।
91917	बिजी एम.एस. माधवन के.एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7184 5.7.2000	श्री निलायम, पो.आ. कूट्टानड, जिला पतक्कड, केरल ।
91918	बिजय के. कुन्हीरामण कम्पनगद	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8040 17.5.04	एडम्बानुर हाउस, पो.आ. मेप्पायूर, जिला कोझिकोडु, केरल ।
91919	बिजय वी. बालाकृष्णन वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7623 10.7.02	वलिपपुराक्कल हाउस, पो.आ. मेरिन्थलमना, जिला मालप्पुरम, केरल ।

91920	बिजु बालाकृष्ण एन. बालाकृष्ण एन.आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7202 5.7.2000	श्रीवालसम, पो.आ. नन्दीक्कारा, जिला थरिसूर ।
91921	बिजु के.वी. राधवन नायर के.वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7357 16.3.01	गुथेनथेरुविल, थाचमपोयिल, थामरासेरी, जिला कोझिकोडु, केरल ।
91922	बिजु एम.एस. माधवन एम.	बी.ए.एम.एस. डा.ए.एम.जी.आर.मेडे.वि.वि., चेन्नई १९९७	6781 30.5.97	'सुस्थ' पो.आ. मीनानाडी, जिला व्यनाडु, केरल ।
91923	बिजुमोन ओ.सी. चेरियनकन ओ.सी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7415 7.7.01	ओट्टमावलिल हाउस, पो.आ. कुमानल्लूर, वाया मुक्कोम, जिला कोझिकोडु, केरल ।
91924	बिलकिम सी.के. कादर के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7664 16.7.02	चट्टुकुलनगरा हाउस, पो.आ. करिकड, विल्लानूर, जिला थरिसूर, केरल ।
91925	बिमल सी.ए. अय्यप्पन सी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7823 6.6.03	अथिरा प्लोट नं. ५३८, ६वीं तैम, एम.जी. एम.जी. नगर, पो.आ. पुनकुन्नु, जिला थरिसूर ।
91926	बिमल एम.बी. भास्करन एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7660 16.7.02	सौपरनिका, पो.आ. मूझिक्कारा, थलासेरी, जिला कन्नूर, केरल ।
91927	बिन्नु जौन जौन डी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7708 11.11.02	कुझिनाझिकाथ हाउस, नादुथेरी, पो.आ. थलायूर, जिला कोल्लम, केरल ।
91928	बिन्नु बी.एस. भास्करन एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९९	7027 6.9.99	बिजु सदनम, पो.आ. पनथलाकोडे, वाया वट्टापाया, जिला थियवनन्यापुरम, केरल ।

91929	बिन्दु वी. येसेथरन के.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोट्टायम १६६६	6735 22.1.97	कन्दलथिल हाउस, आदिनाडु साउथ, पो.आ. कुट्टीकडवु करुणागपल्ली, कोल्लम ।
91930	बिन्दु जोसफ जोसफ के.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६७	6788 8.7.97	कनीट्टुकन्दाथिल हाउस, पो.आ. कूदरन्ही, जिला कोझिकोडु, केरल ।
91931	बिन्दु कमलोलभावन कमलोलभावन एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६८	6894 2.6.98	पुथुपरम्बिल हाउस, पो.आ. कुलाथुमोन, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
91932	बिन्दु मेनन के. मेनन जी.के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7724 19.11.02	कोथरामठ हाउस, माथुर ईस्ट, जिला पलक्कड, केरल ।
91933	बिन्दु विजयन एन. विजयन एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7370 23.4.01	चुटुकट्टील हाउस, मुन्दुपरम्बा जिला मालप्पुरम, केरल ।
91934	बिन्दु के.के. कुंझन के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६७	6791 18.7.97	'अस्वथी', कोलाझी परम्बिल, पो.आ. चलीस्सेरी जिला पलक्कड, केरल ।
91935	बिन्दु के.आर. कुमारा स्वामी	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7238 10.8.2000	पेरूर विलाकठ हाउस, कस्मानूर, पो.आ. परासला, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
91936	बिन्दु पी.पी. प्रभाकरन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट. १६६८	7114 23.12.99	द्वारा शाईन वैदयन, ए.के. अराक्कल हाउस, नं. ३५/१२३१, इन्दिरा रोड, प्लारिवाट्टम. जिला एर्नाकुलम ।
91937	बिन्दु पी.बी. (पुलिपरम्बिल) बालाकृष्णन पी.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६८	6865 24.4.98	पुलिपरम्बिल हाउस, 'द्वारका' पो.आ. कूरकेनचेरी, जिला थरिस्सूर, केरल ।

91938	बिन्दु एस. मोहनन नाथर के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६७	6773 15.5.97	'एश्वर्या' टी.सी. १०/१८५२, निकट आईएस कालोनी, पो.आ., वट्टीयूरकावू, थिरुवनन्थापुरम ।
91939	बिन्दु एस. रवि वर्मा के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६८	6913 18.8.98	लक्ष्मी विलास, पो.आ. येवानूर, अयूर वाया, जिला कोल्लम, केरल ।
91940	बिन्दु वी. केला वर्मा	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६८	6972 20.2.99	'लक्ष्मी' पो.आ. वयालूर, चेयल्ला, जिला अलापुझा, केरल ।
91941	बिन्दु वी.के. कृष्णन कुट्टी वी.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7530 14.3.02	वरियमट्टु, कल्लुस्ट्टी, थिरुवमपाडी, जिला कौन्किक्कोडु, केरल ।
91942	बिन्दुमोल एस.के. राधाकृष्णन.सी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7551 16.3.02	बिन्दु निवास, चियानूर, पो.आ. कोक्कु, जिला मालप्पुरम, केरल ।
91943	बिनी उपेन्द्रन उपेन्द्रन एन.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि., १६६८	6960 24.12.98	'उल्लास', पो.आ. थट्टामला, जिला कोल्लम ।
91944	बिनो जोस जोसफ के.वी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7591 10.6.02	टी.सी. ४८/१०७६, अम्बलथारा, पो.आ. पून्थुरा टीवीएम-२६, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
91945	बिनो टी.जे. शमरक्षन वी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7851 8.10.03	एश्वर्या, नेल्लीमुक्कु, पो.आ. थिरुमुल्लावरम, जिला कोल्लम ।
91946	बिनो जेवियर जेवियर एम.ओ.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7739 27.12.02	मंगन हाउस, लैनिन नगर, पो.आ. मन्थी जिला थरिसूर, केरल ।

91965	चान्दी जार्ज जार्ज के.सी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६७	6740 7.2.97	कनियमपाडी, फैक्ट्री वार्ड, जिला अलापुझा केल ।
91966	विधम्बरा बाबू एम. मुथमपरुमल पिल्लई सी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६७	6743 7.2.97	मेले वीडु, निकट श्री मठारामन कोईल, पो.आ.नेडुमंड, थिरुवनन्थापुरम ।
91967	चिनचिनामोल एम. एम.टी. जया	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैलथ साईंसिस, बंगलौर २००४	8083 13.9.04	जया सौधम, पो.आ.कुट्टीकाट्टुक्करा, अल्लुरम, कलामसेरी, जिला एर्नाकुलम ।
91968	चिथरा कुमार पी. गंगाधरन पी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २००१	7460 18.10.01	चन्द्रिका आयुर्वेदिक फार्मसी, चेस्वनुर, पो.आ. फेरोंके, जिला कोझिकोडु, केरल ।
91969	चिथरा एम. पी.के. मोहनन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैलथ साईंसिस, बंगलौर २००४	8194 6.11.04	पलाक्कुडियिल हाउस, पो.आ. सेनापथी, सन्थनपारा, जिला इडुक्की, केरल ।
91970	चिथरा एम.बी. मुकुन्दा कर्मा जी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7562 27.3.02	हरि निवास, थेक्कुमथागम, त्रिपुनिथुरा जिला एर्नाकुलम, केरल ।
91971	चित्रा आनन्द पी.डी. चिदानन्दन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7868 13.10.03	पट्टथिल हाउस, पो.आ. कोट्टामुरी, चंगनावैरी, जिला कोट्टायम ।
91972	चित्रा कृष्णन के. कृष्णन के.वी.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २०००	7196 5.7.2000	असुस, साइलेन्ट लेन, थरिसूर-४, जिला थरिसूर, केरल ।
91973	चित्रा ए. सैमुएल अंसेलम सैमुएल	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7396 8.6.01	विनोद भवन, पो.आ. नेमोम, टीवीएम-२०, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।

91974	सिनी एस. साध्य सीलन बी.	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंस, बंगलौर २००२	7892 28.11.03	उषास, निकट बदम जक्शन, पो.आ.एडुकोन, जिला कोल्लम, केरल ।
91975	सिनी सी.चन्द्रन चन्द्रासेकरन सी.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7091 10.12.99	चून्नापुराक्कल हाउस, सान्थी नगर, पो.आ. मन्थी, जिला थरिसूर, केरल ।
91976	दया सी. एस. संकरानारायण प्राणिकर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	8190 6.11.04	मुनील भवन, टी.पी. साउथ, हरिपद, जिला अलापुझा, केरल ।
91977	दीपा यू.एन. निर्मलानन्दन के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६८	6906 10.8.98	'अस्वथी', अम्बलानगर, कोडियर, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
91978	दीपा जोस जोसफ के.जे.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7346 13.3.01	कोनूर हाउस, पो.आ. आदिमली, जिला इडुक्की ।
91979	दीपा पी. बालन पी.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	7974 3.3.04	दीपंजलि, टी.सी. ११/१२६०, पो.आ. मन्थी, जिला थरिसूर, केरल ।
91980	दीपा बी. नायर बालाचन्द्रन नायर जी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7713 19.11.02	पुथुपरम्बिल हाउस, पो.आ. इलिकुलम,, वाया पूवारानी, जिला कोट्टायम, केरल ।
91981	दीपा जी. गोपाला कृष्ण सम्रा एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7611 2.7.02	राजी निवास, नोर्थ स्ट्रीट, काझक्कुटोम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
91982	दीपा के. गोविन्दनकुट्टी के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7351 15.3.01	श्रीवाल्सम, निकट देवकी क्लीनिक, पो.आ. एम.जी कावु, जिला थरिसूर, केरल ।

91947	बिजोई के. कुन्हीरामण	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २०००	7272 10.11.2000	एडाम्बान्नूर हाउस, पो.आ. मेण्णयुर, जिला कोडिक्कोडु, केरल ।
91948	बिनय ए.पी. चन्दु ए.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7164 5.7.2000	बिनोय निवास, थामरासेरी, कुलगम, जिला अलापुझा, केरल ।
91949	बिनय बी. भास्करन के.आर.	बी.ए.एम.एस. कुन्नेम्पु वि.वि., शंकरघट्टा १९६६	7121 1.2.2000	करुणाट्टु हाउस, पो.आ. मनियारनकुडी, जिला इडुक्की, केरल ।
91950	बिनु अलापत ए. अन्तेनी अलापत पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर. मेडि.वि.वि., चेन्नई २००२	7634 15.7.02	अलापत भवन, पो.आ. वेलियानूर, जिला थरिसूर, केरल ।
91951	बिनु बी. नायर एन. भास्करन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००४	8018 22.4.04	सरस्वती निवास, पो.आ. थिरुवल्लोम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
91952	बिनु सी. नायर पी.आर. चन्द्रसेखरन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००३	7910 9.12.03	पुलिकल हाउस, पो.आ. अरुनूटीमंगलम, जिला कोट्टायम, केरल ।
91953	बिनु जे.अब्राहम पी.जे.अब्राहम	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	7957 6.2.04	ग्रेस विल्ला, एरावनकरा, पो.आ. कुन्नोम, मवेलिक्करा, जिला अलापुझा, केरल ।
91954	बिनु राज आर. राजेन्द्रा कुरुप एन.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर. मेडि.वि.वि., चेन्नई २०००	7146 22.5.2000	अराधना, थोन्नाल्लूर, पंडलम, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
91955	बिनु के.बी. बालन के.के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7809 5.6.03	कट्टूर वडक्कुमारी हाउस, पो.आ. कट्टूर, जिला थरिसूर, केरल ।

91956	बिनु पी.के. विश्वनाथन पी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7749 28.12.02	लीना विहार, नट स्टीट पो.आ. पंक्थला वडकारा-४, जिला कोझिकोडु, केरल ।
91957	बिसिनी एस. स्यामतन के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7801 7.5.03	वेमथी, टी.सी. ८/१०८०, एलआईसी कालोनी रोड, पोन्गुमोडु, मेडिकल कालेज पो आ, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
91958	बिया मोल बेबी के.ए. बेबी	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., वेल्नई २००३	8121 25.9.04	किङ्गफरमबिल, मंगलागिरी, पो.आ.ओलिमकादव जिला पलक्कड, केरल ।
91959	बोबी एम.आई. इदीवन्दी जी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7593 10.6.02	मनीमलायिल, पो.आ. चेन्नकुलम, ओयूर जिला कोल्लम, केरल ।
91960	ब्रैविन कामली आर. डानियल सी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7709 11.11.02	लाल भवन, कुराक्कोडु, पो.आ.कुदायल, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
91961	बरिजुला पी.एन. नारायणन पी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7173 5.7.2000	मथवा फार्मसी, पी.टी. उषा रोड, जिला कोझिकोडु, केरल ।
91962	चैथन्या आर. मेनन राधाकृष्णन मेनन पी..	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६७	6790 18.7.97	कोट्टील्ल मराठ हाउस, मरार रोड, जिला थरिसूर, केरल ।
91963	चान्दना बी. ए.टी.बी. नारायणन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	7932 20.12.03	चैथन्या, माईलादाथडम, पो.आ. अझिकोड, जिला कन्नूर, केरल ।
91964	चाव्दीनी बी.एल. पद्मानाथन सी.के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १९६८	6939 23.11.98	२६/२३१ 'स्वीट होम', पो.आ.कुथिरावट्टोम, जिला कोझिकोडु, केरल ।

92001	दीप्ति एम.यू. उन्नी.वी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7307 12.2.01	मन्नालिल हाउस, पो.आ. वडक्कुराम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92002	दीप्ति टी.आर. रामावर्धन पणिकर टी.एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6739 7.2.97	थोपिल वेस्ट हाउस, पो.आ. ईस्ट थेडुप्पा, जिला इडुक्की, केरल ।
92003	दीप्तिताल पी.एल. र. जेन एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7583 7.6.02	कोट्टुवेदुसविला, विक्रमेथील वीहु, एडवनासेरी, पो.आ. मईनापल्ली, कल्लणापल्ली, जिला कोल्लम ।
92004	दीप्ति एम.एन. नन्दाकुमार के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २०००	7271 10.11.2000	मईनारा हाउस, पो.आ. वेलियमबम, पुलपल्ली, जिला ब्यनाडु, केरल ।
92005	देमिली मैथु टी.एम. मैथु	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8093 13.9.04	थुडाथिल हाउस, पो.आ. नेडुमनी, कांगड़ा, जिला कोट्टायम, केरल ।
92006	देवराजन एम. मोहनन नायर पी.पी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	7067 26.11.99	अथुरासंजीवनी आयुर्वेदा वैद्यसाला, पो.आ. कुरिचिकरा, जिला थरिसूर ।
92007	देवी एस. राज वी.एस. राज	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००२	7935 9.1.04	थोपिल हाउस, पो.आ. नेडुमोन, एन्नमकुलम अडुर, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92008	देवी टी.एस. सथराजन टी.आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7099 10.12.99	देवी निवास, सामने पुराना कैनरा बैंक, पो.आ. वडकनवेरी, जिला थरिसूर, केरल ।
92009	देवीवास ए.के. कृष्ण ए.सी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7209 5.7.2000	अथरापिल्ली हाउस, पो.आ. करिकड, जिला थरिसूर, केरल ।

92010	धन्या एम.के. एम. कुमार	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7902 5.12.03	मचेरी हाउस, पो.आ. पुरंगु, कन्हीरामुक्कु, पोनानी, जिला मालपुरम ।
92011	धन्या उमानाथ उमानाथ के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7179 5.7.2000	यादव, निकट पासपोर्ट आफिस, पो.आ. इरुनहिपालम, जिला कोझिकोड, केरल ।
92012	धन्या एम. बालागोपालन नायर ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7347 13.3.01	कृपा, पो.आ. नल्लूनाडु, थानीवाल, मन्नथावाडी, जिला व्यानाडु, केरल ।
92013	धन्या आर.देव सुदेवन के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7706 11.11.02	कोचुपनदराक्षिकु हाउस, एसआरपीएम पो.आ. थन्नवा, करुणागापल्ली, जिला कोल्लम ।
92014	धन्या एस. संकरा पिल्लई, ए.के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7587 10.6.02	टी.सी.२८/५७७, कृष्णन कोविल रोड, कैयमुक्कु, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92015	दिलीप कडनकोत करुणाकरन सी.के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २००१	7568 1.4.02	विश्वनाथ फार्मसी, वनकुलथ वायल, पो.आ. अझिकोड, जिला कन्नूर, केरल ।
92016	दिलीप कुमार टी.बी. करुणाकरन टी.बी.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	7894 5.12.03	दिव्या निवास, निकट रेलवे गेट, पो.आ. पदनकड, जिला कन्नाराडु, केरल ।
92017	दिलीप कुमार जै. गुनाचन्द्र नायक एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7239 10.8.2000	वसन्थम, उलावैपु, पो.आ. चेरथला, जिला अलापुझा, केरल ।
92018	दिलीप कुमार पी.पी. पुरुषोत्थमन एन.	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पू वि.वि., शंकराधट्टा १९६७	6931 28.9.98	अम्बुजा निवास, पो.आ. उदयमपेरुर, जिला एर्नाकुलम, केरल ।

91983	दीपा एल. उनीकृष्णन् नायर एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7554 16.3.02	कृष्णाश्री, पो.आ.शुवायूर साउथ, कदमपानड, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
91984	दीपा एम.एस. माधवन के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7443 15.9.01	श्रीजी निवास, पो.आ. मरियापुरम, वाया अमराविला, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
91985	दीपा एम.एस. मिश्रन जी.बी.	बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएम, कंवीपुरम २००१	7600 1.7.02	टी.सी.३०/११४६ (1), कैलास हाई स्कूल रोड, पो.आ. पेट्टाह, थिरुवनन्थापुरम ।
91986	दीपा एन. शेनोय नरसिम्हा शेनोय जी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7700 11.11.02	कन्दाथिल, पो.आ. थिरुमलाभागोम, शुवायूर, जिला अलापुझा, केरल ।
91987	दीपा पी. मुलीधान नायर के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7515 28.1.02	ए-१६, कलियक्कल, पिलावीडु नगर, केसवादासपुरम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल
91988	दीपा एस. सुकुमारन नायर पी.आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7180 5.7.2000	वैसाख, टी.सी.२२/१०१४, अट्टुक्कल, पो.आ. मनाकाडु, टीवीएम-६, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
91989	दीपन बी.के. राजू बी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7758 28.12.02	हरियम, पो.आ.अलानकोड, जिला मालप्पुरम, केरल ।
91990	दीप्यारानी एस. सिवादासन पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६६	7083 10.12.99	दीपा भवन, अक्कोलिल, पो.आ. वालाथुंगल, जिला कोल्लम, केरल ।
91991	दीथि बालाकृष्ण के. बालाकृष्णा पिल्लई	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यु.आफ हैथ साईसिस, बंगलौर २००४	8090 13.9.04	दर्पणा हाउस, पो.आ.पेरुन्नै, चंगनचेरी, जिला कोट्टायम, केरल ।

91992	दीप्ति सी.पी. एन.वी. कुन्हीरमण	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8221 15.12.04	लक्ष्मी निवास, पोन्नमपारा, पो.आ. पेरिमोम, वाया पयानूर, जिला कन्नूर, केरल ।
91993	दीप्ति जी.डी. के. दिवाकरन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	7908 8.12.03	शेजस, चारुकाडु, पो.आ. चेम्माकाडु, पेरिनाड, जिला कोल्लम, केरल ।
91994	दीप्ति जोसफ जोसफ एम.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7312 12.2.01	के.ए.कट्टकरन हाउस, म.नं. टी.सी. ३३/१५४२, कस्तूरबा लेन, पो.आ. कूरुक्नेचेरी, टी.सी.आर.७
91995	दीप्ति नायर आई. कमलासनन नायर एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९७	6768 15.5.97	'प्रसान्धी, पो.आ. अनयारा, जिला थिस्वनन्यापुरम, केरल ।
91996	दीप्ति रानी पी.एन श्रीधरन एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९९८	6855 28.3.98	किशोर निवास, कानयुर, जिला अलापुझा, केरल ।
91997	दीप्ति ए. बाबुराजन जी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९८	6959 24.12.98	लाल भवन, पो.आ. विथारा, जिला कोल्लम ।
91998	दीप्ति डी.सी. दिवाकरन के.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९९८	7119 31.01.2000	दीपम, पो.आ. पिलाथरा, जिला कन्नूर ।
91999	दीप्ति जी. गंगाधरन नायर ई.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7356 15.3.01	सामथरिपपी, पो.आ. चेलन्नुर, जिला कोझिकोडु, ।
92000	दीप्ति जे. जनाधनन एस.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई, २०००	7222 4.8.2000	पवजन्यम, पो.आ. मुलाकुलम नोर्ब, निकट वलापलपाडी, पिरावोम, जिला एर्नाकुलम ।

92019	दिलीप सेन चन्द्र सेन के.के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि.,वेल्ह १६६८	7038 17.9.99	कृष्णापुर, थोट्टोमोन, पो.आ. रानी, जिला पलनमिदटा, केरल ।
92020	दिनेसन पी.एम. माधवन नाबूदरी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट १६६६	7090 10.12.99	पुलियासेरी मना, पो.आ.मन्नरक्काड, जिला पलक्कड, केरल ।
92021	दिनेश बी. भारथ राजन आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट १६६७	6787 8.7.97	'श्रीवलसम' निकट रेट हाउस, कोट्टाक्कल, जिला मालप्पुरम, केरल ।
92022	दिनेश के.एस. सुब्रामनियन के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००१	7322 12.2.01	वासुदेवी निलायम, पेरिंगनम, पो.आ. चक्करापदम, जिला थरिसूर, केरल ।
92023	दिति वानाय एम.बी. भास्करन	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि.,भुवनेश्वर २००४	8284 11.01.05	केझक्के वरियम, पेरुमनगोडे, पो.आ. श्रीकृष्णापुरम, जिला पलक्कड, केरल ।
92024	दिव्या ए. के.वी. मधुसूदनन नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7864 10.10.03	श्री धन्या, वी.पी. १३/३८७, वडोदुकोनम, पो.आ. कोडुनगानूर, थिस्वनन्यापुरम ।
92025	दिव्या ए. एन.बालाकृष्णन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००२	8041 25.5.04	ईश्वर्या, पो.आ.चेवरा ब्रिज, जिला कोल्लम, केरल ।
92026	दिव्या श्री ए.एस. ए. सदानन्दन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8020 22.4.04	श्रीनिदीन, पो.आ.उपपला, जिला कसारागोडु, केरल ।
92027	दिव्या के. भट सदाशिव भट पी.	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पू वि.वि.,शंकरघट्टा २००१	7774 1.2.03	कोडावंची हाउस, पो.आ.मुलियार, जिला कसारागोडु, केरल ।

92028	दिव्या एम. कुमार कुमार के.पी.एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7447 15.9.01	माधवम, टी.सी. ३६/१३६६, जे.पी. नगर, जेपीएन-६८, पो.आ. वल्लाकाडु, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92029	दिन्या टी.ए. अनन्थासुन्दरी.एस.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चैन्नई २०००	7279 15.11.2000	थवायुल्ली हाउस, बनर्जी रोड, कोचिन, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92030	वेनुगोपाल के. वेंकटकृष्णन के.	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पू वि.वि., शंकरस्टेट २००१	7596 10.6.02	प्रसाद निलाया, कोल्लिककने, पो.आ. मोवर, जिला कसारागोडु, केरल ।
92031	दुर्गा एस.आर. सिवारामाकृष्णन नगर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९६	7079 10.12.99	टी.सी. १८/५३-३, पविथरम, अलापुरम रोड, थिरुमाला, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92032	दुर्गाप्रसाद के. गोपालाकृष्णा भट बी.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९९६	7464 19.10.01	अडरमाते, पो.आ.निरवल, वाया कुम्बला, जिला कसारागोडु, केरल ।
92033	इबे अब्राहम अब्राहम एम.टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7518 14.3.02	मून्गमाकल हाउस, पो.आ. घायम, जिला कन्नूर, केरल ।
92034	एडिसन पी. पीटर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९६	6981 20.2.99	अय्यय्योप, पो.आ.सक्थिकुलंगारा, जिला कोल्लम, केरल ।
92035	एलथो ए.पी. पौलोस ए.बी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चैन्नई २००२	7635 15.7.02	अरीक्कल हाउस, पो.आ.शुभावूर, वाया अंगमली, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92036	एलिजाबाथ एरनेस्ट इरनेस्ट देविड	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7428 12.9.01	कावरट्टु हाउस, पो.आ. सक्थिकुलंगारा, जिला कोल्लम, केरल ।

92037	फक्रुद्दीन ए. अलियासकुंजु ए.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६७	6775 15.5.97	जीना मंजिल, पन्था, पो.आ.पन्था, वाया कट्टाफाडा, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92038	फतीला ई.आई. इब्राहिम के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7427 17.7.01	इस्काथ हाउस, परायकड, एन परावूर, जिला एनकुलम, केरल ।
92039	फासिलू रहमान टी.के. मोहम्मद कुट्टी कुरिकल टी.के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १६६८	6940 23.11.98	वारनकारा, पो.आ. कुम्मानम, जिला मालपुरम ।
92040	फाथिमा रहना एम. एम. मोहम्मद जाफर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8307 5.2.05	रंगोडे कलाम, पो.आ. कुथानूर, जिला पलक्कड ।
92041	फाथिमा यासमीन के.एम. मोहम्मद शफी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8049 30.6.04	कैदर हाउस, परवन पो.आ. अडुक्कम, जिला कसारगोडु, केरल ।
92042	फाथिमा पी.वी. अब्दुलहमान पी.वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7129 1.2.2000	इल्लीक्काथोडी हाउस, पो.आ. अन्दीयूरकुन्नु, कोट्टापुरम, जिला मालपुरम, केरल ।
92043	फैबिन के. अन्तो अन्तो के.पी.	बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएम, कांचीपुरम २००२	7609 1.7.02	कन्डलकुलथी हाउस, पो.आ. कुडूर, जिला, थरिसूर, केरल ।
92044	फिनबे बेबी बेबी जौन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8014 15.4.04	कथैलेक्ट्टील हाउस, पो.आ. पुलापल्ली, जिला व्यानाडु, केरल ।
92045	फौसिया के. यूसुफ के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8186 25.10.04	पोथियिल थोट्टीपरिक्किल, पूवाथनी, पो.आ. चेथल्लूर, जिला पलक्कड, केरल ।

92046	फ्रांसिस अरादन जे	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६६	7077 10.12.99	अरट्टु बंगला, पो.आ. कोविला, जिला कोल्लम, केरल ।
92047	फ्रेन्को जेम्स ए. जेम्स ए.एफ.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7402 11.6.01	अलूर हाउस, थिरु, पो.आ. मुलनकुन्नायु कावु जिला थिरुसूर, केरल ।
92048	गनाराजा वाई. गोपालकृष्ण भट वाई.	बी.ए.एम.एस. भरथियार वि.वि., कोयम्बतूर १९६२	7263 7.11.2000	येलकना कल्लामाने हाउस, पो.आ. भैर, वाया पेरिया, जिला कसारगोडु, केरल ।
92049	गणेश कृष्ण वी. श्री कृष्ण भट वी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २००१	7466 6.11.01	वरमुडी हाउस, पो.आ. पेरिया, जिला कसारगोडु, केरल ।
92050	गणेश कुमार के. महालिंगा भट के.	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पू वि.वि., शंकरघट्टा १९६८	7301 13.12.2000	कोलनजीथोडी हाउस, पो.आ. निरचल, जिला कसारगोडु, केरल ।
92051	गंगा प्रसाद एन.एम. मधुसूदनन जी.	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पू वि.वि., शंकरघट्टा २००१	7487 27.11.01	वैदयन्स कोटेज, कोवलपारा, पो.आ. इराविपुरम, जिला कोल्लम, केरल ।
92052	गंगा ए. अय्यप्पन टी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६८	6956 22.12.98	वनाचिरायिल हाउस, पो.आ. कैटमाला, मेलेक्करा, जिला अलापुझा, केरल ।
92053	गंगा सी. चेल्लप्पन वी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7166 5.7.2000	मदाथिल, पो.आ. कडलूर, कायमकुलम, जिला अलापुझा, केरल ।
92054	गायथ्री एस. रामाकृष्ण गिल्लई जी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २०००	7303 11.1.01	चक्कोइल, पो.आ. पेस्गाला, कायमकुलम, जिला अलापुझा, केरल ।

92055	गीथा रविन्द्र शिल्पि	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7585 10.6.02	सूर्य निवास, कलिकट साउथ अन्डमान एवं निकोबार आईजलैन्ड, जिला एन.के. अन्डमान एवं निकोबार ।
92056	गीथा भासी भास्कर ए.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोटायम १९९६	6722 2.1.97	'गीथालायम', पो.आ. करमकोड, जिला कोल्लम, केरल ।
92057	गीथा बी. माधवन बी.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १९९६	6973 20.2.99	चिरक्कलोडी हाउस, पो.आ. थिरुवनुर, जिला कोडिक्कोडु, केरल ।
92058	गीथा बी. वेणुगोपालन के.आर.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००३	7830 12.6.03	रामचवन्गरथ हाउस, पो.आ. अवापुर, वाया मुन्दुर, वरादियम, जिला थरिसूर ।
92059	गीथाजलै जी. आर. मुलीयल नायर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7863 10.10.03	गीथाजलि, कन्नीमेल, पो.आ. पट्टाझी, जिला कोल्लम ।
92060	मेओझी बी.जी. जार्ज बी.सी.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २०००	7198 5.7.2000	वडुकूट हाउस, पो.आ. पेरक्कम, वाया चावक्कड, जिला थरिसूर, केरल ।
92061	जार्ज ममेन ममेन के.पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २००२	7727 19.11.02	कन्नन कल्लेल हाउस, पो.आ. पिन्डीमना, कोथामंगलम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92062	गिबी जार्ज जार्जकुट्टी सी.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००२	7638 15.7.2000	थडाथिल हाउस, पो.आ.पट्टीक्कड, जिला थरिसूर, केरल ।
92063	गिगी मैथु देवासीकुट्टी आई.ओ.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २०००	7161 4.7.2000	फ्रीड विल्ला, पो.आ. चेन्नर, जिला थरिसूर, केरल ।

92064	गिरिजा कुमार पी.के. कुमारन वैदीयार पी.टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट डि.वि. कालिकट १६६६	7092 10.12.99	पत्तासेरी हाउस, पो.आ. पूवायुसेरी, अनामन्डा, जिला थरिपुर, केरल ।
92065	गिरिजा एस. केसवन उन्नी के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6771 15.5.97	'कौथुषाम', टी.सी. २७/१२६३, ऋषीमंगलम, पो.आ. वनविथूर, थिरुवनन्थापुरम ।
92066	गिरिजानन्द एम.एस. आनन्दन टी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	7074 10.12.99	गिरिजा भवन, वलियापदम, पो.आ. विलन्थरा, जिला कोल्लम, केरल ।
92067	गोडविन सेलवन एस. सेलवारज जे.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	7286 22.11.2000	कारक्ला मेक्की पुथेन वीडु, पो.आ. परसुवेकल, थिरुवनन्थापुरम ।
92068	गोकुल एम.वी. नारायणन पिल्लई आर.	२००० बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि. चेन्नई	6766 15.5.97	वडक्केपल्लायु हाउस, कोमना, अम्बलापुझा, जिला अलापुझा, केरल ।
92069	गोपाकुमार जी.ओ. गोपिनाथ पिल्लई के.	१६६७ बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि.	7715 19.11.02	थुन्दुविलाकथु वीडु, पो.आ. कोथिराकुलम, वैमपायम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92070	गोपाकुमार एस. श्रीक्रन्तन नायर के.	२००२ बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि.	6776 19.5.97	टी.सी. २/२१३६, 'श्रीभवन' पो.आ. पट्टोम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92071	गोपाकुमार एस. श्रीकुमारन नायर के.	१६६७ बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि.	7285 22.11.2000	श्रीसन्थ, अथानी रोड, वनविथूर, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92072	गोपाकुमारन के. भास्करन के	२००० बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि.	7383 29.5.01	करिम्बिल हाउस, पलियेरिकोरी, पो.आ. करिवेल्लुर, जिला कन्नूर, केरल ।

92073	गोपालकृष्ण मायन्दी वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7192 5.7.2000	वलिगवीट्टील, मय्येरिचिरा, पो.आ वलावनुर, कन्नकनचेरी, जिला मालपुरम ।
92074	गोविंदा गोपन गोपाकुमार के.एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7797 7.5.03	कुडियायुथेक्कथिल, पोनालडी, पो.आ. परथल, अडूर, जिला पठनमथिट्टा ।
92075	गोपीकृष्णा एस. श्रीराम	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	7906 8.12.03	टी.सी.५०/५१५ (४), मार्वल डी-१०, शिवकृपा, मल्लूरकडावु, पोस्ट कामन, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92076	गोपीकुमार वी. गोपीनाथन नांबियार के.टी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९९७	6784 8.7.97	'श्रीलक्ष्मी' पो.आ. पदनाकड, वाया नीलेश्वर, जिला कसारागोडु, केरल ।
92077	गौरिसन पी.वी. उनीक्कणन नामबिसन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९९८	6936 14.10.98	थेक्कथयेल हाउस, पो.आ. वेस्ट हिल, जिला कोडिकोडु, केरल ।
92078	गौतम कुमार बक्शी गोविन्दा पाडा बक्शी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि. कलकत्ता २००३	8009 12.4.04	xxi/474, श्यामलाल निवास, फ्रायमपुरम बंगानासेरी, जिला कोटायम ।
92079	गोविन्दा शर्मा के. अनन्था भट के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २०००	7978 9.3.04	गोसडा हाउस, पो.आ. मोव्वर, जिला कसारागोडु, ।
92080	गौरी जी. गोविन्दन एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९८	6923 18.8.98	किन्नक्करा पुयेन वीडु, वी.पी.२/१७४, निरपिल, पो.आ. पेयड, थिरुवनन्थापुरम ।
92081	ग्रीशमा जी. वी.पी. गोपी	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	8000 3.4.04	मंगलापुरम निकार्थ, पो.आ. परयाकड, चेरथला, जिला अलापुझा, केरल ।

92082	हबीबुल्ला एम.टी. सीधी एम.टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7176 5.7.2000	ब्रदर्स मॉडल, पेरुमुक्कु, पो.आ.अलनकोड, जिला मलयपुरम, केरल ।
92083	हफसथ के.टी. मम्मट्टी के.टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7850 14.8.03	करालिक्काट्टील थन्नुपराक्कड, एरियाड पुन्नापला, जिला मलयपुरम ।
92084	हमसा ए.वी. वपुनू ए.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६८	6874 24.4.98	अरनगथु परम्बिल हाउस, पो.आ.कोजिकोड, वाया वडकनचेरी, थरिसूर ।
92085	हरि कृष्ण टी.पी. प्रभाकरन टी.के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २००२	7595 10.6.02	थेक्कीनी हाउस, पो.आ.कोयामंगलम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92086	हरि कुमार नाबूथिरी के.यू. उन्नीक्कृष्णन नाबूथिरी के.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7736 27.12.02	एडासेरी मडोम, कोवूर, पो.आ. पलायमकुन्नु, वरकला, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92087	हरिदास के. के. अच्युथन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7921 9.12.03	कृष्णकृपा, मुलागुनायुकुडु, जिला थरिसूर, केरल ।
92088	हरिकृष्णा टी.एन. नारायणन नायर ए.पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २००१	7421 11.7.01	थोरियमबाथ, उषा निवास, पो.आ.कलपेट्टा, जिला व्यानाडु, केरल ।
92089	हरिकुमार बी. भास्करन नायर पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7293 22.11.2000	कानथरा हाउस, पो.आ.पोदियाडी, थिरुवत्ता, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92090	हरिलाल के.पी. पदमानभान के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7655 16.7.02	करुमापरम्बिल हाउस, लाल सदन, मथुवारा, पो.आ.पुझक्कल, जिला थरिसूर, केरल ।

92091	हरिमोहन सी.एम. चन्द्रमोहन एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६७	6769 15.5.97	विकास भवन, नोर्थ मडनागपली पो.आ., जिला कोल्लम, केरल ।
92092	हरिनाथन वी.के. विश्वनाथन के.	बी.ए.एम.एस. काकतिथा वि.वि. वारंगल १६६८	7144 12.4.2000	पदमालायम, कन्नमपुझा टेम्पल रोड, चलाकुडी, जिला थरिसूर, केरल ।
92093	हरिशंकर टी.एन. माधवन के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7753 28.12.02	अम्बाडी हाउस, कूडथुन्तल, पो.आ. कनियमबेट्टा, जिला व्यानाडु, केरल ।
92094	हरविन जार्ज एन. एन.टी. जार्ज	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००३	7923 9.12.03	नेडुम्बाकरन हाउस, पो.आ. कोडक्कारा, जिला थरिसूर, केरल ।
92095	हसीफ पी.वी. अब्दुल्ला पी.वी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २०००	7156 8.6.2000	पुल्लारावलपिल हाउस, नयनगडी, पोस्ट नहमनघाट, जिला थरिसूर, केरल ।
92096	हसीना पी.एव. हमसा पी.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7414 7.7.01	पुवेनपुरायिल हाउस, वेल्नुपदम, जिला थरिसूर, केरल ।
92097	हेबीब पी. अब्दुल्लाकुट्टी पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7275 13.11.2000	इहसान, कुरुपपथ, कोंडोली, जिला मालपुरम ।
92098	हेमा बेबी के.जी. बेबी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8078 27.7.04	कुन्नाथुल्ली हाउस, पो.आ. खन्ना नगर, जिला थरिसूर, केरल ।
92099	हेमा चन्द्रन सी.के. गोविन्दन नायर पी.वी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7776 6.2.03	प्रसादम, पो.आ. पडियोथल, पय्यनुर वाया, जिला कन्नूर, केरल ।

92100	हेमा एल. सुरेन्द्रन आवरी जी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7559 20.3.02	चेथरा भवन, मालाकाडु, पो.आ. कोट्टुक्कल, अंचल, जिला कोल्लम, केरल ।
92101	हेमाचन्द्रन बी. बालाचन्द्रन एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६८	6857 28.3.98	साम्थीनिकेतन, पोलकुन्नी, पो.आ. वाडावन्नु जिला पलक्कड, केरल ।
92102	हेमामालिनी के.आर. राघवन के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	6996 6.3.99	कानरा हाउस, पो.आ. मुटीथाडी, अलगप्पा नगर, जिला थरिसूर, केरल ।
92103	हेमथ कुमार पी. राधा कथन थिरुमतपद टी.एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7535 14.3.02	मन्दिरम, अरुविक्रमा मंजरी, जिला मालपुरम, केरल ।
92104	हेमा वर्मा ई.के. के.सी. कृष्णा वर्मा राजा	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	7997 3.4.04	सौरम, २६/१८०८ ए, पाईपलाईन रोड, पो.आ. कोट्टुली, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92105	हिमा मोहनदास मोहनदास एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7553 16.3.02	हिमालयम, पो.आ. कट्टीकाडावु, करुणागपल्ली, जिला कोल्लम, केरल ।
92106	हिरन वी.आर. वेन्गोपालन नायर एन.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7717 19.11.02	नीला भवन, टी.सी. ६/१८१६, संकर रोड, सस्यामंगलम, थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92107	हिस्लीसा एन.के. एक्कु एन.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६७	6823 15.11.97	वेदुक्कटील हाउस, पो.आ. उल्लीयेरी, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92108	हिया के.एच. हरिहरन के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	7097 10.12.99	कैक्कथरा हाउस, पो.आ. कन्दासनकडावु, मंगटुक्करा, जिला थरिसूर, केरल ।

92109	हनीय जोय टी.जे. जोय	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईसिस, बंगलौर २००४	8317 23.2.05	थयपरम्बिल हाउस, पो.आ.मुल्लेनकोल्ली, पुलपल्ली, जिला वयनाडु, केरल ।
92110	इदय उनीथन उनीथन के.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7353 15.3.01	लक्ष्मी कृष्णा, पो.आ.एस्सर साउथ, थरिपुनेथुरा, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92111	इबी जोस के.एम. जोस	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईसिस, बंगलौर २००४	8130 25.9.04	किञ्जकेश्थु हाउस, पो.आ. रत्नी, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92112	इन्मुलेबा ए. सी.चैक्कु नायर	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २००३	8118 25.9.04	अश्वथी हाउस, पो.आ.करक्कोटमकुन्नु, वाया अलान्नु, जिला पलक्कड, केरल ।
92113	इन्मुप्रिया जी. टी.आर. संकरा पिल्लई	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईसिस, बंगलौर २००४	8124 25.9.04	राघवा मन्दिरम, कन्नेट्टी, करुणागपल्ली, जिला कोल्लम, केरल ।
92114	इन्दिरा जी.एस. मनेसन वी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६८	6954 22.12.98	'वृन्दावन' पोस्ट ऑफिस तैम, ऐरुकाडा, जिला थिरुवनन्थपुरम ।
92115	इन्दु लेखा वी.सी. चन्द्रसेखन नायर वी.आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7509 28.1.02	लेखा निवास, वझपल्ली, पो.आ. कट्टूर, जिला थिरुवनन्थपुरम, केरल ।
92116	इन्दु सेखर आर. रवीन्द्रनाथन पिल्लई गी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६८	6958 22.12.98	रवीन्द्र भवनम, इनक्काडु, पो.आ. क्कञ्जकुन्नु, वाया सर्गाड, जिला कोल्लम ।
92117	इन्दु ए. विष्णु नम्बूद्री	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २०००	7136 31.3.2000	एम.जी. विलीप शंकर अम्बिका सल पो.आ.पेयवट्ट, वाय वेवाथुर, जिला कसारागोड

92118	इन्दु जी. कुमार गोपकुमार के.एन.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7508 28.1.02	इन्दीवारम, सामने मलियनक्लि पोस्ट आफिस, थिरुवनन्थापुरम ।
92119	इन्दु आर. राघवन नायर एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7327 26.2.01	इन्दु भवन, पो.आ. ओमाल्लूर, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92120	इन्दु वी.एल. विदयाधरन बी.एन.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7387 29.5.01	विदया विहार, पो.आ. अयिरुपारा, पोथेनकोड, वाया पोथेनकोड, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92121	इन्दुलेखा सी.जी. गोपीनाथन नायर एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7707 11.11.02	इन्दुविहार, टी.सी. ८/१३६३, इलिपोडे, थिरुमला, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92122	इश्वर भट एम. थरिविकारामा भट के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९६६	7276 13.11.2000	मंजलागिरी हाउस, पो.आ.पेरिया, जिला कसारगोडु, केरल ।
92123	जबिथा पी. कुन्हीमोहम्मद पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7784 1.4.03	सोनिया, पो.आ. थिरुनावया, जिला मालपुरम, केरल ।
92124	जबिर पूलकुन्दन पैकर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7759 31.12.02	पो.आ.कुझिपुरम, इरिनाल्लूर, वाया वेनगरा, जिला मालपुरम, केरल ।
92125	जैकब कुरियन के. कुंजु के.के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7382 29.5.01	कोल्लनथजाथु हाउस, पो.आ. कैथकोड, पुथुर, कोट्टाकावा, जिला कोल्लम ।
92126	जकस्यूलिन एस.एल. स्टैनली मार्टिन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7395 30.5.01	टी.सी.३२/६२२, बालानगर, पो.आ., टाइटैनियम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।

92127	जैक्युलिन ए. अन्टोनी ई.पी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7699 8.11.02	त्रिवेणी, VIII/192, पो.आ. पयनमकोड, जिला थिरुवनन्थपुरम, केरल ।
92128	जयकृष्ण के.पी. रविन्द्रनाथन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १६६६	7216 20.7.2000	सुदाक्षिणा, विनायका नगर, थरोक्कड, जिला पलक्कड, केरल ।
92129	जन्नाथुल फिरोस कुन्हालन गुल्लकल	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६८	7141 31.3.2000	चंगम पल्ली किन्नक्काथिल, एडक्कल्लुम, तिरुवनन्था, जिला मालपुरम, केरल ।
92130	जसीमा बीगोम जे. जलील ए.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६८	7016 15.7.99	कत्तू(कीन्नक्काथिल, पो.आ.शामराकुलम, मवेलिकारा, जिला अलापुझा, केरल ।
92131	जसीना जमालुद्दीन एम.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7434 15.9.01	मुलमूट्टील हाउस, पो.आ.वडापरम, मामपड, जिला मालपुरम, केरल ।
92132	जमुलक्ष्मी बी. वासुदेवन आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7632 15.7.02	जमुलक्ष्मी, बी. १३/६०५, एडायर स्ट्रीट, मनकादु, जिला पलक्कड, केरल ।
92133	जयगोविन्दा यू. नारायणा भट पी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६८	7757 28.12.02	पोस्ट उक्कीनाडका, ग्राम एनमाकजे, जिला कसारगोडु, केरल ।
92134	जया राघवन राघवन एम.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६६	7125 1.2.2000	श्री गणेश चिन्मया मिसन कालोनी, पो.आ. विदया नगर, जिला कसारगोडु, केरल ।
92135	जया राजन टी. मणि जी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट	7662 16.7.02	थोपीयानदाविडा हाउस, अडिक्कल, पो.आ. न्यू माहे, जिला कन्नूर, केरल ।

92136	जया पी.आर. राधवन नायर आर.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६७	6777 19.5.97	टी.सी. २५/८४४, पो.आ. थाईकोड, जिला थिरुवनन्थपुरम, केरल ।
92137	जया बी. वासुदेव कामथ आर.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६६	7019 16.7.99	टी.सी. १७/२०६५, माया मन्दिरम, डा.पई रोड, पूजपुरा, टी.बी.एम. १२, थिरुवनन्थपुरम ।
92138	जया चन्द्रन के. बालन नाथियार टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7404 11.6.01	कृष्णा सदन, पो.आ. अंचमपीरिका, वाया मोट्टमई, जिला कन्नूर, केरल ।
92139	जयाचन्द्रन एन. इन्दिरा एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	6736 22.1.97	नट्टुवल्ली हाउस, किडुथानी, पो.आ. थनीसेर, जिला थरिसूर, केरल ।
92140	जयचन्द्रन एस.आर. श्रीधरन नायर के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7380 28.5.01	राज भवन, पो.आ. कस्कोन, आंचल, जिला कोल्लम, केरल ।
92141	जयाकृष्णन जी. गोपाला कृष्णा पणिकर टी.एन.	बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएम., कांचीपुरम २००२	7601 1.7.02	लक्ष्मीकृष्ण, के.जी. १६२, कल्यका गार्डन, पयनमकोड, थिरुवनन्थपुरम ।
92142	जयाकुमारी आर.एस. रघुनाथन नायर के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६७	6839 12.1.98	'सुप्रकाश' पो.आ. अयाथिल, जिला कोल्लम, केरल ।
92143	जयालक्ष्मी जी. आर. गोपीनाथन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.अफ हैल्थ साईंस, बंगलौर २००४	8152 12.10.04	पंकजा कस्तूरी आयुर्वेद मेडिकल कालेज किल्ली, कट्टक्काडा, थिरुवनन्थपुरम ।
92144	जयालथा पी.आर. परमेश्वरन चेट्टियार	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	7117 6.1.2000	श्री भवन, पो.आ. पुलिमथ, जिला थिरुवनन्थपुरम ।

92145	जयन के. फितीप के.के. फितीपोस	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००४	7959 6.2.04	कोट्टूरशिकाथु वीडु, करिपुरम, मुक्कुडु पो.आ. मुलावना, कुन्दरा, कोल्लम ।
92146	जयन पी. राववन एन.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि.,वेन्नई २००१	7636 15.7.02	रोहिणी पोर्टाविल लेन, एम.जी. रोड, जिला थरिसूर, केरल ।
92147	जयन्थी सी.के. सी.पी. कृष्ण पिल्लई	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8141 25.9.01	कोट्टक्काट्टु हाउस, पो.आ. नरियापुरम, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92148	जयन्थी विजयन पी.विजयन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8285 25.1.05	जयन्थी निलायम, कालासागर, पो.आ.एडाकारा, जिला मालप्पुरम, केरल ।
92149	जयप्रभा बी. कुजीकेलु	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९९६	7120 31.1.2000	डा. विजयगोपालन ए.वी. अनौथिकट्टु परम्बिल हाउस, पो.आ. अन्यीकड, जिला थरिसूर
92150	जयप्रकाश ए.डी. दिवाकरन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7433 15.9.01	आर्यमपरम्बिल हाउस, पो.आ. कलापड, जिला थरिसूर, केरल ।
92151	जयप्रकाश के. गोपालन वैदयार. के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि.,वेन्नई १९९८	7012 28.4.9	श्री हरि निलायम, पो.आ. इरिनाल्लुर, वाय्य वैगारा, जिला मालप्पुरम, केरल ।
92152	जयाराज बी.एल. वी. बालाकृष्णन चेट्टीयार	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8134 25.9.04	नेल्लीथाडम, निकट सीएवसी कुम्बला, पो.आ. कुम्बला, जिला कसारागुडु, केरल ।
92153	जयराम पी. प्रभाकरन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7651 16.7.02	कार्यिक, पो.आ. कोट्टानड, जिला पलक्कड, केरल ।

92154	जयासंकर टी. शनकपन पी.के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	7137 31.3.2000	करालिल हाउस, पो.आ. शेक्केविला, जिला कोल्हम, केरल ।
92155	जयश्री के. कुरुर कृष्णा भट	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६५	6824 15.11.97	चेथनडका, पो.आ. कुन्दीकना, वाया पेरदला, जिला कसारागोडु, केरल ।
92156	जयश्री पी.वी. रामाचन्द्रन पी.वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8304 5.2.05	जयश्री निलायम, पो.आ. पडिनहल्लुमुरी, वाया कूट्टीलागडी, जिला मालप्पुरम ।
92157	जयश्री एस. एम. श्रीधरन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8128 25.9.04	श्री निलायम, पो.आ.पनायिल, नूरानाड, जिला अलापुझा, केरल ।
92158	जयेश कुमार पी.डी. दामोदरन पी.एन.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २०००	7294 22.11.2000	राधा निवास, चेरुम्पूडु, पो.आ. वेल्लीमोन, कुन्दरा, जिला कोल्हम, केरल ।
92159	जीजा सासी सासी जी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६८	6905 29.5.74	द्वारा सुगुना राजन, डी.एफ.ओ. आफिस, पो.आ. रंगट, वर्तमान जिला अलापुझा, केरल ।
92160	जीजा एम. राजकुमार के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7367 23.4.01	१२/१०७, सारिका, कोयम, जिला पलक्कड ।
92161	जीजो चन्द्रन ओ. चन्द्रन ओ.एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7410 7.7.01	तुलसी भवन, वी.आर. पुरम पो.आ., चलाकुडी, जिला थरिसूर, केरल ।
92162	जीना पी. नायर पी. पदमनभान नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8156 13.10.04	श्री जे हाउस, निडुक्कुरम, पो.आ. कुर्विल्लूर, जिला थरिसूर, केरल ।

92163	जीना एन.जी. गनारथनन एन.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६८	6846 28.3.98	श्याम, पुथियानगडी, जिला कोडिकोडु, केरल ।
92164	जीना बी. प्रभाकरन बी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६७	6797 6.8.97	उथोली हाउस, पो.आ. वेनगलाम, जिला कोडिकोडु, केरल ।
92165	जीवन जी. गोविन्दा गिल्लई पी.एस.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००१	7423 12.7.01	कुट्टीमोदाथिल हाउस, पो.आ. पुथियाविला, वाया कायमकुलम, जिला अलापुझा, केरल ।
92166	जीवन कुमार एस. शनावास टी.पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	8177 25.10.04	सासी निवास, टी.डी. रोड, जिला कोल्लम ।
92167	जेसी पी. मैथु मैथु पी.ओ.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६७	6808 20.9.97	डा. अलैक्स सेबास्टियन, चिरायथ हाउस, पो.आ. मराथक्कारा, थरिसूर ।
92168	जिबिनी सेवास्टियन सेवास्टियन एम.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7653 16.7.02	मुट्टीक्कल हाउस, पो.आ. एलमबादी, जिला कसारागोडु, केरल ।
92169	जिबी वर्गीज वर्गीज के.एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7470 6.11.01	जिबशा विला, पो.आ. कुलानडा, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92170	जिलसी जोस ओलिव्कर जोस जोसफ	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8319 23.2.05	ओलिव्कर हाउस, पो.आ. ईस्ट थोडुपुझा, जिला इडुक्की, केरल ।
92171	जिलु के.एम. विजय राघवन के.जी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7162 5.7.2000	कंडावमपरम्बिल, मालापुरथ, पो.आ. कोथाथिरा, वाया पेरिनगोडे, जिला पलक्कड ।

92172	जिना जार्ज एम.ए. जार्ज	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8154 12.10.04	मचेरी हाउस, मवेली परम्बा, पो.आ. कुथिरावट्टोम, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92173	जिनाचन्द्रन पी.के. कृष्णन पी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६८	6875 24.4.98	पनानगट हाउस, पार्वथी निवास, पेय बाजार, पो.ओ. इरियाड, कोडुंगल्लूर, जिला थरिसूर, केरल ।
92174	जिनी स्कारिया पी. स्कारिया	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००२	8013 15.4.04	परिनजरेकुट्टा हाउस, पो.आ. पुलिकुरुम्बा, वाया नाडुविला, जिला कन्नूर, केरल ।
92175	जिनु सी.जी. गोपी वैदयार	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि वि.वि., चेन्नई १९६६	7152 22.5.2000	चेमपेनकुलम हाउस, पो.आ. कुमिली, जिला इडुक्की, केरल ।
92176	जिशा सी.जी. सी.ए. गोपी वैदयार	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	7985 9.3.04	चेमपेनकुलम, पो.आ.कुमिली, तालूक पीरुमाडु, जिला इडुक्की, केरल ।
92177	जिशा पाणिकर बी. पाणिकर बी.बी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६६	7020 16.7.99	दलिया, पो.आ. कल्लीयूर, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92178	जिशा एम.एस. सेखरन एम.सी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7827 6.6.03	मुंडक्कल हाउस, अलायूर, पो.आ.आनन्दापुरम, वाया नेल्लयी, जिला थरिसूर ।
92179	जियेश कृष्णन टी.पी. कृष्णन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8135 25.9.04	ज्योथी कृष्णा पो.आ. वडक्कल, जिला अलापुझा, केरल ।
92180	जियेश एम.के. एम.के. केसवन नान्दीरी	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8084 13.9.04	मडलमकोदथमाना, पो.आ. थिरुवेण्णुपुरा, वाया पट्टन्बी, जिला पलक्कड, केरल ।

92181	जिपेश एम. माधवन नायर आई	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6984 20.2.99	ऐश्वर्य बिसमिल्ला रोड, पो.आ. करुवमल्लम, मंजरी, जिला मालपुरम, केरल ।
92182	जिपेश पी.वी. विश्वम्भरन पी.के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २०००	7273 10.11.2000	पोन्नरासेरी हाउस, पो.आ. मट्टम, जिला थरिसूर, केरल ।
92183	जोबिन जे. मधुकाशी जोय मैथ्यु	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8143 8.10.04	मडुक्ककुडी हाउस, पो.आ. पार्योडे, तालूक कंजीरापल्ली, जिला कोट्टायम ।
92184	जोनीकुट्टी वस्सेस जौन वस्सेस	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	7924 9.12.03	किन्नककल्लि हाउस, पो.आ. चेलाकोप्पु, चंगनाचेरी, जिला कोट्टायम, केरल ।
92185	जोजो देविस देवासी के.आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7319 12.02.01	कंजीराथिंगल, पो.आ. ओलारिकारा, पुल्लाडी, जिला थरिसूर, केरल ।
92186	जोमोल मरियम थामस मम्मेन थामस	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २०००	7302 11.01.01	सक्थीमंगलम, पो.आ. वलनजवट्टोम, थिरुवत्ता, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92187	जोस विनीथ बी.टी. वी.वी. थामस	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8149 12.10.04	३४१४३८, प्रथीस हाउस, पो.आ.सिक्लि स्टेसन, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92188	जोसफ इट्टीरा इट्टीरा वी.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7540 16.3.02	वडक्कन हाउस, पो.आ. मैलूर, वाया चलाकुडी, जिला थरिसूर, केरल ।
92189	जोशना के. अबुदुहीमन के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8310 5.2.05	निकट उदय ट्रेडिंग कम्पनी, चिन्नकल, कन्दायनी ।

92190	जेशना टी.के. माधवन के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7552 16.3.02	VII-१२६, श्रवणा, पो.आ. ईस्ट पालाड, थलासेरी, जिला कन्नूर, केरल ।
92191	जोशी के.आर. रामकृष्ण	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7432 15.09.01	कट्टीलापरम्बिल हाउस, थानीसेरी, इरिन्जलाकुडा, जिला थरिपूर, केरल ।
92192	जौहर के. कन्होमोहमद के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7417 7.7.01	मोतथ हाउस, पो.आ.एरियाकोड, जिला मालपुरम, केरल ।
92193	जोयीमोन जे. जौन एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7580 7.6.02	पलाथडी वीडु, पो.आ.एरुथीपल्ली, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92194	जुली एल. मनोहर मनोहरन पी.ए.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7610 2.7.02	अम्बाडी, कृष्णा सारस, निकट शयनी मोसाईक्स, पो.आ. पेरुन्ना, चंगानावैरी, जिला कोट्टायम ।
92195	ज्योधि लक्ष्मी एल. धनकपन आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7796 7.5.03	ज्योधि भवन, अम्माकन्डाकारा, पो.आ. अदूर, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92196	ज्योधि पी.आर. पी.पी. रामकृष्ण	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साईंसिस, बंगलौर २००२	8023 17.5.04	प्रसान्ध, पो.आ.एस.आर.के. नगर, वाया ओट्टापलम, जिला पलक्कड, केरल ।
92197	ज्योधि प्रकाश सी.एस. संकुन्नी वैद्यार सी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६८	6866 24.4.98	कृष्णा आयुर्वेद फार्मसी, पो.आ.थेवरा, कोची, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92198	ज्योधि के.एस. सुदेवन के.के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९६८	6933 28.9.98	कारिमबट, पो.आ. चिट्टूर कालेज, जिला पलक्कड, केरल ।

92199	ज्योधि एम. कुट्टी एम.	बी.ए.एम.एस. क्रान्तिट वि.वि., क्रांतिट २०००	7189 5.7.2000	ज्योधि निवास, पन्थीरनकावे, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92200	ज्योधि एस. सदासिवन नायर एन.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोटायम १९६६	6733 22.1.97	नन्थपुथेन हाउस, पो.आ. किडानानूर, वाया मेडुवैली, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92201	ज्योथिशा कुमार बी. विदयनथन एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६६	7031 15.9.99	सुधालायम कल्लमपल्ली, पो.आ. मेडिकल कालेज, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92202	ज्योथसना माधुरी पूर्णचन्दर राव पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २०००	7369 23.4.01	गीथा भवन, थेक्कुन्नूर पैतेस, पो.आ. एस.एच. माउन्ट, जिला कोटायम, केरल ।
92203	के.बी. दीप्ती के.एम. शारदा	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैलथ साइंस, बंगलौर २००४	8088 13.9.04	कुन्नेल हाउस, पो.आ. कल्लुवाडी, ओट्टापलम, जिला पलक्कड, केरल ।
92204	के.नारायणा अरिम्नीयया कृष्णा अरिम्नयया	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैलथ साइंस, बंगलौर २००४	8100 13.9.04	श्रीकृष्णा निवास, पो.आ. पुंजलकट्टे, तालुक बेल्लनगडी ।
92205	के.पी. रिनसना के.पी. सैदलवी	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैलथ साइंस, बंगलौर २००४	8147 12.10.04	के.पी.एस. मंजिल, पो.आ. अनमनगड, जिला मातलपुरम ।
92206	के. संकरन नाच्चूदिरी के. नारायणन नाच्चूदिरी	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैलथ साइंस, बंगलौर २००४	8136 25.9.04	कन्नमकुलथीलम, वडासेरी, पो.आ. कनकल, वाया पय्यन्नूर, तालुक थलीपरम्बा, जिला कन्नूर ।
92207	के.बी. सान्धी के.एस. विश्वनाथ सर्मा	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास २००३	8115 25.9.04	कार्यक्रया निलायम, पल्लीयिल लेन, देवन देवन रोड, कोचिन, जिला एर्नाकुलम ।

92203	काला जी.एस. गंगाधरन के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००४	7954 3.2.04	कैलास अम्बुविला, ईस्ट कल्लाडा, जिला कोल्लम ।
92209	काला वी. वीराराघवन के.	बी.ए./एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००२	7519 14.3.02	लक्ष्मी निवास, डाउन बाजार, मनमथावाडी, जिला व्यानाडु, केरल ।
92210	कन्नन एन. जयकुमार एन.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7586 10.6.02	कमल, टी.सी. १०/१८७०/१, कवालूर लेन, पो.आ. वट्टीयूरकलु, जिला थिस्वनन्यापुरम ।
92211	कन्नन वी. विजयन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९९६	7126 1.2.2000	अस्वथी, पट्टाथनम, जिला कोल्लम, केरल ।
92212	कार्थिक के. के. विष्णु भट	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्य साइंसिस, बंगलौर २००२	8158 13.10.04	कोल्लिकल्ले हाउस, पो.आ.मूवार, वाया मुल्लेरिया, जिला कसारागुडु, केरल ।
92213	कविथा एन. के.पी. नारायणन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्य साइंसिस, बंगलौर २००२	8059 27.7.04	नारायणा निवास, पो.आ.कोवपुरम, जिला कन्नूर, केरल ।
92214	कविथा नायर टी. कमला कृष्णन नायर जी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १९९८	6937 14.10.98	नेडुमपुराथुम विला, पुनामूडु, पो.आ. वरकला, जिला थिस्वनन्यापुरम ।
92215	कविथा पी. उन्नी कृष्णन पी.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००३	7819 6.6.03	सिवम, वैद्यल्लम रोड, कोट्टाकल, जिला मालपुरम, केरल ।
92216	केसवा प्रसाद एन. यू.एम.एन. नाबूदीरी	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००३	7937 27.12.03	पद्मादथमना, रामानाथापुरम, जिला पलक्कड़, केरल ।

92217	केसवन नाम्पुथी के.जी. गोविन्दन नाम्पुथी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7267 8.11.2000	विन्नके चन्द्रमाना इल्लम, कोन्दूर, पो.आ. इट्टुट्टेट्टा, जिला कोट्टायम, केरल ।
92218	कैसिनी बी.के. टी.बी. अरुन्धती	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोट्टायम २००४	8030 17.5.04	बालाकृष्णा कालोनी, पोन्नूवीट्टील लेन, सामने देवामय चर्च, पट्टुराडक्कल, जिला थरिस्सूर ।
92219	किरन अचुथा भट अचुथा भट ए.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९६	7070 10.12.99	ए-३६, फ्रैट टउनशिप, पो.आ.उद्योगमंडल, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92220	किरन के.आर. राजन के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7558 20.3.02	पीस लैंड, पो.आ.एडाविट्टा, कोडुमोन, जिला पल्लमथिट्टा, केरल ।
92221	कोशी जैन पी. जैन यागिकर पी.के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7257 24.10.2000	पालविला हाउस, कम्पमकोड, पो.आ. वयक्कल, जिला कोल्लम, केरल ।
92222	कृष्ण बी.एस. रामचन्द्रन बी.आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7465 3.11.01	गुरुपवन क्वानट, कोट्टप्पाडी, पो.आ. कोट्टाक्कल, जिला मालप्पुरम, केरल
92223	कृष्णा भट जी.एस. शंकरनारायण भट जी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १९९६	8022 17.5.04	सतवाल हाउस, ग्राम तलेक्का, पो.आ. मीयाप्पाडाडु, मंजेश्वर, कसारगोडु ।
92224	कृष्णा दास पी.के. कृष्णन भट्टाथिरियद पी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7168 5.7.2000	पथिरील माना, कोडानड, पो.आ.मेशायूर, वाया थरियला, जिला पलक्कड, केरल ।
92225	कृष्णा कुमार ए. कुबीरमण ए.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	8184 25.10.04	अलिक्कल हाउस, पो.आ.मन्नारक्कड कालेज, पो.आ.कुमारमपुथुर, जिला पलक्कड, केरल ।

92226	कृष्णा कुमार के.आर. रमणकुट्टी वैद्यार	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7431 15.9.01	१/३१७, एम.जी. क्रावु, जिला थरिसूर, केरल ।
92227	कृष्णा मोहन बी.आर. बी.रमना पूजारी	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	7995 3.4.04	बाजाकुडलु हाउस, पोस्ट पेरिया, जिला कसारागोडु ।
92228	कृष्णा प्रकाश पी. गोपालाकृष्णन भट पी.के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६८	7618 9.7.02	गोपालाकृष्णन भट, पी.के. पेरुमुख हाउस, पोस्ट पेरदला, जिला कसारागोडु, केरल ।
92229	कृष्णा प्रसाद सदासिवन के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7579 7.6.02	कृष्णा विलासम, पो.आ. अनयारा, एआर- बी-२५, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92230	कृष्णा प्रशान्ता ई. सुब्रामन्या उपाध्याय जे.	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००२	8039 17.5.04	एडक्कना हाउस, पोस्ट पेरुमुडे, वाया मंगलपाडी, जिला कसारागोडु, केरल ।
92231	कृष्णा राज एम. रघुरामा भट के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६८	7299 13.12.2000	प्रिया निलाया, मंगलागिरी, पो.आ. पेरिया, जिला कसारागोडु, केरल ।
92232	कृष्णाकुमारी के.वी. केत्ता के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7132 3.3.2000	२३/२६(३), कौस्थुबम, विकास नगर, पो.आ. पल्लीपुरम, जिला पलक्कड, केरल ।
92233	कृष्णराज एस. हरिकृष्णा भट एस.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६७	6809 20.9.97	सिद्दनकोरे हाउस, पो.आ. मुलियुर जिला कसारागोडु, केरल ।
92234	कृष्णाराजा टी. केसेवा भट टी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६०	6970 20.2.99	'विवेका' तलेमाला हाउस, ग्राम एवं पोस्ट बागरु, जिला कसारागोडु, केरल ।

92235	कशमलया के.के. कोचुकिट्टेनकृष्ण कुट्टी	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7798 7.5.03	करीक्कल पदीनजरीथल हाउस, पो.आ. मुथूर, थिरुवत्ता, जिला पठनमिट्टा ।
92236	कुमारी बी.एस. अजी केलायुधन सी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९९७	6837 12.1.98	सरस्वती भवन, पो.आ.वैनकोड, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92237	कुमारी रजनी डी.बी. वेलुकुट्टी आर.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९९७	6774 15.5.97	पुथेन वीडु टी.सी. ४८/१०६७, अम्बलथारा, पो.आ. पूनथुरा, थिरुवनन्थापुरम ।
92238	कुरियाकोस जवरैयाह जवरैयाह	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि वि.वि. चेन्नई १९९६	7150 22.5.2000	विट्टाट्टु हाउस, पो.आ. पडवन्गडी, रत्नी, जिला पठनमिट्टा, केरल ।
92239	ताजना एन. बी. नारायणन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	8047 30.6.04	ताजनेश विहार, पो.आ.पुडुक्ल, निलेश्वर कसारगोडु, केरल ।
92240	लक्ष्मी कार्थिकेयन के.कार्थिकेयन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8122 25.9.04	सारदा मन्दिरम, आश्रम रोड, पो.आ. कत्ताडी, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92241	लक्ष्मी जे. नायर नारायणन नायर पी.के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7782 28.3.03	अक्वथी, नीलेश्वरम पो.आ. कोट्टरक्करा, जिला कोल्लम, केरल ।
92242	लक्ष्मी रविन्द्रन जी. रविन्द्रन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००४	8219 15.12.04	सारंगी, रामनगर, पो.आ. पणमकोडे, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92243	लाल कृष्ण कृष्णन के.एम.	बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएम., कांचीपुरम २००१	7603 1.7.02	करिपेलिडुडी हाउस, पो.आ. थुल्लुथी, पेरुम्बावूर, जिला एर्नाकुलम, केरल ।

92244	ताल के.एस. कुमारस्वामी पिल्लई	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7282 17.11.2000	ताल निवास, पो.आ. नीलेश्वरम, नेडुवथूर, जिला कोल्लम, केरल ।
92245	ताल के.एस. सिधारदन के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैट्टि.वि.वि., वेन्नई १९६६	6752 29.3.97	कन्नोली हाउस, पो.आ. इन्वामुडी, जिला थरिसूर, केरल ।
92246	तलिया एस. सुन्दर राज पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7405 11.6.01	कृष्णा सदन, पो.आ. अंघमपीडिका, वाया मोट्टाम्मल, जिला कन्नूर, केरल ।
92247	तालू टी.आर. राजगोपालन टी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7217 4.8.2000	थेक्कट हाउस, पो.आ. वालापट्ट, जिला थरिसूर ।
92248	तथा एम. सुब्रह्मन्थन एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7528 14.3.02	पंडोलीपरम्बिल, पो.आ. वल्लिकापट्ट, वाया मौकाडा, जिला मालप्पुरम, केरल ।
92249	तथा पी.के. कृष्णकुट्टी पी.के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६७	6815 31.11.97	परम्बिकुडी हाउस, पो.आ. इरिनील, पेरुम्बलूर, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92250	लक्ष्मीश कुमार एस.एल. लक्ष्मन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7190 5.7.2000	सतीमा, नेताजी रोड, पो.आ. विरक्कारा, थलासेरी, जिला कन्नूर, केरल ।
92251	लक्ष्मीशा वी. बी. लक्ष्मन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	8008 12.4.04	वेनगोराम्मल हाउस, वेस्ट पो.आ.चीक्कन्नुमल, जिला कोडिक्कोडु ।
92252	लीना पी. नायर सी.एस. परमेश्वरन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8155 12.10.04	थोटेट्टील हाउस, पो.आ. पेरुंगला, कायमकुलम, जिला अलापुझा, केरल ।

92253	लीना पी. सिवारमन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि. कालिकट २००२	7543 16.3.02	श्रीपथी, पो.आ. पुथुपरियारम, जिला पलक्कड, केरल ।
92254	लीनकुमारी पी.एच. हरिहरण पी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि. कालिकट २००१	7412 7.7.01	पलक्कपरम्बिल हाउस, पो.आ. अनापुझा, कोडुगल्लुर, जिला धरिसूर, केरल ।
92255	लेखा मोहन एस. एम.के. मोहना दास	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्य सैंडर्स, बंगलौर २००३	8229 31.12.04	पडियाथ हाउस, एवीएस रोड, पो.आ. कोट्टक्कल, जिला मलपूरम, केरल ।
92256	लेखा बी.के. कृष्णन नादर आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6748 7.2.97	रामविलास, पो.आ. पयनाकोड, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92257	लेखा बी.के. विद्याधरन ए.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7513 28.1.02	रोहिणी टी.सी. १६/१७४(३) केसवन नायर रोड, पूजपुरा, टीवीएम-१२, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92258	लेस्मी एम.के. जी. मुलीधरन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	8167 25.10.04	ईश्वर्या (बंगाल), पुनुक्कन्नूर, पो.आ. पुल्लमपुझा, जिला कोल्लम, केरल ।
92259	लेस्मी एम.बी. आर. मधुसूदन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7866 13.10.03	आयाम, टी.सी. १०/२२२० (1) पो.आ. कंजीरामपारा, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92260	लेस्मी पी.एस. एन. भास्करा प्रसाद	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि. चेन्नई २००३	8119 25.9.04	भास्कराविलासम, एलनागामालम, पो.आ. इनाथु, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92261	लेनिन एस. सथ्यापलाम बी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि. चेन्नई १६६८	6900 2.6.98	सथ्या विलास, पो.आ. चेन्नईयूर, वरकला, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।

92262	लिजा एम.एस. के. सुभास चन्द्रन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००४	8082 13.9.04	सुभास, पो.आ. कन्हनगड, जिला कसारगोड, केरल ।
92263	लिजी जोसफ जोसफ एडमट्टम	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००३	7916 9.12.03	एडमट्टम हाउस, पो.आ. कस्वांचल, वाया अलाकोडे, जिला कन्नूर, केरल ।
92264	लिजो कुरियन कुरियन ए.टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7833 12.6.03	कुण्ठ अय्यनथोले हाउस, मिशन क्वार्टर्स रोड, सामने टीवीएस एक्स प्रैस वर्कशॉप, जिला थरिस्सूर ।
92265	लिजु जॉन्सन जॉन्सन एम.जे.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००१	7409 7.7.01	मथ्योट्टु थेक्कोथिल, पडिथिट्टा, पो.आ. अम्बलानिरम्पु, थलावूर, जिला कोल्लम ।
92266	लिमसन जोस जोस सी.डी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7403 11.6.01	चंलाक्कल हाउस, पो.आ. एरावु, जिला थरिस्सूर, केरल ।
92267	लिस्टन के. पनक्कल पी.के. कुरियाकोस	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २००४	8081 27.7.04	पनक्कल हाउस, मन्नीयूर, पो.आ. गुल्बर्ग, जिला थरिस्सूर, केरल ।
92268	लिट्टी टोम एन.ए. थामस	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8300 25.1.05	नेल्लीक्कल हाउस, पो.आ. कूट्टीक्कल, जिला कोट्टायम, केरल ।
92269	लुबना डी.एस. एस. सिबाराज	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	7953 3.2.04	टी.सी. २१/६७३, नेडुमकोड, पो.आ. करमाना, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92270	लिजा जैक्ब एम. जैक्ब मंजली	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	7139 31.3.2000	पत्नी पाल पुथुर, सी७६, ए२ कल्लारा अपार्टमेंट्स कंजनी रोड, अय्यनथोले, थरिस्सूर-३, थरिस्सूर ।

92271	लिते मोहम्मद मोहम्मद बिन अहमद	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १६६६	7045 11.10.99	शिफा, पो.आ. मरनवेरी, जिला मालपुरम, केरल ।
92272	मधु के.एन. राजा पी.सी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7358 16.3.01	पुथान कोविलाकोम, पो.आ. कणिल, वाया वन्दूर, जिला मालपुरम, केरल ।
92273	मधु पी.एम. कृष्णन नाम्बूदेरी पी.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7520 14.3.02	मरीगाटु मैडम, पो.आ. मन्दूर, जिला कन्नूर, केरल ।
92274	महाबाला शर्मा ए. हरिकृष्णा भट	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २०००	7284 20.11.2000	अनिल हाउस, पो.आ. पेरदला, जिला कसारगोडु ।
92275	महादेवन एम.एस. सुब्रामनिया अयर एम.वी.	बी.ए.एम.एस. भरथियार वि.वि., कोयंबतूर १६६३	6925 26.8.98	मणि मचीर, २/२६६, गोविन्दाराजापुरम, पो.आ.अम्बिकापुरम, जिला पलक्कड़, केरल ।
92276	महालक्ष्मी सी. चिन्नास्वामी के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7567 30.3.02	१५/१८१ (टी.सी.१-४७६), एम.जी. नगर पुनकुन्नाम, जिला थरिस्सूर, केरल ।
92277	महाम्मद मुस्तफ़ा बी. इदरु बी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६८	6844 18.3.98	वरियायोडी हाउस, पो.आ. कडुनापुरम, वाया अनगदीपुरम, जिला मालपुरम ।
92278	महेश पी.एस. शंकरनारायणा भट यू.	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंस, बंगलौर २००३	7887 28.11.03	पनेयाला हाउस, पो.आ.बेत्तूर ग्राम, किन्नीनगर, वाया मुत्तेरिया, जिला कसारगोडु, केरल ।
92279	महेश ए.के. कुलीकन्नन ए.एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6767 15.5.97	'ऐन्कय' पो.आ. चिट्टेलेनवेरी, जिला पलक्कड़, केरल ।

92280	महेश के. राधाकृष्णा मेनन टी.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7208 5.7.2000	मलिकप्परम्बिल हाउस, पो.आ. अन्नामन्डा, जिला थरिसूर, केरल ।
92281	महेश के.एम. माधवन वैदयार के.जी.	बी.ए.एम.एस. कुन्नेमु वि.वि., शंकरगुट्टा २००१	7424 16.7.01	कोलापिल्ली हाउस, पो.आ. वेन्नाला, कोचीन जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92282	मजेश पी. जोल्ली जोल्ली जार्ज	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8159 13.10.04	पिक्कुनेल हाउस, अखिलापुरी, मैथनीकुनु रोड, सुत्यान बयेरी, जिला व्थानाड ।
92283	माली के.आर.बी. राधाकृष्णन के.के.	बी.ए.एम.एस. थरियार वि.वि., कोयम्बतूर १९६३	7041 25.9.99	श्रीराम, पो.आ. अरक्कीनार, कालिकट, जिला कोडिक्कोडु, केरल ।
92284	मल्लन सुमा पदमानथान पदमानथान पी.एन.	बी.ए.एम.एस. शिवाजी वि.वि., कोल्हापुर २००१	7674 26.7.02	यारारथ हाउस, पो.आ. श्रीनाथपुरम, कोडुनगल्लु, जिला थरिसूर, केरल ।
92285	मैन्सी अलेक्स अलेक्स जी. चाक्को	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7869 13.10.03	कोचुपडियुरा वीडु, पो.आ. साउथ कदमपनड जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92286	मनीषा बाबू बाबू जोसफ	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8187 25.10.04	कुन्नामकुलनगरा हाउस, पो.आ. थलायड, वाया उन्नीकुलम, जिला कोडिक्कोडु, केरल ।
92287	मनेश कुमार ई. ईश्वरन नान्पुथिरी बी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	7100 22.12.99	मनेश निवास, पो.आ. एलामाडु, वाया अयूर, जिला कोल्लम, केरल ।
92288	मणि वी. कुन्दीकन्नन बी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7547 16.3.02	चेरुविलागम, वैल्लाचल, पो.आ. कोदकड, जिला कसारागुडु, केरल ।

92289	मंजरी एस.पी. नाम्बूथिरी एस.पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १९६६	7048 18.10.99	श्रीवारी, पो.आ. कुंराचयनम, जिला कोट्टायम, केरल ।
92290	मंजू जार्ज जार्ज एम.जे.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००४	8161 13.10.04	नेडुनगट्टु हाउस, पो.आ. कलारा, आडिगली, जिला इडुक्की, केरल ।
92291	मंजू जौन जौन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००२	7939 24.01.04	पोडीमट्टाथी हाउस, पो.आ. कुडियनमाला, वाया नाडुविल, जिला कन्नूर, केरल ।
92292	मंजू मिथरा पी. करुणकल पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६६	7022 17.7.99	टी.सी.४१/१२८६, पद्मया विलाकथु वीडु, पो.आ. मनकोड, थिरुवनन्थापुरम ।
92293	मंजू थामस एम. जी. थामस फणिकर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7875 22.11.03	टी.सी.१३/१६५४ (२), कलाथिल लेन, एमपीआरए-६१, मुरिनजापलाम, मेडिकल कलेज पो.आ., जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92294	मंजू जी.एल. एम.ए.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7235 10.8.2000	वलिगविला, पो.आ. कुन्नाथूर, जिला कोल्लम ।
92295	मंजू एन. थम्पन नारायणन थम्पन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7241 10.8.2000	म.नं.२४, रवि नगर, अम्बलामुकु, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92296	मंजू पी.के. कुंजु पी.जे.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7569 12.4.02	पलामथोट्टाथील, पो.आ. इलावुमथिट्टा, नल्लनीक्कुनु, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92297	मंजू टी.बी. गोविन्दा करियर के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7255 24.10.2000	कस्सकपील्ली वरियम, पो.आ. कस्सकपील्ली, कोलेनमेरी, जिला एनिकुलम, केरल ।

92298	मंजू जी. वासु पिल्लई जी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7394 30.5.01	श्रीवातसम, निकट टाउन हाल, पो.आ. चंगमपुड़ा, कोचीन, जिला एर्नाकुलम ।
92299	मंजूषा बी. एन.एस. बालाचन्द्रन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००२	8060 27.7.04	बीना सदनम, पो.आ. शङ्गोम, मल्लापुड़ा, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92300	मंजूषा मुत्ती मुत्तीधरन एन.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7778 24.2.03	मयूरम, टी.सी. ३/१२३ (1), पल्लीपारा- पो.आ. पट्टोम, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92301	मंजूषा ए. दासपन के.एन.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६८	6928 26.8.98	आनन्दा भवन, पो.आ.नोर्थ अर्वाड, जिला अलापुड़ा, केरल ।
92302	मंजूषा ई.वी. वासु ई.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६७	6834 12.1.98	हाउस नं. १, आफिसर्स नगर, जट्टुकुडी जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92303	मंजूषा पी.के. दागोदल पी.के.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००३	7762 31.12.02	चतिल हाउस, पो.आ.पनीक्कोट्टुर, वाया कोडुक्ली, जिला कोडिक्ककोडु, केरल ।
92304	मंजूषा बी.एस. सुकुमार पी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६६	6982 20.2.99	ए.पी. VIII/479, अस्वयी, मरियमन कोईल स्ट्रीट, अट्टीनकुडी, पो.आ. कझकुटोम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92305	मनोज सी. जौन जौन टी.सी.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8146 12.10.04	पंजीक्काट्टील जेएमजे भवन, पो.आ. इट्टुकुडुक्का, वाया करिवेल्लुर, जिला कन्नूर ।
92306	मनोज कुमार सुभादेवन सुभादेवन डी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६८	6966 26.12.98	'आनन्दा भवन', टी.क.एम. कलेज पो.आ. पेरुर, जिला कोल्लम, केरल ।

92307	मनोज कुमार एस. सिवादासन पी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६६	7069 10.12.99	दीपा भवन, अक्कोलिल, पो.आ. वालाथुंगल, कोल्लम-१८, जिला कोल्लम, केरल ।
92308	मनोज आर. पी.आर. रमण नाबूदीरी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8070 27.7.04	पुथेत्ताथु हाउस, पो.आ. कीडिलम, वाया पेरुम्बादूर, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92309	मनोज सी. चन्द्रसेखरन नायर के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९६७	6762 26.4.97	मंगलाथु हाउस, पो.आ. ईस्ट थोडुप्पा, जिला इडुक्की, केरल ।
92310	मनोज के.वी. कुमारन के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7821 6.6.03	कुनियन साउथ, पो.आ. करिवेल्लुर, जिला कन्नूर, केरल ।
92311	मनोज एन. नारायणा पिल्लई पी.आर.	बी.ए.एम.एस. कुन्नेमु वि.वि., शंकरगट्टा २००१	7377 7.5.01	दिवाकरा विलास, टी.सी.२८/२८३, चेट्टीकुलंगारा, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92312	मनोज पी.एस. सिद्धारथन पी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६८	6873 24.4.98	पट्टाली हाउस, पो.आ. तलिकुलम, जिला थरिसूर, केरल ।
92313	मनोज आर. रविन्द्रन एन.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7384 29.5.01	टी.सी.४/४४३, उडुमुमाला, ईएमएस नगर, पो.आ. श्रीकरयम, थिरुवनन्थापुरम ।
92314	मनोज एस. संकरा नारायणा अयर बी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7714 19.11.02	पुलेयेलाथु वडक्के मडोम, साउथ थुलपरम्बु, पो.आ. हरिपद, जिला अलापुझा ।
92315	मंसूर अली गुल्ककल सी.एच. मम्मू गुल्ककल सी.एच.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई	7726 19.11.02	चंगमपल्ली हाउस, कट्टीपस्सी, पो.आ. वालनचेरी, जिला मालपुरम, केरल ।

92316	मैरी आशा लुईस लुईस एम.टी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., बंगलौर १९६५	6861 21.4.98	किडमक्कूट्टे हाउस, चेरालायम, कुन्नामकुलुम, जिला थरिसूर, केरल ।
92317	मैरी सुष्मा बी. बोनिफेस सी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	6795 6.8.97	पुथेनकाडा वीडु, कुंजीराकोडे, पो.आ. कुन्दरा, जिला कोल्लम, केरल ।
92318	मैरी सी.ए. अगस्ती	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६६	7103 23.12.99	स्टेल्ला मैरीस कन्वेन्ट, उदयमपेरुर, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92319	माया गोपीनाथ गोपीनाथ टी.के.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोट्टायम १९६६	6727 22.1.97	वलिथीवीटिल, पो.आ.एडाथनट्टुकरा, वाया अलनाल्लूर, जिला पलक्कड़, केरल ।
92320	माया नारायणन नारायणा मेनन ई.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7316 12.2.01	व्यरेली हाउस, वेनाथुनडु, पो.आ.वलाकुडी, जिला थरिसूर, केरल ।
92321	माया के.पी. प्रभाकरन नांबियार के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००१	7500 9.1.02	कैलास, कुन्हीपारा, पो.आ.कोडक्कड़, वाया त्रेकरपुर, जिला कसारागोडु, केरल ।
92322	माया एस. श्रीधरन ए.के.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोट्टायम १९६६	6729 22.1.97	श्रीविलास, पो.आ. अमलागिरी, कोट्टायम-३६, जिला कोट्टायम, केरल ।
92323	माया एस. रविन्द्रन नायर पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि वि.वि., चेन्नई २०००	7274 13.11.2000	पदमाश्री, अम्बादीमाला, पो.आ.थिरुवनकुलम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92324	माया देवी आर. चन्द्रसेखरन नायर पी.के.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोट्टायम १९६६	6731 22.1.97	'मदय्याल्लील', पो.आ. थुरावूर, चेरथला, जिला अलापुझा, केरल ।

92325	मेबी अन्ना जाचरैयाह टी.एस. जाचरैयाह	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साईसिस, बंगलौर २००३	7996 3.4.04	मेबी कोटेज, वझवाडी, पो.आ. थडक्करा, मवलिककरा, जिला अलापुझा, केरल ।
92326	मीरा ए. ई. राजेन्द्रन	बी.ए.एम.एस. क्रालिकट वि.वि., क्रालिकट २००४	8079 27.7.04	परमेश्वरम, व्हाईट फ़िल्ड कालोनी, विय्यूर, जिला थरिसूर, केरल ।
92327	मीरा पी. वेनु पी.एम. वेनु	बी.ए.एम.एस. क्रालिकट वि.वि., क्रालिकट २००४	8296 25.1.05	वृन्दावन हाउस, पो.आ. विय्यूर, जिला थरिसूर ।
92328	मीरा आर. राजेन्द्रन के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7290 22.11.2000	टी.सी. २०/३२२६, अरकाडिया, डी-४२, श्रीदेवी नगर, पो.आ. करमाना, थिरुवनन्थापुरम ।
92329	मेरसा जोस. जोसफ़. ग्रेगोरी	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7703 11.11.02	प्रोविडेन्स, पो.आ. पझवीडु, जिला अलापुझा, केरल ।
92330	मिनी हबीब हबीबुल्लाह एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	6840 12.1.98	टी.सी. ५/६४६, देवापालन नगर, हाउस नं.२०, पो.आ. पेरुत्ताडा, थिरुवनन्थापुरम ।
92331	मिनी आई. के. नारायणा पिल्लई	१६६७ बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साईसिस, बंगलौर २००२	8038 17.5.04	कलाथूर वीडु, पो.आ. पेरुमकुलम, वाया कोट्टरक्करा, जिला कोल्लम, केरल ।
92332	मिनी एन.एच. एन. हरिवास	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साईसिस, बंगलौर २००३	7929 20.12.03	हरिनिवास हाउस, पो.आ. कुरिची, जिला कोट्टायम ।
92333	मिनी जे. फ़्रांसिस पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६८	6909 17.8.98	मिनी मन्दिरम, पो.आ. पेरुमोन, पेरियाड, जिला कोल्लम, केरल ।

92334	मिनी के.सी. चकुन्नी के.पी.	बी.ए.एम.एस. क्रिकेट वि.वि., क्रिकेट १६६७	6835 12.1.98	एम.डी. देविड, मल्लिकार्जुन हाउस, कुन्दूवारा रोड, चैम्बुक्कल, जिला थरिपुर ।
92335	मिनी एल. अथुवन एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २०००	7511 28.1.02	तेक्ष्मी निवास, पो.आ.नेल्लीमुक्कल, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92336	मिनी एन.सी. रारु एन.सी.	बी.ए.एम.एस. क्रिकेट वि.वि., क्रिकेट १६६७	6796 6.8.97	नेडियावल्लिल हाउस, पो.आ. मणिपुरम, वाया काडुवल्ली, जिला कोडिक्कोडु, केरल ।
92337	मिनी पी. पोदियन के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६८	6912 17.8.98	निशा निवास, पो.आ. कोक्काडु, कोट्टरक्कारा, जिला कोल्लम, केरल ।
92338	मिनी पी. पंजक्कल के.	बी.ए.एम.एस. क्रिकेट वि.वि., क्रिकेट २००२	7541 16.3.02	सान्थी निलायम, पो.आ. मनकड, थोडुपुझा, जिला इडुक्की, केरल ।
92339	मिनी वी.जी. जार्ज सी.	बी.ए.एम.एस. क्रिकेट वि.वि., क्रिकेट २०००	7550 16.3.02	वेटीकोट्टील हाउस, पो.आ. वझावट्टा, नोर्थ कलपेट्टा, जिला व्यानाड, केरल ।
92340	मिनीमोल वी.एन. नेलसन जे.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६७	6838 12.1.98	वडाक्कथु वीडु, मालाकुलनगरा, पो.आ. मरयामुट्टोम, जिला थिरुवनन्थपुरम ।
92341	मिशा रानी के. सहदेवन पी.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैथ साईसिस, बंगलौर २००३	7909 8.12.03	पुलारी हाउस, करिमुल्लकल, पो.आ. कोमालूर, तालूक मेलिककारा, जिला अलापुझा ।
92342	भितरा दास एम. डी. मोहन दास	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7856 8.10.03	अम्बाडी, पो.आ. सनथनापुरम, जिला अलापुझा ।

92343	मोहम्मद रफी एच. हनीफा एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7560 21.3.02	निहाराम हाउस, अट्टायम्पयी, गोविन्दपुरम, विट्टूर, जिला पलक्कड़ ।
92344	मोहम्मद एम. मनियारा नारायणन ना. यार	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००१	7577 27.4.02	मदायिल हाउस, पो.आ. अचिकानम, वाया आनन्दआश्रम, जिला कसारागोडु, केरल ।
92345	मोहम्मद एम.टी. एम.टी. शास्त्रान	बी.ए.एम.एस. उत्तल वि.वि., शुवैश्वर २००१	8224 21.12.04	पंजाजनीयम, पो.आ. पुथुर, वटकार-४, जिला कोयिकोडु, केरल ।
92346	मोईदीनकुट्टी यू. जल्लत कुंजलनकुट्टी वैदयार	आर्य वैद्य ए.बी.पाटसाला, कोट्टक्कल १६३८	6938 21.10.98	द्वारा यू.के. मेडिकल्स, चेम्पड, पो.आ. थिरुनगडी, जिला मालपुरम, केरल ।
92347	मोत्ती मैनुएल मैनुअल ए.डी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7000 6.3.99	अलापट्ट पूथिंगल (एच), पो.आ. नाडयारा जिला थिरिसूर, केरल ।
92348	मुदानी सी. सी.सुषाकन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २००३	8110 25.9.04	कुन्नेक्कट हाउस, पो.आ. कोट्टापडी, वाया कुन्नेक्कुत्तम, जिला थिरिसूर, केरल ।
92349	मृण्मय प्रसाद एस.बी. संकरा वरियर	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २०००	7153 22.5.2000	मन्मबाथ वरियम, पो.आ.मनमिन्डा, जिला कोयिकोडु, केरल ।
92350	मुहम्मद शनवास थायथिल कम्माली टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7183 5.7.2000	पो.आ. कूट्टील, मानकडा, जिला मालपुरम ।
92351	मुहम्मद असरफ पी.बी. अब्बाकर हजी पी.ए.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २००२	7725 19.11.02	पुथिया वीट्टील हाउस, विथयानूर, पो.आ. कोमकूर, जिला मालपुरम, केरल ।

92352	मुहम्मद सतिह आर.ए. अब्दुल्ला आर.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7620 9.7.02	सविथा मजिल, पो.आ.वटनापल्ली, जिला थरिसूर, केरल ।
92353	मुहसीना एच. हिंदुमुहम्मद ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7807 2.6.03	प्रियदर्शिनी, कुरक्कोड, पो.आ. कल्लायिल, मुदाथरा, जिला कोल्लम, केरल ।
92354	मुकेश ई. पी.वी. मुकुन्दन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००३	7888 28.11.03	मुक्थी, पोच्वालमकई, वाया पुथारियाडुक्कम, निलेश्वर, जिला कसारागोडु, केरल ।
92355	मुलीधरन ए.के. कुन्हनु ए.	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पु वि.वि., शंकरघट्टा २०००	7268 9.11.2000	पुषालायम, बट्टमबारा, मधु रोड, जिला कसारागोडु, केरल ।
92356	एन.ए. राजेन्द्रन एन.एस. अय्यप्पन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २००३	8111 25.9.04	नाडेपील्ली हाउस, मट्टूर, मरोट्टीकोडु, पो.आ. कलाडी, जिला एर्नकुलम, केरल ।
92357	नदाशा पी.के. करीम पी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7205 5.7.2000	शास निवास, पो.आ.चेम्बुक्कावु, जिला थरिसूर ।
92358	नायर सन्दीप दामोदरन टी.एम. दामोदरन नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	8176 25.10.04	विदया सदन, निकट फ़ायर स्टेशन, नट स्ट्रीट, पो.आ. वटक्रा-४, जिला कोझिकोडु ।
92359	नजीब एस. सैमुदीन एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7399 11.6.01	देवीभानम, पो.आ. ओलकट्टीयमबलम, मवेलिकक्का, जिला अलापुझा, केरल ।
92360	नजीब टी.के. मोहमेदाली के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7831 12.6.03	लिगवे हाउस, कोडाथूर, पी.बी.नं.६७६५२० पो.आ. पेरुम्पादणा, जिला मालपुरम ।

92361	नन्दकुमार के.पी. कृष्ण ए.	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पु वि.वि., शंकरघट्टा २००१	7406 14.6.01	मयनकम, पो.आ.रवानेश्वर, वाया पल्लिकारा, जिला कसारागोडु, केरल ।
92362	नारायणा एम. एम. वैक्कटकृष्णा	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हेल्व सॉइसिस, बंगलौर २००३	8225 21.12.04	वृन्दावनम, पो.आ. मधुर, जिला कसारागोडु, केरल ।
92363	नारायणन ए.एन. नारायणन ए.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २०००	7270 10.11.2000	अलायिपूर माना, पो.आ. चून्नुदल, जिला थरिसूर, केरल ।
92364	नरेश बी. गोपालाकृष्णा शेट के.एम.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९६७	6974 20.02.99	गोपालाकृष्णा शेट के.एम. पन्नापला हाउस, पो.आ. कराडका, जिला कसारागोडु, केरल ।
92365	नसीर वी.ई. इब्राहिम वी.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६८	6870 24.4.98	वतियाकथ, मुडीकोड, पो.आ. पट्टीकड, जिला थरिसूर, केरल ।
92366	नवीन ए.एन. नन्दनम ए.बी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., वेल्नई १९६७	6877 24.4.98	अन्देझथ हाउस, पट्टाम्बी रोड, कुन्मकुलम, जिला थरिसूर, केरल ।
92367	नवीन सी.जे. चायु के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., वेल्नई १९६६	7151 22.5.2000	कविथा, कोया रोड जक्कान, वेस्ट हिल पो.आ. कालिकट-५, जिला कोडिकोडु ।
92368	नीलिमा के. उनीकृष्णन सी.एच.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7565 30.3.02	पुथियेदथ हाउस, विचमबलम, टालीपरम्बा, जिला कन्नूर, केरल ।
92369	नीथा बिन कृष्णा कृष्णाकुट्टी के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7214 17.7.2000	कुरियाकट्टील हाउस, पो.आ. अरिम्पु, जिला थरिसूर, केरल ।

92370	नीषा मैथु के.एस. मैथु	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैब्यु सर्जिस, बंगलौर २००३	8015 12.4.04	पलाविलायल थेंजस, पो.आ.आनन्दपल्ली, अदूर, जिला पडमथिट्टा, केरल ।
92371	नीषा सुन्दन सुन्दन के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7542 16.3.02	मकालिककल हाउस, पो.आ. चेलाथनी, किन्नूर, कुन्मकुलम, जिला थरिसूर, केरल ।
92372	नेलसन लुईस सी.एल. लुईस के.ए.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६८	6949 22.12.98	चक्कलापरम्बिल हाउस, पो.आ. साउथ कुम्बलनगी, कोची जिला एर्नाकुलम ।
92373	नेलसन के.बी. वर्गज के.ई.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7667 26.7.02	करियाट्टील हाउस, पो.आ. दलापद, जिला थरिसूर, केरल ।
92374	निती खान मूसा खान	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	8172 25.10.04	नलवार कोटेज, कालेज रोड, जिला कोल्लम, केरल ।
92375	निती के.ए. आस्टीन के.जे.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7213 10.7.2000	द्वारा डा. आस्टीन के.जे. कचपील्ली हाउस, कोडुनगल्लुर, जिला थरिसूर ।
92376	निकेय नारायण टी.के. ओ.के. नारायण	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8010 12.4.04	गोविन्द, पल्लीपोईल, पो.आ. मोवनचेरी, जिला कन्नूर, केरल ।
92377	नितीना पी. पीथावरन एम.एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7292 22.11.2000	चन्द्रकन्थम, रमणकुलनगरा, पो.आ. कवानडु, जिला कोल्लम, केरल ।
92378	निशा के. अपुनी के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7900 5.12.03	अनुग्रह, थट्टनपाडी, पो.आ. एडपल, जिला मालपुरम, केरल ।

92379	निशा पी.के. के. कोशी	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7870 25.10.03	नाजा निवास, पो.आ. कोटदीयम, जिला कोल्लम, केरल ।
92380	निशा विश्वम्भन विश्वम्भन ओ.वी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २००१	7496 27.12.01	करुपरम्बिल, पो.आ. चेरापल्लचेरी, जिला पलक्कड़, केरल ।
92381	निशा सी.के. जनार्दन नायर पी.एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7172 5.7.2000	त्रिपाठी निवास, पो.आ. मायानड, कालिकट-८, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92382	निशा ई.बी. बालाचन्द्रन नायर	बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएम., कंचिपुरम २००२	7665 16.7.02	इलायीवाशु कुन्नेल, पो.आ. एडवरम्बा, वाया चेरुपुझा, थालिपरम्बा, जिला कन्नूर ।
92383	निशा एल.आर. रवीन्द्रन एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7393 29.5.01	श्रीविषाख, एडग्रामोम, पो.आ. करुमोम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92384	निशा एस. ससिधान एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7392 29.5.01	लक्ष्मी निलायम, टी.सी.५/६४६(१) मस्जिद लेन, पैरुकाडा, थिरुवनन्थापुरम ।
92385	निशान्त नारायण नारायण सिंह	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7627 10.7.02	मत्तायम्परम्बय हाउस, पो.आ. अरियाल्लुर, जिला मालपुरम, केरल ।
92386	निशान्य गोपीनाथ एस. गोपीनाथ नायर	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्य साइसिस, बंगलौर २००४	8137 25.9.04	निर्मलायम, पो.आ. कट्टूर, थिरुवल्ला, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92387	निशान्य एस. नायर संकरा पिल्लई एम.के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7451 3.10.01	जग निवास, पो.आ. क्वाथुंगल, क्यूलेन-१८ जिला कोल्लम, केरल ।

92388	निर्देशिका के.एस. पी. कृष्ण	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7913 9.12.03	करुन्ना, मेल्लेपुरम, पो.आ. ओलवाकोड, जिला पलक्कड़, केरल
92389	पदमानभा नायक के. गोविन्दा नायक के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7915 9.12.03	खनडिंगे हाउस, पो.आ. पेरिया, जिला कसारागोडु।
92390	पदमानभा ई.जी. गोपालाकृष्णन पोर्टी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7009 31.3.99	एडमनमाडम, पो.आ. पेरुमथुल्लु, वाया कल्लारा, जिला कोट्टायम, केरल।
92391	पदमानभा के. अय्यप्पन के. अय्यप्पन के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., धारवाड़ १९९९	6822 5.11.97	श्रीकृष्णा विहार, पो.आ. एडरिकोड, जिला मालपुरम, केरल।
92392	पल्लाथेरी नाम्बी नाबूदरी नाबूदरी पी.पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९९७	6759 26.4.97	पल्लाथेरी माना, पो.आ. एरूर, जिला एर्नाकुलम, केरल।
92393	एम्बावासन के.यू. कोक्काट्टील एम. उन्नीवेक्कन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7639 15.7.02	कोक्काट्टील हाउस, पो.आ. मुरियाड, जिला थरिसूर, केरल।
92394	परमेश्वरन के.पी. परमेश्वरन नाम्बूथेरी के.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7320 12.2.01	कलाडी माना, पेरुमपिलाविल रोड, नोर्थ नाडा गुरुवाथुर, जिला थरिसूर।
92395	पविशरन के.बी. बालाकृष्णन के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7360 16.3.01	कोडालिल हाउस, पो.आ. नालास्सेरी, जिला पलक्कड़, केरल
92396	पिचपील्ली मणि जेक्कल (जेक्कल पी.एम.) मणि	आर्य वैद्य ए.बी.पाटसाला, कोट्टकल १९४९	6880 24.4.98	पिचपील्ली हाउस, पुन्नामट्टम एस., पो.आ. कडावूर, वाया मुवट्टुपुझा, जिला मालपुरम, केरल।

92397	पोनी चन्द्रन एम.एन. रामचन्द्रन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8164 13.10.04	मंगलासेरिल हाउस, पो.आ. इस्ट इस्वा, कायमकुलम, जिला अलापुझा, केरल।
92398	पूमाश्री मोहन के. चन्द्रमोहन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8142 25.9.04	पूर्णप्रिया, इममकुलम, पो.आ.पाराक्रोड, जिला पठनमथिट्टा, केरल।
92399	प्रवीण के. प्रमाणकण वैद्यार	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8131 25.9.04	करियाथन कविल हाउस, पो.आ.कूडारही, जिला कोझिकोडु, केरल।
92400	प्रभा नायर के.कृष्णन नायर	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	8016 15.4.04	मालापल्लि हाउस, थलायर, पो.आ.कुट्टूर, थिरुवत्ता, जिला पठनमथिट्टा, केरल।
92401	प्रविशा एम. मोहनदास एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7794 7.5.03	अम्बिली, पल्लायु, कलारकोड, पो.आ. सन्थनापुरम, जिला अलापुझा, केरल।
92402	प्रबोध आर. राववन आर.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९९६	7086 10.12.99	अभायम, सिवा टेम्पल रोड, पो.आ. थोटाकट्टुकरा, अलुवा, जिला एर्नाकुलम।
92403	प्रदीप भट्टाथिरी जे. जयनारायणा भट्टाथिरी	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8085 13.9.04	वडाक्के मूदमबाडी इस्लाम, पो.आ. कीरीकड, तालूक काथिकपल्ली, जिला अलापुझा।
92404	प्रदीप के.वी. विदयाधरन एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९८	6919 18.8.98	'कल्पना' अयाथिल, पो.आ. अयाथिल, जिला कोल्लम, केरल।
92405	प्रदीप आर. रामकृष्णन आचरी वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7265 8.11.2000	अचारी परम्बिल, पो.आ. नेडुमोन, इममकुलम, जिला पठनमथिट्टा, केरल।

92406	प्रदीप आर. राखन आर.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि.,चेन्नई १६६८	7368 23.4.01	गीथा भवनम्, पो.आ.एस.एच. माउण्ट, जिला कोटायम्, केरल ।
92407	प्रदीप कुमार जी पिल्लई ए.जी.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १६६६	7122 1.2.2000	कार्तिका, श्रीरामपुरम्, कल्लुवायुक्कल, जिला कोल्लम्, केरल ।
92408	प्रजा आर.के. केसवन आर.आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7711 11.11.02	देवी प्रभा, टी.सी. ३०/१०२२, मौस्क लेन, पेट्टाह, जिला थिरुवनन्थपुरम् ।
92409	प्रज्जा जी. गंगाधरन पी.पी.	बी.ए.एम.एस. कुवेमु वि.वि., शंकरपट्टा १६६८	6948 22.12.98	'राजीवी निवास' कुथिरावट्टोम, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92410	प्रकाश मंगलास्सेरी कुन्हीरम्प नयार ए.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १६६८	6980 20.2.99	मंगलास्सेरी, पोस्ट वेनोली, वाया पेरम्बरा, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92411	प्रमोद के.वी. के.वी. भास्करन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8140 25.9.04	मणिकम्, पो.आ. वेल्वाथुर, जिला कनारगोडु ।
92412	प्रपंच के. ए.के. प्रभाकरन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8127 25.9.04	श्री भवन, सामने इन्कम टैक्स आफिस, पो.आ. चोवा, जिला कन्नूर, केरल ।
92413	प्रसाद एन. नाम्बूद्री पी.के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि.,चेन्नई १६६८	6950 22.12.98	कोतपुरथ मना, 'झारका', सामने म्यूनिसिपल आफिस, शोरनूर, जिला पलक्कड़ ।
92414	प्रसाद बी.आर. रमण बी.एस.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००२	7557 19.3.02	वेणुथनर हाउस, पो.आ. मलक्कोडी, जिला थरिस्सूर, केरल ।

92415	प्रसन्ना तस्मी के. सुन्दरा श्रुत	बी. ए. एम. एस. मंगलौर वि. वि., मंगलौर २०००	7613 2.7.02	डा. श्रीकृष्णा वी. उत्तरकोडोगे हाउस, पो. आ. कोल्लूर, मंजेश्वरा, जिला कन्नूरगोडु ।
92416	प्रसन्ना नान्बूद्री नान्बूद्री पी. के. एन.	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि., चेन्नई १६६६	6792 28.7.97	डा. पी. के. एन. नान्बूद्री, आई. आई. पी. चेन्नयुस्वमी, जिला थरिसूर, केरल ।
92417	प्रसन्न एस. आर. बी. सत्तिकुमार नायर	बी. ए. एम. एस. केरल वि. वि. २००३	7852 8.10.03	एडीआर-२३, टी. सी. २६/१०७१, चन्द्रविलासम, पत्तकुलानगरा, थिस्वनन्यापुरम ।
92418	प्रसन्न ए. एस. सुकुमारन एन.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट २००२	7641 15.7.02	आनन्दामन्दिरम, अम्बालापड, पो. आ. कुन्नुक्कड, जिला थरिसूर, केरल ।
92419	प्रसन्न पी. प्रभाकरा वरियर बी. आर.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट २००२	7767 31.12.02	टी. सी. ४/१९०, श्रीविलास लेन, पो. आ. कवदियर, जिला थिस्वनन्यापुरम, केरल ।
92420	प्रसन्न आर. राखन आर.	बी. ए. एम. एस. मंगलौर वि. वि., मंगलौर १६६७	6947 22.12.98	iv/171, 'अभयम', टेम्पल रोड, पो. आ. थोटक्कट्टुकरा, अलुवा, जिला एर्नाकुलम ।
92421	प्रसीना ई. आर. रमणकुट्टी ई.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६६	7113 23.12.99	श्रेयास, पत्तक्कडी, पो. आ. कुत्तूर, वाया रेंक जिला कोयिकोडु, केरल ।
92422	प्रसीता के. कुन्हीरमण के. पी.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६६	6985 20.2.99	कोरोथुपरामबिल हाउस, पो. आ. चुनडाले, जिला वनाड, केरल ।
92423	प्रसोम के. पी. प्रसीधन के. पी.	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि., चेन्नई २०००	7149 22.5.2000	कलीसारिल हाउस, पो. आ. कोनोरपिल्ली, जिला एर्नाकुलम, केरल ।

92424	प्रवीन कुमार के.सी. कुट्टीकृष्णन नायर सी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7546 16.3.02	विश्वक्से चेल्लुपरमबिल हाउस, पो.आ. कल्लूर, नोर्थ पोन्जानम, इरिन्जलकुडा, जिला थरिसूर ।
92425	प्रवीन कुमार पी.एस. पुरुषोत्थम पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९६७	6782 8.7.97	कोयुविला वीडु, चिट्टयम, पो.आ. इन्चविला, पेरिनाड, जिला कोल्लम, केरल ।
92426	प्रवीन पी.आर. ओ.के. रामचन्द्रन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैब्य साईसिस, बंगलौर २००३	7930 20.12.03	आयुर्वेदसदनम, पो.आ.प्रण्णा, कसारागोडु ।
92427	प्रवीन आर. एल. रामचन्द्रन नायर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7895 5.12.03	सिमथूराम, कन्नामठ क्लिक्कोविल, उलियाकोविल, जिला कोल्लम, केरल ।
92428	प्रवीन जी.एस. ससिकुमार के.एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7237 10.8.2000	थोयुविलकोम, पो.आ. वेल्लानड, जिला थिस्वनन्यापुरम, केरल ।
92429	प्रवीन एम. उनीकृष्णा वरियर ई.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६७	6829 15.11.97	'गार्थी, पूडियारा, पो.आ. कोट्टक्कल, जिला मलपपुरम, केरल ।
92430	प्रवीन आर.एस. ससिधरन नायर एस.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९६८	6901 22.6.98	टी.सी.४६/२२३, 'विष्णु प्रिया', कल्लाट्टुमुक्कु, पो.आ. मानकोड, थिस्वनन्यापुरम ।
92431	प्रविष एन.के. नतेसन के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7446 15.9.01	के.एन. निवास, एडवनकोनम, पो.आ. कट्टड्कोनम, जिला थिस्वनन्यापुरम, केरल ।
92432	प्रविषा के. के.सुब्रामनियन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैब्य साईसिस, बंगलौर २००४	8230 31.12.04	कक्काय हाउस, पो.आ. न्हागाट्टीरी, वाया पाट्टमबी, जिला पलक्कड़, केरल ।

92433	प्रविषा कुमारी बी. पी. सुकुमारन नायर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7855 8.10.03	करयादिपुयेन वीडु, मानपुरम, पो.आ. मालायिनकीडु, थिरुवनन्थापुरम ।
92434	प्रीषा एच. हरिहरन सी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7388 29.5.01	ज्योथिस, वेस्ट फ़ोर्ट, म्बेलिकारा, जिला अलापुझा, केरल ।
92435	प्रीषा पी. कुहीरम्पन नायिकार के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६८	6929 8.9.98	'श्रीहरि' पो.आ.मय्यान्नूर, वडक्कारा, जिला कोडिक्कोडु, केरल ।
92436	प्रीषा पी. प्रभाकरन आर.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६८	7047 18.10.99	अस्वथी, पो.आ. पुनथला, चेन्नानूर (आर.जिला) जिला अलापुझा, केरल ।
92437	प्रीषा पी.आर. पुल्लोय्यन नायर के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7710 11.11.02	पी.आर. भवन, पो.आ. पेरायम, वाया पाचा, मेडुमनगु, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92438	प्रीषा पी.बी. कुहीरम्पन टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7309 12.2.01	थूनेली हाउस, कोलायुवायल, पो.आ. अंचमपीडिक, जिला कन्नूर, केरल ।
92439	प्रीथन एस. सोमराजन बी.	बी.ए.एम.एस. कुन्नेमु वि.वि., शंकरघट्टा १६६६	7124 1.2.2000	प्रीथरागम हाउस, पो.आ. थलायोलारम्बु, जिला कोट्टायम, केरल ।
92440	प्रीथी के. रामकृष्ण रामकृष्ण के.आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7206 5.7.2000	अथिरा हाउस नं. iv/417, मूजियम क्रॉस लेन, पो.आ.चेम्बुक्कळु, जिला थरिसूर ।
92441	प्रीथी एस.पी. संकरन एस.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7362 16.3.01	पुलियाक्कोड हाउस, पो.आ. पनामन्ना, जिला पलक्कड़, केरल

92442	प्रीथी पी. पुष्पांगदन सी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००१	7435 15.9.01	पदीपुरा थेक्कोविल, पो.आ.कराक्कड, चेन्नान्नूर, जिला अलापुझा, केरल ।
92443	प्रीया के.एस. कोचुकृष्णन एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6741 7.2.97	प्रिया भवन, पो.आ. कोल्लायिल, वाया मदाथरा, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92444	प्रेमजय एस. सव्याभला पाणिकर	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8216 15.12.04	पो.आ.एडक्कुलनगरा, करुणागापल्ली, जिला कोल्लम, केरल ।
92445	प्रेमकिशोर के. सिवारमण के.के.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १६६८	6853 28.3.98	कूट्टाक्कील हाउस, नेलिकोड, कोट्टिकोडु, केरल ।
92446	प्रीथा नाबियार कुन्हीरमण नायर एम.वी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २०००	7269 9.11.2000	ज्योथना, चट्टनचल, पो.आ.थेक्कील, जिला कसारागोडु, केरल ।
92447	प्रिया एम.सुन्दरम सुन्दरम अय्यर एच.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६८	6953 22.12.98	'मधुरा' टी.सी.१/१४८०, थलियल, पो.आ. करमना, जिला थिरुवनन्थापुर, ।
92448	प्रिया प्रसाद बाबू राजेन्द्र प्रसाद के.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००१	7438 15.9.01	कोट्टाक्काविल, नीनदूर, वडक्केल्लारा, नोर्थ पल्लर, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92449	प्रिया प्रसाद प्रसाद के.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००२	7573 27.4.02	पुलक्कल हाउस, पो.आ.कुडलासेरी, केरलासेरी, जिला पलक्कड, केरल ।
92450	प्रिया रविन्द्रन रविन्द्रन पिल्लई एम.सी.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००३	7848 14.8.03	पौरनामी, पो.आ.मुट्टोम, हरिपद, जिला अलापुझा ।

92451	प्रिया ए. अशोकन ए.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7188 5.7.2000	गोकुलम रामनगर, पो.आ. वडक्कन्थारा, जिला पलक्कड़, केरल
92452	प्रिया सी. नायर चन्द्रहासन नायर पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	7034 16.9.99	प्रिया-रेशमी हाउस, पो.आ. कुटलाथोडे, जिला अलापुझा, केरल ।
92453	प्रिया के. सेखरन के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7549 16.3.02	अरुन्नोदयम, पो.आ. किञ्चुनु, जिला कन्नूर ।
92454	प्रिया के.जी. गंगाधरन नायर के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7754 28.12.02	किञ्चुके इलेदये हाउस, पो.आ. वेनगेरी, कालिकट-१०, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92455	प्रिया के.एस. संकुरु के.आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	7078 10.12.99	कैथक्कापील हाउस, पो.आ. पडियूर, वाया इरिन्जलाकुडा, जिला थरिसूर, केरल ।
92456	प्रिया एम. परमेश्वरन एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7760 28.12.02	प्रयाणा, के.जी. पाडी, पो.आ. तिरु, जिला मालपुरम, केरल ।
92457	प्रिया एस. श्रीधरन ए.के.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोट्टयम १६६६	6730 22.1.97	श्रीविलास, पो.आ. अमलागिरी, कोट्टयम-३६, जिला कोट्टयम, केरल ।
92458	प्रिया एस. श्रीनिवासन एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	6920 18.8.98	'श्रीवास', पैलेस रोड, पो.आ. वक्कोम, जिला थिरुवनन्थपुरम, केरल ।
92459	प्रिया बी.एल. विश्वनाथन पिल्लई के.एस.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६६	7051 18.10.99	इल्लिकुलथु वयानकम, पो.आ. नजक्कानल, वाया कृष्णापुरम, जिला कोल्लम, केरल ।

92460	प्रियदर्शिनी सी.जी. गोपीनाथन सी.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६.६.६	6990 20.2.99	चुल्लीपरमबिल, पो.आ. मण्डपुर, कोडुगल्लूर, जिला थिरुसूर, केरल ।
92461	पुष्पा जे. टी. जोसेफ	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	7966 1.3.04	पुष्पा गन्धिरम, कन्तोमोट हाउस, जिला कोल्लम, केरल ।
92462	पुष्पा कुमारी एस. थामस एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६.६.६	6957 22.12.98	वेददीक्षुलामारा हाउस, निकट कलती, पो.आ. पारसला, जिला थिरुवनन्थपुरम ।
92463	पुष्पा ई. माधवन इन्वर्नसिरी ई.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६.६.६	6848 28.3.98	कोट्टुमकोवी हाउस, पो.आ. अरोपुरम, वाया आनन्दाश्रम ।
92464	पुष्पम डी. वर्सेस सी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६.६.६	7053 26.11.99	टी.सी.१३/१५२६, कन्नाम मूला, मेडिकल कालेज, जिला थिरुवनन्थपुरम ।
92465	आर.विनायक नायर वी.आर.के. नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	7991 29.3.04	स्वाथी धारनगोम, कन्नीसेलविल्ल, थोदुदुक्कल, पो.आ. ऐयड, जिला थिरुवनन्थपुरम, केरल ।
92466	राही एस.आर. रामदास आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7401 11.6.01	गुरुदत्तन, पो.आ. श्रीनिवासपुरम, वयला, जिला थिरुवनन्थपुरम, केरल ।
92467	राखी एन. कृष्ण एन.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६.६.६	6994 6.3.99	नीलथ हाउस, पो.आ. अरियानूर, जिला थिरुसूर, केरल ।
92468	राधा कृष्णन सी. वन्देसेखरन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६.६.६	6955 22.12.98	टी.सी.१५/१५४३, हाउस नं. २२, एम.पी. अणन नगर, वल्लुथकोट्ट, थिरुवनन्थपुरम ।

92469	राधा कृष्णन के.आर. राजपन पिल्लई के.एन.	बी.ए.एम.एस. डनर्टिक वि.वि., धारवाड़ १६६५	6756 15.4.97	अशिमिल्लम, वेलियानाड पो.आ. चोनाचेरी, जिला अलापुझा, केरल ।
92470	राधाकृष्णन मेलेपुराक्कल एम.उनीकुट्टी केदयार	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8086 13.9.04	मेलेपुराक्कल हाउस, वाया एरियाक्कोड, पो.आ.उगरापुरम, जिला मालपुरम, केरल ।
92471	राधाकृष्णि पी. गंगाधरन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7186 5.7.2000	गंगा भवन, तिरुवर-१, जिला मालपुरम ।
92472	राधिका रानी आर.के. रामकृष्णा पिल्लई एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि., केरल १६६८	6916 18.8.98	मिनी ज्योथि, टी.सी.३/१४०५, लक्ष्मी नगर, पट्टोम पैलेस पो.आ., थिरुवनन्थपुरम ।
92473	राधिका रंजन गोयेश पी. रामावद्वर अम्मानय्या पी.	बी.ए.एम.एस. डनर्टिक वि.वि., धारवाड़ १६६६	7925 9.12.03	केनका कृपा हाउस, पो.आ.अमर, जिला कन्नूर, केरल ।
92474	राधिका सी. हरिदासन नायर	बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएम., कांचीपुरम २००२	7663 16.7.02	चेल्वाय हाउस, पोस्ट पूगाथ, वाया नादुवनुर, जिला कोल्लिओरु, केरल ।
92475	राधिका पो. राधाकृष्णन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7159 21.6.2000	दीर्घम, पेयेमचेरी, पो.आ.अरुट्टी, जिला कन्नूर, केरल ।
92476	रागेश आर. रविन्द्रन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8071 27.7.04	इडुवापाडी हाउस, पो.आ.कीलकुमुरी, पेरिनगोट्टुक्करा, जिला थरिस्सर, केरल ।
92477	राधवन पी.के. कृष्णन सी.के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6742 7.2.97	चिट्टीलक्कट्टु, पो.आ.कोट्टुपुझा, वाया कोयामंगलम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।

92478	राधवन आर. रामाचन्द्रन पणिकर के.के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६७	6746 7.2.97	‘रमानीलयम’, केसवन नायर लेन, पूजापुरा, जिला थिस्वनथापुरम, केरल ।
92479	रहाना रानी एम. मुत्तीथरन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7590 10.6.02	नेल्लीकुनाथ वीडु, पो.आ. नल्लीला, जिला कोल्लम, केरल ।
92480	राहुल आर.पी. रामाचन्द्रन नायर आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7598 10.6.02	रेमया, टी.सी. ५०/६०५, कलाडी, पो.आ. करमाना, जिला थिस्वनथापुरम, केरल ।
92481	राज मोहन बी. केलायुधन पिल्लई के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7853 8.10.03	ललिथा मन्दिरम, पो.आ. चिराक्करा, एडावट्टोम, कल्लुवथुककल, जिला कोल्लम ।
92482	राज मोहन पी.आर. रमकुट्टी पी.सी.	बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएम, कांचीपुरम २००२	7604 1.7.02	फलानचेरी, पडीवयल, पो.आ. वाडुवांचल, जिला वयनाडु, केरल ।
92483	राजलक्ष्मी आर. नायर राजेन्द्रन नायर टी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7697 5.11.02	राज विहार, कटुमथट्टु, अयनीमडु, पो.आ. वेदीवाचन कोईल, थिस्वनथापुरम ।
92484	राजन पी. देविड एम.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६७	6726 21.1.97	पल्लीविला वीडु, कलानूर, पो.आ. पारासला, जिला थिस्वनथापुरम, केरल ।
92485	रजनी एस. पिल्लई एम.एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7803 7.5.03	के. इन्स्टी.आफ होटल, मैनेजमेन्ट-२, कैटिंग टैक्नोलोजी, जीवी राजा रोड, कोवलम, जिला थिस्वनथापुरम ।
92486	राजसेखरन नायर जी. गोपीनाथन नायर के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7619 9.7.02	पार्वथी विलासम, पो.आ. वन्दीपेरियार, जिला इडुक्की, केरल ।

92487	राजश्री जी. के.एस. गोपाला कृष्णन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ़ हैल्थ साइंस, बंगलौर २००४	8163 13.10.04	कक्कनाट्टुचिरायिल, कोडीमाथा, जिला कोट्टयम, केरल ।
92488	राजश्री पी. मोहनन बी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7227 10.8.2000	अमरुथकुलानगरा वीडु, पो.आ. थेक्केविला, जिला कोल्लम, केरल ।
92489	राजसुजियम एन.के. नटराजन सी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7226 10.8.2000	सन्तोष भवन, थाझम साउथ, पो.आ. चयन्नूर, जिला कोल्लम, केरल ।
92490	रतीना के.ए. अब्दुल वाहिद के.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7199 5.7.2000	पो.आ. कोथापरम्बू, कोडुनाल्लूर, जिला थरिसूर, केरल ।
92491	राजीव एस. पी. सुधाकरन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8286 25.1.05	अंजलि, निकट पोली होस्टल, पो.आ. अंगदीपुरम, जिला मालपुरम, केरल ।
92492	राजीव जी. गोपालन सी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7599 14.6.02	एडाथस्वेल, नोर्थ, क्रिदापरम, पो.आ. पेरुनालम, वाया अरिनाल्लोर, जिला कोल्लम ।
92493	राजीव वी.बी. ब्रह्मादाशन वी.एम.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९९७	6863 24.4.98	वैदया मन्थम, पो.आ. वडक्कनचेरी, जिला थरिसूर, केरल ।
92494	राजीवन वी. अबु के. वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7163 5.7.2000	धनन्थरी निवास, पो.आ. त्रिकरीपुर, जिला कसारगोडु, केरल ।
92495	राजेश बाबू ई.के. कैसवन ई.वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९९८	6903 22.6.98	के.डब्ल्यू.ए. क्वार्टर्स, मूथनथारा, जिला पलक्कड़, केरल ।

92496	राजेश के.पी. पी. आनन्दन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8021 22.4.04	अनन्म, निकट गवर्नमेन्ट अस्पताल, पो.आ. करिवेल्लुर, जिला कन्नूर, केरल ।
92497	राजेश कुमार ई. पी. राघवन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	8001 3.4.04	पालक्कुलम हाउस, पोस्ट अट्टेन्गानम, वाया आनन्दाश्रम, जिला कसारागोडु, केरल ।
92498	राजेश रामनाथ रामनाथन एम.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7418 11.7.01	सुवर्ना ३७/५७६, मुट्टायिल लेन, कडावनथारा, कोचीन, जिला एर्नाकुलम ।
92499	राजेश टी.जी. पी.जी. गोपाकुमार	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7897 5.12.03	श्रीदुर्गा, पो.आ. पूवायुस्सेरी, अन्नामनडा, जिला थरिसूर, केरल ।
92500	राजेश बी. भास्करन नायर जी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९९६	6976 20.2.99	अनारी वीडु, पो.आ. थरिकुन्नापुझा, जिला भत्तापुझा, केरल ।
92501	राजेश डी. राघवन डी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7352 15.3.01	श्रीलक्ष्मी, ओल्ड ई.एस.आई. रोड, पो.आ. पत्तीकुन्नु, जिला कन्नूर, केरल ।
92502	राजेश के. करुणाकरन के.एन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९८	6946 15.12.98	थट्टुविला हाउस, एडावट्टोम, पो.आ. वेल्लीमोन, कुन्दरा, जिला कन्नूर, केरल ।
92503	राजेश के.एस. सदासिवन के.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7563 30.3.02	कन्हनाट्टु परमबिल, नेडुनगोट्टुर, शोरानर, जिला पलक्कड़, केरल ।
92504	राजेश एम. पदमानभान नायर के.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7525 14.3.02	सुनील निवास, पो.आ. नाडुवट्टोम, वाया कुट्टीपल्लाम, जिला मालप्पुरम, केरल ।

92505	राजेश एन. नारायणन् नायडूरी एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६८	6847 28.3.98	नीलमना, रेशनी, पो.आ. इरिवल्लुर, चेलामुर, जिला कोच्चिकोडु, केरल ।
92506	राजेश पी.बी. नारायन्ना एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7659 16.7.02	मोट्टामल हाउस, कन्नोम, पो.आ. एन्नोम, जिला कन्नूर, केरल ।
92507	राजेश आर. राजेंद्रन आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7397 8.6.01	मेलाथिल वीडु, अलेनवेरी, पो.आ. यैलर, जिला कोल्लम, केरल ।
92508	राजेश आर. रामसुब्ब एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7517 5.2.02	एलसी भवन, कोट्टामुक्कु, जिला कोल्लम, केरल ।
92509	राजेश बी. वासु एम.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7411 7.7.01	मुथुवारा हाउस, मुलमकुनाथ कावु, जिला थरिस्सूर, केरल ।
92510	राजी आर. सिक्कासन पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	8169 25.10.04	कविनटे मेलेथिल, मुथुवट्टुन्नारा, पो.आ. नूरगड, जिला अलापुझा, केरल ।
92511	राजी पी.डी. दामोदरन सी.पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६८	6908 10.8.98	एस.के. विहार, टी.सी. १४/१३७६, बकरी नं. विकास भवन पो.आ., थिरुवनथापुरम ।
92512	राजी एस.आर. रंगास्वामी एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7441 15.9.01	टी.सी. १९/१८०८ (1) पुरा (118), श्रीरंगम, पूजपुरा, जिला थिरुवनथापुरम ।
92513	राजीव एन.आर. रामदास एन.के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., वेन्नई १६६८	6932 28.9.98	नेट्टुमपरमबिल हाउस, थराक्कलम, पो.आ. विट्टूर, जिला पलक्कड़, केरल ।

92514	राजीव आर. वरियर रमकुट्टी पी.वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7194 5.7.2000	पनगट्टुरा वरियर, पो.आ.पनगट्टुकरा, वडाकनचेरी, जिला थरिसूर ।
92515	राजकुमार के.सी. चन्द्रसेखरा वरियर ए.के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६७	6763 26.4.97	फ्लैट नं.१०७, प्रसाथ नगर, वेस्ट फोर्ट जिला थिरुवनन्थपुरम, केल ।
92516	राजू पी. पुरुषोत्तम पी.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैथ सईसिस, बंगलौर २००४	8028 17.5.04	प्रार्थना, लक्ष्मी नगर, कन्हनाड, जिला कसारगोडु, केल ।
92517	राजुला आर.एस. रत्नाकरन वी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7656 16.7.02	सुरभी, कल्लुर, पो.आ. मट्टननुर, जिला कन्नूर, केल ।
92518	राखी आर. एम. रघुनाथन नायर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००४	8179 25.10.04	कल्लारा वीडु, पो.आ.पुथुलानगरा, नेडुमनाडु, जिला थिरुवनन्थपुरम ।
92519	राखी सुकुमारन वी. ए.सुकुमारन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7914 9.12.03	अराक्कल हाउस, अय्यनथोले, जिला थरिसूर ।
92520	राखी टी.पी. राघवन ए.बी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६८	6851 28.3.98	शुषारा, कलवाचेरी, साउथ बजार पय्यानु, जिला कन्नूर, केल ।
92521	राखी सी.एम. के.सी. मोहनन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैथ सईसिस, बंगलौर २००४	8139 25.9.04	कलियिलाक्किम, थडुथला, पो.आ.कोटायम, जिला कोल्लम, केल ।
92522	रमणा जी.वी. विश्वनाथा सास्त्री जी.के.बी.एस.	बी.ए.एम.एस. उस्मानिया वि.वि., हैदराबाद १६६२	7283 17.11.2000	कपिला, निकट केल टाकिज, कुशुपरम्बा, जिला कन्नूर, केल ।

92523	रमेशन ई.के. गोपालन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6986 20.2.99	ई.सी.के. हाउस, पो.आ. इरमन, पय्यान्नूर, जिला
92524	रमेश कुमार एम.एन. नारायणन सी.वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7824 6.6.03	मेत्तापुराक्कल हाउस, पो.आ. विरामनेनगडे, वाया मराथनकोड, जिला थरिसूर ।
92525	रमेशन सी. कोरन नायर सी.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००३	8042 25.5.04	निकट मुथयानर कावु, कन्हनगढ साउथ साउथ पो.आ. जिला कसारगोडु, केरल ।
92526	रामकुमार पी. राधाकृष्णा वरियर के.वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6852 28.3.98	कैलाशा मन्दिरम, पो.आ. कोट्टुक्कल, जिला मालपुरम, केरल ।
92527	रामया प्रभा सी. चन्द्रसेखरन पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २००१	7777 24.2.03	१/७२, कोट्टिवेट्टुर वैली, नोर्थ एस्टर, त्रिपुनीथुरा, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92528	रानी रवीन्द्रन रवीन्द्रन बी.एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २०००	7516 28.1.02	थय्यीसीरिल हाउस, मेमाना, पो.आ.ओचिरा, जिला कोल्लम, केरल ।
92529	रजिनी दिवाकर टी.एन. दिवाकरन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००३	7961 16.2.04	दिनेश एस्टेट, पो.आ. करिमबाडी, तालूक वैथिरी, जिला वनगुडु, केरल ।
92530	रजिनी एम. एम. राघवन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8211 22.11.04	लव डाले, नेडुम्बा, पो.आ. वलियापोथिल, जिला कसारगोडु, केरल ।
92531	रसीनन बीबी एम. मोहम्मद रफीक	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	7075 10.12.99	शाबु निवास, पो.आ.पुलिमथ, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।

92532	रशीद टी.एच. हमजा टी.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7539 16.3.02	शेखरथ, पो.आ. चिरामनगड, पन्नीयाडम, जिला थरिसूर, केरल ।
92533	रश्मि पी.आर. राजन पी.एफ.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7536 16.3.02	पत्ताथिंगल हाउस, कवेरी, पो.आ. नडाथरा, जिला थरिसूर, केरल ।
92534	रवीश कुमार सी. कुट्टालम पिल्लई एन.सी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९६	7017 16.7.99	सिवकामी गार्डन्स, टी.सी.२६/१८६२, जीपीओ लेन, टीवीएम-१, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92535	रवीश पी. सुकुमारन एम.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००२	8002 3.4.04	निशा निवास, पो.आ.कोटोपाडम, वाया मन्नरकड, जिला पलक्कड, केरल ।
92536	रवीश पी. राधाकृष्णन पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९९८	7039 17.9.99	पूयथ हाउस, xii/201, वरियाम लेन, जिला थरिसूर, केरल ।
92537	रवि मूस ई.टी. दिवकरन मूस	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९९६	7037 17.9.99	शैक्काट्टु माना, पो.आ. आनन्दापुरम, जिला थरिसूर, केरल ।
92538	रवि नारायणकुमार के.ए. गणपथि नान्बूदेरी के.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7178 5.7.2000	नारायणा निवास, पो.आ.कोटाकट्ट, जिला कसारगोडु, केरल ।
92539	रविशंकर के.एस. श्रीकुमार के.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९९६	7105 23.12.99	आर्य संकरम, थिरुनकरा, जिला कोट्टायम, केरल ।
92540	राय सुधन सुधाकरन बी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९९७	6860 28.3.98	सुधाकरा फार्मसी, पो.आ.वडासेरिकोनाम, वक्कला, जिला थिरुवनन्थापुरम ।

92541	रजिना के. अलीकोया पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7101 23.12.99	बिसमिल्लाह क्यालर, चेरथला, जिला अलापुझा, केरल ।
92542	रीहाना पी. अली पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7128 1.2.2000	परमल हाउस, चोलाक्कल, पो.आ. पय्यानाड, वाया मंजरी, जिला मालपुरम ।
92543	रीजा पी. राजन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7502 24.1.02	शान्या विल्ला, निकट इन्दौर स्टेडियम, पो.आ. पुथियारा, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92544	रीजा पी.बी. बालाकृष्णन नाम्बियार	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7107 23.12.99	श्रीनितायम, करापेरवूर, वाया मट्टननूर, जिला कन्नूर, केरल ।
92545	रीजा बी.आर. नाथर एस.आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7289 22.11.2000	टी.सी.६/२०७६, वीनाश्री, धामकुलम लेन, पो.आ.सत्यामंगलम, थिरुवनन्थापुरम ।
92546	रीना बालाकृष्णन बालाकृष्णन मुदापयी	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैथ सईसिस, बंगलौर २००३	8037 17.5.04	चैयन्था, सामने सी.एम. कालेज तलप, जिला कन्नूर, केरल ।
92547	रीना सन्थम ई.एस. सन्थम ई.एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	6922 18.8.98	'सत्यातायम', चनी, पो.आ. कंजीरामकुलम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92548	रीना वरियर कनप्पायूर कृष्णाकुट्टी वरियर	बी.ए.एम.एस. बम्बई वि.वि., बम्बई १६६४	8220 15.12.04	कैलाशा मन्दिरम, पो.आ. कोट्टुक्कल, जिला मालपुरम, केरल ।
92549	रीना एस. विश्वम्भरन आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7745 28.12.02	हिल व्यु टी.सी. ३/६६६, पो.आ.मुट्टाडा, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।

92550	रंभा पविथरम पविथरम बी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००२	7576 27.4.02	बालाकन्डी हाउस, तलप, जिला कन्नूर ।
92551	रेजनी एच. हरिदास बी.एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7400 11.6.01	मणिमन्दिरम, कोमना, पो.आ. अम्बलापुझा, जिला अलापुझा, केरल ।
92552	रेजी राज आर. राजगोपालन पी.के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००२	7693 21.10.02	राज सदन हाउस, सान्ची नगर, अस्पताल रोड, पो.आ. पैरित्तलमन्ना, जिला मालपूरम ।
92553	रेजी थामस थामस	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साईसिस, बंगलौर २००३	7931 20.12.03	कोईपुथु हाउस, पो.आ. करिकाट्टूर, कंजीरामल्ली, जिला कोट्टायम, केरल ।
92554	रेजी वी. ए. राधाकृष्णन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साईसिस, बंगलौर २००२	8227 21.12.04	कक्काचल हाउस, पो.आ. बन्दाडका, वाया चेमगला, जिला कसारागोडु, केरल ।
92555	रेजी के.आर. रेवी के.आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६८	6854 28.3.98	शुषारा, एम.आई.ई. पो.आ. कुन्नामलम, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92556	रेजीथ डैनियल एम.डी. वर्गज	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	7993 31.3.04	पल्लीपुराथु पुयेन वीडु, ईस्ट आफ आयरन ब्रिज, जिला कोल्लम, केरल ।
92557	रेजीथा टी. राधवा मेन्नन टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7087 10.12.99	थलियाकाट्टील हाउस, पो.आ. कस्वानूर, जिला थरिसूर, केरल ।
92558	रेजुनाथ ई.के. विजयन वैदयार ई.के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६६	6755 29.3.97	इस्टापल्लीथालील कलिक्लुथिंगल, कटमथडिपुरम, जिला पलक्कड़, केरल ।

92559	रेखा टी.बी. टी. बी. भास्करन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8077 27.7.04	थोट्टायिल हाउस, हरिनागर, लाट नं. २०२, पुनकुन्नाम, जिला थरिसूर, केरल ।
92560	रेखा बी. बालागंगाधरा मेनन टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९८६	7111 23.12.99	कृष्णा, कैपल्लीथुडु, कोट्टाक्कल, जिला मालपुरम, केरल ।
92561	रेखा डी. रामकृष्णन वी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7802 7.5.03	धन्या, पो.आ. कल्लुवाडी, वाया थिरुवडिगोडे, जिला पलक्कड़, केरल ।
92562	रेखा आई.के. कृष्णन आई.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7317 12.2.01	इरिमब्रानेतूर हाउस, पेरुमबिल्लिसेरी, पो.आ. चेरु, जिला थरिसूर, केरल ।
92563	रेखा एन.एस. सेखरन एन.बी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९८६	6998 6.3.99	नाम्बुलनगरा हाउस, अलाथुर, पो.आ. आनन्दापुरम, जिला थरिसूर, केरल ।
92564	रेखा पी.के. गोविन्दन कुट्टी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९८६	6983 20.2.99	पडिनजरेकन्दीपील हाउस, पो.आ. इक्कल, वाया उन्नीकुलम, जिला कोडिक्कोडु ।
92565	रेखा एस. देवी रामाचन्द्रन नायर एस.डी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7386 29.5.01	माधवम, टी.सी.३६/१३६६, जेपीएन-६८, जे.पी. नगर, पो.आ. वल्लाकडावु, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92566	रेमिजा ए. ए. अब्दुल वहाब	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००५	8302 5.2.05	टी.सी.६/१६६२, कोचर रोड, पो.आ. सस्यामंगलम, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92567	रेमया के. एम.पी. रवीन्द्रन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.पू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००३	7885 28.11.03	वैशाखम, नलुथरा, माहे ।

92568	रेम्या कृष्ण उनीकृष्ण एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7306 24.1.01	श्रेयास, कनियामल, थरिथूर रोड, कुन्मकुलम, जिला थरिथूर, केरल ।
92569	रेम्या एस. एन. सिवानन्दन बी.एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	7949 30.1.04	बिन्नु भवन, पुथेन विला, पो.आ. कुडुपानाकुन्नु, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92570	रेम्या बी.आर. विश्वनाथन एन.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २००१	7564 30.3.02	कंचनाथु बंगला, पो.आ. मुक्काला, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92571	रेत्स पी. वार्गीज वार्गीज	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7200 5.7.2000	पलाक्कदन हाउस, पो.आ. अडीमली, जिला इडुक्की, केरल ।
92572	रेनजिनी आर.यू. राजनासारी पी.ए.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६६	7085 10.12.99	मणिषाकोम, मोनविला, पो.आ. पम्पपारा, वाया करयावट्टोम, थिरुवनन्थापुरम ।
92573	रेनजीथ सी. के.के. चन्द्रन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	7990 29.3.04	विष्णुमाया, मणिमन्दिरम, वेलियेथम परम्बु, पो.आ. नयारामबलम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92574	रेनजीथ एम.आर. रविन्द्रन नायर एम.एन.	बी.ए.एम.एस. कुन्नेम्पू वि.वि., शंकरघट्टा २००१	7373 28.4.01	मन्नालील, आनन्द नगर, पो.आ. कैमानाम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92575	रेनजीथ पी. गोपीनाथ डा. गोपी पी.एस.	बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएम., कांचीपुरम २००२	7608 1.7.02	पडिन्जरे थारायिल सस्था भवन, पो.आ. यू.सी. कातेज, अलुवा, जिला एर्नाकुलम ।
92576	रेनजीथ आर. रवीन्द्रन पिल्लई के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	7108 23.12.99	रेजी भवन, पो.आ. एडक्कुलम, करुणागाल्पल्ली, जिला कोल्लम, केरल ।

92577	रेनजु टी. योहान्नन योहान्नन टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7645 16.7.02	सिनी निवास, एकेजी जव्हान, करावणपालम, कोल्लम-१, जिला कोल्लम, केरल ।
92578	रेनु एस. सुब्रामनियन नायियार के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7203 5.7.2000	सुरमी, पो.आ. मेन्नाथुर, वाया त्रिथला, जिला पलक्कड़, केरल ।
92579	रेश्मा ई. एत.के. गंगाधरन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8144 8.10.04	प्रथिष्ठा, पथिरियड, पो.आ. सनकरानेल्लु, वाया कुथुपरम्बा, जिला कन्नूर ।
92580	रेश्मा पतिनजरायिल ए.पी. राघवन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8062 27.7.04	अरावलि, पो.आ. कन्नाडिपरम्बा, जिला कन्नूर ।
92581	रेश्मा के. चोयीकुट्टी के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २००२	7675 26.7.02	श्रीवातसम हाउस, पो.आ. पलाय, वाया कक्कोडी, जिला कोडिकोडु, केरल ।
92582	रेश्मा बी.आर. रामाकृष्णन बी.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7413 7.7.01	वतिपरमबिल हाउस, अम्बालूर, पो.आ. अलगणा नगर, जिला थिरिस्सूर, केरल ।
92583	रेश्मी ए.आर. रविन्द्रन ए.एल.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २००३	8101 25.9.04	कस्वारील हाउस, चुडुक्लथुर, शोरानुर, जिला पलक्कड़, केरल ।
92584	रेश्मी पुष्पन के.के. पुष्पन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	7976 3.3.04	राम निवास, पो.आ. कूडल, जिला पठनमथिट्टा ।
92585	रेश्मी एम. भास्करन भास्करन एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7843 11.7.03	देवी मन्दिरम, मुत्थान बैटरी, जिला व्यानाडु ।

92586	रेश्मी एम.एल. मणिकान्त नायर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7588 10.6.02	आइकथ एम.आर.ए.ई-१०, मारुथनकुडी, पो.आ. संजीरामपारा, थिरुवनन्थापुरम ।
92587	रेश्मी एस. ससि जी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7705 11.11.02	किन्नक्के वीडु, पो.आ. चेरियाडीकल, करुणागापल्ली, जिला कोल्लम, केरल ।
92588	रेश्मिथा के.एम. म्माई के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	7106 23.12.99	रेश्मिथा, के.एम. अमला स्ट्रीट विसेन्ट्स कालोनी, कालिकट-६, जिला कोझिकोडु ।
92589	रेश्मी नायर पी. मुत्तीघल नायर जी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६८	6845 21.3.98	सरीना, उट्टुक्ल स्ट्रीट, कैयामुक्कु, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92590	रेश्मी बी. बालाकृष्ण नायर डी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7391 29.5.01	पडिन्जरेक्कारा, पो.आ. मरुथोजवट्टोम, चेरथला, जिला अलापुझा, केरल ।
92591	रेश्मी के.जे. जर्नीधनन पिल्लई सी.एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7712 11.11.02	रेजी भवन, पो.आ. एडाकुलानगरा, करुणागापल्ली जिला कोल्लम, केरल ।
92592	रेश्मी के.एम. सोमसुन्दन के.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7371 23.4.01	किन्नक्केक्कारा मेलापट हाउस, रश्मी, पो.आ. मणिसोरी, ओट्टापलम, जिला पलक्कड़
92593	रहिजु के. कृष्ण जी.	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पू वि.वि., शंकरघट्टा १९६८	7044 1.10.99	रहिजु भवन, पो.आ. वलायनचिरनगरा, पेरुमबादूर, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92594	रिनी वी.आर. राणई वी.डी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९६७	7305 24.1.01	कोट्टायिल हाउस, कट्टमपक, वाया नीधूर, जिला कोट्टायम, केरल ।

92595	रोबिन जैकब जोय मैथु	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6977 20.2.99	मडुक्काकुडी हाउस, पो.आ. पारायंडे, जिला कोटायम, केरल ।
92596	रोबिन के. जोसफ जोसफ के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8072 27.7.04	कोचुनेडुगट्टु हाउस, पो.आ. अराक्कुडा, मुबट्टुपुडा, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92597	रोनी पी. मैथु मथुनी पी.डी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7574 27.4.02	कोल्लनु हाउस, टी.सी. १६/१११२, ईस्ट फोर्ट, जिला थिरुवर, केरल ।
92598	रुपा कुडुवा रघाकर कुडुवा	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैथ साईसिस, बंगलौर २००४	8125 25.9.04	ऐश्वर्य, कोलकैल रोड, अदककैल, जिला कसारगोडु, केरल ।
92599	रुपा सारस्वती एच. लक्ष्मी नारायण भट एच.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	7253 12.10.2000	अय्यनकनु हाउस, पो.आ. राजपुरम, जिला कसारगोडु, केरल ।
92600	रुपा एस. चन्द्रसेकन के.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7210 5.7.2000	मल्लुवी, २२वीं माईल्स मंजरी, जिला मालपुरम, केरल ।
92601	रोशिनी सी. मोहिदीन अली साहिब	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6778 20.5.97	टी.सी. ११/६६६, वट्टाविलाकोम पुरायीडम, पूजपुरा, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92602	रोशिश आर. डा. रवि सी.के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००२	7617 2.7.02	शंकर फार्मसी, पो.आ. मंजुमेत, उदयगमंडल, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92603	रोशनी अनिलधन अनिलधन पी.एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६८	6942 23.11.98	पुल्लाकट्टु हाउस, जी-६-लाट, एफ़रसीटी नगर, थिरुनिथुरा, जिला एर्नाकुलम ।

92604	रोशनी पदमानान के. पदमानान के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००१	7505 24.1.02	पदमश्री हाउस, पो.आ. पुथुर, वटकारा, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92605	रोशनी के.पी. केमुगोपालन एम.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६७	6799 6.8.97	'सुरभी' गैस्ट हाउस रोड, जिला मालपुरम, केरल ।
92606	राय जोसफ पी. जोसफ पी.डी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7088 10.12.99	पलामट्टम हाउस, पो.आ. इरावु, जिला थरिसूर ।
92607	एस. श्रीलक्ष्मी एम. धास्करन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	7969 3.3.04	नारायणा निलायम, पो.आ. चेन्नगमानड, अलुवा, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92608	एस. सुधीरा राघवन टी.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	7983 9.3.04	क्ताथेयरा हाउस, पुलियानुर, पो.आ. पोडावूर, जिला कसारागोडु, केरल ।
92609	सबरी नाथ एस. सेदेन सी.जी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7442 15.9.01	जे.पी. लैण्ड, कुरुमंडल पारावुर, जिला कोल्लम, केरल ।
92610	सबीना पी.जे. जम्बार एस.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7741 27.12.02	पलाथिल हाउस, मुडिकल पो.आ. नेडुमयोडे, पेरुमबावूर, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92611	सबिया एम.पी. एम.पी. अब्दुल हमीद	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7912 9.12.03	नेट कल्लीडुक्कु पो.आ. एडावन्ना, जिला मालपुरम, केरल ।
92612	सबिया नायर एम.के. बालगोपालन नायर के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २०००	7249 8.9.2000	डा. के.बी.सी. नायर, देवी कृष्ण, धन्वरी नगर, पो.आ. सी.एन. पुरम, मुट्टुमन्था, जिला पलक्कड़

92613	सबना कृष्णन के. बालाकृष्णन ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7647 16.7.02	लाल सदन, करुमन परमबिल हाउस, मुथुवारा, पो.आ. पुडुक्कल, जिला थिरुसूर ।
92614	सबना एन.के. मोईदीन कुट्टी एन.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7899 5.12.03	वट्टायिल हाउस, नेल्लीपरम्बा, पो.आ. करुवम्बाम, मंजरी, जिला मालपुरम, केरल ।
92615	सादथ डी.आर. दिनाकरन आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९६	7080 10.12.99	कुट्टुंगल, पो.आ. सक्थीकुलानगरा, जिला कोल्लम, केरल ।
92616	सफ्ना के.एस. सुशंकरन के.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7630 15.7.02	गवर्नमेन्ट क्वार्टर्स नं. आर.एच.सी.-६, विस्वनाथ टेम्पल लेन सिविल लाईन्स, अय्यनायकोले, थिरुसूर-३, थिरुसूर, केरल ।
92617	सहना के. राम नायक के.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १९९६	702० 17.7.99	राम निवास, अश्विनी नगर, कत्ताराडु, केरल ।
92618	सहीर अली मामु मौलवी ई.	बी.ए.एम.एस. रा.भा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	8281 11.1.05	कडुपायिल हाउस, पो.आ. चेलावूर, जिला कोझिकोड, केरल ।
92619	साहिदा टी. अलमी टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7363 1६.3.01	थरायिल हाउस, कलामपाडी, पो.आ. मालपुरम, जिला मालपुरम, केरल ।
92620	साहनी एम. सोमन सोमन एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९८	6968 28.12.98	'आरामम' कुलुमंडल, पो.आ. परावूर, जिला कोल्लम, केरल ।
92621	सैली एस.पी. मान्दूदीनी एस.पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९९७	6785 8.7.97	'श्रीधारी', पो.आ. कुरीचियानम, जिला कोट्टायम, केरल ।

92622	साजन जोसफ बी.एस. बी.एस. साधन	बी.ए.एम.एस. कालिङ्ग वि.वि., कालिङ्ग २००५	8312 5.2.05	वडक्कन हाउस, पो.आ. एनामक्कन, थरिसूर ।
92623	साजन ए.बी. परमेश्वरन नम्बिसन टी.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिङ्ग वि.वि., कालिङ्ग १९९६	6988 20.2.99	पौरनामी, निकट कननाड, पो.आ. टेमी, कुट्टुर, जिला कन्नूर, केरल ।
92624	साजी प्रसाद शन्मुख प्रसाद जी	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि वि.वि., चेन्नई १९९७	6754 29.3.97	मंग भवन, कूनाविल एस. पो.आ. पारावूर, जिला केरलम, केरल ।
92625	सजीरा कृष्ण रायनकुट्टी के.	बी.ए.एम.एस. कालिङ्ग वि.वि., कालिङ्ग २००२	7729 9.12.02	शरीर, मुट्टुमपुरम, पो.आ. कन्नामंगलम, वाय वैगा, जिला मालपुरम, केरल ।
92626	साजी देसायुस देसायुस ए.बी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९९७	6842 12.01.98	सेन्ट मैरी काटेज, पो.आ. कळकुट्टोम, जिला विस्वनम्बापुरम, केरल ।
92627	साजी उम्पन उम्पन अलेक्जेंडर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९९८	6918 18.8.98	कुन्नेल हाउस, पो.आ. पोल्ताथई एस.एस.पुरम, जिला अत्तापुझा, केरल ।
92628	साजी एस. श्रीधरन	बी.ए.एम.एस. कुन्नेमू वि.वि., शंकरघट्टा २००१	7499 9.1.02	शस्त्री, पो.आ. पारपुर, कोट्टाक्कल, जिला मालपुरम, केरल ।
92629	सजिना एन.ए.बी. सी.टी. मोहम्मद अली	बी.ए.एम.एस. रा.म.यू.आफ हैल्थ साइंस, बंगलौर २००४	8063 27.7.04	सजिना निवास, टेम्पल रोड, पय्यन्नुर, जिला कन्नूर, केरल ।
92630	सजिना ई.के. कृष्णन ई.आर.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९९७	6764 26.4.97	एडाथेय हाउस, पो.आ. पुन्नक्कल, मुथुवारा जिला थरिसूर, केरल ।

92631	सजिव कुमार जी. गोपी दास सी.के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7468 6.11.01	उत्तमादाथिल, पो.आ. पेलम्पुलुवी, चलाकुडी, थिरुक्कला, जिला पट्टमथिट्टा ।
92632	सजिव एम. चन्द्रन नायर एम.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६२	6963 26.12.98	'मंजूषा', मंगलासेरी, पो.आ. वेल्तामुन्दा, जिला वनाडु, केरल ।
92633	सजिव एस. चान्द समीसा चन्द्रन	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००२	7642 16.7.02	समीस विलास, पो.आ. इरावथुर, जिला थरिसूर, केरल ।
92634	सजिव के.पी. खल्लि के.पी.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १९६६	7127 1.2.2000	साजी महल, पो.आ. चेरप्पलचेरी, तालूक ओट्टापल्लम, जिला पलक्कड़, केरल ।
92635	सजिवा एम.एस. सुलेमान एम.एस.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००१	7334 27.2.01	हाउस नं. १०/७६५, पो.आ. इन्डस्ट्रियल एस्टेट, जिला पलक्कड़, केरल ।
92636	सक्कीया के.एन. अहमद के.एन.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २०००	7177 5.7.2000	पुल्लथिल हाउस, पो.आ. कंबीरामुक्कु, जिला मालथुरम, केरल ।
92637	सत्था पी. कन्दन पी.आई.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००२	7646 16.7.02	१/४६३, पुक्कला, पो.आ. एलमथुर, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92638	सालिनी दामोदर दामोदरन बी.के.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००१	7314 12.2.01	वल्लीकुन्नेल हाउस, पो.आ. पिङ्गु, जिला कोट्टायम, केरल ।
92639	साम श्रीधर एस. श्रीधर सास्त्री के.ए.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट २००१	7461 19.10.01	एस.एन. निवास, पो.आ. कुथियामोडे, चेरथला, जिला उत्तापुझा, केरल ।

92640	सन्ध्या गोविन्द आर्इ. गोविन्दन कुट्टी नायर आर.	बी.ए. एम. एस. केल वि. वि. २००३	7859 10.10.03	सौगनधिका, पथियूरुक्ला, पो. आ. कीरिकाडु, जिला अलापुझा ।
92641	सन्ध्या एम. वी. गोपालन पी.	बी.ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट २००२	7597 10.6.02	पुथियादाथु हाउस, कुनियन, पो. आ. कविल्लु, जिला कन्नूर, केरल ।
92642	सन्ध्या एस. ससिधरन जी.	बी.ए. एम. एस. केल वि. वि. २००२	7698 8.11.02	पौरनामी, उलियाकोविल, जिला कोल्लम, केरल ।
92643	संगीथा जी. एस. एस. गोपालकृष्णन नायर	बी.ए. एम. एस. केल वि. वि. २००४	8180 25.10.04	कार्तिका, मेलेपनीयुट्टु कीडूर, निकट एग्रीकल्चरल कालेज, पो. आ. वेल्लायनी, जिला थिस्वनन्यापुरम ।
92644	संगीथा गंगाधरन नायर वी. गंगाधरन नायर	बी.ए. एम. एस. रा. गा. यू. आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००३	7922 9.12.03	पुल्लमपेईकायिल हाउस, पो. आ. कीझवलपु, मल्लापल्ली, जिला पठनमथिट्टा ।
92645	संगीथा एम. के. कृष्णन कुट्टी एम. के.	बी.ए. एम. एस. रा. गा. यू. आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००३	7999 3.4.04	कुथिनापुरथ हाउस, पो. आ. पुलपल्ली, जिला व्यनाडु, केरल ।
92646	संगीथा जी. गोपाला पिल्लई के.	बी.ए. एम. एस. केल वि. वि. १९९९	7015 12.7.99	अरुण विहार, पो. आ. पक्लकुरी, जिला थिस्वनन्यापुरम, केरल ।
92647	सनिता वी. के. लक्ष्मनन वी.	बी.ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट २००१	7311 12.2.01	सनितास, पो. आ. पल्लीकल्लम, चिराक्कल, जिला कन्नूर, केरल ।
92648	संजू एस. श्रीधरन एन.	बी.ए. एम. एस. केल वि. वि. १९९७	6765 26.4.97	'दलिया' पो. आ. कल्लीयूर, जिला थिस्वनन्यापुरम, केरल ।

92649	संकरा नारायणन के.पी. प्रभाकरन के.आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7822 6.6.03	संकरा निवास, के.के.नगर, कारक्कड रोड, पो.आ. गुल्वायूर, जिला थरिसूर, केरल ।
92650	सान्धी एल.सी. चन्द्रसेखरन पिल्लई ए.आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६८	6911 17.8.98	वरायन्नूर, पो.आ. पुथानमबलम, जिला कोल्लम, केरल ।
92651	सान्धी वी.एम. नारायणन वी.ओ.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7648 16.7.02	साईसदनम, पेउमकुलानगरा, पो.आ. पेरुवम्बा, जिला पलक्कड, केरल ।
92652	सान्धीनी टी. शनकपन पी.के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7240 10.8.2000	सुदर्शनम, मन्नाडी लेन, अम्बलमुक्कु, पो.आ. पेरुक्काडा, थिरुवनन्थापुरम ।
92653	सन्थोस के.के. कृष्णन के.आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	7094 10.12.99	कोण्टुली हाउस, अम्बलापड, पो.आ. कुन्दुकुड, जिला थरिसूर, केरल ।
92654	सन्थोष के.के. के.कुमान	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8069 27.7.04	कोमट्टील हाउस, पो.आ. इराविमलम, जिला थरिसूर, केरल ।
92655	सन्थोष कुमार पी. नवेसन पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९६६	7025 17.7.99	मुल्लासेरिल हाउस, एस.एल. पुरम पो.आ. अलापुझा, केरल ।
92656	सन्थोष कुमार आर. रामाचन्द्रन उन्नीथन ए.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९६६	7046 18.10.99	मिथिला, पो.आ. शलाचिरा, कोट्टारक्कारा, जिला कोल्लम, केरल ।
92657	सन्थोष कुमार टी.वी. बालन वेल्लोय	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7167 5.7.2000	सुखवासा, पो.आ. पचोपईका, जिला कन्नूर ।

92658	सन्धोष राज एस. सथ्यानेसन जे.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	7052 26.11.99	नेल्लीक्कलिला वीडु, पो.आ. पौडीकोनम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92659	सन्धोष एम.बी. बालन एम.आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६८	6868 24.4.98	मक्कालिकल हाउस, पो.आ. चेस्वथनी, कुन्नमकुलम, जिला थिरसूर ।
92660	सन्धोष कुमार पी. माधवन वैद्यार पी.के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., वेल्ह २००१	7449 25.9.01	पालनवेरी, थेक्केथरा, पो.आ. पल्लथानुर, जिला थिरसूर, केरल ।
92661	सन्धोष कुमार आर.जे. राधाकृष्णन सी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7450 29.9.01	सन्धोष भवन, पेरुमबूर, पो.आ. कनविरा, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92662	सफ़ीना इब्राहिम इब्राहिम टी.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6987 20.2.99	थनीक्कल हाउस, पो.आ. कंजर, जिला इडुक्की ।
92663	सपना कुमारी एथला एच.एस.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६६	7756 28.12.02	पोस्ट उक्कीनाडका, इमामबने ग्राम, कसारगोडु, केरल ।
92664	सपना जी. नायर नायर के.जी.के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	7021 17.7.99	इलाथुर, टी.सी. २३/१०३८/१, थेक्कोड, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92665	सपना पी.पी. चन्दुकुट्टी पी.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7171 5.7.2000	श्री लक्ष्मी, ओल्ड ई.एस.आई. रोड, पो.आ. पत्तीकुन्नु, जिला कन्नूर, केरल ।
92666	सारन्या ई.के. कृष्णन नान्दुद्री ई.एम.	बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएम., कंचीपुरम २००२	7678 26.7.02	पथियल माना, मेलाथुर, पो.आ. थरियला, जिला पलक्कड़, केरल ।

92667	सरत के. बाबू के.आर. बहुलेयन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईंसिस, बंगलौर २००२	7933 20.12.03	कलिसोरी हाउस, ईस्ट कडुनगलूर, वेस्ट कडुनगलूर पो.आ., अलुबा, एर्नाकुलम ।
92668	सरीन एन.एस. पी.वी. ससिकुमार	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईंसिस, बंगलौर २००४	7970 3.3.04	सप्रलयम, ३७/२०१४ ए २, निकट अय्यप्पा टेम्पल, जवाहर नगर, कडावनथारा, कोवीन, जिला एर्नाकुलम ।
92669	सरीन पी. पी.जी. परमेश्वरन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईंसिस, बंगलौर २००४	8150 12.10.04	पुथेन पुराक्कल हाउस, पोस्ट कुरुमुल्लूर, कन्नकरी, जिला कोट्टायम, केरल ।
92670	सरिथा मेनन के. मुधाकरन सी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7629 15.7.02	कार्तिका, शान्धी नगर रोड, थिरुवमबाडी, थरिसूर-१, जिला थरिसूर, केरल ।
92671	सरिथा एस. बी. रामावन्दन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईंसिस, बंगलौर २००४	8138 25.9.04	सरिथारामयम, मचियिल, पो.आ. पडियेटवल, वाया पय्यान्नूर, जिला कन्नूर, केरल ।
92672	सरिथा सहदेव सहदेवन आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६६	7006 6.3.99	टी.सी.१६/१६०१ (S), सुरभी केसवन नायर रोड, पूजापुरा, थिरुवनन्थापुरम ।
92673	ससि एम.पी. श्रीधरन एम.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7765 31.12.02	मेलापुलियनगट्टु हाउस, पो.आ. नमिन्डा, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92674	सस्मिथा पी. चन्द्रसेखरन के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६७	6814 20.9.97	'सुमिथम', पो.आ.चिट्टूर कालेज, चिट्टूर, जिला पलक्कड़, केरल ।
92675	सशीष के. राजगोपालन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7752 28.12.02	माधवी निलायम, पो.आ. पुडियन्कम, जिला पलक्कड़, केरल ।

92676	सथीष आर. रामाभद्रन	बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएम., कांचीपुरम २००२	7607 1.7.02	अजलि, पो.आ. कुमरामंगलम, थोडुपुझा, जिला इडुक्की, केरल ।
92677	सथीष कुमार के.टी. थिरुपथी मौडा के.एन.	बी.ए.एम.एस. कॉलेज वि.वि., कॉलेज २००१	7348 13.3.01	कोट्टाकुन्नु हाउस, पो.आ. मीनानगडी, जिला व्यनडु, केरल ।
92678	सथी के.यू. के.आर. उन्नी कृष्ण	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईंसिस, बंगलौर २००४	7971 3.3.04	कोलाण्णली हाउस, पो.आ. वेन्नाला, कोची-२८, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92679	साथ्या मूर्थी के. थिरुमलेश्वरा भट के.	बी.ए.एम.एस. कॉलेज वि.वि., धारवाड़ १९६५	6881 11.5.98	'शमाना क्लिनिक', मदुर, पो.आ. कोट्टेर, मंगलौर ।
92680	साथ्या नारायणा भट के. माधवा भट के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९६८	7649 16.7.02	कोलाचप्पे हाउस, पोस्ट मल्ला, जिला कसारागोडु, केरल ।
92681	साथ्या नारायणन ए. यू. कृष्णा भट	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईंसिस, बंगलौर २००२	8157 13.10.04	कपिकड हाउस, पो.आ. बेल्लुर, वाया मेल्लेरिया, जिला कसारागोडु, केरल ।
92682	साथेन्द्र सी.डी. के. दामोदरा बल्लाल	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईंसिस, बंगलौर २००३	7984 9.3.04	चेन्नला बीडु, पो.आ. चेन्नर, कसारागोडु ।
92683	सविथा वी.आर. वी.एस. रविन्द्रन	बी.ए.एम.एस. कॉलेज वि.वि., धारवाड़ २००१	8283 11.1.05	वलसलथाम, एडपपल, जिला मालपुरम ।
92684	साविथी देवी के.ई. ईश्वरन नाबूथिरी वी.के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २०००	7512 28.1.02	कराक्कट्टील्लेम, पो.आ. कारक्कल, थिरुवल्ला, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।

92685	सेवास्थान फ्रांसिस के. फ्रांसिस के.जे.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि.,चेन्नई १६६६	6751 29.3.97	किङ्गफूट हाउस, चेरालायम, कुन्मकुलम, जिला थरिसूर, केरल ।
92686	सेबी बी.जे. जस्टुस आई.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६८	6962 26.12.98	'उषास', सामने सीएसआई चर्च, पो.आ. नेयटिनकरा, जिला थिस्वनन्यापुरम ।
92687	सीबा एस. बालाकृष्णन बालाकृष्णन के.वी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7228 10.8.2000	बी.एस. मन्दिरम, एन.पी. १/३०६, पो.आ. नेमोम, जिला थिस्वनन्यापुरम, केरल ।
92688	सीमा आर. वी.जी. रामाचन्द्रन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंस, बंगलौर २००३	7927 9.12.03	भास्कराविलासम, पो.आ. नेडुमोन, वाया इझमकुला, तालूक अदूर, पठनमथिट्टा ।
92689	सीमा सी.एस. सोमन सी.के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि.,चेन्नई १६६६	7300 13.12.2000	चिरायिल हाउस, पो.आ. कोट्टनैल्लु, जिला थरिसूर, केरल ।
92690	सीमा जी.के. रणपथि एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००१	7349 13.3.01	मन्थथ इल्लोम, पो.आ. नीरवेली, वाया निर्मलागिरी, जिला कन्नूर, केरल ।
92691	सीमा एम. चन्द्रन चन्द्रन एम.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००२	7566 30.3.02	मानापरमबिल हाउस, श्रीनिकेत्य, थुम्बूर, जिला थरिसूर, केरल ।
92692	सीमा आर. नायर रामाकृष्णन सी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००२	7735 27.12.02	सीमारामम, अलुम्कुझिविला लेन, मोनविला, पो.आ. कुलाथूर, थिस्वनन्यापुरम ।
92693	सीमा टी.एस. थुलसीधरन एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६८	6924 18.8.98	टी.सी.१६/५०१, 'इन्दीवरम', जगथी, पो.आ. थयकोड, जिला थिस्वनन्यापुरम ।

92694	सीमाजा जी. गोपालन के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६७	6832 12.1.98	टी.सी. ३/६६४, दीपधिनगर, पो.आ. मुट्टाडा, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92695	सीना के. के. गोविन्दन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साईंसिस, बंगलौर २००४	8153 12.10.04	संगमम, पो.आ.मेट मुरिनगोडी, वाया पेगवूर जिला कन्नूर, केरल ।
92696	सीना कन्नोथ कुनवप्पा के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६८	6871 24.4.98	'श्रीपदमम', पो.आ. पिनारयी, वाया थलास्सेरी, जिला कन्नूर, केरल ।
92697	सीना एस. के.जी. सिधार्थन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साईंसिस, बंगलौर २००४	8091 13.9.04	कला भवन, मुट्टापल्लाम, पोस्ट थचोडु, वरकला, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92698	सीना बी. मदाथिल बल्लन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7333 27.2.01	मालप्पाडी हाउस, पो.आ. चेन्नन्नूर, वाया मेप्पायूर, जिला कोडिकोडु, केरल ।
92699	सीना सी.एस. सदासिवन नायर बी.ई.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चैन्नई १६६८	7135 29.3.2000	अंजली सी.एम.सी.२४, वेतोवट्टोम, पो.आ. चेरथला, जिला अलापुझा, केरल ।
92700	सीना एन.के. कृष्ण सी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००१	7489 27.12.01	कृष्णा विहार, कुन्नोथ, पो.आ. किलियनथरा, जिला कन्नूर, केरल ।
92701	सीना एस.के.एस. नीलकण्ठन नाम्बूदिरि एस.के.एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7702 11.11.02	गायथी पो.आ.पालयूरम, ओट्टापल्लाम, जिला पलक्कड़, केरल ।
92702	सीथा लक्ष्मी पी. आर. प्रभाकरन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साईंसिस, बंगलौर २००४	8126 25.9.04	सीथा निवास, पो.आ. वेस्ट पेरुना, चंगनाचेरी, जिला कोट्टयम, केरल ।

92703	सीथा लेक्मी आर. एम.एम.रघुनाथन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००४	8178 25.10.04	टी.सी. ५५/१८१, पी-३१, द्वारका, मनियमक्कारा थोप्पु, पो.आ. पणनमकोड, जिला थिरुवनन्थापुरम
92704	सेमीर बाबू के.एम. मुहम्मद के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8054 27.7.04	अभिलाष, पो.आ. इट्टीकट्टीरा, जिला पतक्कड़
92705	सेथु लेक्मी आर. सदासिवन पी.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैथ साईसिस, बंगलौर २००४	8129 25.9.04	श्री निलायम, पल्लीमुक्कु, कुन्दरा, जिला कोल्लम, केरल ।
92706	सेथु राज के.एस. सन्धन ए.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7768 20.1.03	स्वामी, पो.आ. मुहम्मा, जिला अलापुझा, केरल ।
92707	सेथुनाथ टी. गोपालाकृष्णन टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7185 5.7.2000	थमबेरी हाउस, पो.आ. नेडुवा, परणानाडी, जिला मालपुरम, केरल ।
92708	शबाना बी.ए. अब्दुलजाक बी.पी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7507 28.1.02	शिक्षा, पो.आ. मट्टनचेरी, जिला मालपुरम ।
92709	शबीन के. मयिन के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8305 5.2.05	सोलर इलैक्ट्रीकलस, जी.एच. रोड, कोझिकोडु ।
92710	शबीर अब्दुल राऊफ अब्दुल राऊफ	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7829 12.6.03	वलिथनाडी परमबिल हाउस, पो.आ. कुन्तलीथूर, चेट्टुवा, जिला थरिसूर ।
92711	शबाना बीगम मोईदु पी.बी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7211 5.7.2000	इहसान कुलपथ, पो.आ. कोन्दोट्टी, जिला मालपुरम, केरल ।

92712	शबना दास शमसुख दास ए.सी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मोडि.वि.वि.,वेल्डई २०००	7248 4.9.2000	युवथा, पो.आ. इल्लिकल, जिला कोझिकोडु ।
92713	शबना पी. के. नारायणन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००५	8299 25.1.05	स्वाथी, निकट अय्यप्पा भजना मन्दिर, पो.आ. रामदास नगर, जिला कसारागोडु ।
92714	शबु के. देवासी के.एल.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट १६६६	7093 10.12.99	कजिराथिंगल हाउस, पो.आ. इरावेल्लौर, जिला थरिसूर, केरल ।
92715	शफीर एम.एस. एम.एस. सुबैर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००५	8306 5.2.05	मुडावनकट्टील हाउस, पो.आ. करुणाडन्ना, जिला थरिसूर ।
92716	शहना ए.के. खालिद ए.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २०००	7207 5.7.2000	अकथेपीडिकायिल, पो.आ. इन्दुमुडी, जिला थरिसूर, केरल ।
92717	शाहिदा टी.पी. अबू बकर टी.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २०००	7175 5.7.2000	परथरा हाउस, पो.आ. कस्वेनथिरुथी, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92718	शेक अनवर के.एस. शैल परीद के.एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7326 26.2.01	कोषीली हाउस, म.नं. २१०/११, अनसार लेन, अलुवा, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92719	शेक निसार वी.एच. हमजा वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००२	7532 14.3.02	वरामनगलथ हाउस, पो.आ. त्रिथला, ओट्टापलम, जिला पलक्कड़, केरल ।
92720	शैनी एम. भास्कर भास्कर एम.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००१	7315 12.2.01	मनदकाथिंगल हाउस, मूलेपट, पो.आ. पैनामुरु, जिला थरिसूर, केरल ।

92721	शहजहान चिट्ठेयाथिल अब्दु सी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7191 5.7.2000	चिट्ठेयाथिल हाउस, पो.आ. पेरुम्बाडप्पा, जिला मालपुरम, केरल ।
92722	शजीव एम.एम. मेलैपुराक्कल माधवन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २००१	7430 15.9.01	मेलैपुराक्कल हाउस, पो.आ. कन्दनासेरी, वाया अरिकन्नीयूर, जिला थरिसूर, केरल ।
92723	शजी बोस एस.बाई वैलायुधन नादर के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९७	6836 12.1.98	धनविल्ला, मेयुक्काडा, पो.आ. मल्लायिनकिल, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92724	शजी राज ई. राजन ई.एन.	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १९६३	7040 25.9.99	३/१, इरथ हाउस, कक्कड, कुन्नामकुलम, जिला थरिसूर, केरल ।
92725	शजी एस. सुरेन्द्रन आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7498 3.1.02	पोईकाविला पुथेन वीडु, पो.आ. पुथेनकुलम, करिम्पानूर एस. परावुर, जिला कोल्लम ।
92726	शजिया शाहुल शाहुल हमीद एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६६	7071 10.12.99	वयलिल पुथेन वीडु, थेवल्ली, जिला कोल्लम ।
92727	शानु एम.के. श्रीधरन एम.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7750 28.12.02	श्रीमज भवन, एडाकुट्टी परम्बा, पो.आ. वलिस्लापुझा, वाया एरियाकोड ।
92728	शालिनी राज जी.आर. राजा बाबू कुमार	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7643 16.7.02	जिजो भवन, अवनकुडी, पो.आ. नेल्लीमडु, नेय्यट्टीनकरा, थिरुवनन्थापुरम ।
92729	शमीमा एन.के. नेल्लीकुशी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7247 25.8.2000	अमीन मजिल, तिरुत्तगडी, जिला मालपुरम ।

92730	शम्मी ए. अब्दुल रहीद ए.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	7116 4.1.2000	नवास मंजिल, चेन्नैयालकम, मुख्यमण्डल, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92731	शमसाद पी. कुन्ही मोहम्मद हाजी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7024 17.7.99	द्वारा मदाशिल आयुर्वेदिक सेन्टर, पो.आ. वालापुरम, वाया पुलामनथोले, जिला मालपुरम, केरल ।
92732	शमियाज एस. एम. शाजाहान	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8073 27.7.04	शान्ती मंजिल, पो.आ. कलाकोड, पुनालुर, जिला कोल्लम, केरल ।
92733	शान्ती नारायणन के. शंकरा नारायणा भट्ट ए.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६६	7679 26.7.02	कोडियाडका हाउस, पो.आ. मियापडालु, वाया मंजेश्वर, जिला कसारागोड, केरल ।
92734	शान्ती धामस धामस पी.टी.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००२	8006 12.4.04	पदन्माक्कल हाउस, पो.आ. पनथयी, वाया राजापुरम, जिला कसारागोड, केरल ।
92735	शोबिन पी.ए. सैदतवी पी.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7494 27.12.01	सोनेट मपरम, पो.आ. चेन्नैयालकम, जिला मालपुरम, केरल ।
92736	शेबी फ्रांसिस फ्रांसिस एम.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7737 27.12.02	मरोक्की हाउस, निकट अस्पताल रोड, पो.आ. चावक्कड, जिला थरिसूर, केरल ।
92737	शीबा धामस धामस सी.जी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २०००	7236 10.8.2000	चिरकादाविल हाउस, एलआईसी लेन ई, पट्टोम जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92738	शीबा वर्गीज के.पी.जी. वर्गीज	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8282 11.1.05	कलारिकल हाउस, पो.आ. कीरमपारा, कोयामंगलम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।

92739	शीबा ई.के. आनन्दन ई.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7160 3.7.2000	शीशा, पो.आ. मोकरी, वाया पनूर, जिला कन्नूर, केरल ।
92740	शीबा पी. उन्नी अय्यु पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7526 14.3.02	आशियाणा, जे.एन.रोड, पेरिन्दलमन्ना, जिला मालपुरम, केरल ।
92741	शीबा एस. सुधाकरन पी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६८	7008 20.3.99	वत्साभसेरिल, कोट्टायम-३, जिला कोट्टायम ।
92742	शीजा चन्द्रन सी.पी.के. पिल्लई	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैलथ साइंस, बंगलौर २००४	8096 13.9.04	चेयना, पो.आ. येरूर, जिला कोल्लम, केरल ।
92743	शीजा जी. आर. सुकुमारन नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	8171 25.10.04	वेलियिल हाउस, पो.आ. वक्कोम, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92744	शीजा ए. अब्दुल अजीज पी.एम.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7440 15.9.01	मुस्ताफा हाउस, वावरा अम्बालम, पो.आ. पोथेनकोड, जिला मालपुरम ।
92745	शीजा सी.आर. चेल्लथन नायर बी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6770 15.5.97	कैमालीयाङ्गिकयु, वीडु पो.आ. नरईकुलम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92746	शीजा पी. पुन्दरीकरण एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7589 10.6.02	लेस्मी निवास, टी.सी. ३६/१७८/१, एनवाक्कल, पो.आ. वत्ताकडावु, थिरुवनन्थापुरम ।
92747	शीजा पी.एन. नीलमरन	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १६६५	6807 20.9.97	'राधेयम', पुलिमूडे, मवेलिकारा, जिला अलापुझा, केरल ।

92748	शीजा एस. वासुदेवन नायर बी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7291 22.11.2000	अर्चना, वेनकुलम, पो.आ. एडवा. जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92749	शीजा एस. ससिधरन एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7571 26.4.02	सौसीर्य, पो.आ. अयाथिल, जिला कोल्लम ।
92750	शीना कुट्टी एस.आई.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7561 27.3.02	पल्लिकेझक्काथिल वीडु, पो.आ. थरियलाडिकोम, कूझिमटीकाडु, जिला कोल्लम ।
92751	शीना विजयन एन.पी. विजयन एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7260 24.10.2000	आनन्द, पो.आ. मम्बारम, जिला कन्नूर, केरल ।
92752	शीना एम.ए. बालासुन्दरम एम.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7622 10.7.02	प्रसान्ध विहार, पो.आ. ओरक्काट्टेरी, वेल्तीथुलानगरा, वडकारा, जिला कोडिकोडु ।
92753	शीना एम.के. कोचु एम.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7828 12.6.03	मदपरमबिल हाउस, पो.आ. अक्किनीसेरी, जिला थरिसूर ।
92754	शहना एस.आर. के. रेणुपत्तन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००४	8099 13.9.04	सौपर्णिका, किङ्गकुमकारा, पो.आ. कुलाथुर, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92755	शेजी यू.के. उन्नी कृष्णन किदावु	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००२	7962 17.2.04	निलमबुर वैद्यसाला, जिला मालपुरम, केरल ।
92756	शेमाना एन. सहदेवन एन.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९६६	6724 2.1.97	नाडुकनडी हाउस, अट्टानिकल, वेस्ट हिल जिला कोडिकोडु, केरल ।

92757	शेरिल एम.ए. अबू कर ए.ई.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २००१	7448 25.9.01	मुत्तुरायिल हाउस, पो.आ. नहामनाहट, विष्टूर-६, जिला थरिसूर, केरल ।
92758	शेरो एस. ससिधरन बी.जी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९६८	6904 10.8.98	सान्थी निवास, पो.आ. अनकल, कंजीरपल्ली, जिला कोट्टायम, केरल ।
92759	शिवु वर्गिज के.पी. जी. वर्गिज	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००३	7952 30.1.04	कस्तारिक्कल हाउस, पो.आ. कीरमपारा, कोयामंगलम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92760	शिजी पी. पी.आई. वर्गिज	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००४	8189 25.10.04	बसिल निवास, पो.आ. नोर्थ क्लोटेड्य, जिला व्यनाडु, केरल ।
92761	शिजी पी.के. पी.ए. करप्पन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8290 25.1.05	पुल्लीसेरी हाउस, पो.आ. थोटीपल, वाया पुदुक्कड, जिला थरिसूर, केरल ।
92762	शिजी वलसन बी. वलसन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8295 25.1.05	शिजी निवास, पो.आ. करमक्कोड, चथन्नूर, जिला कोल्लम, केरल ।
92763	शिजी वर्गिज वर्गिज के.सी.डी.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९६८	7277 13.11.2000	चेलापरमबथ हाउस, मट्टूर, कलाडी, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92764	शिजी आर.एस. सनकुनी एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६८	6967 26.12.98	तक्ष्मी विहार, कुरुमंडल, पो.आ.एस. परावूर, जिला कोल्लम, केरल ।
92765	शिजिन के.बी. बालन के.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7556 16.3.02	कोझपरमबिल हाउस, पो.आ. एडासेरी, जिला थरिसूर, केरल ।

92766	शिजोय वी. एस. वी. वी. सुब्रह्मन्यन	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट २००५	8288 25.1.05	चिथिरा निवास, थोट्टक्करा, पो. आ. पूक्कोट्टुमपादम, जिला मालपुरम, केरल ।
92767	शिजु मैथु मैथु आई.	बी. ए. एम. एस. केरल वि. वि. २००३	7795 7.5.03	मंजरा मूट्टील, पो. आ. चैनकुलम, कोट्टारकरा, जिला कोल्लम, केरल ।
92768	शिल्पा कुमारी एस. सरेमल ए. जैन	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि., चेन्नई १९९६	7308 12.7.01	मिथजला, पो. आ. थलाचिरा, कोट्टारकरा, जिला कोल्लम, केरल ।
92769	शिमी कृष्ण वी. कृष्ण	बी. ए. एम. एस. रा. गा. यू. आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8151 12.10.04	मुहाबूर हाउस, पो. आ. ममाला, जिला एर्नाकुलम ।
92770	शिमजीमेल के. टी. अद्युथन के. टी.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट २००१	7457 18.10.01	शिमजु निवास, पो. आ. अनगडीपुरम, जिला मालपुरम, केरल ।
92771	शिमी एस. राज वी. राजेन्द्रन	बी. ए. एम. एस. केरल वि. वि. २००३	7858 8.10.03	वरिल वीडु, कूनायिल, पो. आ. परावु, जिला कोल्लम ।
92772	शिमी सी. एफ. फ्रांसिस सी. वी.	बी. ए. एम. एस. महात्मा गांधी वि. वि., कोट्टायम १९९६	6738 22.1.97	चूरोपमबिल हाउस, एसएफएक्स चर्च रोड, म. नं. XXXVI/313, कलूर, कोची-१९
92773	शिमना वी. वी. एन. पी. भास्करन	बी. ए. एम. एस. रा. गा. यू. आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8094 13.9.04	विमल विल्ला, पो. आ. कन्नूकरा, बडगारा, जिला कोट्टिकोडु, केरल ।
92774	शिने एस. सदाशिवन पिल्लई एम. के.	बी. ए. एम. एस. केरल वि. वि. २००३	7793 7.5.03	सुरभी, कैराली नगर, हाउस नं. ७७, पो. आ. थिरुमुल्लावरम, कोल्लम-१२, कोल्लम ।

92775	शिनी टी.के. कुन्ही कृष्णन टी.आर.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १६६८	7007 6.3.99	टी.आर.के. निवास, पो.आ. वालनचेरी, मालपुरम, केरल ।
92776	शिनिशा शनमुषम शनमुषन सी.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7764 31.12.02	चोमट्टील हाउस, पो.आ. कोनाथुक्कुन्नु, पैनागोडे, वाया इरिजलकुडा, जिला थरिसूर ।
92777	शिनिता के.एस. कृष्णन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7527 14.3.02	करुन्या, मेलेपुरम, पो.आ. ओलक्कोडे, जिला पलक्कड़, केरल ।
92778	शिनी मैरी लेविस गासपर बी. लेविस	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००३	8075 27.7.04	मैरी फ़्लोरा, बोलारुडोडे, पो.आ. उदयवारा, उडुपी कर्नाटक ।
92779	शिनी के.एम. मुट्टन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7197 5.7.2000	इट्टामनपरमबिल कक्कड़, कुन्मक्कुलम, जिला थरिसूर, केरल ।
92780	श्रीजा टी.एस. धनकप्पन आचरी ए.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६८	6926 26.8.98	टी.सी.५०/१६२०, 'धन्या', थलियाल, करमाना पो.आ. करमाना, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92781	श्रीनाथ के. राजागोपाल के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६८	8046 20.6.04	विशाखा कोलारी, पो.आ. पेरडला, जिला कन्नूर, केरल ।
92782	श्याम प्रसाद एम. रामचन्द्र भट	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००४	8223 15.12.04	महालक्ष्मीपुरम, पो.आ. थेक्की, जिला कन्नूर, केरल ।
92783	श्याम बी.एल. विश्वनाथन पिल्लई के.एस.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोटायम १६६६	6749 29.3.97	इल्लीक्कुलायु हाउस, वयानकम, पो.आ. नजाक्कनल, वाया कृष्णापुरम, कायमक्कुलम, जिला अलापुझा, केरल ।

92784	श्यामला एन. शर्मा शर्मा के.एन.	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पू वि.वि., शंकरघट्ट १६६८	7612 2.7.02	ग्राम कोईपाडी, बोननथया हाउस, पोस्ट कुम्बला, जिला कसारागोडु, केरल ।
92785	श्याम ओ. भास्करन नायर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7330 26.2.01	श्याम न्निवास, पो.आ. कन्ननकारा, जिला कोझिकोडु ।
92786	श्यामला कुमार बी. चन्द्र सेखरन पिल्लई के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7439 15.9.01	कुलाथिनल पुथेन वीडु, पो.आ. कोडुमोन ईस्ट, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92787	शायनी के.एस. सुधाकरन के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7010 8.4.99	डा. साजु के.बी. कुम्बलापरमबिल हाउस, पो.आ. एडाथिल्ली, जिला थरिसूर ।
92788	सिबी कुरियाकोस कुरियाकोस ई.के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मोडि.वि.वि., केन्नई १६६७	6827 15.11.97	एरुणक्कट्टु हाउस, पो.आ. चेंगलम, जिला कोट्टायम, केरल ।
92789	सिजु सी. थामस सी.सी. थामस	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्य सईसिस, बंगलौर २००४	8148 12.10.04	चेरुसरील हाउस, पो.आ. नजाराथ हिल, कुराविलागड, जिला कोट्टायम, केरल ।
92790	सिल्ला रहमत बीगम बदरुदीन बी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7261 24.10.2000	मलायिल वडाक्काथिल, पो.आ. पुथियाविला, कायमकुलम, जिला अलापुझा, केरल ।
92791	सिमकिन सूर्यान सूर्यान कृष्णन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्य सईसिस, बंगलौर २००५	8313 5.2.05	सिमकिन विल्ला, पो.आ. कोलाडी, जिला थरिसूर ।
92792	सिन्धू अन्दोनी अन्दोनी सी.सी.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोट्टायम १६६६	6728 22.1.97	ल्लाट नं. ए-६४, गिरिनागई नोर्थ, पो.आ. कडाक्कर, कोची, जिला एर्नाकुलम, केरल ।

92793	सिन्धू दास एच. हरिदासन एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7372 23.4.01	कमलालायम, नोर्थ मनापल्ली, जिला कोल्लम ।
92794	सिन्धू के. के. कार्थिकेयन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंस, बंगलौर २००२	8291 25.1.05	मेलेशुनदीयिल हाउस, पो.आ. किडनगूर, तातूक कोडेनचेरी, जिला पटनमथिट्टा ।
92795	सिन्धू के. के.जी. कमलासन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8294 25.1.05	२/२३६, दीपासुधा, नजारेथ रोड, अलुवा जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92796	सिन्धू नहलिपुराय कृष्णन एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7364 16.3.01	नहलिपुराय हाउस, पो.आ. मूस्कड, वाया कोलाथुर, जिला मालपुरम, केरल ।
92797	सिन्धू रामावन्दन रामावन्दन के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7510 28.1.02	प्रसाथ, पो.आ. कृष्णापुरम, कामकुलम, जिला अलापुझा, केरल ।
92798	सिन्धू थिलकराजन थिलकराजन पी.बी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	6992 6.3.99	अरुण टी.एस. थन्दासेरी हाउस, पो.आ. किक्ककुमुरी, पेरिंगोट्टुकारा, जिला थरिसूर ।
92799	सिन्धू बी. बाबू एन.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोटायम १९६६	6737 22.1.97	सिन्धू भवनम, कोडमथुरुथ, कुथियाथोडे पो.आ. चेरथला, जिला अलापुझा, केरल ।
92800	सिन्धू के. नारायणन के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7804 7.5.03	कुन्नावकड श्रीवालयम, पो.आ. पुलपट्टा, जिला पलक्कड, केरल ।
92801	सिन्धू एस. बालाकृष्णन नायर पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एस.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९६७	6828 15.11.97	८/१८६५, चन्द्र आयुर्वेद मेडिकल स्टोर, पैलेस रोड, मट्टनचेरी, कोची-२, जिला एर्नाकुलम, केरल ।

92802	सिन्धू एस. संकरनकुट्टी मरार एम.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि.,वेन्नई १६६८	6882 12.5.98	श्री वालसम, पो.आ. चेलक्कारा, पो.आ. थरिसूर, केरल ।
92803	सिन्धूलथा पी.एस. वारियर जी.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट १६६८	6879 24.4.98	'ज्योत्सना', पंडामंगलम, कोट्टक्कल, जिला मालपुरम, केरल ।
92804	सिनी साधन सथ्यदेवान ए.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६८	6927 26.8.98	सिनी विहार, थुडुथला, पो.आ. कोट्टायम, जिला कोल्लम, केरल ।
92805	सिनी सी. एस. साथिया बाबू सी.एस.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि.,वेन्नई २००१	7456 18.10.01	पेरायिल हाउस, पो.आ. मनगड, किलोन-१५, जिला कोल्लम, केरल ।
92806	सिनी पी.एम. मथियास जेवियर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट १६६६	6975 20.2.99	सिबिनी हाउस, कूडथल, पो.आ. बीजिडआर, धमरासेरी, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92807	सिनी जौन ए. जौन ए.के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००१	7506 24.1.02	अन्यक्कट्ट हाउस, पो.आ. नहामनघाट, जिला थरिसूर, केरल ।
92808	सिरोशा एम. हर्ष जौथी एम.आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००१	7313 12.2.01	मुल्लनगथ हाउस, निकट एस.एन. स्कूल, पो.आ. कनिमंगलम, जिला थरिसूर, केरल ।
92809	सिथारा धर्मराज धर्मराजन के.वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २०००	7165 5.7.2000	अंजलि, पो.आ. एरनहोली, जिला कन्नूर, केरल ।
92810	सिथारथा एम. नारायणन थट्ट एम.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६८	6971 20.2.99	'विवेक', तलैंगला (एच), ग्राम एवं पोस्ट बागस जिला कसारागोडु, केरल ।

92811	सिवकुमार वी.पी. विश्वनाथन जी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7799 7.5.03	पुष्कम, आर-६, राम नगर, पणनमकोड, टीवीएम-१८, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल
92812	सिवाप्रसादन वी. पुरुषोत्थमन वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7657 16.7.02	मुगुनालायम, थलक्कुलाथुर, जिला कोच्चिकोडु, केरल ।
92813	सिवासन्ध्या पी.एस. परमेश्वरन एन.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २००१	7374 28.4.01	सिवासारस, टी.सी. १०/२१६१, पो.आ.कंजीरामप जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92814	स्मिनी जे. मूनजेली उथुप एम.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7133 3.3.2000	मूनजेली हाउस, पो.आ. कुट्टीकड, जिला थरिसूर, केरल ।
92815	स्मिथा जे. सी.के. रवि	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7854 8.10.03	लेस्मी निलायम, टी.सी.५३/१६२८, कुलाकुडियूरकुलम, पो.आ. नेमोम, थिरुवनन्थापुरम ।
92816	स्मिथा कुमारी ए.आर. रामकृष्णा पिल्लई	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६६	7148 22.5.2000	अरीक्कल पनायिल पुथेन वीडु, विलनागर, पो.आ. नेल्लिकुन्म, कोट्टरकारा, जिला कोल्लम ।
92817	स्मिथा एम. लक्ष्मना गुप्तान एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8025 17.5.04	वायमकोल्ली हाउस, पो.आ. मन्ममट्टा, जिला पलक्कड, केरल ।
92818	स्मिथा मोहन पी.वी. पी.एन. मोहन कुमार	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8309 5.2.05	पंकी, पो.आ. पलक्कड, जिला थरिसूर, केरल ।
92819	स्मिथा नायर एम.के. बालागोपालन नायर के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	7042 25.9.99	देवी कृपा, धन्वन्तरी नगर, पो.आ.सी.एन. पुरम, जिला पलक्कड, केरल ।

92820	स्मिथा नाबियार के. भास्करन नाबियार एन.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६८	7014 28.4.9	माधवी, निकट अलेक्कट्ट टेम्पल, पो.आ. पेरिन्थलमन्ना, जिला मालपुरम, केरल ।
92821	स्मिथा रानी के.एस. जे. सुकुमारन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7865 10.10.03	कमलालायम, कैथमकुडी, मूनगोड, पो.आ. पेगड, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92822	स्मिथा रवि एम.पी. रवि	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7898 5.12.03	थोट्टथिल हाउस, पो.आ. अन्नामन्डा, कन्नूर, जिला थरिसूर, केरल ।
92823	स्मिथा एस. सी. धनकृष्ण	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	8182 25.10.04	श्रव्यास टी.सी. ८/२०१, पो.आ. थिरुमला, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92824	स्मिथा एस.आर. सिवादासन वी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	8173 25.10.04	स्मिथेस निवास, पो.आ. साउथ एवुप्पा, वाया नोर्थ मनपल्ली, करुणागापली, जिला कोल्लम ।
92825	स्मिथा एस. सिवन के. सदासिवन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	7982 9.3.04	उषस, वैलाक्कुलानगरा, पो.आ. मनक्कला, आई.ए. अदूर, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92826	स्मिथा थामस के. थामस के.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7096 10.12.99	कालन हाउस, पो.आ. नेल्लयी, जिला थरिसूर ।
92827	स्मिथा वी. वासुदेवा कुरुप्प एम.एन.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8036 17.5.04	मंगलासेरिल हाउस, ऐक्काडु, पो.आ. कोडुमोन, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92828	स्मिथा ए.वी. सुब्रामोनियन वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7761 31.12.02	करुथेदाथु हाउस, अरुकिझया, पो.आ. मंजेरी, जिला मालपुरम, केरल ।

92829	स्मिथा बी. बालाकृष्णन पाणिकर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7452 3.10.01	एलावनथ हाउस, पो.आ. नोर्थ इवूर, एरु, जिला अलापुझा, केरल ।
92830	स्मिथा के. रविकुमार के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7068 9.12.99	कविथा, पो.आ. वट्टोली बाजार, वाया बालुसेरी, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92831	स्मिथा एन. कुन्हीरामन नायर के.	बी.ए.एम.एस. कुन्हेयू वि.वि., शंकराष्ट्र २०००	7215 18.7.2000	कैरोस, मेरा नगर-१६८, टी.सी.२४/१६४६, पो.आ. थईकोड, टी.वी.एम. १४, थिरुवनन्थापुरम
92832	स्मिथा पी. भारथा टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7658 16.7.02	पोला हाउस, निकट विश्वविद्यालयकेन्द्र, पण्नीनिसैरी, जिला कन्नूर, केरल ।
92833	स्मिथा आर. संकुन्नी पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7538 16.3.02	पडियट हाउस, पो.आ. नादथरा, जिला थरिसूर, केरल ।
92834	स्मिथा टी.बी. वासु टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7537 16.3.02	प्रीथारागम, थलयोलापरम्बु, जिला कोट्टायम, केरल ।
92835	स्मिथा वी.के. कृष्ण वी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7251 25.9.2000	मल्लाकारा हाउस, पो.आ. थिमिरी, वाया चेरुवाथुर, जिला कसारागोडु, केरल ।
92836	सोनी पी. जार्ज पी.एम. जार्ज	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	7992 29.3.04	पेरुम्बालथ हाउस, पो.आ. कुराविलानगडु, जिला कोट्टायम, केरल ।
92837	सोहिनी एस. थुलसीदासन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7857 8.10.03	सी.के.वी. मन्दिरम, कुझियम, अडूर, पेरुम्पुझी, जिला थिरुवनन्थापुरम ।

92838	सोज आर. रवि कुमार पी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	7084 10.12.99	चन्द्रिका लैण्ड, कोटारक्कारी, पो.आ. मुलकुमपुझ जिला थिस्वनन्यापुरम, केरल ।
92839	सोज एच. हरिदास एन.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	7082 10.12.99	ग्रीन व्यू, पोस्ट नेडुगन्डा, जिला थिस्वनन्यापुरम, केरल ।
92840	सोलोमोन ए. अगस्टीनोस एफ.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	6747 7.2.97	पोट्टेन्देविला (सोलोमन्दिरम), पो.आ. कोडुविला ईस्ट कल्लाडा, जिला कोल्लम, केरल ।
92841	सोना के.बी. बालाकुमारन के.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6999 6.3.99	कोन्दारप्पास्सेरी हाउस, पो.आ. कुन्डालियूर, एगान्डीयूर, जिला थिरिस्सूर, केरल ।
92842	सोनिया जोसफ जोसफ मैथु	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	7033 16.9.99	कल्लुकुन्नेल हाउस, पो.आ. पारथोडु, कंजीराप्पली, जिला कोट्टायम, केरल ।
92843	सोनी सोमन सोमासेखरन नायर एन.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	6833 12.1.98	नारायणा भवन, किझक्कारा, पो.आ. कोट्टारकारा जिला कोल्लम, केरल ।
92844	सोनी वी.आर. पी. विजयन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००४	8170 25.10.04	वृन्दावन, पो.आ. थेक्केविला, जिला कोल्लम ।
92845	सोनी जे.पी. जोसफ पी.जे.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7534 14.3.02	पुथनक्कायिल हाउस, पो.आ. चेनालोड, जिला व्यानाडु, केरल ।
92846	सूरज पी.आर. राजप्पन वैदयार	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि वि.वि., चेन्नई २००१	7486 27.11.01	पुलिकल हाउस, साउथ च्लुवाडी, नोर्थ पारावुर, जिला एर्नाकुलम, केरल ।

92847	सूरज आर. राजगोपालन एम.पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६७	6789 8.7.97	५/१६४३, 'वेनुस', स्ट्रीट विनसेन्ट्स कालानी रोड, पो.आ. एरन्हीपालम, कोडिकोडु
92848	सूरज एस. सुरेन्द्रन नायर के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १६६७	6793 28.7.97	'प्रेम विहार', पो.आ. थिरुवनकुलम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92849	सूरज एस.एन. नारायणन ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7769 1.2.03	अय्यप्पारी हाउस, पो.आ. मेणायुर, जिला कोडिकोडु, केरल ।
92850	सोफी थामस के. के.सी. थामस	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8133 25.9.04	कालन हाउस, पो.आ. नेल्लायी, जिला थरिसूर
92851	सौदय सी.ए. अब्दुट्टी सी.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7436 15.9.01	चोलास्सेरी हाउस, पो.आ. वेलुपादम, जिला थरिसूर, केरल ।
92852	सौमिनी टी.टी. वी.वी. शनक्कप्पन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २००३	8114 25.9.04	सान्थी, कट्टाकाडा, जिला थिरुवनथापुरम ।
92853	सौमया दामोदरन दामोदरन नाबूथिरी	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पू वि.वि., शंकरघट्टा २००१	7437 15.9.01	नेट्टीयक्कट्टु माना, पो.आ. कोडिकोडु, कूथाट्टुकुलम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92854	सौमया सागर सी.के. विदया सागर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8210 22.11.04	चेन्नगनकल हाउस, टेम्पल रोड, थोडुपुझा, जिला इडुक्की, केरल ।
92855	सौमया चन्द्रन ए. चन्द्रन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8303 5.2.05	कोट्टाकुन्नु हाउस, पो.आ. मीननगडी, जिला बनाडु, केरल ।

92856	श्री राज आर. राजन एन.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६८	6893 2.6.98	‘नारायण’, पुर्धेमडोम कम्पाउण्ड, थेवल्ली, जिला कोल्लम, केरल ।
92857	श्री राज वी.एस. विश्वनाथकुरूप एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7379 28.5.01	सान्थी भवन, मेलाट्टीनकल, पो.आ. आलमकोड, अट्टीनगल, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92858	श्री विद्या पी.आर. रवीन्द्रन नायर पी.के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7861 10.10.03	पायनमुट्टिल वीडु, नेडुक्कुर, पो.आ. नेलसरम, कोट्टाक्करा, जिला कोलम ।
92859	श्रीदेवी सी.एस. सुब्रामनियन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7911 9.12.03	श्रीविहार, न्यू गार्डेन्स लेन, पो.आ. अय्यनयोल, जिला थरिसूर, केरल ।
92860	श्रीदेवी जी. नायर गोपालकृष्णन नायर	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २००३	8120 25.9.04	कनककुल्ल, पो.आ. चथनथारा, कोल्लमुला, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92861	श्रीदिव्या के. रामचन्द्रन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंस, बंगलौर २००३	7907 8.12.03	यशस, निकट कल्लालम का., तलप, जिला कन्नूर, केरल ।
92862	श्रीजा एम.सी. एम.एस. चन्द्रन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंस, बंगलौर २००३	8191 6.11.04	वृन्दावनम हाउस, पो.आ. अट्टोर, कुट्टुर, जिला थरिसूर, केरल ।
92863	श्रीजा पी.बी. भास्करन पी.पी.	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंस, बंगलौर २००३	7998 3.4.04	पारास्तेरिथिल हाउस, पो.आ. पुलपल्ली, जिला व्यनाडु, केरल ।
92864	श्रीजा एस. वी. शनमुषन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8308 5.2.05	एम-२६, ए-८, अनुराधा, इन्दिरा नगर, पो.आ. कल्लेपुल्ली, जिला पलक्कड़, केरल ।

92865	श्रीजा सी. रामदास पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि.,चेन्नई २०००	7278 14.11.2000	नितम्बर वैद्यसाहा, निलम्बुर, जिला मालपुरम ।
92866	श्रीजा के.वी. वेलायुधन के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००१	7324 12.2.01	कुडुप्पिल्ली हाउस, पनगाड, जिला थरिस्सूर ।
92867	श्रीजा ओ.के. कुट्टय्यन जी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7229 10.8.2000	थरुपुरा, पो.आ. कदपक्काडा, कोल्लम-८, जिला कोल्लम, केरल ।
92868	श्रीजा आर. राजप्पन नायर ए.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7295 22.11.2000	कार्यिका, पो.आ. सन्यनपुरम, जिला अलापुझा, केरल ।
92869	श्रीजा एस. राजसेखरन नायर पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६८	6921 18.8.98	'राजीवम', पो.आ. इन्डस्ट्रियल एस्टेट, एयननकोड, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92870	श्रीजा एस.एल. श्रीधरन के.एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट १९६६	7118 31.1.2000	श्री लक्ष्मी, पो.आ. अट्टेनगानम, वाया आनन्दाश्रम, जिला कसारागोडु ।
92871	श्रीजा वी.पी. पदमानमान नायर	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि.,चेन्नई १९६६	7140 31.3.2000	लाल भवन, टी.सी. २४/१९५, एलाकोम नगर, पो.आ. थईकोड, टी.वी.एम. १४, थिरुवनन्थापुरम
92872	श्रीजन एस.डी. धननजयन एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7800 7.5.03	श्रीजा काटेज, अरतकामुगल, पो.आ.अरालुम्पुडु, टीवीएम-२३, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92873	श्रीजीत एस.पी. गिल्लई वी.एस.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7747 28.12.02	ननथिरिकल पुथेन वीडु, एडावटोम, पो.आ. वेल्लीमोन,कुन्दरा, जिला कोल्लम, केरल ।

श्रीजीय सी.पी.	बी.ए.एम.एस.	8228	थेजस, अम्बलामुक्कु, टी.सी. ५/७, पो.आ.
डॉ. परमेश्वरन नायर	रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर	31.12.04	प्रेरुकाडा, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
	२००४		
श्रीजीय कृष्ण	बी.ए.एम.एस.	7972	परमपुरायु हाउस, पो.आ. पैरु, जिला
पी.एम. कृष्ण नायर	रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर	3.3.04	कोट्टायम, केरल ।
	२००४		
श्रीजीय ए.पी.	बी.ए.एम.एस.	7002	पथिकरन हाउस, पो.आ. अन्नुर, वाया
कुन्हीरमण के.पी.	कालिकट वि.वि., कालिकट	6.3.99	पथ्यन्नुर, जिला कन्नुर, केरल ।
	१९९९		
श्रीजीय के.पी.	बी.ए.एम.एस.	7212	कोन्डामल्लु माना, पो.आ. मेथिरी, वाया
पदमानभान नाम्पथिरी के.आर.	कालिकट वि.वि., कालिकट	5.7.2000	रामपुरम, जिला कोट्टायम, केरल ।
	२०००		
श्रीजीय के.पी.	बी.ए.एम.एस.	7606	कस्सेयय माना, पो.आ. मट्टराक्कल,
श्रीकुमारन नाम्बूथिरी के.पी.	एससीएसवीएम., कांचीपुरम	1.7.02	पेरियलमन्ना, जिला मालपुरम, केरल ।
	२००२		
श्रीजीय एस.	बी.ए.एम.एस.	7748	श्रीविल्ला, पो.आ. थिरुक्कड, जिला मालपुरम,
सिवादासन नायर एम.पी.	कालिकट वि.वि., कालिकट	28.12.02	केरल ।
	२००२		
श्रीजीय टी.वी.	बी.ए.एम.एस.	7130	वडक्कुम्बाडु, पो.आ. कविल्लुर, जिला कन्नुर,
गोविन्दन के.वी.	कालिकट वि.वि., कालिकट	1.2.2000	केरल ।
	१९९९		
श्रीकला के.	बी.ए.एम.एस.	8017	सिवानन्दा मन्दिरम, पो.आ. कुल्लुमाथुर,
के.करुणाकरन	रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर	22.4.04	वाया करिमबम, जिला कन्नुर, केरल ।
	२००३		
श्रीकला रानी के.	बी.ए.एम.एस.	8175	टी.सी.२०/२६६८-१, गणेश भवन, पो.आ.
कृष्णा प्रभू	केरल वि.वि.	25.10.04	करमाना, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
	२००४		

92883	श्रीकला एन.पी. परमेश्वरन नायडूरी एन.पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., वेल्ड १६६७	6786 8.7.97	श्रीकुरुमाना, पो.आ. परम्पुझा, जिला कोट्टायम, केरल ।
92884	श्रीकला वी.के. सिवारमन अवारो वी.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7420 11.7.01	वेलियापरम्बिल हाउस, पो.आ. फरुक कालेज, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92885	श्रीकांथ वी.एस. नामदेवन पिल्लई जी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7644 16.7.02	श्रीलेण्ड, कोट्टुवनकोनम, पो.आ. पूथाकुलम, जिला कोल्लम, केरल ।
92886	श्रीकुमार जे.एस. सुगुनन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7896 5.12.03	जयकुमार भवन, सी.एम.सी.-२७, पो.आ. चेरथला, जिला अलापुझा, केरल ।
92887	श्रीकुमार जी.एस. गंगाधरन नायर जी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., वेल्ड १६६८	7066 26.11.99	द्वारका, पो.आ. चिथराल, वाय अरुमना, कन्याकुमारी, जिला एन.ए., तमिलनाडु ।
92888	श्रीला के.एस. सदासिवन नायर के.जी.	बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएस., कंचिपुरम २००२	7614 2.7.02	कोलायु श्रीभवनम, पो.आ. पथिरिकल, पठानपुरम, जिला कोल्लम, केरल ।
92889	श्रीला आर. रमन नायडूथिरी एम.आर.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7444 15.9.01	मंगलाथिल्लम, धमलम, पो.आ. पूजापुरा, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92890	श्रीलाल संकर संकरन ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7408 7.7.01	श्रीला, १६/१६८६, पी.बी.नं.५४८, वालपुरम, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92891	श्रीलथा सी.वी. वेल्ड सी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7174 5.7.2000	चीरनकुट्टीनजलिल कीर्थी, कल्लुमुपुरम, पो.आ. कडावल्लु, जिला थिरसूर ।

92892	श्रीलथा के. रामाशास्त्री के.	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पू वि.वि., शंकरादटा १६६६	7779 24.2.03	शिरनथडका हाउस, पो.आ. पादरे, वाया पेरिया, जिला कसारगोडु, केरल ।
92893	श्रीलथा पी.जी. गोपालन नायर पी.के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	7028 9.9.99	टी.सी.२८/१९९१, पन्दाथोणु, श्रीकृतिशेवरम, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92894	श्रीलेखा एल. नानू के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7572 27.4.02	मणिमन्दिरम, पो.आ. नजक्कानल, कृष्णापुरम, जिला अलापुझा, केरल ।
92895	श्रीलेखा एम.एस. सुकुमारन एम.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६७	6820 3.11.97	मुल्लास्सेरी हाउस, पो.आ. वेमक्कलोर, वाया एडाविलांगु, जिला थरिसूर, केरल ।
92896	श्रीलेखा आर.एस. रामा पिशादी बी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7728 19.11.02	प्रनवम, टी.सी.८/५६६ (1), ओडनकुडी रोड, थिरुमला, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92897	श्रीनी टी.बी. वासुदेवन पिल्लई एन.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि वि.वि., चेन्नई १६६७	6760 26.4.97	करादमपल्लील, नोर्थ पिलापुझा, पो.आ. हरिपद, जिला अलापुझा, केरल ।
92898	श्रीनी आर. रामाचन्द्रन नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7381 29.5.01	पलपुरायु हाउस, पो.आ. कस्बुटा, जिला अलापुझा, केरल ।
92899	श्रीनिवासन टी. माधवन नायर के.	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १६८७	7366 23.4.01	कपट हाउस, पो.आ. कनकाडा, जिला. मालपुरम, केरल ।
92900	श्रीराज आई.पी. पुरुषो	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	7073 10.12.99	श्रीजा भवन, वेन्कुलम, पो.आ. एडावा, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।

92901	श्रीधी के.एस. श्रीनिवासन के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट	7115 23.12.99	कोयमुट्टील हाउस, मारवनचेरी, पो.आ. चेगापूर, जिला थरिसूर, केरल।
92902	श्रीविद्या पी. के. वासुदेवन नांबुदीरी	१६६६ बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर	8165 13.10.04	कुट्टियाट्टु इल्लम, चेलन्नुर, जिला कोझिकोडु।
92903	श्रीनाथ जी. टी.पी. गोविन्दन	२००४ बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर	8095 13.9.04	४६/६५४, कौस्थुमम, पो.आ. अय्यनचोलै, जिला थरिसूर, केरल।
92904	श्रीषी के. कृष्णा वैषयार वी.	२००४ बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि.	7429 12.9.01	हाउस नं. के.पी. १२/१४३, गोकुलम, थिरुमला थेक्के नाडा, पो.आ. थुरावूर, जिला अलापुझा, केरल।
92905	सुबैदा केसनपडिक्कल अली केसनपडिक्कल	२००१ बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट	7523 14.3.02	करुप्पम वीट्टील हाउस, चैवाल्लुर, पो.आ. कन्दनसेरी, जिला थरिसूर, केरल।
92906	सुभा के.के. के.वी. दामोदरन	२००२ बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर	8074 27.7.04	सी.पी. हाउस, पो.आ. चुन्नालि, श्रीकन्द्यापुरम, कन्नूर, केरल।
92907	सुभा वी.एम. वी.के. मुकुन्दन	२००४ बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट	8080 27.7.04	वट्टेक्कट्ट हाउस, पो.आ. अंजूर, मोन्दूर, जिला थरिसूर, केरल।
92908	सुभा पी. बालाकृष्णन पी.	२००४ बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट	7531 14.3.02	सान्धी निवास, पो.आ. करुमनबल्लम, मंजेरी, जिला मालपुरम, केरल।
92909	सुभा पी.के. कुंजन नाथर ए.के.	२००२ बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएम, कांचीपुरम	7616 2.7.02	पुलिकल हाउस, पो.आ. मेथला, वाया कुरुप्पमपाडी, जिला एर्नाकुलम, केरल।

92910	सुभाष एम. मुत्तीधरन प्राणिकर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7548 16.3.02	मणिमन्दिरम, पो.आ.कस्मडी, अम्बालापुरा, जिला अलापुझा, केरल ।
92911	सुभाश्री जी.एच. हरिदासन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8003 3.4.04	अक्कीपेयिल हाउस, पो.आ. ननमिन्डा, जिला कोडिकोडु, केरल ।
92912	सुबी के.एस. सुधाकरन के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7318 12.2.01	झारा लथीश वी.आर. वडक्कुमचेरी हाउस, पो.आ. कुन्डलियूर, जिला थरिसूर ।
92913	सुबीमोल जे. जलालुद्दीन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6783 8.7.97	पनक्कल वडकायिल, मेमना, पो.आ. ओचिरा, जिला कोल्लम, केरल ।
92914	सुबिन वी.आर. रमण नम्बुद्री वी.एस.	बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएम., कांचीपुरम २००२	7605 1.7.02	७/६२१, वैद्यमाधम, पो.आ. कलपथी, जिला पलक्कड़, केरल ।
92915	सुब्रामन्या भट के. थिरुमालेश्वरा भट के.	बी.एस.एम. मैसूर वि.वि., मैसूर १६७७	8027 17.5.04	श्री गणेश, कनक्किट्टा, पोस्ट कुम्बला, जिला कसारागोडु, केरल ।
92916	सुविथ एम.एस. एम.एस. सुसीलप्पन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साईसिस, बंगलौर २००२	7891 28.11.03	टी.सी. ३४/१५७४, अय्यप्पास, सा मिल रोड, कुक्केनचेरी, जिला थरिसूर, केरल ।
92917	सुचित्रा पी. विश्वनाथन नम्बूथिरी पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7264 8.11.2000	नारायण मंगलथ, पो.आ. नेल्लय, जिला थरिसूर, केरल ।
92918	सुधा देव डी.एस. सी. सुधाकरन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साईसिस, बंगलौर २००२	7981 9.3.04	देवासुधा, मय्यानड रोड, पो.आ. कोट्टायम, जिला कोल्लम, केरल ।

92919	सुधा कुमारी के.जी. गोपालकृष्णन के.टी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००१	7385 29.5.01	सुनील भवन, पो.आ. नोर्थ कैथुडा, कुलानडा, जिला प्रठनमथिट्टा, केरल ।
92920	सुधा मेनन यू.पी. राधाकृष्णन वी.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6989 20.2.99	उन्नीपरम्बाथु पट्टा वीडु, निकट चनामिल टेम्पल, पो.आ. कोडुनगल्लूर, जिला कोट्टायम ।
92921	सुधा एस. दामोदरन पिल्लई के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००४	8183 25.10.04	सुधीर भवन, कनीमिल थैरी, पो.आ. पट्टाडी, जिला कोल्लम, केरल ।
92922	सुधा वी. एम.पी. श्रीधरन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	8050 30.6.04	पदमाविलासम, पो.आ. थोलीकोड, पुनालुर, जिला कोल्लम, केरल ।
92923	सुधा के. संकरन एम.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६८	6899 2.6.98	कनट हाउस, पो.आ. आनन्दापुरम, जिला थरिसूर, केरल ।
92924	सुधा एम. मधुसूदनन टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7104 23.12.99	पंकज निवास, जी.आर.एच.एस. रोड, पो.आ. कोट्टक्कल, जिला मालपुरम, केरल ।
92925	सुधीर कुमार के.पी. परमेश्वरन नाम्बूथीरी के.एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6995 6.3.99	कुरियेदाथु माना, पो.आ. अविट्टाथुर, वाया कल्लेट्टीमक्करा, जिला थरिसूर, केरल ।
92926	सुधीर ए.वी. वासुदेवन ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7359 16.3.01	पो.आ. अम्बाडी, निलम्बुर आर.एस., जिला मालपुरम ।
92927	सुधीर ई.वी. चिन्दन एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7170 5.7.2000	श्रीनिलायम, पो.आ. करिवेल्लु, जिला कन्नूर ।

92928	सुधीर के.के. करुणाकरन वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7533 14.3.02	कन्दलामल हाउस, पो.आ. वावड, कोडुवल्ली, जिला कोडिकोडु, केरल ।
92929	सुधीर एम. देवादासन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7524 14.3.02	सन्धा हाउस, पेरिक्केनवेरी, पो.आ. चेंवापूर, जिला कोडिकोडु, केरल ।
92930	सुधीश पी.एन. पी.के. नारायणा शर्मा	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8058 27.7.04	परमपूरल्लोम, पो.आ. थुरुथीकाडु, मल्लापल्ली, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92931	सुहास नारायणन पी.के. वासुदेवन पी.के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २००१	7463 19.10.01	सुहास नारायणन पी.के. कुन्नाथ मना, सूर्य कान्ची, सान्ची नगर, थिरुवमबाडी, जिला थरिसूर ।
92932	सुजा पी.के. आर. जनार्दन नायर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	7988 20.3.04	कार्थिका, कुट्टीपुरम, जिला मालपुरम, केरल ।
92933	सुजा जी. नायर नायर एम.जी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7310 12.2.01	सौपर्निका, थडो चौवा पो.आ., जिला कन्नूर, केरल ।
92934	सुजा एम. जार्ज वी.जे.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २००२	7676 26.7.02	म.नं. ३२/१०१, सुजात्री, राम नगर, पो.आ. वडकनथारा, जिला पलक्कड़ ।
92935	सुजाथा ए. आनन्दन एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९७	6841 12.1.98	'सौपर्निका', अंचलमुडु, पो.आ. पेरिनाडु, जिला कोल्लम, केरल ।
92936	सुजाथा जे.आर. रामचन्द्रन पोर्टी एल.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९८	6945 23.11.98	'यमुना' टी.सी. २८/१०५०, श्रीकृष्णेश्वरन, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।

92937	सुजाया पी. गोविन्दकुट्टी पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	7098 10.12.99	पौरनामी, सुन्दरा इयर रोड, ओट्टापालम-१, जिला पलक्कड़, केरल ।
92938	सुजीश ई.पी. ससिकुमार ई.आई.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8055 27.7.04	इराट्टु पुरक्काडा वीडु, पोनानी साउथ जिला मालपुरम, केरल ।
92939	सुजी जयन जयन एम.बी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २०००	7155 8.6.2000	नेथरभावन हाउस, पो.आ. इराविपेरुर, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92940	सुजीश के. गंगाधरा मेनन बी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7544 16.3.02	वट्टेक्कट्ट हाउस, पो.आ. कलायोडे, जिला थरिसूर, केरल ।
92941	सुकुमारन आर. रमण	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	7030 14.9.99	कुञ्जविला वीडु, पुलिप्पारा, थेवस्कुली, पो.आ. नेडुमनाडु, थिक्कनन्यापुरम ।
92942	सुलफीकर ए. अहमद	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7193 5.7.2000	प्रकाश, पो.आ. पलपेट्टी, वाया वेलियनकोड, जिला मालपुरम, केरल ।
92943	सुम ए.पी. बालाकृष्णन एम्बानदिरी ए.पी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६७	6779 20.5.97	भद्रा विलास, पट्टेना, निलेश्वर, जिला कसारगोडु, केरल ।
92944	सुमन बाबू के.एम. बाबू	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	7956 3.2.04	कैम्पल्लाझिक्कु वीडु, मरुथामोनपल्ली, पो.आ. पूयप्पल्ली, जिला कोल्लम ।
92945	सुमन दास एम.एल. माधवा पाणिकर	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २००२	7578 6.6.02	लाल सुमम, पो.आ.अनयारा जिला थिक्कनन्यापुरम, केरल ।

92946	सुमेश वासुदेवन सी. वासुदेवन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ. हेल्थ साइंस, बंगलौर २००३	7886 28.11.03	अजय्या अझूर, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92947	सुमी ए. अब्दुल वहाब	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7780 5.3.03	न्यू कोटेज, वडिमुक्कु, बालारापुरा, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92948	सुमी ए.के. करुणाकरन ए.ए.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7288 22.11.2000	टी.सी.६/१६०४, कावेरी, पुल्लैकोनम लेन, सस्थामंगलम, थिरुवनन्थापुरम ।
92949	सुनन्दा एम.एन. नारायणन नाम्बूथिरी एम.के.	बी.ए.एम.एस. एससीएसवीएम, कांचीपुरम २००१	7615 2.7.02	ममकुलथिल्लम, पुनायम, पो.आ. असमन्नूर, वाया पेरुमबावूर, जिला एर्नाकुलम ।
92950	सुनी पाल पाल एम.ए.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६८	6914 18.8.98	टी.सी. २/१६३२, मरिना, जीआए-२०, नौरीसपट्टेम, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92951	सुनील एम.वी. नारायणन नाम्बियार वी.एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६८	6856 28.3.98	म.नं.३२/१७१, अस्थी वेरुकुन्नाथपुरम्बा कोझिकोड मेडिकल कालेज पो.आ. जिला कोझिकोड ।
92952	सुनील बाबू पी.पी. अब्दुल सलाम	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7522 14.3.02	सिक्स, वी.आई.पी. रोड, पो.आ. वन्दूर, जिला मालपुरम, केरल ।
92953	सुनील चन्द्र ए. पुल्लमा राजू	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९६६	7696 31.10.02	ए-११८, असोका अपार्टमेन्ट्स, मेरिन ड्राईव, कोची, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92954	सुनील जौन थक्काट्टील जोनी टी.एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६७	6830 15.11.97	थलकट्टील हाउस, कोट्टेकड, पो.आ. कुट्टु, जिला धरिसूर, केरल ।

92955	सुनील मैथु के.क. मैथु	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर १६६७	8145 12.10.04	कोर्टु हाउस, पो.आ. मुट्टुविरा, जिला कोटायम, केरल ।
92956	सुनील के. जौन जौन के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6744 7.2.97	'आनन्दा भवन, पो.आ. इनाथु, जिला पठनथिट्टा, केरल ।
92957	सुनीता पी.आर. पी.एस. रहमान	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8316 23.2.05	सुरभी हाउस, पो.आ. गुल्वायुर, अनक्कोट्टा रोड, जिला थरिस्सूर, केरल ।
92958	सुनीथा कुमारी के.के. कृष्ण नायर पी.एन.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोटायम १६६६	6732 22.1.97	कोलाथनयथु हाउस, पो.आ. वडाकुड, जिला एनाकुलम, केरल ।
92959	सुनीथा आर.टी. टी.एन. धनकप्पन नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	7948 30.1.04	रुग्मिनी सदानम, पो.आ. पेट्टाह कानम्पूला, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92960	सुनीथा एस. ई.सुन्दरन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंस, बंगलौर २००४	8218 15.12.04	म.नं. ८७/सी, एमटीएस कालोन, करवर रोड, हुबली ।
92961	सुनीथा के. एस. कनत सिक्क	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १६६७	6878 24.4.98	'सुभावन' पो.आ. आनन्दापुरम, जिला थरिस्सूर, केरल ।
92962	सुरेखा पई बी. रामकृष्णा पई	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६६	8048 30.6.04	मंगलास्सेरी, पो.आ. वेल्तामुन्डा, जिला व्यानडु, केरल ।
92963	सुरेशा कुरियन कुरियन मैथु	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंस, बंगलौर २००४	8162 13.10.04	इल्लक्कल हाउस, पो.आ. अनिकड, जिला कोटायम ।

92955	सुनील मैथु के.क. मैथु	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर १६६७	8145 12.10.04	करोट्टु हाउस, पो.आ. मुट्टुचिरा, जिला कोट्टायम, केरल ।
92956	सुनील के. जौन जौन के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6744 7.2.97	'आनन्दा भवन, पो.आ. इनथु, जिला पठनमथिट्टा, केरल ।
92957	सुनीना पी.आर. पी.एस. रहमान	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8316 23.2.05	सुरभी हाउस, पो.आ. गुल्वायूर, अनक्कोट्टा रोड, जिला थरिसूर, केरल ।
92958	सुनीथा कुमारी के.के. कृष्ण नायर पी.एन.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोट्टायम १६६६	6732 22.1.97	कोलाथनयाथु हाउस, पो.आ. वडावुकोड, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92959	सुनीथा आर.टी. टी.एन. धनकप्पन नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	7948 30.1.04	रुगमिनी सदानम, पो.आ. पेट्टाह कान्नामूला, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92960	सुनीथा एस. ई.सुन्दन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००४	8218 15.12.04	म.नं. ८७/सी, एमटीएस कालोन, करवर रोड, हुबली ।
92961	सुनीथा के. एस. कनत सिवन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६७	6878 24.4.98	'सुभावन' पो.आ. आनन्दापुरम, जिला थरिसूर, केरल ।
92962	सुरेखा पई बी. रामकृष्णा पई	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६६	8048 30.6.04	मंगलाम्पेरी, पो.आ. वेल्लामुन्डा, जिला थानडु, केरल ।
92963	सुरेखा कुरियन कुरियन मैथु	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साइंसिस, बंगलौर २००४	8162 13.10.04	इल्लक्कल हाउस, पो.आ. अनिकुड, जिला कोट्टायम ।

92964	सुरेश कुमार पी.के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६६	7145 22.5.2000	इन्दिवारम, पो.आ. परियारम, जिला कोटायम
92965	सुरेश चन्द्रकुन्नुमल पण्णिसेरी कृष्ण नन्दियार पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7169 5.7.2000	पो.आ. चुन्नली, वाया श्रीकल्याणपुरम, जिला कन्नूर, केरल ।
92966	सुरेश कुमार वी. वेलायुधन पिल्लई वी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००३	7847 14.8.03	श्री प्रिया टी.सी. ४६/५१, वलिथसाला, पो.आ. चलाई, टी.वी.एम.३६, थिरुवनन्थापुरम ।
92967	सुरेश कुमार वी.सी. कुन्हीरमण नबियार सी.वी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६७	6843 16.1.98	'सान्थी' पो.आ. मय्यिल, जिला कन्नूर, केरल ।
92968	सुरेश कुमार के. महाबाला थट एम.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९६५	7734 9.12.02	कूलक्कोडु हाउस, पेरडला, जिला कसारागोडु, केरल ।
92969	सुरेश पी. एन.ए.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	7112 23.12.99	थट्टनते किझक्काथिल, पो.आ. मनगड, जिला कोल्लम, केरल ।
92970	सुरेश वी. विश्वकुमार	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६६	6991 6.3.99	लवन्थ, पो.आ. पल्लनकड, चेरथला, जिला अलापुझा, केरल ।
92971	सूर्य स्थीसन सथीसन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.पू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	7995 3.3.04	सुरेश निवास, पो.आ. मुडक्कल, वाया अवनावनचेरी, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
92972	सुशान्थ सी.के. नानु सी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7570 12.4.02	पुथियोटील हाउस, निकट आर. एस. रोड, वडकारा, जिला कोडिकोडु, केरल ।

92973	सुस्मिता के.वी. के.वी. सुब्रह्मर्षिना	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8056 27.7.04	कलाशिल वलियापुरक्कल, मधुरिमा, ३३/१४२, पो.आ. मरिक्कुन्नु, जिला कोडिकोडु ।
92974	स्वप्ना जोस एम.यू. जोस	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8188 25.10.04	मूलाक्कट्टे हाउस, पो.आ. मुल्लेनकोल्ली, पुलपल्ली, जिला व्यानाडु, केरल ।
92975	स्वप्ना पी. बालन बालन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7652 16.7.02	एक्कलम परमबिल हाउस, पो.आ. पूकयिल, नडुविलानाडी, तिरु, जिला मालपुरम, केरल ।
92976	स्वप्ना पी. नारायणन नारायण ई.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7628 15.7.02	वृन्दावनम, पो.आ. इरविमंगलम, जिला थरिसूर, केरल ।
92977	श्याल कुमार ए.जे. जयकुमार ए.के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वेनई १९९७	6859 28.3.98	अनदलत हाउस, पो.आ. कुन्ममाडु, अलेवे, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92978	श्याम किशन के.वी. लीला कृष्णन वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००४	8057 27.7.04	श्रीसदनम, पो.आ. मीनदाथुर, वाया, थनलुर, जिला मालपुरम, केरल ।
92979	श्याम किशोर राजेन्द्रन एस.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वेनई १९९६	7.43 31.3.2000	पट्टूर पदीपुरा, पो.आ. कक्कड, पिरावोम, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92980	श्याम बी. भार्गवन के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००१	7495 27.12.01	भार्गवा भवन, पो.आ. परियल्ली, जिला कोल्लम, केरल ।
92981	साइमन थनकवन थनकवन डी.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि., कोट्टायम १९९६	6897 2.6.98	थडोपुल्लीयाथारा वीडु, पो.आ. थेवलपुरम, पुथुर, जिला कोल्लम, केरल ।

92982	टी. सनान्द रत्नम टी. राजारत्नम	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २००४	8105 25.9.04	मन्नारिपरम्बा, पोस्ट गोविन्दपुरम, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92983	तेनसन ए. अलेक्जेंडर जे.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६८	6965 26.12.98	'बीजु भवनम', पो.आ. कालथुंगल, जिला कोल्लम, केरल ।
92984	तेसलिन सन्नी सन्नी मैथु	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8292 25.1.05	कट्टमकोट्टील हाउस, गान्दी नगर कालोनी, पो.आ. ईस्ट थोडुपुझा, जिला इडुक्की ।
92985	तेत्ती मेरिन एपेन पी.जे.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	6978 20.2.99	एल्लोक्कावयलिल (एच), पो.आ. कल्लानोडे, वाया कक्कायाम, जिला कोझिकोडु, केरल ।
92986	थाहिना ए. करीम अब्दुल करीम रावुथर	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००१	7497 27.12.01	ग्रीन फ़िल्ड; पो.आ. नेडुमोन, जिला पनमथिट्टा, केरल ।
92987	थाहिरा बी.ए. अबू बकर पूविल	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	6997 6.3.99	पत्नी मोहम्मद बशीर, के.ए., द्वारा के.के. अबू बकर हाजी, करिपमकुलम हाउस, पो.आ. कीडुपुल्लीकारा, जिला थरिसूर ।
92988	थारा लक्ष्मी एस. बालाकृष्ण पिल्लई के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7701 11.11.02	लक्ष्मी विलासम, एल्लारिमंगलम, मवेलिकारा-७, जिला अलापुझा, केरल ।
92989	थसनैन ए.एम. ए.के.एम. मोहंमदीन	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ़ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	7890 28.11.03	म.नं. ६१/१६, तिसी जंक्शन, नोर्थ एनर्कुलम, कोची, जिला एनर्कुलम, केरल ।
92990	थेजसिन्हन आर. राजमणि एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7361 16.03.01	कवलामकोडे फ़िनिक्स, पो.आ. वडावन्नु, जिला पलक्कड़, केरल ।

92991	शामस कोशी जकाब कोशी पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि.केनई १६६७	6758 26.4.97	कलेक्कल बलिस विल्ला, पो.आ. एरुर अलेनचेरी, अंचल, जिला कोल्लम, केरल ।
92992	शुषारा पी.सी. बी.एम.जयचन्द्रन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००५	8289 25.1.05	शरवनम, कोहिनूर, पो.आ.थेनहोपालम, जिला मालपुरम, केरल ।
92993	शुषारा यू. मेनन यू. उन्नीकृष्णा मेनन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००३	7903 5.12.03	अनसवारा,पौदामंगलम, पो.आ. कोट्टककल, जिला मालपुरम, केरल ।
92994	टीविनक्कल यू.एस. कृष्ण उन्नी कृष्णत नायर सी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7934 9.1.04	टीविनक्कल हाउस, पो.आ. कालकोम, कट्टरकारा, जिला कोल्लम, केरल ।
92995	उदयगणेश बी. बी. शंकरनारायणा भट	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंस, बंगलौर २००४	8222 15.12.04	कुडियामूले हाउस, पोस्ट मियापडावु, वाया मालेश्वरा, जिला कसारागोडफ, केरल ।
92996	उमा के. संकर संकरन के.के.	बी.ए.एम.एस. महात्मा गांधी वि.वि.,कोट्टायम १६६६	6723 1.1.97	'माया निवास' पो.आ. थय्यूर, जिला थरिसूर, केरल ।
92997	उमा कार्थिक कार्थिकेयन एन.टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००१	7365 16.3.01	शुलसी, पोन्नोय रोड, कसूर, कोचिन, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
92998	उमा रानी एल.आर. राजगोपालन नायर डी.बी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7225 10.8.2000	टी.सी. १६/६७७, जगथी, पो.आ. थय्यकोड, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
92999	उमा एस. थप्पी बी. श्रीकुमारन थप्पी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००५	8298 25.1.05	अलेनादन् हाउस, पार्क व्यु रोड, इरिजलकुडा, जिला थरिसूर, केरल ।

93000	उषा केमूगोपाल केमूगोपाल टी.एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००२	7704 11.11.02	कृष्णाप्रिया, विद्यानगर, पेरुन्ना, चन्नानावैरी, जिला कोट्टायम, केरल ।
93001	उन्नी जी. गोपालकृष्णन जी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि.,चेन्नई २००१	7454 18.10.01	एस.जी. भवन, चेरावल्ली, कायमकुलम, जिला अलापुझा, केरल ।
93002	उन्नीकृष्णन ए.के. करण ए.बी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट १६६८	6858 28.3.98	अनकराथु हाउस, पो.आ. इलिनजीपारा, जिला थरिसूर, केरल ।
93003	उन्नीकृष्णन के.जी. गोपालकृष्ण पिल्लई जी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट १६६६	7036 17.9.99	मन्थरा हाउस, पो.आ. एडकुलानगरा, कल्याणापल्ली, जिला कोल्लम, केरल ।
93004	उन्नीकृष्णन के.आर. कविराजन के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६८८	6934 9.10.98	केसवा भवनम, कुन्नुपुरम, जिला थिरुवनन्थापुरम केरल ।
93005	उन्नीकृष्णन आर.जी. गोपीनाथन पिल्लई के.एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६८६	7081 10.12.99	पामाविलास, उलुथी, पो.आ. पेरिंगलीपुरम, इनाक्काडु, जिला अलापुझा, केरल ।
93006	उषा कुमारी पी.के. कुहीकिन्नन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २००२	7624 10.7.02	कुन्थ हाउस, पो.आ. करियमबाडी, वाया मीननगडी, जिला व्यानाडु केरल ।
93007	उषा सत्तूजा पी.बी. केमूगोपालन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.,कालिकट २०००	7218 4.8.2000	कार्थिका निकट टेम्पल, अरुक्मिन्नाया, पो.आ. मंजेरी जिला मालप्पुरम, केरल ।
93008	उषा सी. नारायणन बी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २०००	7281 17.11.2000	वन्नाथन वीडु, परप्पा, पो.आ. परप्पा, जिला कसरागोडु, केरल ।

93009	उषाकुमारी के. धनकपन डी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	7032 16.9.99	टी.सी. ४/५४७, एच-लेन, श्री विलास लेन, पो.आ. कौडियर, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
93010	उथारा बाबू आर. बाबू के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	7076 10.12.99	ईश्वरया, करुणा आईसीआई प्लान्ट, परिमानम, पो.आ. नीनडकारा, जिला कोल्लम, केरल ।
93011	वी. असोकन टी. वासुदेवन पोर्टी	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैलथ साईंस, बंगलौर २००४	7967 3.3.04	द्वारा एस. रामचन्द्रन पोर्टी, टी.सी. ३७/१३७६ केआरआर-१, कोथालम रोड ।
93012	वन्दना गोपालकृष्ण गोपालकृष्ण के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7650 16.7.02	शङ्कराशिल हाउस, हाउस नं. ५/५०६ ए, पो.आ. कडक्करापल्ली, वैरथला, जिला अलापुझा ।
93013	वन्दना रानी एम. माधवन पोर्टी वी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६८	6964 26.12.98	'सिवालयम', टी.सी. ६/५१३, पो.आ. वट्टीयूरका जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
93014	वनी श्री ए. महालिंगा भट ए.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	7755 28.12.02	ix- ए, अन्नपूर्णा, मैन रोड, पेरिया, जिला कसरागोडु, केरल ।
93015	वासुदेवन के. वासुदेवन नाबूदरी के.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	6761 26.4.97	किन्नक्कीनियाकथ माना, पो.आ. कुट्टीपला, वाया एडारिकोडे, जिला मानपुरम, केरल ।
93016	वीना जी.एल. गौधमन जी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. २००४	7958 6.2.04	श्रीलक्ष्मी, टी.सी. २७/६८२-१, पो.आ. वनचियूर, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
93017	वीना देनूपौल देनूपौल के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६८	6969 2.1.99	'वीना' १७/७४६, ए-२५, चित्रा नगर, पूजपुरा, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।

93018	वीना एन.एस. नारायण वर्मा धुम्पन आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7661 16.7.02	वेनुस हाउस, पो.आ. पिलथारा, जिला कन्नूर, केरल ।
93019	वीरा चोलन आर. रैगाराजू बी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६६	6757 16.4.97	'युवथा हाउस, पो.आ. इरनहीक्कल, वाया एलाथुर, जिला कोझिकोडु, केरल ।
93020	कैकटा गिरिशा पी. नारायण भट पी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६७	6826 15.11.97	पोट्टीपला हाउस, पो.आ. नेकराजे, जिला कसारागोडु, केरल ।
93021	कैकटेश के.टी. थिरुप्रलेश्वरा भट के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००१	7485 19.11.01	कैकोडी हाउस, पो.आ. मियापवाळु, वाया मंजेश्वरा, जिला कसारागोडु, केरल ।
93022	वेनुगोपाल के. शामा भट के.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	7259 24.10.2000	पो.आ.येथाडका, जिला कसारागोडु, केरल ।
93023	वेनुगोपाल पी. पुल्लोथमन नायर एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६८	6876 24.4.98	पुथिया वीडु, अंघुमाला, पो.आ. चेलिकुडी, वाया नेदुमोन, जिला कोल्लम, केरल ।
93024	विमू मुलीधरन के.जी. मुलीधरन नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7860 10.10.03	३२१, ए.के.जी. नगर, एरुक्काडा, जिला थिरुवनन्थापुरम ।
93025	विष्णु एम.एम. एम.एम.गोविन्दन नांबूदीरी	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००२	8076 27.7.04	अथिरा, पो.आ. पल्लीक्कुन्नु, जिला कन्नूर ।
93026	विद्या जी. के.के. नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००३	7867 13.10.03	सिवा सैलम, पो.आ. सनाथनपुरम, कलक्कोडे, जिला अलापुझा ।

93027	विद्या नारायणन नारायणन के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7462 19.10.01	कस्तूरेशील हाउस, पो.आ. अरिमुपुर, जिला थरिसूर, केरल ।
93028	विद्याधर ए.बी. विश्वनाथन ए.एस.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६८	6872 24.4.98	अदिमथारा हाउस, असोकापुरम, अलुवा, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
93029	विद्येशकुमार पी.वी. विश्वनाथन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००१	7458 18.10.01	कालियथ हाउस, पल्लीकुन्नु, कन्नूर ४, जिला कन्नूर, केरल ।
93030	विजय करोलिन विजयरजन के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २०००	7296 6.12.2000	थोडियल हाउस, पो.आ. तंगास्सेरी, जिला कोल्लम, केरल ।
93031	विजय कृष्णन टी.सी. के.एल. केरला वर्मा राजा	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ़ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००२	8168 13.10.04	कृष्णा मंदिर, नितेश्वर, जिला कसारागोडु ।
93032	विजया लेक्मी के.टी. करुणाकरन के.टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६८	6850 28.3.98	विजया राम (एच.आ.), पो.आ. इरिवल्लूर, वाया वेलन्नूर, जिला कोझिकोडु, केरल ।
93033	विजय कुमार सी.ए. अरविन्दक्षण एम.ए.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मोडि.वि.वि., चेन्नई १६६७	6753 29.3.97	चयराट्टील हाउस, पो.आ. मुरियाड, जिला थरिसूर, केरल ।
93034	विजय कुमार एस. संकरा शिल्पई	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7158 21.6.2000	विजया भवनम, पो.आ. एडक्कुलानगरा, जिला कोल्लम, केरल ।
93035	विजयापाल जे.जे. जैशोपाल जे.	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १६८७	7637 15.7.02	कैफुलेसन एवं फ़ार्माकाउन्सल्स, अरूर, जिला अलापुझा, केरल ।

93036	विनिमय ससिधर पी. ससिधरन	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	8052 30.6.04	पडिनेरैक्करा पो.आ. वैकोम, जिला कोट्टयम
93037	विनाथा एम.बी. एम. बालाकृष्णन नायर	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	8012 15.4.04	पोन्मयुस्थित हाउस, एलूर ईस्ट, पो.आ. उदयोगमंडल, अलुवा, जिला एर्नाकुलम ।
93038	विनीश बी. केलायुधन नायियार एनसीआर	बी.ए.एम.एस. एनटीआर यूनि.आफ हैल्थ साइंस विजयवाडा २००२	7783 1.4.03	कृष्णा निवास, पो.आ. काविल, वाया नडुवनुर, जिला कोझिकोड, केरल ।
93039	विनीश गोपाल गोपाला पिल्लई पी.के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९६	7029 9.9.99	अश्विनी, टी.सी. -२१/१८६२, निकट चुट्टुगला, एलनकोम, करमाना, थिरुवनन्थापुरम ।
93040	विनीश पी.जे. जर्नाशन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7187 5.7.2000	पोरुथियल हाउस, पो.आ. चेरपलचेरी, जिला पलक्कड़, केरल ।
93041	विनीश आर. रामकृष्ण पिल्लई के.जी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २०००	7195 5.7.2000	v/414, परन्वम, आलमपल्लम रोड, पो.आ. चन्द्रनगर, जिला पलक्कड़, केरल ।
93042	विनोद कुमार एम.बी. बालाकृष्णन नायियार के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९९८	6849 28.3.98	कविथा, पो.आ. मनिपट, जिला कसारागोडु, केरल ।
93043	विनोद कुमार टी. केलायुधन टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7681 26.7.02	कृष्णा कृपा, वदोथ, पोस्ट मणियनकोडे, वाया कस्सेट्टा, जिला व्यानाडु, केरल ।
93044	विनोद कुमार बी.के. डा. करुणाकरन नायर जी.	बी.ए.एम.एस. डा. एम.जी.आर. मेडि.वि.वि., चेन्नई १९९७	6813 20.9.97	कल्लारथला, वडक्के बंगला, इल्लुवियल पो.आ. करकोनम, थिरुवनन्थापुरम ।

93045	विनोद आर. पी.वी. रवीन्द्रन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8297 25.1.05	कोट्टक्कल आर्य वैद्यसाला ब्रांच, कल्लाई रोड, जिला कोझिकोडु, केरल ।
93046	विनोद डी.एस. दामोदरन नगर के.टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	7102 23.12.99	कृष्णा कृपा, बर्क्स रोड, वेस्ट हिल पो.आ., निकट फ्रीमासन्स हाल, कोझिकोडु ।
93047	विनोद के. कृष्णन नाम्पूथिरी के.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मंडे वि.वि., चेन्नई १९६६	7049 18.10.99	कल्लूर इल्लम, पो.आ. थलावाडी, वाया थिरुक्कला, जिला अलापुझा, केरल ।
93048	विनोद एन. नाथू पी.बी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००१	7378 26.5.01	वैथन्या, पो.आ. रानी, जिला पठनमथिट्टा ।
93049	विनोद एन.एस. सुब्रामन्यम एन.आर.	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पू वि.वि., शंकरघट्ट २०००	7425 16.7.01	ननगोलिल हाउस, पो.आ. पुल्लुवाडी, कुन्नुथुनाडु, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
93050	विनोद विजयेश्वर विजयेश्वर बी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६८	6935 9.10.98	'थोपील' अक्कानट्टुक्करा, पो.आ. कल्लुमाला, मवेलिकक्करा, जिला अलापुझा ।
93051	विनु विजयं पी. विजयन के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7582 7.6.02	टी.सी. ४६/२१४ (1), जानकीमंदिरम, परुथीकुडी, पो.आ. पूनथुरा, जिला
93052	विनु विजयनाथ बाबू विजयनदन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००२	7584 10.6.02	वेडा, टी.सी. २५/२६२६, कुन्नुमपुरम, टीवीएम-१, जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
93053	विष्णु जी. सी. जेम्स	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्य साईसिस, बंगलौर २००३	7986 9.3.04	रागम, पो.आ. एरामल्लूर, चेरथला, जिला अलापुझा, केरल ।

93054	विष्णु नाम्बूथिरी एस. सुब्रामनियन नाम्बूथिरी बी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई २०००	7266 8.11.2000	कोच्चुराक्कल, थलिवल्ली इल्लम, मथिभागोम, पो.आ. तिरुवला, पठनमथिट्टा ।
93055	विष्णु नाम्बूथिरी के.एस. संकरन नाम्बूथिरी के.के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६८	6952 22.12.98	कुडलमाना श्रीगंगा, पो.आ. सनथापुरम, जिला अलापुझा, केरल ।
93056	विष्णु प्रसाद के. वासुदेवा शेट के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर २०००	7298 13.12.2000	कोडेनकिला हाउस, पो.आ. कसारागोडु, केरल ।
93057	विष्णु प्रसाद ए.बी. शेट	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	7965 1.3.04	गिरी निलाया, मुल्लुगिरी, १४/४६५, मंजेश्वर, जिला कसारागोडु, केरल ।
93058	विश्वनाथ के. के. नारायण	बी.ए.एम.एस. रा.ग.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००३	7889 28.11.03	वलिथावायल हाउस, पो.आ. पूथानगानम, पुल्लुर, वाया आन्न्वाश्रम, जिला कसारागोडु, केरल ।
93059	विश्वनाथन यू. उमादेवन बी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६८	6917 18.8.98	'उष्णपुरम्बिल', कस्काकम बिच पो.आ., जिला थिरुवनन्थापुरम, केरल ।
93060	विवेक पी. के. विजयन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००५	8287 25.1.05	विक्टोरी, पो.आ. मन्नाथ पोथिल, पोक्कोट्टुमपादम जिला मालपुरम, केरल ।
93061	विवेक संकर कुमार एम.एस.	बी.ए.एम.एस. कुवेम्पू वि.वि., शंकराष्ट्टा २००१	7376 7.5.01	संकरालायम, पो.आ. वेस्ट एरूर, त्रिपुनिथुरा, जिला एर्नकुलम, केरल ।
93062	वेल्लम ई.के. ई.के. नारा	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. २००४	8168 25.10.04	वेल्लगा मन्दिर, पो.आ. पारावनहुक्कम, वाया कलानड, जिला कसारागोडु, केरल ।

93063	वृन्दा कुमारी एम. नन्दकुमार एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००२	7743 27.12.02	कर्निकराम, कोहिनूर, पो.आ. धेनहीपालम, जिला मालपुरम, केरल ।
93064	वृन्दा माधवन के. माधवन नायर पी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर २००१	7501 9.1.02	श्रीलक्ष्मी, नेलक्ला रोड, अननगूर, जिला कन्नारागोडु, केरल ।
93065	वृन्दा रोय आर.वी. सुरेश मोहन राय	बी.ए.एम.एस. रा.गा.यू.आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर २००४	8196 6.11.04	अमृथम, वल्लूर रोड, पो.आ. पूर्णथुरा, कोची-१७, जिला एर्नाकुलम, केरल ।
93066	यामिनी बालाकृष्णन यू.बी. बालाकृष्णा पिल्लई पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट २००३	7806 2.6.03	पोन्नुशास, टी.सी. २३/१४७ (1) वलिक्कासाला, पो.आ. चलाई, जिला थिरुवनन्थापुरम
93067	यमुना ए. अद्युथन नायर पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई २०००	7256 24.10.2000	पुथिस्सेरी हाउस, पो.आ. पुथेनपल्ली, मम्मीथूर, मुल्लवयूर, जिला थरिसूर ।

प्रेमराज शर्मा
रजिस्ट्रार
भारतीय चिकित्सा केन्द्र परिषद
नई दिल्ली

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंक्ति

केरल

भाग II यूनाती

क्र.संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकष एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं पंजीयन तिथि	पता
8744	इफतिखारुद्दीन खान अब्दुल रहीम खान	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ १९८१	6943 23.11.98	कालिकट यूनाती अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, कल्लात, कोझिकोड-२, जिला कोझिकोड, केरल प्रेमराज शर्मा रजिस्ट्रार भारतीय चिकित्सा केन्द्र परिषद नई दिल्ली

The 26th September 2006

DBOD No. PSBD. 2915/16.01.103/2006-07.—In pursuance of Clause (b) of sub section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs exclusion with effect from 2nd September 2006 from the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :

“The Ganesh Bank of Kurundwad Ltd.”

ANAND SINHA
Executive Director

NATIONAL HOUSING BANK

(WHOLLY OWNED BY THE RESERVE BANK
OF INDIA)

HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB)
DIRECTIONS, 2001

New Delhi, the 29th September 2006

No. NHB. HFC. DIR. 17/CMD/2006—The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall with immediate effect, be further amended in the following manner, namely :—

In paragraph 3 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001, the following shall be substituted, viz.

“Restriction on acceptance of deposits

3. (1) No housing finance company shall accept or renew public deposits unless the housing finance company has obtained minimum investment grade rating for its fixed deposits from any one of the approved rating agencies, at least once a year and a copy of the rating is sent to the National Housing Bank and it is complying with all the prudential norms, provided that :

- (i) a housing finance company having obtained credit rating for its fixed deposits not below the minimum investment grade rating as above and complying with all the prudential norms, may accept public deposits not exceeding five times of its NOF.
- (ii) a housing finance company which does not have the requisite rating for its fixed deposits shall obtain

the same within a period of six months time from the date of notification or such extended period as may be permitted by the National Housing Bank, to obtain the prescribed rating for its fixed deposits.

Approved Credit Rating Agencies

The names of approved credit rating agencies for the time being are as follows :—

- (a) The Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL)
- (b) ICRA Ltd.
- (c) Credit Analysis & Research Ltd. (CARE)
- (d) FITCH Ratings India Private Ltd.

(2) No housing finance company shall have deposits inclusive of public deposits, the aggregate amount of which together with the amounts, if any, held by it which are referred in clauses (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) as also loans or other assistance from the National Housing Bank, is in excess of sixteen times of its NOF.

(3) Where a housing finance company holds as on the date of commencement of these directions public deposits in excess of the limits specified in (1) above and as applicable to it or deposits inclusive of the items mentioned in (2) above in excess of the limits specified in (2) above, it shall :—

- (i) not accept fresh deposits or open new deposit account; or
- (ii) not renew the existing deposit or where the deposits are received under any recurring scheme, receive instalments under such scheme after the expiry of the scheme period;
- (iii) reduce such excess by repayment on maturity.

(4) In the event of down gradation of the credit rating to any level below investment grade, the housing finance company shall

- (i) report the position within fifteen working days to the National Housing Bank;
- (ii) with immediate effect stop accepting fresh public deposit and
- (iii) reduce such excess deposit by repayment on maturity.”

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS

CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, the 27th September 2006

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 [as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended August 2006 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400 008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of	Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/ or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6	

Byculla, Mumbai Circle9% Relief Bonds 1999 (Demat)

GPH BCN 021558	Rs. 1,00,000/-	Ebrahim Busheri & Pashah Busheri (Either or Survivor)	19.4.2000	Ebrahim Busheri & Pashah Busheri	06.25.93 10.05.2005
-------------------	----------------	---	-----------	-------------------------------------	------------------------

List "B"

No. of	Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/ or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6	

Byculla, Mumbai Circle9% Relief Bonds 1999 (Demat)

GPH BCN 020061	Rs. 3,00,000/-	Raja G. Kulkarni Kusum R. Kulkarni	4.5.2000	Raja G. Kulkarni Kusum R. Kulkarni	06.25.94 19.8.2005
-------------------	----------------	---------------------------------------	----------	---------------------------------------	-----------------------

J. M. BAVA
Asth. Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

ICAI BHAWAN

New Delhi-110002, the 15 September 2006

(Chartered Accountants)

3NCA(8)/2/2004-2005: In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10 (i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S.No.	MRN	Name & Address	Cancel Date	S.No.	MRN	Name & Address	Cancel Date
1	003962	Mr. TALWAR RAJ KUMAR 9 NIZAMUDDIN EAST NEW DELHI-110013	ACA 01/12/2004	9	016688	Mr. TAYAL VISHNU BHAGWAN 1141 NEW HOUSING BOARD COLONY PANIPAT	FCA 01/06/2004
2	006461	Mr. JAIN MOTI LAL M JAIN & CO 864 SECTOR 14 (HARYANA) GURGAON-122001	FCA 04/09/2004	10	017026	Mr. GUPTA LALIT LALIT GUPTA & CO A-372 SARITA VIHAR NEW DELHI-110044	FCA 13/07/2004
3	008904	Mr. VIJ RAM PARKASH R P. VIJ & CO., 2/94, ROOP NAGAR DELHI-110007	FCA 01/04/2004	11	017651	Mr. AJMERA SATYANARAYAN 1 MAHESHWARI APPARTMENTS SECTOR 14 PLOT 6 ROHINI DELHI-110085	FCA 01/04/2004
4	009548	Mr. JAIN NARENDRA KUMAR 71 KAMDHENU APARTMENTS PLOT NO 51 SECTOR-IX ROHINI DELHI-110085	FCA 01/04/2004	12	017958	Mr. AGERWAL ASHOK KUMAR F3/16 VASANT VIHAR, DELHI-110057	FCA 01/04/2004
5	011112	Mr. NAYYAR SHASHI BHUSHAN C-73 LAJPAT NAGAR-II NEW DELHI-110024	FCA 01/04/2004	13	032757	Mr. SUBRAMANIAN MADHAVAN PRICE WATER HOUSE SUCHETA BHAWAN V D MARG NEW DELHI-110002	FCA 05/06/2003
6	013460	Mr. BAHULEYAN M R A-118 MANGAL APARTMENTS PLOT NO 16 VASUNDHARA ENCLAVE DELHI-110096	FCA 30/04/2004	14	036092	Mr. GULATI DEVENDRA 8/2 OLD RAJINDER NAGAR NEW DELHI-110060	FCA 01/04/2004
7	015683	Mr. MURGAJ SATISH KUMAR 67 MIG FLATS PRASAD NAGAR NEW DELHI-110005	FCA 01/04/2004	15	037232	Mr. SRINIVASAN THYAGARAJAN T TASKY ASSOCIATES G-7 HOTEL ASHOK PLAZA 12A/14 W E A KAROL BAGH NEW DELHI-110005	FCA 20/11/2004
8	015947	MR. SAXENA SATISH KUMAR UP RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD 8TH FLOOR SHAKTI BHAWAN EXT ASHOK MARG LUCKNOW-226001	ACA 04/08/2004	16	050509	Mr. SONI LAXMI PRAKASH AN/21-C SHALIMAR BAGH DELHI-110052	FCA 09/07/2004

- | | | | | | | | |
|----|--------|---|----------------|----|--------|---|----------------|
| 17 | 052045 | Mr. PILLAI SASHI DHAR
59/B PUSHPANJALI
VIKAS MARG EXTN2
DELHI-110092 | ACA 01/07/2004 | 26 | 073619 | Mr. JAIN SUBHASH CHAND
C/O MR. GARG
PLOT NO. 1026,
SECTOR-4
GURGAON | ACA 15/02/2005 |
| 18 | 055634 | Mr. TIBREWAL
SUSHIL KUMAR
C/O R K KHANNA & CO
R K KHANNA TENNIS STADIUM
TENNIS COMPLEX AFRICA AVENUE
NEW DELHI-110029 | FCA 29/03/2004 | 27 | 073826 | Mr. GUPTA SUNIL KUMAR
C/O KAUL MANGLA & CO.
55, CHAWLA COMPLEX
STREET NO.1, A-215,
SHAKAR PUR VIKAS MARG
DELHI-110092 | FCA 15/12/2004 |
| 19 | 056666 | Mr. SHARMA
PRAVEEN KUMAR
K-117 FIRST FLOOR
KIRTI NAGAR
NEW DELHI-110015 | FCA 01/01/2005 | 28 | 075287 | Mr. AGARWAL
KAILASH CHANDRA
WZ- 820 GALI NO 18-C
SADH NAGAR-II
PALAM COLONY
NEW DELHI-110045 | FCA 01/01/2005 |
| 20 | 057282 | Ms. AGARWALLA RITU
C/O SUMIT AGARWALLA
AMARPALI APARTMENT FLAT 188
56 INDRA PRASTHA EXTENSION
PATPARGANJ
DELHI-110092 | FCA 01/01/2005 | 29 | 076993 | Mr. GUPTA RAJAN DAS
FLAT NO 147 SHIVANI APARTMENTS
63 I.P EXTENSION
PATPARGANJ
DELHI-110092 | FCA 23/02/2005 |
| 21 | 062074 | Mr. AGRAWAL BINOD KUMAR
J-3/260 D D A FLATS
KALKAJI 2ND FLOOR
NEW DELHI-110019 | ACA 05/11/2003 | 30 | 077202 | Mr. SARIN AMIT
F-103, GREEN VALLEY APARTMENTS
SECTOR-22, PLOT NO. 18
DWARKA
NEW DELHI-110045 | FCA 06/09/2004 |
| 22 | 071365 | Mr. GUPTA CHHAGAN LAL
B-1/22 RAJASTHALI APARTMENTS
PITAMPURA
DELHI-110 034 | FCA 01/04/2004 | 31 | 077709 | Mr. MITTAL SAURABH
MILKFOOD LIMITED
5TH FLOOR
BHANDARI HOUSE
NEW DELHI. | FCA 15/03/2004 |
| 23 | 071595 | Mr. GARG PRADEEP
DEPUTY GENRAL MANAGER
(CORPORATE FINANCE)
CORPORATE FINANCE DEPTT.
MARUTI UDYOG LTD.
PALAM GURGAON ROAD
GURGAON-122015 | ACA 02/08/2004 | 32 | 079675 | Ms. MATHUR MEGHNA
EC -264 MAYA ENCLAVE
G-8 AREA, NEW DELHI-110064 | ACA 01/04/2004 |
| 24 | 071748 | Mr. VERMA ANUP
1485 SECTOR 17
GURGAON-122001 | ACA 31/03/2004 | 33 | 079832 | Mr. POTDAR ANURAG
5190 LAHORI GATE
DELHI-110006 | ACA 01/01/2005 |
| 25 | 072300 | Mr. GARG SUBODH KUMAR
C/O DSCL SUGAR AJBAPUR
VILL. AJBAPUR, P O MULLAPUR
DISTT. LAKHIMPUR KHERI
LAKHIMPUR KHERI-261505 | FCA 15/09/2004 | 34 | 080630 | Mr. KHARE RAJIVE
C-511 CHITTARANJAN PARK
NEW DELHI-110019 | FCA 01/04/2004 |
| | | | | 35 | 080885 | Mr. GOYAL BALDEV SAHAI
DIRECTOR (FINANCE)
BHARTIYA NABHIKIYA VIDYUT NIGAM LTD
(BHAVINI)
(A GOVT OF INDIA ENTERPRISE)
KANCHIPURAM DISTRICT, KANCHIPURAM
KALPAKKAM-603102 | FCA 04/09/2004 |

36	081660 Mr. PARDEEP KUMAR H NO 122, SECTOR-4 PANCHKULA-134112	FCA 31/03/2005	47	084507 Mr SHARMA VIVEK KRISHNA C-67 NIZAMUDDIN EAST NEW DELHI-110013	FCA 27/12/2004
37	081715 Mr. NARESH KUMAR G-18, PHASE-1 ASHOK VIHAR DELHI-110052	FCA 31/03/2004	48	084510 Mr. JAIN BIJENDAR PAUL 81, POCKET A-3 SECTOR 3 ROHINI DELHI-110085	FCA 01/03/2005
38	081908 Mr. NAWAL KISHORE 43, BANK ENCLAVE LAXMI NAGAR DELHI-110092	FCA 09/10/2004	49	084620 Mr SHARMA PRAVEEN C-123 ASHOK VIHAR PHASE-I DELHI-110052	FCA 01/04/2004
39	082025 Mr. ANAND RAJINDER KUMAR F-147, SARITA VIHAR NEW DELHI-110044	FCA 31/03/2004	50	084987 Mr. BHARGAVA DEVENDRA D 26 NETAJI SUBHASH MARG DARYAGANJ NEW DELHI-110002	FCA 23/02/2005
40	083134 Mr. OM PRAKASH SARASWAT 1568 SECTOR 9 FARIDABAD-121006	FCA 27/01/2005	51	085193 Mr. JONEJA PRAVEEN KAMAL 3/1, PUNJABI BAGH EXTN. NEW DELHI-110026	FCA 30/08/2004
41	083576 Mr. MANCHANDA SAMEER A-89 NIZAMUDDIN EAST NEW DELHI-110013	FCA 01/12/2004	52	085374 Mr. GUPTA SANJEEV KUMAR FINANCE MANAGER SHAKUN TRADING CO LLC P O BOX 26957 DUBAI UAE	FCA 30/09/2004
42	083866 Mr. WADHAWAN GURDARSHAN M-243 GURU HARKRISHAN NAGAR PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110087	ACA 07/10/2004	53	085604 Mr. RAJENDER KUMAR M E A1/15, INDERPURI NEW DELHI-110012	FCA 05/05/2004
43	083883 Mr. DAYAL VIVEK OXFORD UNIVERSITY PRESS INDIA, Y M C A LIBRARY BUILDING 1, JAISINGH ROAD NEW DELHI-110001	ACA 31/08/2004	54	085833 Mr. SHIV KUMAR SHIV MAYANK & ASSOCIATES 538A/11 CHINT PURNI COLONY (NEAR SHARMA HOSPITAL) SECTOR 14 SONEPAT-131001	FCA 15/11/2004
44	084064 Mr. MANAKTALA VINEET C/O MRS RUBY ARORA E-305 NARWANA APARTMENTS I P EXTN-II PATPARGANJ DELHI-110092	ACA 24/12/2004	55	085834 Mr. SARASWATULA SUDHAKAR 359-D POCKET-II MAYUR VIHAR PHASE-I DELHI-110091	FCA 16/02/2005
45	084490 Mr. CHOUDHARY NARENDRA SINGH C-7/105 YAMUNA VIHAR DELHI-110053	FCA 31/03/2004	56	085888 Mr. SAIGAL RAJ KUMAR 168 PHASE-II URBAN ESTATE DUGRI ROAD LUDHIANA	FCA 23/02/2004
46	084492 Mr. MATHUR BRIJESH KUMAR 501 ELEPHANTA HEIGHTS PLOT NO 41 SECTOR 10 DWARKA NEW DELHI-110045	FCA 05/08/2004	57	085966 Ms. WADHWANI MANJU 4623, OSAGE DR BAYTOWN TX 77521 USA	FCA 23/06/2004

58	086009 Mr. PAHUJA KAMAL KUMAR AD/80C SHALIMAR BAGH DELHI-110052	FCA 28/12/2004	70	088111 Mr. MAKHIJA ASHISH KUMAR 707 SUNEJA TOWER II 12 DISTRICT CENTRE JANAK PURI NEW DELHI-110058	FCA 12/01/2005
59	086829 Mr. MADHRA PANKAJ RAI 71/127 PREM NAGAR JANAK PURI NEW DELHI-110058	FCA 01/08/2004	71	088220 Mr. CHAWLA ARUN 20/22 PUNJABI BAGH NEW DELHI-110026	FCA 31/03/2004
60	086917 Mr. SHIVA KUMAR V 330-D POCKET-II MAYUR VIHAR PHASE-I DELHI-110091	FCA 19/01/2005	72	088369 Mr. AGRAWAL MUKESH CHANDRA A - 6, TAKSHILA APARTMENTS 57, PATPARGANJ DELHI-110092	FCA 30/09/2004
61	037049 Mr. JAIN SANJAY C-603, MAYUR APARTMENTS SECTOR-9 ROHINI DELHI-110085	FCA 15/10/2004	73	088485 Ms. RASTOGI VINITA B-466 NEHRU GROUND NIT FARIDABAD-0	FCA 01/08/2004
62	087206 Mr. SANJEEV VIJAY G-111 NEW SARASWATI SOCIETY PLOT NO 26/1 SECTOR 9 ROHINI DELHI-110085	FCA 23/03/2004	74	088522 Mr. NANDA VIKRAM V-58C RAJOURI GARDEN NEW DELHI-110027	ACA 05/05/2004
63	087283 Mr. JAIN ATUL 4732/21 SECOND FLOOR DAYANAND MARG DARYA GANJ NEW DELHI-110002	FCA 01/04/2004	75	088630 Mr. KHURANA RAJNESH 45 NEW PRAGATISHEEL APARTMENTS VASUNDHRA ENCLAVE DELHI-110096	FCA 01/04/2004
64	087757 Mr. KAPOOR RAJEEV 43/71 PUNJABI BAGH NEW DELHI-110026	FCA 01/04/2004	76	088771 Mr. JAIN SUNIL KUMAR SUNIL RENU & ASSOCIATES 43 KIRAN VIHAR KARKARDOOMA DELHI-110092	FCA 16/06/2004
65	087803 Mr. JAIN ATUL C4E/24, D.D.A. SHOPPING COMPLEX JANAK PURI NEW DELHI-110058	FCA 30/09/2004	77	088787 Mr. RASTOGI RAKESH KUMAR C-1-A/111-C JANAKPURI NEW DELHI-110058	FCA 25/08/2004
66	087855 Mr. CHATURVEDI KAILASH NATH H NO 1764, SECTOR 16 FARIDABAD-121002	FCA 27/09/2004	78	089009 Mr. SHARMA CHANDRA MOHAN A-10 ANUPAM APTS B-B VASUNDHRA ENCLAVE DELHI-110096	FCA 23/03/2004
67	087901 Mr. MEHRA SANJEEV SANJEEV MEHRA & ASSOCIATES HOUSE NO.226 SECTOR 15-A FARIDABAD-121007	FCA 02/11/2004	79	089114 Mr. AGGARWAL SANJIV SANJIV SUMAN & ASSOCIATES 1906 SECTOR 16 FARIDABAD-121002	FCA 31/03/2004
68	088026 Mr. MENDIRATTA JAGMEET SINGH D-2/93 JANAKPURI NEW DELHI-110058	FCA 01/04/2004	80	089193 Mr. SADHWANI DEEPAK KUMAR A2/2 MAYUR APARTMENT SECTOR 9, ROHINI DELHI-110085	FCA 20/03/2004
69	088092 Mr. ARORA ROHIN KUMAR 118 SUKHDEV VIHAR NEW DELHI-110025	FCA 01/06/2004			

81	089347 Mr. JERATH MANISH EASY BILL LTD 51, 3RD FLOOR OKHLA IND ESTATE 3 NEW DELHI-110020	FCA 06/02/2005	92	090533 Ms. SHARMA URMILA C/O VIKAS SINGH F-16B SAKET NEW DELHI	FCA 06/10/2004
82	089584 Mr. AGARWAL RAJEEV 21 GRETMAN CRES THORNHILL ON L3T 5L9 THORNHILL-0 CANADA	FCA 19/07/2004	93	090621 Mr. MITTAL JAI KUMAR A-15, IIIRD FLOOR FLAT NO. 3A, PRIYADARSHNI VIHAR DELHI-110092	FCA 10/03/2005
83	089726 Mr. GOYAT SATYA PARKASH FLAT NO D- 01, ISPATIKA APARTMENTS PLOT NO 29 SECTOR -4 DWARKA NEW DELHI-110045	FCA 30/11/2004	94	090629 Mr. JAIN RAJNEESH A-27 GUJRANWALA TOWN PART-I DELHI-110033	FCA 23/12/2004
84	089740 Mr. MAHAJAN SANDEEP C4E/24,D.D.A.SHOPPING COMPLEX JANAK PURI NEW DELHI-110058	FCA 30/09/2004	95	090773 Mr. NAVEEN ARORA PO BOX NO. - 18048 DUBAI-0 U A E	FCA 15/09/2004
85	089821 Mr. KAPOOR AJAY 112, BANK ENCLAVE LAXMI NAGAR DELHI-110092	FCA 01/04/2004	96	090857 Mr. CHAWLA VIRENDER KUMAR 30 SECTOR -15 FARIDABAD-121007	FCA 27/08/2004
86	089959 Mr. GUPTA DINESH KUMAR DINESH DEEPTI & CO 292 SUJAN RAI STREET DELHI GATE NEW DELHI-110002	FCA 01/03/2004	97	090953 Mr. SWATANTER KUMAR P.O. BOX 41761 JIRORE ROAD INDUSTRIAL AREA NAIROBI-00100 KENYA	ACA 12/01/2005
87	090070 Mr. KAPOOR KAMAL A-3/54 SECTOR 5 ROHINI DELHI-110085	FCA 12/10/2004	98	090996 Mr. AVANESH SHARMA C/O SHRI A.K. SHARMA B-3/2C, GASTA HOUSING COMPLEX PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110 063	ACA 26/04/2004
88	090172 Mr. WADHAWAN RAJAN D-12, LAJPAT NAGAR-III NEW DELHI-110024	FCA 23/12/2004	99	090999 Mr. GARG NEERAJ 73 ANAND VIHAR PITAMPURA DELHI-110034	FCA 31/03/2004
89	090213 Mr. JAIN TARUN KUMAR SWASTIK SADAN OPP S P OFFICE SOHNA ROAD GURGAON-122001	FCA 17/03/2004	100	091161 Mr. BAHL RAJNISH A-5/B-177 PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110063	FCA 30/09/2004
90	090252 Mr. MUNJAL NAVIN A 38 DERAVAL NAGAR DELHI-110009	ACA 05/10/2004	101	091263 Mr. VIKRAM KOTHI NO 101 PHASE-IX MOHALI-160062	FCA 10/09/2004
91	090345 Mr. RAMAKANT AC-1/181-B SHALIMAR BAGH DELHI-110088	FCA 05/05/2004	102	091448 Mr. GHOSH SOUMYO BLOCK D-1, H NO. 4, GROUND FLOOR UNITECH SOUTH CITY -II, GURGAON-122001	ACA 24/06/2004

103	091727 Mr. MALIK SUSHIL KUMAR U-10/20, 21 IST FLOOR DLF PHASE-III GURGAON-122002	FCA 30/09/2004	114	092572 Mr. SETHI RAJIV C-195 VIVEK VIHAR DELHI-110095	FCA 31/03/2004
104	091772 Mr. BHATIA MILIND KUMAR 67-B, SINGLE STOREY RAMESH NAGAR NEW DELHI-110015	ACA 15/04/2004	115	092577 Mr. MAKHIJA MANISH B-102 SHIVALIK NEAR MALVIYA NAGAR NEW DELHI-110017	FCA 15/03/2004
105	091804 Mr. BANSAL RAJAT B-18, TAGORE ROAD ADARSH NAGAR DELHI-110033	ACA 24/03/2005	116	092629 Mr. BEG IRFAN 1437 GONDNI STREET KALAN MAHAL DARYA GANJ NEW DELHI-110002	FCA 16/09/2004
106	091975 Mr. PAHUJA DINESH 15/9 NEW COLONY MORE GURGAON-122001	FCA 01/04/2004	117	092663 Mr. RAJNISH KUMAR RAJNISH K JAIN & CO GARHI GATE OPPOSITE TAGORE PARK HOSHIARPUR-146001	FCA 18/10/2004
107	092041 Mr. PRAVEER H NO 228, SECTOR-22 HUDA GURGAON-122002	ACA 13/05/2004	118	092675 Ms. JAIN POORNIMA 3072/6M, STREET NO-10, RANJEET NAGAR NEW DELHI-110008	FCA 01/01/2005
108	092202 Mr. JAIN ADESH F-1/U-134 VISHAKHA ENCLAVE PITAMPURA DELHI-110034	FCA 08/02/2005	119	092763 Mr. DUA RAJESH 13/71 GEETA COLONY DELHI-110031	ACA 30/12/2004
109	092232 Ms. KAMO RANJANA 443 SECTOR 21 URBAN ESTATE HUDA GURGAON-122001	FCA 31/03/2004	120	092772 Mr. SHARMA DINESH C/O PARKASH & CO TIMBER MERCHANTS DHANGU ROAD PATHANKOT-145001	FCA 01/04/2004
110	092280 Mr. ANAND GOPAL KRISHAN 3523/16 BALAJI MARKET GAZI HAKIM BAQA CHAWRI BAZAR DELHI-110006	FCA 01/04/2004	121	092793 Mr. RAJESH KUMAR SWAMI 2 GANDHI SADAN MANDIR MARG, NEW DELHI-110001	ACA 31/03/2004
111	092438 Mr. CHANDI SUDHIR A-1/274 PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110063	FCA 20/09/2004	122	092858 Ms. KHERA BABITA C-508, PRABHU APARTMENTS. PLOT NO. 11, SECTOR-23 DWARKA, NEW DELHI-110045	FCA 18/05/2004
112	092528 Ms. UPPAL ABHILASHA BM-75(WEST) SHALIMAR BAGH DELHI-110052	ACA 23/03/2004	123	092892 Mr. BEDI PANKAJ A-73 STREET NO.6 JAGAT PURI KRISHAN NAGAR DELHI-110 051	ACA 01/04/04
113	092544 Mr. TAYAL NAVNEET BHUSHAN 75-B/DG II, DDA SFS FLATS VIKAS PURI NEW DELHI-110018	FCA 01/10/2004	124	092968 Mr. YADAV ANURAG HOUSE NO 315 SECTOR 11 PANCHKULA-134109	FCA 31/01/2005
			125	092982 Mr. AGRAWAL ASHISH FLAT NO 71, VASANT APPARTMENTS MAYUR VIHAR, PHASE-1 EXTN. DELHI-110091	FCA 05/09/2004

126	093016 Mr. CHOPRA SMEER FLAT NO 908 BLOCK -14, HERITAGE CITY GURGAON-121002	FCA 23/08/2004	136	093895 Mr. GUPTA ANMOL 37, BROTHERS CGHS 16, I P EXTENSION DELHI-110092	FCA 03/02/2005
127	093179 Mr. DUGGAL VIKRAM 29, MODEL TOWN, STREET NO.-2, AMRITSAR-143001	FCA 15/06/2004	137	093913 Mr. KALRA AMIT A-101 ROSEWOOD APARTMENTS MAYUR VIHAR PHASE-I EXTENSION DELHI-110091	ACA 26/03/2004
128	093229 Mr. SACHDEVA ANIL 158 A POCKET-I PHASE-I MAYUR VIHAR DELHI-110091	FCA 19/03/2005	138	093932 Mr. GUPTA ASHISH RU-97 MIG FLATS PITAM PURA DELHI-110034	ACA 01/09/2004
129	093338 Mr. JOSHI YOGESH FINANCIAL CONTROLLER TAJ OENIS ISLAND PO BOX NO 404 MAHE VICTORIA-0 SYCHELLES	ACA 21/03/2005	139	093982 Mr. DHAWAN UDAI C-398 DEFENCE COLONY NEW DELHI-110024	ACA 31/03/2004
130	093342 Ms. RASTOGI RITU WZ-1408 NAGAL RAYA NEW DELHI-110046	ACA 31/08/2004	140	094120 Mr. MAHESHWARI SARVESH 'MOTI KUNJ' D-6/9A, RANA PRATAP BAGH, DELHI-110007	FCA 01/04/2004
131	093491 Mr. UPRETY MANISH 70B, DDA FLATS, KATWARIA SARAI NEW DELHI-110016	FCA 08/10/2002	141	094131 Mr. BANSAL NIPUN 356 OLD HOUSING BOARD COLDNY KARNAL-132001	FCA 25/03/2004
132	093697 Ms. BURMAN PARUL C/O GUPTA REHANI & ASSOCIATES 18 TODARMAL ROAD BENGALI MARKET NEW DELHI-110001	FCA 01/04/2004	142	094168 Mr. DHANDHARIA ANAND C-8/8027 VASANT KUNJ OPP POLICE STATION NEW DELHI-110070	FCA 31/03/2004
133	093835 Mr. KAKAR PUNIESH HOUSE NO 288 SECTOR-23 GURGAON-0	FCA 30/03/2004	143	094194 Mr. RAKESH KUMAR 676, 2ND FLOOR DOUBLE STOREY NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI-110060	ACA 30/03/2004
134	093869 Mr. GUPTA RAJESH FLAT NO B-1/6 SHIVAJI APARTMENT PRASHANT VIHAR SECTOR-14 ROHINI DELHI-110085	FCA 12/09/2004	144	094242 Mr. JAIN MANISH KUMAR D-51 GHARONDA SRESHTHA VIHAR DELHI-110092	ACA 04/03/2005
135	093884 Ms. JAGGIRACHANA 1724 OUTRAM LINES KINGSWAY CAMP DELHI-110009	ACA 22/07/2004	145	094275 Mr. GUPTA PANKAJ KUMAR G-124 ASHOK VIHAR PHASE -I DELHI-110052	FCA 22/03/2004
			146	094345 Mr. GULATI RAJNEESH FLAT NO. 146, PLOT NO. 34 UNITED CGHS, SECTOR-4 DWARAKA NEW DELHI-110045	ACA 02/02/2005

147	094393	Mr. VISHWAKARMA RAAKESH	FCA 16/09/2004	158	095035	Mr. PRAVEEN KUMAR	ACA 14/09/2004
		VALVOLINE CUMMINS LTD				C-4/43 SECTOR -15	
		52, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE				ROHINI	
		PHASE-III				DELHI-110085	
		NEW DELHI-110020					
148	094429	Mr. ASHWANI KUMAR	FCA 09/08/2004	159	095040	Mr. ARORA SANJAY	ACA 14/06/2004
		H NO.85				B 314 PRASHANT VIHAR	
		GURDEV NAGAR				DELHI-110085	
		NEAR NEW GRAIN MARKET		160	095066	Mr. TANGER UMA RAO SINGH	FCA 27/02/2004
		JALANDHAR-144008				31 OLD CAPITAL BUS STAND	
149	094508	Mr. GUPTA SANDEEP	ACA 03/03/2005			NEW MARKET	
		FRANKLIN STRASSE-35				BALLABHGARH	
		40479 DISSELDORF				FARIDABAD	
		GERMANY		161	095148	Mr. GUPTA SANJEEV	FCA 21/10/2004
150	094533	Mr. KABRA AMIT	ACA 13/09/2004			64 DAYANAND VIHAR	
		3852 GALI LOHE WALI				VIKAS MARG EXTN	
		CHAWARI BAZAR				DELHI-110092	
		DELHI-110006		162	095307	Mr. MAHAJAN NAVDEEP	ACA 30/04/2004
151	094625	Mr. JAIN SAMEER	FCA 29/09/2004			H.NO 327 SECTOR-11	
		C-59, TAKSHILA APARTMENTS				PANCHKULA-147001	
		57, I P EXTENTION		163	095310	Mr. SACHDEVA PANKAJ	FCA 29/06/2004
		PATPAR GANJ				HOUSE NO-482	
		DELHI-110092				SECTOR-14	
152	094719	Mr. GUPTA SANDEEP KUMAR	FCA 06/12/2004			FARIDABAD-121007	
		P.O BOX NO 9653		164	095312	Mr. SINGHAL AMIT	FCA 09/09/2003
		JANAK PURI				BK- IST- 180	
		NEW DELHI-110058				SHALIMAR BAGH	
153	094770	Mr. KHULLAR VINEET	ACA 28/03/2004			DELHI-110088	
		190 ARAVALI APARTMENTS		165	095340	Mr. SAPRA RAJNEESH	ACA 20/05/2004
		ALAKNANDA				B-7, RBI OFFICERS FLATS	
		KALKAJI				POORVI MARG	
		NEW DELHI-110019				VASANT VIHAR	
154	094792	Mr. DEWAN NEERAJ	FCA 01/04/2004			NEW DELHI-110057	
		193, SFS APARTMENTS		166	095403	Mr. MATHUR RAHUL	ACA 29/03/2004
		HAUZ KHAS				A-14 DRONACHARYA APARTMENTS	
		NEW DELHI-110016				MAYUR VIHAR PHASE-I EXTN	
155	094869	Mr. PODDAR VINOD KUMAR	FCA 31/03/2004			DELHI-110091	
		G-8 SOUTH EXTENSION		167	095405	Ms. GUPTA RESHMA	ACA 01/02/2005
		PART-II				CARE MR. N C GUPTA	
		NEW DELHI-110049				31, DESHBANDHU APARTMENTS	
156	094923	Mr. BHARGAVA ROHIT	ACA 01/10/2004			KALKAJI	
		103 SECTOR 7				NEW DELHI-110019	
		PANCHKULA		168	095551	Mr. JAIN SATEESH	FCA 01/08/2004
157	094951	Mr. ANAND SANJEEV KUMAR	ACA 16/08/2004			1/7439, EAST GORAKH PARK	
		C/O M/S VIJAY MUKESH & CO.				NEHRU MARG, LANE NO-14	
		D-4, NAVEEN SHAHDARA				SHAHDARA	
		DELHI-110032				DELHI-110032	

169	095588 Mr. CHOPRA LOKESH HOUSE NO -206 SECTOR 21-B FARIDABAD-121001	ACA 29/09/2004	180	096178 Ms GUPTA SONU A-204, SAIBABA APARTMENTS SECTOR-9 ROHINI DELHI-110085	ACA 01/04/2004
170	095592 Mr. CHOPRA YUGESH 206 SECTOR 21-B FARIDABAD-121001	ACA 29/09/2004	181	096276 Mr SOFAT SHIVINDER # 27-D, CHOTTI BARADARI PATIALA-147001	FCA 01/06/2004
171	095654 Mr. MEHROTRA RAHUL GH-4/33, MEERA APARTMENTS PASCHIM VIHAR, NEW DELHI-110063	FCA 23/03/2005	182	096409 Ms PATHAK REKHA H NO B-9 SECTOR 14 P U CAMPUS CHANDIGARH-160014	FCA 24/12/2004
172	095707 Ms. GULSHAN 2-6096-1 DEV NAGAR KAROL BAGH NEW DELHI-110005	FCA 01/04/2004	183	096410 Mr SHALINDER KUMAR 18-A, KAMALA NAGAR DELHI-110007	ACA 21/06/2004
173	095731 Mr. MANDEEP SINGH C/O SAHARA MACHINERY STORE LAHERY ROAD OPP LAKHBIR COMPLEX KHANNA-141401	ACA 20/06/2004	184	096430 Mr YUVRAJ SINGH 62 DAYANAND MARG DARYA GANJ NEW DELHI-110002	FCA 30/06/2004
174	095762 Mr. SONI PRINCE 304-B, DEFENCE OFFICERS SOCIETY RAJASVA CGHS, PLOT #33, SECTOR-4 DWARKA NEW DELHI-110045	FCA 01/04/2004	185	096498 Ms RASTOGI RUCHI K P M G 1-2, DORSET RISE LONDON EC4Y 8AF LONDON-0 U K	ACA 16/08/2004
175	095845 Mr. BUDHIRAJA AMIT B-89 ASHOKA ENCLAVE -II SECTOR 37 FARIDABAD-121003	FCA 19/01/2005	186	096523 Mr JAIN RAJNEESH CU-114 VISHAKHA ENCLAVE PITAM PURA DELHI-110088	ACA 20/09/2004
176	095851 Ms. JHAMB JYOTI # 50 HEWO APTS SECTOR - 15 PART - II GURGAON	ACA 17/03/2004	187	096525 Mr RAM KUMAR GOYAL C/O SHRI RAJ KUMAR RADHEY SHYAM SHIVAJI RAM THEKEDAR STREET JAWAHARKE ROAD (PUNJAB) MANSA-151 505	ACA 01/03/2004
177	095996 Mr. ARORA DEEPAK 1/ 3168-A RAM NAGAR SHAHNARA, DELHI-110032	ACA 03/09/2004	188	096626 Ms. BAHULEYAN ARCHANA A-118 MANGAL APARTMENTS PLOT NO 16 VASUNDHRA ENCLAVE DELHI-110096	ACA 14/01/2005
178	096022 Mr BINDRA MANINDER PAL SINGH 125, SHAUGHNESSY PL WATERLOO, ON CANADA-N2T 1C8 CANADA	ACA 29/03/2004	189	096692 Ms KAUR TAJINDER J-5/158, RAJOURI GARDEN NEW DELHI-110027	ACA 01/02/2005
179	096059 Mr GUPTA VINEET H NO 681-A/2 STREETNO 3B, PATEL NAGAR GURGAON-122001	ACA 01/04/2004	190	096756 Mr SINGH MANMOHAN J- A/32 F LIG FLATS G 8 AREA RAJOURI GARDEN NEW DELHI-110064	ACA 01/12/2004

91	096796 Mr AGARWAL VIPUL A-5-B/181-B, JANAKPURI NEW DELHI-110058	ACA 13/12/2004	202	097438 Mr JAIN RISHAB GD-113 PITAMPURA DELHI-110034	ACA 17/01/2005
192	096842 Mr HOODA VIKAS SINGH 1340, SECTOR-3, ROHTAK	ACA 08/02/2005	203	097478 Ms SHARMA SUGUNA D-122, SARAJINI NAGAR NEW DELHI-110023	FCA 01/10/2004
193	096846 Mr TOSANI WAL MURLI MANOHAR D 3/31 RAJASTHALI APARTMENTS NEAR MADHUBAN CHOWK PITAMPURA DELHI-110034	ACA 25/03/2004	204	097485 Mr JOSHI SANJEEV C-2A/244C POCKET-16 JANAKPURI NEW DELHI-110058	ACA 23/03/2005
194	096906 Ms GDYAL SEEMA 979/23, D L F COLONY ROHTAK	FCA 30/01/2005	205	097531 Mr. GOEL VIPIN KUMAR S/O SH J D GOEL BURIA 135 101 YAMUNANAGAR	ACA 16/08/2004
195	097082 Mr SHARMA ANIL 166 MALL APARTMENTS MALL ROAD DELHI-110054	ACA 17/02/2005	206	097598 Mr RAJAT KUMAR 19/37 (FF) OLD RAJINDER NAGAR NEW DELHI-110060	ACA 15/06/2004
196	097163 Mr R NARAYANAN 78/C DEEP ENCLAVE POCKET D PHASE -III, ASHOK VIHAR DELHI-110052	ACA 19/10/2004	207	097602 Mr SHARMA ARVIND KUMAR 40 RAJA PARK MAHESH NAGAR AMBALA-133001	ACA 29/03/2004
197	097164 Mr AGGARWAL RAJESH C/O SABIA INC 318 ANSAL CHAMBER-II BHICAJI CAMA PLACE NEW DELHI-110066	ACA 01/04/2004	208	097609 Mr MATHUR GAURAV EC-264 (SFS) MAYA ENCLAVE G-8 AREA NEW DELHI-110064	ACA 01/04/2004
198	097303 Ms SIMAR PREET KAUR 565/2 GHER SODHIAN PATIALA-147001	ACA 31/08/2004	209	097650 Mr AGGARWAL VIPUL 50-51 LOWER BAZAR SUBATHU-173 206	FCA 22/12/2004
199	097355 Mr JINDAL KULBHUSHAN HOUSE NO. 3300-A GATE HAZI RATTAN BHATINDA-151001	ACA 07/02/2004	210	097720 Mr JALAN MANOJ KUMAR 56/3 PATRAM GATE BARI NO.1 BHIWANI-127021	FCA 16/11/2004
200	097362 Ms UPPAL GUNJAN F-296 NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI-110060	ACA 15/02/2005	211	097768 Mr. SACHDEVA AMIT 41/2, ASHOK NAGAR NEW DELHI-110018	ACA 01/02/2005
201	097408 Mr BANSAL PARVEEN 9 OLD HOSPITAL ROAD BEHIND PALIKA BAZAR PANIPAT-132103	ACA 23/08/2004	212	097813 Mr AGGARWAL ASHISH C/O S P MALHOTRA DE-132, FIRST FLOOR TAGORE GARDEN NEW DELHI-110027	ACA 07/07/2004
			213	098100 Mr MALIK SHALESH SCO-3171 SECTOR-23-D CHANDIGARH-160022	ACA 01/05/2004

214	098107 Mr GUPTA ABHINAV H NO. IC/51, NESSON HUT NEW TOWN FARIDABAD-121001	ACA 07/03/2005	225	098620 Mr AGGARWAL JAIPRAKASH B-208, NANDA DEVI APARTMENTS PLOT NO. 19, SECTOR-10 DWARKA NEW DELHI-110045	ACA 25/02/2005
215	098133 Mr. ATUL PRATAP 11 A(UA) JAWAHAR NAGAR (POST OFFICE BUILDING) DELHI-110007	ACA 25/03/2004	226	098724 Mr GUPTA GOPAL KRISHAN HOUSE NO. 189 SCHEME 19 VIVEKANAND NAGAR JIND-128102	ACA 26/03/2004
216	098198 Mr GOEL PUNEET B-10 BHAGWAN DAS NAGAR EAST PUNJABI BAGH NEW DELHI	ACA 19/05/2004	227	098761 Mr PRUSTY B RABINDRA KUMAR I-143, THIRD FLOOR LALITA PARK LAXMI NAGAR DELHI-110092	ACA 31/03/2004
217	098306 Mr BHATIA GURVINDER SINGH F-78 FIRST FLOOR LAJPAT NAGAR-I NEW DELHI-110024	ACA 01/04/2004	228	098837 Mr BHATEJA NITIN E-242 NARAINA VIHAR NEW DELHI-110028	ACA 01/06/2004
218	098315 Mr GARG SAURABH H NO. 499, SECTOR 30 FARIDABAD	ACA 15/09/2004	229	098841 Mr. GOYAL MANISH H NO 819 SECTOR -8 PANCHKULA-134109	ACA 07/01/2005
219	098331 Ms KALRA SUNITA 141, SECTOR 14 GURGAON-122001	ACA 29/03/2004	230	098882 Mr AGGARWAL VIKAS 895 DR MUKHERJEE NAGAR DELHI-110009	ACA 01/09/2004
220	098460 Mr GOSWAMI GAURAV 1764 OUTRAM LINES G.T.B. NAGAR DELHI-110009	ACA 03/02/2005	231	098904 Mr AJAY KUMAR H NO. 1208, JAWAHAR COLONY NIT FARIDABAD-121005	ACA 29/11/2004
221	098465 Mr. MOHANTY GNYANARANJAN C/O CHOUDHARY NAWAL SINGH 213 A/1 WARD NO-1 MEHRAULI NEW DELHI-110030	ACA 01/04/2004	232	098956 Ms. BAGRI SHALU 4812, MATHUR LANE 24, DARYA GANJ NEW DELHI-110002	ACA 03/08/2004
222	098535 Mr GUPTA SUNIL FLAT NO. H-401 FRIENDS APARTMENTS, PLOT NO. 49 PAT PAR GANJ I P EXTN. DELHI-110092	ACA 31/03/2004	233	098959 Mr GUPTA DEEPAK 53 MODEL BASTI NEAR FILMISTAN NEW DELHI-110005	ACA 23/03/2004
223	098600 Mr BHUTANI PUNEET 3/42 MOTI NAGAR NEW DELHI-110015	ACA 15/11/2004	234	098962 Ms GHOSE BINDITA B-449, SUSHANT LOK PHASE-1 GURGAON-122022	ACA 26/05/2004
224	098602 Mr ANAND JITAN 5662, KUCHA KHAN CHAND NAI SARAK DELHI-110006	ACA 21/06/2004	235	098998 Mr JAIN MAHAVIR PARSHAD HOUSE NO. 50 GANDHI MANDI PANIPAT-132103	ACA 22/01/2005
			236	099070 Mr J KARTHIKEYAN 238-D/DG-II VIKASPURI, NEW DELHI-110018	ACA 31/07/2004

237	099111 Mr SARKAR SUJAY H-44, SOUTH EXTN. PART-I NEW DELHI-110049	ACA 02/11/2004	248	099599 Mr SEHRA KAMALJIT SINGH HOUSE NO. 1051 SEC -39 OPP VARDHMAN MILL P O FOCAL POINT LUDHIANA-141010	ACA 31/03/2004
238	099117 Mr. GUPTA SOURABH. 58 SAMMAN BAZAR JANGPURA BHOGAL NEW DELHI-110014	ACA 09/08/2004	249	099609 Mr. RATHORE SURENDER SINGH 597, SECTOR-22 A NEAR POLICE MESS GURGAON-120 015	ACA 02/09/2004
239	099267 Ms. JAIN MANJRI KOTHI NO. 343 SECTOR 21-A CHANDIGARH-160022	ACA 01/04/2004	250	099664 Mr. AGIWAL SUNIL 7161 BIRLA STAFF QRTS KAMLA NAGAR DELHI-110007	ACA 01/09/2004
240	099378 Mr. AGGARWAL SHORABH WZ-238-A INDER PURI NEW DELHI-110012	ACA 08/12/2004	251	099667 Mr SAINI ASHOK KUMAR H NO 67 TYPE C HIL TOWN SHIP NEW MOTI NAGAR NEW DELHI-110015	ACA 01/04/2004
241	099431 Mr GUPTA PRASHANT H. NO. 1/5121 STREET NO -4 BALBIR NAGAR SHAH DARA NEW DELHI-110032	ACA 30/12/2004	252	099671 Mr NAUTIYAL SANJAY MPT -401 SAROJINI NAGAR NEW DELHI-110023	ACA 19/05/2004
242	099446 Mr. ARORA AJAY C-56 NEW GOBINDPURA ST NO. 10 P O KRISHNA NAGAR, DELHI-110051	ACA 01/03/2005	253	099755 Mr JAISWAL SHANKAR NATH PADRI BAZAR GORAKHPUR-273014	ACA 31/03/2004
243	099487 Mr BHUPINDER KUMAR SEHGAL 88 NEHRU NAGAR TEHSIL TOWN PANIPAT-132103	ACA 24/02/2005	254	099841 Ms SANDHU ANUREET 19, SURYA NIKETAN VIKAS MARG DELHI-110092	ACA 22/05/2004
244	099526 Mr WADHWÁ SANDESH PAL AN-12 D SHALIMAR BAGH DELHI-110088	ACA 25/03/2004	255	099847 Ms GHOSH LOVELY 133, NIRMAL APARTMENTS MAYUR VIHAR PHASE-1 DELHI-110092	ACA 07/03/2004
245	099539 Mr. RELHAN GAURAV GP-10, MAURYA ENCLAVE, RITAMPURA, DELHI-110034	ACA 29/09/2004	256	099885 Mr SAMYAL VIKAS F-228/8, OPP. RADHA KRISHAN TEMPLE, TALAB TILLO, JAMMU TAWI-180002	ACA 20/09/2004
246	099561 Ms MITTAL SHIVANI HNO. 62, G H T P POWER COLONY LEHRA MOHABBAT BHATINDA-151111	ACA 29/09/2004	257	099951 Ms DEEPA 431-G POCKET- II MAYUR VIHAR PHASE - I DELHI-110091	ACA 04/11/2004
247	099582 Mr SAXENA MANISH 2384 SECTOR -D POCKET-2 VASANT KUNJ NEW DELHI-110070	ACA 19/08/2004	258	099969 Mr GOSWAMI DEEPAK NATH 7042 MANDI GHAS PAHARI DHIRAJ DELHI-110006	ACA 08/01/2005

259	104816	Mr. ATROLEY NITIN STAR INDIA PVT. LTD 205, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE PHASE-III NEW DELHI-110020	ACA 11/06/2004	270	500080	Ms. ANUSHA RAJAN SECTOR B-8/6048 VASANT KUNJ NEW DELHI-110070	ACA 01/08/2004
260	111597	Ms APARNA B 116 CHANDER NAGAR A BLOCK JANAK PURI NEW DELHI-110058	ACA 01/08/2004	271	500106	Mr GUPTA NITIN C-2 KAILSH COLONY NEW DELHI-110048	ACA 23/08/2004
261	202801	Ms. PHILKHANA PRASANTHI 404B, HAMILTON COURT DLF CITY- PHASE-IV HARYANA GURGAON-122002	ACA 01/04/2004	272	500123	Mr SAINI SANDEEP KUMAR SMT PARMINDER KAUR SAINI MOHALLA HARI NAGAR NEAR KAMAL PALACE HOSHIARPUR	ACA 06/12/2004
262	400159	Mr GULATEE ATUL D-153 III FLOOR LAJPAT NAGAR -I NEW DELHI-110024	ACA 13/01/2004	273	500133	Ms. MEHOI FAUZIA 75 ABUL FAZAL APTS 22 VASUNDHARA ENCLAVE DELHI-110096	ACA 27/10/2004
263	400419	Mr BACHCHANI SANJAY KUMAR 86 DESHBANDHU APPTS KALKA JI NEW DELHI-110019	ACA 15/06/2004	274	500139	Mr MANCHANDA VINEET SUNDER NAGARI STREET NO. 5 ABOHAR-152116	ACA 15/11/2004
264	400685	Mr VARUN ANAND 3RD FLOOR K 1/55 C R PARK NEW DELHI-110019	ACA 13/10/2004	275	500155	Ms. ANAND RITU A-2/163-B MIG FLATS LAWRENCE ROAD DELHI-110035	ACA 23/02/2004
265	401507	Ms SABLOK PUNITA 14 NEW ROHTAK ROAD OPP J D TYTLER SCHOOL NEW DELHI-0	ACA 21/09/2004	276	500167	Mr MAHESH ABHISHEK X-17 CHITRA GUPTA ROAD PAHARGANJ NEW DELHI-110055	ACA 29/10/2004
266	401519	Ms SAILANI RAKHI N-212 SECTOR -8 R K PURAM NEW DELHI-110022	ACA 09/12/2004	277	500175	Mr SINGH SUNIL KUMAR B-III/7, RITES FLATS ASHOK VIHAR, PHASE-III DELHI-110052	ACA 25/08/2004
267	402381	Mr GUPTA MANISH KUMAR FLAT NO 202 J-4/18-D KHIDKI EXTTN MALVIYA NAGAR NEW DELHI-110017	ACA 01/01/2005	278	500177	Mr LUTHRA VIKAS 71/85, FIRST FLOOR PREM NAGAR, JANAK PURI NEW DELHI-110058	ACA 27/08/2004
268	402603	Mr TIWARI AMARISH MANAGER (ACCOUNTS) SANGHI BROTHERS (INDORE) PVT LTD PARASIA ROAD CHHINDWARA	ACA 01/03/2004	279	500212	Mr VASHISHT AMIT C-555, SARASWATI VIHAR DELHI-110034	ACA 09/11/2004
269	500034	Mr AJAY KUMAR A-155 VIKAS PURI NEW DELHI-110018	ACA 29/12/2004	280	500228	Mr. KHERA SANJEEV KUMAR EXECUTIVE OFFICER LEGAL DEPARTMENT INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA I P MARG, NEW DELHI-110002	ACA 14/02/2005
				281	500257	Mr SHUKLA SHIV NANDAN C/O JAI GOPAL S-124, SCHOOL BLOCK SHAKARPUR, DELHI-110092	ACA 20/09/2004

282	500288 Mr GOEL AMIT B-22 GIDWANI ROAD ADARSH NAGAR DELHI-110033	ACA 10/07/2003	293	500598 Mr GAUTAM DEVESH KUMAR 1019 SECTOR -28 FARIDABAD-121008	ACA 15/03/2005
283	500294 Mr GOEL SUNIL 27A, MAHARAJA TAGORE ROAD SUR-PRITI APPARTMENT FLAT NO. A-2 DHAKURIA KOLKATA-700031	ACA 30/03/2004	294	500615 Mr MATHUR NITIN BLOCK H HOUSE NO. 18/B SAKET NEW DELHI-110017	ACA 15/09/2004
284	500305 Mr DEVI SARAN 185 - I BLOCK HARI NAGAR EXTN. SAURABH VIHAR BADARPUR NEW DELHI-110044	ACA 31/03/2004	295	500710 Mr. SINGLA AJAY 1085/19 OLD ALU GODAM AMBALA-133001	ACA 22/03/2004
285	500338 Mr JOSHIE AMIT C-1/1071 VASANT KUNJ NEW DELHI-110070	ACA 31/03/2004	296	500768 Mr GUPTA NITIN POCKET-I/68-B DILSHAD GARDEN DELHI-110095	ACA 15/03/2005
286	500442 Mr MADHOK MANISH HOUSE NO. 1856 SECTOR -9 FARIDABAD-121006	ACA 15/06/2004	297	500805 Mr AMIT KUMAR AH-23 SHALIMAR BAGH DELHI-110088	ACA 24/03/2004
287	500526 Mr. HEMANT KUMAR 3/114 ST NO. 3 LALITA PARK LAXMI NAGAR DELHI-110092	ACA 25/02/2005	298	500821 Mr MEHRA ANUJ G 40 KIRTI NAGAR NEW DELHI-110015	ACA 02/12/2004
288	500546 Mr. AJAY KUMAR H NO 191/8 NEAR BHAJNASHRAM SCHOOL V&PO BERI JHAJJAR-124201	ACA 18/08/2004	299	500834 Mr. GROVER HEMANT B-7/7 DOUBLE STOREY RAMESH NAGAR NEW DELHI-110015	ACA 24/07/2004
289	500573 Mr. JAIN SANJEEV KUMAR B-IX-44 CHOWK HIRA HALWALI LUDHIANA-141008	ACA 27/12/2004	300	500837 Mr. LAVANIYA MANISH KUMAR 96 - A, J-EXTENSION GALI NO. 2, LAXMI NAGAR DELHI-110092	ACA 22/02/2005
290	500580 Mr DUTTA SHUBHAM BLOCK C-4-A FLAT NO. 4B JANAKPURI NEW DELHI-110058	ACA 01/04/2004	301	500853 Ms. GUPTA MONIKA R/O B-30, GALI NO. 2 CHANDER NAGAR DELHI-110051	ACA 20/10/2004
291	500586 Mr. MITTAL ABHINANDAN FLAT NO. 5 GALI NO. 3 KRISHNA PURI SHIV MANDIR MARG MANDAWALI DELHI-110092	ACA 12/01/2004	302	500864 Mr GARG DINESH KUMAR H NO. 616, SECTOR-5 URBAN ESTATE KURUKSHETRA-136118	ACA 01/02/2005
292	500594 Mr. RAJEEV KUMAR C-3/43, SECTOR-15, ROHINI DELHI-110085	ACA 09/03/2004	303	500913 Ms. AGGARWAL ACHLA HOUSE NO. 484, SECTOR-9 PANCHKULA-134113	ACA 31/03/2004
			304	500988 Mr SEHGAL RAHUL 357 SHASTRI NAGAR LAWRENCE ROAD AMRITSAR-143001	ACA 01/09/2004

305	501007 Ms. AGGARWAL PREETI F/353 KRISHNA GALI KOTLA MUBARAK PUR NEW DELHI-110003	ACA 15/03/2004	316	501365 Mr. BHATIA SACHIN 24 SAMART APTS B-11 VASUNDHARA ENCLAVE DELHI-110096	ACA 30/11/2004
306	501046 Mr. SANGHI GUNJAN 197 RPS FLAT SHEIKH SARAI 1 NEW DELHI-110017	ACA 30/12/2003	317	501380 Mr. SUBHASHENDRA KUMAR S-16 SUNDER BLOCK GALI NO. 1, SHAKARPUR, DELHI-110092	ACA 01/12/2004
307	501063 Mr. BHALLA SANJEEV KUMAR 17/21 SUBHASH NAGAR NEW DELHI-110027	ACA 30/03/2004	318	501422 Mr SACHDEVA GIREESH KUMAR 10/120 GEETA COLONY DELHI-110031	ACA 31/07/2004
308	501133 Ms. KAPUR PAYAL B-205 UNESCO APARTMENTS 55- I P EXTENSION DELHI-110092	ACA 27/07/2004	319	501426 Mr ARORA ROHIT B-198 WEST PATEL NAGAR NEW DELHI-110008	ACA 19/03/2004
309	501240 Mr. MUDULI DIBYASINGH NARINDER GARG & CO B 1-222 RAM NAGAR INDRA BASTI DISTT SANGRUR (PUNJAB) SUNAM-148028	ACA 20/09/2004	320	501436 Mr. ADLAKHA SONAL 166 STATE BANK NAGAR PASCHIM VIHAR DELHI-110063	ACA 28/02/2005
310	501276 Mr. MITTAL SAURABH H NO 916 SECTOR 37 FARIDABAD-121003	ACA 01/04/2004	321	501439 Ms AGGARWAL RADHA 84 UNITED INDIA APT MAYUR VIHAR 1 DELHI-110091	ACA 06/09/2004
311	501287 Mr KARIR NITIN B-343, PRASHANT VIHAR ROHINI, SECTOR-14 DELHI-110085	ACA 04/02/2005	322	501533 Ms. GUPTA PREETI 41, SAMRAT ENCLAVE PITAMPURA DELHI-110034	ACA 01/10/2004
312	501303 Mr. GUPTA ATUL A-16, JITAR NAGAR PARWANA ROAD DELHI-110051	ACA 01/03/2004	323	501545 Mr. TANEJA AMIT GH-13/496 PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110 087	ACA 28/09/2004
313	501317 Mr. AMIT KUMAR T-5 NEW STAFF FLATS SHRI RAM COLLEGE OF COMMERCE DELHI UNIVERSITY DELHI-110007	ACA 26/03/2004	324	501548 Mr. OJHA RAJESH KUMAR 1/4762 GALI NO 7 BALBIR NAGAR EXTENSION SHAHNARA, DELHI-110032	ACA 30/05/2004
314	501335 Mr YADAV SUNIL A 504 STREET NO. 5 20 FEET ROAD MEET NAGAR NEAR GOKULPUR MAIN WAZIRABAD ROAD DELHI-110094	ACA 29/03/2004	325	501549 Ms. CHAUDHARY SHALINI 336, DDA FLATS JAI DEV PARK, NEW DELHI-110026	ACA 17/09/2004
315	501340 Mr NARESH KUMAR T-545, BALJEET NAGAR MANDIR MARG NEW DELHI-110008	ACA 31/03/2004	326	501570 Ms. VEENU KUMARI D-12/21 SECTOR 8 ROHINI, DELHI-110085	ACA 02/11/2004
			327	501585 Mr KUMAR RAKESH C/O SHAL GOEL 28/2-H, GALI NO. 3 NEAR HAZI FACTORY, EAST AZAD NAGAR KRISHNA NAGAR DELHI-110051	ACA 08/07/2004

328	501646 Mr AGGARWAL SAURABH VILLA NO.-12, FIRST FLOOR BLOCK-5, CHARMWOOD SURAJKUND ROAD FARIDABAD-121009	ACA 27/04/2004	339	501779 Mr GOYAL MUKUL C/O SH MANMOHAN GUPTA 521, AMRIK SINGH ROAD BHATINDA-151005	ACA 01/03/2004
329	501658 Mr GUPTA AJAY PLOT NO 2 GALI NO 3 SHALIMAR PARK EXT: SHAH DARA DELHI-110032	ACA 10/01/2005	340	501781 Ms GUPTA SHILPI DDA SFS FLAT NO 313 SECTOR 9, POCKET 2 DWARKA PHASE 1 NEW DELHI-110045	ACA 03/03/2005
330	501685 Mr. SURI NITISH JD -68D, PITAMPURA DELHI-110088	ACA 01/12/2004	341	501812 Mr DOOMRA AMIT A-38 PART I ANOOP NAGAR P O UTTAM NAGAR NEW DELHI-110059	ACA 01/04/2004
331	501689 Mr SHARMA DHIRAJ 9/5075 A SHANTI MOHALLA GANDHI NAGAR DELHI-110031	ACA 19/02/2005	342	501859 Mr. JAIN JITENDRA L-127 LAXMI NAGAR DELHI-110092	ACA 30/09/2004
332	501692 Mr. JOSHI VIPAN CHAND 74 GURU GOBIND SINGH NAGAR MAJITHA ROAD AMRITSAR-143001	ACA 31/12/2004	343	501893 Ms PASRICHA POOJA 25/24 EAST PATEL NAGAR NEW DELHI-110008	ACA 20/09/2004
333	501703 Mr. ADATIA PRATIK 84-C POCKET U & V BLOCK - B, SHALIMAR BAGH, DELHI-110088	ACA 17/06/2004	344	501897 Mr SHARMA AMIT C4 D/39.C JANAK PURI NEW DELHI-110058	ACA 17/09/2004
334	501715 Mr. PANWAR SANJEEV B-21 EAST ARJUN NAGAR SHAH DARA DELHI-110032	ACA 14/07/2004	345	501942 Mr MAHAJAN PARAS D-2 NAVEEN SHAHDARA DELHI-110032	ACA 01/04/2004
335	501745 Mr JAIN AMIT 1169 GALI DHARAMSHALA KUCHA PATIRAM BAZAR SITA RAM DELHI-110006	ACA 01/01/2005	346	501944 Ms HANDA PAYAL 133-H SARABHA NAGAR LUDHIANA-141001	ACA 17/09/2004
336	501748 Mr. MEHTA NAVEEN B 36 VIPIN GARDEN KAKROLA MOD, UTTAM NAGAR NEW DELHI-110059	ACA 16/09/2004	347	501948 Mr. MOHIT KUMAR C/O MR RAJNEESH AGARWAL 179, AGCR ENCLAVE PO LAXMI NAGAR DELHI-110092	ACA 01/04/2004
337	501754 Ms. SHARMA RACHNA 242/11 THAN SINGH NAGAR ANAND PARBAT DELHI-110005	ACA 22/03/2004	348	501961 Mr. DHINGRA PANKAJ H-64 VIKAS PURI NEW DELHI-110018	ACA 31/05/2004
338	501756 Mr. RAWAT SHAILESH A 44 MAIN ROAD NEAR NALANDA SCHOOL MANDAWLI FAZALPUR DELHI-110092	ACA 31/03/2004	349	501989 Mr CHONA RAVI KUMAR X/3390 STREET NO. 2 RAGHUBAR PURA NO. 2 GANDHI NAGAR DELHI-110031	ACA 31/05/2004
			350	502023 Mr YADAV NARENDRA 142-B GAUTAM NAGAR NEW DELHI-110049	ACA 28/03/2005

351	502120 Mr. DINESH KUMAR C/O SHRI SUNDER LAL VILL. & P.O. GOKAL GARH DIST. AMBALA AMBALA-133203	ACA 10/07/2004	362	502311 Mr. BHUTANI SAURABH C-41, SUDERSHAN PARK NEW DELHI-110015	ACA 31/05/2004
352	502148 Mr. TOSHNIWAL VIVEK C/O AMRITA BEAUTY PARLOUR F-186A, STREET NO. 2 MANGAL BAZAR LAXMI NAGAR DELHI-110092	ACA 22/09/2004	363	502327 Mr. JAGGA RAHUL 248 C, MIG FLATS RAJDURI GARDEN NEW DELHI-110027	ACA 02/02/2005
353	502206 Mr. K HRUSI KESH PATRO I 209 KARAMPURA NEW DELHI-110015	ACA 25/11/2004	364	502352 Mr. SHARMA RAJAN 126 2ND FLOOR GOLF LINK NEW DELHI-110003	ACA 01/10/2004
354	502243 Mr. BANSAL AJAY B-6, VIKALP APARTMENT 92, 9TH AVENUE I P EXTN. DELHI-110092	ACA 10/08/2004	365	502387 Mr. MALPANI DEEPAK KUMAR C/D M L SONI X/3527 GALI ND 2 SHANTI MOHALLA GANDHI NAGAR DELHI-110031	ACA 31/03/2004
355	502252 Mr. CHAWLA HITESH 720 DOUBLE STOREY NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI-110060	ACA 08/04/2004	366	502416 Mr. NARESH KUMAR H NO. 413, POCKET D DILSHAD GARDEN DELHI-110095	ACA 10/09/2004
356	502259 Mr. SABHARWAL SANDEEP F/C 82 TAGORE GARDEN NEW DELHI-110027	ACA 08/12/2004	367	502432 Mr. GUPTA ALOK P-63, PANDAV NAGAR MAYUR VIHAR, PHASE-1 DELHI-110091	ACA 14/03/2005
357	502260 Ms. GUPTA SAVITA 13-E BAHUBALI EXTN. NEAR KARKARDOOMA DELHI-110092	ACA 01/12/2004	368	502476 Ms. ARORA JYOTI 254/7, NIZATAM NAGAR B/H F C SONDI & CO JALANDHAR-144002	ACA 25/03/2004
358	502268 Ms. JAIN GEETIKA 2063/39, HARI SINGH NALWA STREET 2ND FLOOR, KAROL BAGH NEW DELHI-110005	ACA 06/02/2005	369	502501 Mr. SINGLA AMIT S/O SHRI DHARAM PAUL SINGLA SCIENCE TEACHER WARD NO 2 V.P.O. GHANAUR TEHSIL - RAJPURA PATIALA-140702	ACA 01/04/2004
359	502269 Mr. AGGARWAL VINAY KUMAR FLAT NO. 503 POCKET 6/2 SECTOR -2 ROHINI DELHI-110085	ACA 16/12/2004	370	502526 Mr. GOYAL NITIN FLAT NO. 301, SBI OFFICERS FLATS G BLOCK, EAST OF KAILASH NEW DELHI-110065	ACA 16/09/2004
360	502284 Mr. AGGARWAL ANUJ C-1/24 MODEL TOWN-III DELHI-110009	ACA 06/08/2004	371	502532 Mr. AGGARWAL DINESH 41 ANAND VIHAR PITAMPURA DELHI-110034	ACA 01/04/2004
361	502309 Mr. GUPTA MANEESH 559/5 C STREET NO 10 VIJAY PARK MAUJPUR DELHI-110053	ACA 19/08/2004	372	502557 Mr. KWATRA RAJAT B 10/121 PHARMA APT. PLOT NO 88, I P EXTN. (NEAR PATPARGANJ DEPOT) DELHI-110092	ACA 21/10/2004

373	502583 Mr GAMBHIR SACHIN KUMAR 717 MAHAVIR COLONY OPP GUGGA MADDI YAMUNA NAGAR-135001	ACA 08/03/2005	384	502894 Mr TEJINDAR SINGH H NO. 1/9157 STREET NO. 4 WEST ROHTAS NAGAR. SHAHDARA DELHI-110032	ACA 23/11/2004
374	502633 Ms. GOEL HARSHITA 1923 GALI LEHSWA SITA RAM BAZAR DELHI-110006	ACA 24/03/2004	385	502953 Mr. RAI PUNEET E-2/16 WHITE HOUSE 1ST FLOOR ANSARI ROAD DARYAGANJ NEW DELHI-110002	ACA 06/08/2004
375	502644 Ms. ARORA BUBNEET C/O MR BHUPINDER SINGH R 110 NEAR KRISHAN MANDIR MODEL TOWN 3 DELHI-110009	ACA 01/04/2004	386	502990 Mr. SUKHEER SINGH C/O S JASWANT SINGH 223-224 EKROOP AVENUE NAUSHERA MAJITHA ROAD AMRITSAR-143001	ACA 12/04/2004
376	502645 Mr. JAIN VIPUL 433 SECTOR 29 FARIDABAD-121002	ACA 17/11/2004	387	503013 Mr CHAUDHRY SAURABH C/O INTERNET PAVILION PARK ROAD KAITHAL-136027	ACA 12/02/2005
377	502701 Mr. KHANNA VIKRAM 1/9482 STREET NO 7 WEST ROHTAS NAGAR SHAHDARA DELHI-110032	ACA 01/04/2004	388	503035 Mr MOHAMMED RUBANI RZ-163 GALI NO. 9-B KAILASH PURI [EXT] NEW DELHI-110045	ACA 21/08/2004
378	502748 Mr. AGARWAL SANJAY 128/10 2ND FLOOR. WEST GURU ANGAD NAGAR DELHI-110092	ACA 01/01/2005	389	503062 Mr. SETHI MOHIT # 301 SECTOR 30 A CHANDIGARH-160030	ACA 08/03/2004
379	502767 Mr. VATRANA RETESH H ND 2343 ST NO 22 GAUSHALA ROAD ABOHAR-152116	ACA 19/08/2004	390	503076 Mr GAGAN DEEP SINGH 5174 SHAMLAL BUILDING BASANT ROAD PAHAR GANJ NEW DELHI-110055	ACA 16/08/2004
380	502782 Mr TRILOK KUMAR I-152 LALITA PARK LAXMI NAGAR NEW DELHI-110092	ACA 01/03/2005	391	503097 Mr. AINUL ISLAM 856 AMINIA HOUSE CHOO RI WALAN JAMA MASJID DELHI-110006	ACA 01/04/2004
381	502789 Ms. JAIN BHAWNA C-128/1, IIND FLOOR MOHAMMADPUR NEW DELHI-110066	ACA 31/01/2005	392	503098 Mr. AVINASH H NO 3029 SECTOR 15 D CHANDIGARH-160015	ACA 05/07/2004
382	502833 Mr. AGARWAL SHIV SHANKAR 373/13 WEST GURU ANGAD NAGAR LAXMI NAGAR DELHI-110092	ACA 01/03/2005	393	503137 Mr SUNNY T C L 32.A SAKET NEW DELHI-110017	ACA 10/12/2004
383	502877 Mr SARPAL ANUJ 18/A DHRUVA APTS SECTOR 13 ROHINI DELHI-110085	ACA 31/03/2004			

394	503167	Mr. GAMBHIR SANDEEP 1865 CIVIL LINE JAGADHRI-135003	ACA 01/04/2004	405	503500	Mr. RAINA PRANAV A-6 PAMPOSH ENCLAVE GREATER KAILASH-I NEW DELHI-110048	ACA 30/07/2004
395	503173	Mr. JAIN VIKAS 433 SECTOR 29 FARIDABAD-121002	ACA 17/11/2004	406	503520	Mr. SHARMA ANUNAY U 131 SHAKARPUR DELHI-110092	ACA 12/01/2005
396	503175	Mr. GUPTA GOURAV H NO C 4 1444 NEW COLONY GOMTI MOHALLA JAGADHRI-135003	ACA 02/10/2004	407	503673	Mr. JAIN RAGHAV B-386 NEW FRIENDS COLONY NEW DELHI-110065	ACA 05/07/2004
397	503181	Mr. ASWAL ANURAG SINGH FLAT NO.156 SHUBHAM APARTMENTS PATPARGANJ DELHI-110092	ACA 22/05/2004	408	503694	Mr. KAKKAR DINESH H NO 483 SECTOR 6 URBAN ESTATE KARNAL-132001	ACA 06/09/2004
398	503279	Mr. KISHAN KUMAR OPP. SHIV MANDIR NEAR LIBRARY MARKET HAILY MANDI GURGAON-123504	ACA 21/03/2005	409	503722	Mr. SHARMA GANESH H NO 711/12 RAM NAGAR COLONY NEAR JAI BHARTI SCHOOL KURUKSHETRA-136118	ACA 17/11/2004
399	503323	Mr PANJETA PARVINDER SINGH C/O R REVATI FLAT NO. 008, BLOCK NO.8 HERITAGE APPARTMENTS YELAHANKA NEW TOWN BANGALORE-560064	ACA 26/07/2004	410	503827	Ms. R ANANTHALAKSHMI 272-F POCKET-II MAYUR VIHAR PHASE -I DELHI-110091	ACA 01/02/2005
400	503370	Mr. SINGHI KULDEEP KUMAR 241, POCKET-A SARITA VIHAR, MATHURA ROAD NEW DELHI-110044	ACA 30/07/2004	411	503847	Mr. PACHAURI NAKSHATRA 17/B-1 HINDUSTAN TIMES APTS MAYUR VIHAR 1 DELHI-110091	ACA 09/12/2004
401	503374	Ms. KOCHHAR EKTA 278 DOUBLE STOREY NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI-110060	ACA 07/12/2004	412	503934	Mr JAIN AMIT 20/7 SHAKTI NAGAR DELHI-110007	ACA 01/01/2005
402	503419	Mr. GOEL ABHISHEK S/O SH VED PARKASH GOYAL B III/70, NABHA GATE SANGRUR-148001	ACA 12/01/2005	413	503994	Ms RACHNA, ACA B-II-260 KUCHA SOODAN HINDI BAZAR LUDHIANA	07/12/2004
403	503427	Mr SEHGAL ANKUSH 201 NEW MODEL TOWN LUDHIANA-141002	ACA 04/02/2005	414	504012	Mr. GARG AMIT HOUSE NO 492 NEW HOUSING BOARD COLONY BARNALA ROAD SIRSA-125055	ACA 31/01/2005
404	503482	Mr PANJIAR VISHWAS 143, SRÉSHTHA VIHAR DELHI-110092	ACA 27/04/2004	415	504033	Mr ALOK KUMAR C/O MR RAMSUNDAR RAUT D 374.A WEST VINOD NAGAR DELHI-110092	ACA 19/02/2005

4088	Mr. BAJAJ PANKAJ N 36 CHITRANJAN PARK NEW DELHI-110019	ACA 17/03/2005	421	504375 Ms. PARMINDER KAUR 80/3, SHAHEED BABA DEEP SINGH NAGAR PATHANKOT ROAD JALANDHAR	ACA 17/01/2005
417	504197 Mr. GROVER PHULLJIT SINGH EXECUTIVE OFFICER CIRC OF ICAI 16/77, CIVIL LINES THA MALL (UP) KANPUR-208001	ACA 21/12/2004	422	504389 Mr. PUNJ AMIT B-8/73 VILL - BOPARAI P.O. GORAYA TEH. PHILLIAUR DISTT. JALADNHAR JALANDHAR-144409	ACA 27/12/2004
418	504210 Mr. GULATI AMIT S/O SHRI OM PARKASH GULATI B-8/35, VILLAGE-BOPARAI, P.O. GORAYA JALANDHAR GORAYA-144409	ACA 01/01/2005	423	504567 Mr. GUPTA ROHIT D 28-A VIKAS NAGAR UTTAM NAGAR NEW DELHI-110059	ACA 22/03/2005
419	504271 Mr. GUPTA RAM NARAYAN 33-A SAROJINI PARK SHASTRI NAGAR GALI NO 14 DELHI-110031	ACA 14/03/2005	424	504730 Mr. BANSAL RAHUL A 163 VIVEK VIHAR PHASE I DELHI-110095	ACA 02/03/2005
420	504291 Mr. NANGIA VINEET A- 11 PARVANA VIHAR SECTOR 9 PLOT NO 52 ROHINI DELHI-110085	ACA 30/10/2004	DR. ASHOK HALDIA Secy.		

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Kolkata-700 071, the 15 September 2006

(Chartered Accountants)

3ECA/4/3/2004-2005 : In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949, The Council of the institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this institute with effect from 01/10/2004 on account of non payment of prescribed fees, the names of the following Members :

S.No.	MRN	Member Name & Address
1.	000309	Mr. Goswami Jotish Chandra 34-1, Ananda Palit Road Kolkata - 700 014
2.	001999	Mr. Sen Gupta Asim Kumar 49/68, Prince Golam Mohammad Shah Road, Kolkata - 700 033
3.	002126	Mr. Ganguli Gangadhar De & Ganguli 3/1, Mangoe Lane Kolkata - 700 001
4.	002693	Mr. Mitra Sati Kumar S. K. Mitra & Co Tower House, 2nd Floor 2A, Chowringhee Square Kolkata - 700 069
5.	002903	Mr. Deb Manishi Kumar 8/2, Kiran Sankar Ray Road Room No. 21 & 22 1st Floor Kolkata - 700 001
6.	003320	Mr. Mitra Arun Kumar 112, Jatindra Mohan Avenue 2nd Floor, Kolkata - 700 005
7.	004616	Mr. Bhotica Govind Prasad 24, R. N. Mukherjee Road 3rd Floor Kolkata - 700 001
8.	004796	Mr. Sharma Keshar Deo M/S K.D. Sharma & Co. 23/1, Dobson Road Howrah - 711 101
9.	004833	Mr. Ray Chinta Haran N-4/80 Nayapalli I.R.C. Village Bhubaneswar - 751 012
10.	005614	Mr. Mobinuddin Mohammed Maneck A. Davar & Co. 8, Old Post Office Street Kolkata - 700 001.
11.	006870	Mr. Mukherjee Amalesh Chand AE 398 Salt Lake City Sector - 1 Kolkata - 700 064
12.	007797	Mr. Mehta Rajkumar Chand 88-A, Harish Mukherjee Road Kolkata - 700 025
13.	007824	Mr. Banerjee Asok 11A, Allenby Road Kolkata - 700 020
14.	008019	Mr. Kamrani Abdul Karim P.O. Box - 88 Sharjah U.A.E.
15.	008725	Mr. Nag Tushar Kanti 699-B, New Alipore Block - P Kolkata - 700 053
16.	009153	Mr. Kuridu Nitya Ranjan KPMC P.O. Box - 1519 Gaborone Botswana
17.	010148	Mr. Lala Paresh Chandra C.G.-224, Salt Lake Sector - II Kolkata - 700 091
18.	010371	Mr. Tulsian Om Prakash 4th Floor 4, Justice Dwarka Nath Road Kolkata - 700 020
19.	010522	Mr. Jain Sampat Lal 11, Clive Row 2nd Floor, Room No. - 13 Kolkata - 700 001
20.	012053	Mr. Guhathakurata Syamal Chandra 6A, K. S. Roy Road, Top Floor, Room No. - 19 Kolkata - 700 001
21.	012129	Mr. Ghose Ajoy 202, Kalikapur Road Kolkata - 700 078
22.	012418	Mr. Khastgir Swapan P-112, Lake Town Block A Kolkata - 700 089
23.	012653	Mr. Sonthalia Rajendra Prakash 135A, Biplabi Rash Behari Basu Road Kolkata - 700 001.

24.	013905	Mr. Barman Prasanta Kumar Roy 140A/4 N.S.C. Bose Road Kolkata - 700092	36.	042856	Mr. John Jacob Flat No - 3C Mani Aangan 23, Ustad Aliuddin Khan Sarani Block E New Atopore Kolkata - 700053
25.	013932	Mr. Roy Siba Prasad 44A, Palm Avenue 4th Floor Kolkata - 700019	37.	045505	Mr. Majumdar Kaustav Mriganka BD - 85 Salt Lake City, Sector - I Kolkata - 700064
26.	014162	Mr. Kar Atanu A. Kar & Associates 20F, Ballygunge Terrace Kolkata - 700001	38.	048096	Mr. Agarwal Sudhir C/o M.P. Glychem Inds Ltd. Bijoyramchak Ward No - 9 Durgachak Haldia - 721602
27.	014525	Mr. Chakravarty Dipankar Ironeside Co-oprative Housing Society Ltd. Flat No - A-10 11/3B Old Ballygunge 2nd Lane Kolkata - 700019	39.	050152	Mr. Seth Alok Nath 35, Upendra Chandra Banerjee Road Kolkata - 700054
28.	014761	Mr. Venkatramani K Sr. Co - Ordinator Energy And Environment Programme Asian And Pacific Development Centre Pox Box - 12224 Pesiaran Duta, 50770, Kuala Lumpur, Malaysia	40.	050218	Mr. Ray Chira Ranjan Dy. General Manager (F&A) Ispat Bhawan Durgapur Steel Plant Dist : Burdwan Durgapur - 713203
29.	015719	Mr. Datta Jagabandhu 108/6A, Manoharpukur Road Kolkata - 700026	41.	050232	Mr. Mitra Tarun Kumar Medicap Limited Apt 5B, Sobhna Court 55, Sukhumvit 50159 Klongtoly, Thailand
30.	016433	Mr. Guha Nirmal Kumar B 1/14, Abhyudoy E.C.T.P. Phase - IV P.O. East Kolkata Township Kolkata - 700107	42.	050303	Mr. Dutta Deb Kumar Bank Muskat Saog P.B. No - 134 Ruwi - 112 Sultanet Of Oman
31.	016621	Mr. Nandi Dipak Kumar Vill : Sripur P.O. Sripur Bazar Hooghly - 712514	43.	050435	Mr. Kejriwal Dilip Kumar M/S D.K. Kejriwal & Co. 23/A, Netaji Subhas Road First Floor Room No - 6 Kolkata - 700001
32.	017854	Mr. Gupta Chittajit CL-83 Sector II Kolkata - 700091	44.	050570	Mr. Das Mrinal Kanti M.K. Das Associates 33-K, Manoharpukur Road Kolkata - 700029
33.	017964	Mr. Basu Asok Asok Basu & Co 55/1/B, Strand Road Room No - 7 3rd Floor Kolkata - 700006	45.	050623	Mr. Dasgupta Asok Kumar 4, Kasba Road (In Between Haltu Bazar & Tarun Service Station) Kolkata - 700078
34.	017993	Mr. Bhaumik Partha Prasad "Arindam" Flat - 1A 246/4, R.B.C. Road Kolkata - 700028	46.	050636	Mr. Ghosh Amit Dwarkin House Apartment EB-3, Baguiati Road Flat - 1B 1st Floor Kolkata - 700059
35.	021953	Mr. Venkateswara Rao K H.P. Apartment Flat No - 3/C 69/1, D.H. Road Beside Satkartar H.P. Petrol Pump Kolkata - 700038	47.	050648	Mr. Gourisaria Arun Kumar 29, Waterloo Street Kolkata - 700069
			48.	050678	Mr. Bir Pulin Kumar Dy. General Manager (Finance) QR No D-43 Nalco Nagar Township Dt. Angul Nalco Nagar - 759145

49.	050743	Mr. Mukhopadhyay Somesh Kumar 118, Vidyasagar Avenue Durgapur - 713205	62.	051944	Ms. Vasudharini N Group Financial Accountant Boder A1 Mulla Bros Po. Box - 177 Safat - 13002 Kuwait -
50.	050797	Mr. Chakraborty Nisith Ranjan Chief Manager IRR Dept Indiani Bank 66, Rajaji Salai Chennai - 600001	63.	052000	Ms. Dutta Pratima 1530 Garia Main Road Satyam Shivam Sundaram Hsg Complex Flat No - 23J. (Shivam) Kolkata - 700084
51.	050804	Mr. Aluni Arun Kumar "Ashoka" 111, Southern Avenue Kolkata - 700029	64.	052042	Mr. Mohita Ashok Kumar 2.B.B.D. Bag (East) 2nd Floor Kolkata - 700001
52.	051051	Mr. Banerjee Parthasarathi 255/2, Gariahat Road Jodhpur Park Kolkata - 700068	65.	052106	Mr. Agrawal Sanjay Kumar 74, Golf Club Road Sopphire Court Flat 4A Kolkata - 700033
53.	051208	Mr. Seth Dilip Kumar Sripur Bazar Dist : Hooghly Hooghly : 712514	66.	052275	Mr. Tyagi Lalit Morian Lalit Mohan Tyagi And Co. Lords - 511 7/1, Lord Sinha Road Kolkata - 700071
54.	051283	Mr. Das Gautam C/o DPSE Limited Plot No. X-1,2&3 Block-EP Sector V Salt Lake Electronic Complex Kolkata - 700 091.	67.	052334	Mr. Praveen Chand CC-111, Chandni Complex 1st Floor Panposh Road Rourkela - 769004
55.	051289	Mr. Umesh Anand 53-A Townshend Road Kolkata - 700025	68.	052345	Mr. Jhunjhunwala Rajesh 162/83, Lake Gardens Kolkata - 700045
56.	051344	Mr. Roy Shyam Sundar C/o Dr. P.K. Samanta 32, Cahanchal Sarani Kolkata - 700075	69.	052400	Mr. Chatterjee Bhargav 26/2, Hindustan Park Kolkata - 700029
57.	051359	Mr. Bandyopadhyay Partha Prasad 30/2, Banerjee Para Lane Dhakuria Kolkata - 700031	70.	052537	Mr. Jhanwar Arun Kumar I E Satyam 46D, Rafi Ahmed Kidwai Road Kolkata - 700016
58.	051452	Mr. Bhagat Jai Prakash Sagar Niwas Ushagram, Bhagatpara Dist - Burdwan Asansol - 703303	71.	052553	Mr. Sharma Santosh Kumar 47/7, Prince Gulam Hussain Shah Road Kolkata - 700032
59.	051672	Mr. Mohan J General Manager (Finance) AL Futtaim (Pvt) Ltd Po. Box - 152, Dubai (U.A.E)	72.	052570	Mr. Gangopadhyay Partha De & Ganguli 3/1, Mangoe Lane, 1st Floor Kolkata - 700001
60.	051765	Mr. Ghosh Dipak Kumar Orbit Equipment & Services Ltd. P.O. Box - 477333 Nairobi Kenya Africa	73.	052625	Mr. Singh Indra Mohari 700Blvd East # 4J Weehawken NJ 07087 USA
61.	051843	Mr. Mishra Abhay C/O M/s Rajesh Chaturvedi & Associates 337, Pamasree Pally Kolkata - 700060	74.	052729	Mr. Khaitan Anil Kumar 70A, Jatin Das Road Kolkata - 700029
			75.	052730	Mr. Kejriwal Bimal Kumar C/o M/s IDK Trading Co. 14, Pagaya Patti Street Kolkata - 700007

76.	052764.	Mr. Sipani Subh Karan Sipani & Co 3A, Mango Lane 2nd Floor Kolkata - 700001	89.	053922	Mr. Rout Tarak Chandra Office Of The GM Mahanadi Coal Fields Ltd Hingula Area, PO : Dera Angul - 759103
77.	052809	Mr. Chaturvedi Rajesh 337, Pamasree Kolkata - 700060	90.	054025	Mr. Saha Ashok F/F1 Haliara Road Jangra Kolkata - 700059
78.	052972	Mr. Banerjee Gulam G Banerjee & Co 255/2, Gariahat Road Jodhpur Park Kolkata - 700068	91.	054054	Mr. Mazumder Dhruba Finance Department Mahanadi Coalfields Ltd Po : Jagriti Vihar Sambalpur - 768020
79.	053337	Mr. Kajaria Ajay 88F, N.S.C Bose Road Tollygunge Kolkata - 700040	92.	054148	Mr. Barua Pradyut Kumar Manager (Finance & Accounts) Numaligarh Refinery Ltd Po : NRL Complex Assam Golaghat - 785699
80.	053363	Mr. Mansata Girish 32/1, Lenin Sarani Kolkata - 700013	93.	054235	Mr. Mukherjee Goutam 138/1, Prince Ghulam Hussain Shah Road Ground Floor Kolkata - 700032
81.	053385	Mr. Sen Gupta Partha Pratim M-5, Cluster X Purbachal Housing Estate Salt Lake City Kolkata - 700064	94.	054244	Mr. Seal Tapan Kumar 21/c, Deodar Street Kolkata - 700019
82.	053423	Mr. Chattopadhyay Atindra Nath Po. Radhanagar Road Downside Bumpur /13325	95.	054336	Mr. Tandon Vijay HB - 292/1 Salt Lake Sector - III Kolkata - 700091
83.	053427	Mr. Jha Shashidhar 63, Bentic Street 1st Floor Kolkata - 700001	96.	054340	Mr. Rajnish Ravi BD 273 Salt Lake City Kolkata - 700064
84.	053435	Mr. Ghosh Tapan Kumar 1, Asubabu Lane Kidderpore Road Kolkata - 700023	97.	054428	Mr. Loyalka Rajesh Kumar 162, Dr B. Banerjee Road Po : Raniganj Dist : Burdwan Raniganj - 713347
85.	053502	Mr. Ramesh S 1350, Kilmington Court Alpharetta Georgia 30004 USA	98.	054435	Mr Mangal Pradeep Kumar Rom No - C-458 4th Floor 71, B.R.B.Basu Road Kolkata - 700001
86.	053576	Mr. Jain Bijay Raj 32, Ezra Street Room No - 1062 10th Floor Kolkata - 700001	99.	054462	Mr. Mahapatra Akhaya Kumar Avishek Apatement Neelkant Nagar Bhubaneswar - 751012
87.	053595	Mr. Agarwal Shambhu Kumar Mangallam Apartment Flat No 1A 1st Floor P-888 Block A Lake Town Kolkata - 700089	100.	054503	Mr. Kumar Sasi M Director & Chief Executive Officer Bhatat Margarine Ltd. White House, 119 Park Street Kolkata - 700016
88.	053892.	Mr. Sen Biswaroop Sen & Khan 24F, Sankari Para Road Kolkata - 700025	101.	054597	Mr. Chakrabarty Chandan AE 106 Sector I Salt Lake City Kolkata - 700064
			102.	054640	Mr. Bagrodia Puneet 44, Ballygunge Circular Road Kolkata - 700019
			103.	054641	Mr. Sarkar Joy Flat No - 3B Block A 122, Ruby Park (East) Kolkata - 700078

104.	054642	Mr. Agarwal Pramod Kumar 137, Cotton Street 3rd Floor Kolkata - 700007	120.	055172	Mr Datta Somobrata Price Waterhouse Plot No. Y - 14 Block - EP Sector V Salt Lake Electronic Complex Bidhan Nagar Kolkata 700 091.
105.	054657	Mr. Ghosh Pradeep Kumar 11C West Row Park Circus Kolkata - 700017	121.	055183	Mr Agrawal Uday Kumar 26/2B, K C Road Kolkata 700 002.
106.	054690	Mr. Gupta Amar Nath C/o. B.M.Gupta CL - 137, Sector - II Kolkata - 700091	122.	055186	Mr Pandey Rajiv Kumar Flat No. B - 4 - E, Sneha Garden 28, Ray Bahadur Road Kolkata 700 053.
107.	054758	Mr. Chakraborty Prithul Mohini Apartment Flat No - 1D 1/K Sahid H.K.Bose Sarani Dum Dum Kolkata - 700074	123.	055325	Mr Banerjee Siddhartho Apartment / 14B , 111, Southern Avenue Kolkata 700 029.
108.	054768	Mr. Jhavar Sandeep 44, S.R.Das Road Flat 5A Kolkata - 700026	124.	055338	Mr Banthia Manoj Kumar 1012 "Krishna" 10 th Floor 224, A J C Bose Road Kolkata 700 033.
109.	054805	Mr. Mukherjee Sujyoti Chief Manager (Finance) Berger Paints India Ltd 129, Park Street Kolkata - 700017	125.	055526	Mr Mishra Uddendu C/103, Nirupama Apartment Nayapalli Bhubaneswar- 751 009.
110.	054811	Mr. Das Sandip 18/17B Fern Road Kolkata -700019	126.	055664	Mr Ghosh Sudipta 77, Lenin Sarani 1 st Floor Kolkata 700 013.
111.	054816	Mr. Agrawal Ashok Kumar 9/12, Lal Bazar Street 3rd, Floor Block - B Kolkata -700001	127.	055705	Mr Desikan Kumar 28/10/1B, Nakuleswar Bhattacharjee Lane Kolkata 700 026.
112.	054818	Mr. Nandi Abhijit 42, Moiradanga Road Kolkata - 700036	128.	055750	Mr Das Amar Jyoti M/s A J Das & Associates Amrabati Path Chrntian Basti Guwahati 781 005.
113.	054867	Mr. Sarbajana Prabir Kumara 342, Netaji Colony Kolkata - 700090	129.	055765	Mr Murarka Vivek 5/8, Sevak Baidya Street Kolkata 700 029.
114.	054891	Mr. Chatterjee Tarinmay 173/1Q, Picnic Garden Road Kolkata - 700039	130.	055804	Mr Barua Bhaskas Jyoti Assam Tea Brokers Pvt. Ltd. Rukmini Nagar G S Road Guwahati 781 006.
115.	054935	Ms. Dutta Jayanti 280A, Rashbehari Road Kolkata - 700019	131.	055816	Mr Sarkar Sumit 6/A S R Das Road Kolkata 700026.
116.	055094	Mr Dam Prantik Kumar 13/C, Bhattacharya Para Dist. 24 Parganas (N) Barrackpore 743 101	132.	055837	Mr Chakraborty Kajal 31/6/1, Banku Behari Ghosh Lane Belur Math Howrah 711 202.
117.	055133	Mr Bihani Chandra Kishor A-1-8, Karuanamyee Housing Estate Salt Lake Kolkata 700091.	133.	055882	Mr Marda Manoj Kumar M K Marda & Co. 328, Canal Street P.O. Sree Bhumi, 2 nd floor Kolkata 700 048.
118.	055153	Mr Narsaria Pradeep Kumar 36, Strand Road Room No.9A, 2 nd Floor Kolkata 700001	134.	055915	Mr Subudhi Sanjaya Kumar C/o S K Dubey House Cox Colony, Beheramal Jharsuguda.
119.	055157	Ms Jain Dimple P 68, CIT Road Kolkata 700014.			

135.	055961	Mr Basu Debjit Accounts Officer The Cotton Corporation Ltd. "Constantia" 3 rd Floor 11, Dr U N Brahmachary Street Kolkata 700 017.	150.	056628	Mr Vijayi Anil Kumar 101, D H Road Kidderpore Kolkata 700023.
136.	056022	Mr Neogi Sandip Manager Finance M/s. CA-TCG Software Pvt. Ltd. Bengal Intelligent Park Building A Block EP & GP, Sector V. Salt Lake Kolkata 700 091.	151.	056922	Mr Agarwal Sanjay C/o Sanjay V D & Co. Suit No.15 (3 rd Floor) Chopra House 133, Caning Street Kolkata 700 001.
137.	056040	Mr Bandyopadhyay Bikas Kumar 36, Raja Ram Chandra Ghat Road Post – Panihati Kolkata 700114.	152.	057041	Mr Majumdar Ashish 188/67, Prince Anwar Shah Road Kolkata 700 045.
138.	056065	Mr Vyas Devendra Kumar 138/2, Bhupen Roy Road Bliss Park, Behala, Manton Kolkata 700 034.	153.	057060	Mr Juthani Rajiv R 21, Kandedine Lane 3 rd Floor Bahu Bazar Kolkata 700 012.
139.	056086	Mr Chakraborty Partha Sarathi 67/A/7, Haran Banerjee Lane Hooghly Konnagar 712235	154.	057136	Mr Bansal Sunil Kumar 106, Kiran Chandra Sinha Road Gangesh Garden C – 2, 3 rd Floor Shibpur Howrah 711 102.
140.	056238	Mr Keshari Jitendra Kumar 10A, Krishanaram Bose Street Kolkata 700 004.	155.	057162	Mr Dalmia Rakesh Roshan C/o M/s Sree Cement Ltd. 21, Strand Road Kolkata 700 001.
141.	056201	Mr Kar Hrudananda 24/18, Saswat Bihar (Near VII H - 98) Sailasri Vihar Bhubaneswar 751 021	156.	057171	Mr Das Arunava C/o Mr Pabitra Kumar Das Rodali Path, Janakpur Kahilipara Guwahati 781 019.
142.	056320	Mr Yagnik Sudhir 169, Muktarlam Babu Street Kolkata 700 007.	157.	057174	Mr Sarawagi Suresh Kumar 37, Dr. Abani Datta Road Ganganchal Complex Howrah 711 106.
143.	056339	Mr Lal Anupam 116, Ashutosh Mukherjee Road, 4th Floor, Kolkata 700 025.	158.	057290	Mr Agarwal Nawal Kishor 52, Weston Street 5 th Floor, Room No.52 Kolkata 700 012.
144.	056377	Mr Jhanwar Girdhar Gopal 8/1A, D H Road 4 th Floor Kolkata 700027.	159.	057436	Ms Kedia Sunita 2, Rose Marry Lane Howrah 711 101
145.	056390	Mr Talukdar Shivaji C/o Berger Paints Berger House 129, Park Street Kolkata 700 017.	160.	057445	Mr Bhattacharyya Nisithes 9/1, Madhusudan Das Lane Shibpur Howrah 711 103.
146.	056472	Mr Bagchi Basab Prasad A-10/302, Post – Kalyani Nadia, Kalyani 741 235	161.	057464	Mr Suppal Vandna 1- Chandni Chawk Street Block B, (Brabourne Court) Kolkata 700 017.
147.	056571	Mr Biswanath Gattani 111, Cossipore Road Kolkata 700 002.	162.	057478	Mr Bandyapadhyay Arijit P-1, S B I Quarter L N Motilal Road Kolkata 700 061.
148.	056595	Mr Basu Parag 106/C, Block F, 1 st Floor New Alipur Kolkata 700053.	163.	057518	Mr Gupta Arun Kumar 232/B/4, G T Road Belur Bazar Howrah 711 202.
149.	056626	Mr Jha Nabin Kumar Hindustan Cables Ltd. 9, Elgin Road Kolkata 700 020.			

164.	057542	Mr Sen Sanjay 73, NABOBCR Toronto On MIB 221 Canada.	180.	057955	Mr Tulsian Gautam 4 Justice Dwarkanath Road Kolkata 700 020.
165.	057581	Mr Pal Biswajit Accounts Officer Indian Oil Corporation Ltd. Guwahati Refinery Nunmati, Guwahati 781 020	181.	057969	Mr Ray Dasgupta Dhritipriya 18/19, Fern Road Ground Floor Kolkata 700 019.
166.	057588	Mr Ghosh Hirak 358, Prince Anwar Shah Road Kolkata 700 045.	182.	057999	Mr Panigrahi Harekrushna N 1/342, IRC Village Bhubaneswar 751 015
167.	057629	Mr Chattopadhyay Sudip Kumar 15/4, Hindusthan Road Kolkata 700 029.	183.	058013	Ms Kapoor Deepa 7, Circus Avenue Flat No.7 Kolkata 700 017.
168.	057712	Mr Daga Sandip 47/1, Sir Hariram Goenka Street 3 rd floor Kolkata 700 007	184.	058017	Ms Bafna Kamal ONIC Holding SAOG Post - 2254 P C 112 Ruwi Sultanate of Oman
169.	057735	Mr Sharda Vineet 23A Netaji Subhash Road 2 nd Floor, Suit No. 13 Kolkata 700 001.	185.	058022	Mr Agarwal Rakesh Kumar 39, Strant Road 4 th Floor, Room No.75 Kolkata 700 001.
170.	057747	Mr Sandeep P 9, Bipin Pal Road Kolkata 700 026.	186.	058025	Mr Sinha Roy Dibyendu 27/21, Raja Rammohan Roy Road Kolkata 700 008.
171.	057755	Ms. Jain Jayshree P 68, C I T Road Kolkata 700 014.	187.	058046	Mr Agarwal Sandeep Akash Ganga Apartment AC - 287, Rabindrapalli Krishnapur Kolkata 700 101.
172.	057768	Ms Lala Chatterjee Jayita 20, Green Hill Close Finchley N 32 JS LONDON UK	188.	058051	Mr Garodia Rajesh Kumar 196/C, Chittaranjan Avenue Kolkata 700 007.
173.	057792	Mr Agarwal Dinesh Kumar 40, Weston Street 3 rd Floor Kolkata 700 013.	189.	058187	Ms Seth Twanni Flat No.4B, Basera 224/3, N S C Bose Road Kolkata 700 047.
174.	057872	Mr Acharya Jayadeva Accounts Officer NTPC TSTPP Post - Dipshikha Angul 759 147	190.	058191	Mr Banerjee Probal Kumar 13 H, Bullygunge Place East Kolkata 700 019.
175.	057873	Mr Tiwary Rakesh Kumar Flat No.1, Prince Tower 31/2, Govind Banerjee Lane Kolkata 700 033.	191.	058248	Mr Patni Sandeep Kumar 62B, Netaji Subhash Road 3 rd Floor Kolkata 700 001.
176.	057890	Mr Maheshwari Keshav Marshal House 5 th Floor, Room No.506 33/1, N S Road Kolkata 700 001.	192.	058301	Mr Mimani Nandan 23, Maharshi Devendra Road Kolkata 700 007.
177.	057897	Mr Dutta Sudipta Nath BE 39, Sector I Salt Lake Kolkata 700 064.	193.	058307	Mr Jain Saurabh 2D, Middleton Row Kolkata 700071.
178.	057942	Mr Gupta Bimal Kanta 2/24, Azadgarh, Regent Park Kolkata 700 040.	194.	058327	Mr Majumdar Chiradeep C/o Unitech Papers Mills Pvt.Ltd. 53A, Rafi Ahmad Kidwai Road Kolkata 700 016.
179.	057951	Ms Sengupta Debi 6, Dr. Satyanand Roy Road Kolkata 700 029.	195.	058411	Ms Prabhala Rashmi Lords 511 7/1, Lord Sinha Road Kolkata 700 071.

196	058444	Mr Dhanuka Pawan Kumar P- 295, C I T Road Scheme 4M Kolkata 700 085.	210	058957	Mr. Deorah Rupesh 5, Lower Rowdon Street 6th Floor Aakashdeep Kolkata - 700020
197	058456	Mr Pattwari Sunil Kumar P-97, Block B Lake Town Kolkata 700 089.	211	058981	Mr. Jain Pramod Kumar 51, Nalini Sett Road 6th Floor Room No - 18 Kolkata - 700007
198	058477	Ms Ray Nabanita 164/C/28/1, Lake Gardens 1 st Floor Kolkata 700 045.	212	059003	Mr. Sharma Rajendra Kumar 8, Guha Park Dt. Howrah Liluah - 711208
199	058481	Mr. Nayak Laxmibanta AT + P.O. Biswanathpur Via Golantra Orrisa Ganjam - 761008	213	059099	Mr. Mallick Rajarshi Charan 6, Arunoday Nagar Link Road Cuttack - 753012
200	058635	Mr. Shah Mukesh Kumar 424/1, G. T. Road Pilkhana (North) Kapur Gali, 2nd Floor Howrah - 711101	214	059111	Mr. Agarwal Anil C/o Mr. Nagar Mal Agarwal Gagandeep Appartments Flat 5A Block - A 493/B/2 G. T. Road (South) Howrah - 711102
201	058641	Mr. Poddar Vikas C/o Manish Enterprises 51, Chanditola Main Road Kolkata - 700053	215	059133	Mr. Bandyopadhyay Dibyendu p - 456C, I. T. Schme 47 Keyatala Kolkata - 700029
202	058664	Mr. Agarwal Shiv Nath 72, Bangur Avenue Block - A Kolkata - 700055	216	059176	MS. Shah Shalini 1st Floor Jeevandeep Complex S. R. C. B. Road Fancy Bazar Guwahati - 781001
203	058665	Mr. Dugar Paras Takar Complex 1st Floor Arunachal Prades Naharlagun - 791110	217	059305	Mr. Samuel Varughese Nalini Kutir Peyton Sahi Cuttack - 753001
204	058688	Mr. Arora Pankaj 21, Muktaram Babu Street 3rd Floor Kolkata - 700007	218	059350	Mr. Pathak Manoj Kumar Bansal Building Main Road Rourkela - 769001
205	058752	Mr. Arora Pankaj P - 92, Block - B 3rd Floor Bangur Avenue Kolkata - 700055	219	059423	Mr. Toshniwal Kapil 87/21N. K. Banerjee Street PO : Rishra Hooghly - 712248
206	058855	Mr. Singh Tarlok 13B/1, Mohanlal Bahalwala Road (Near Post Office) Bally - 711202	220	059431	Mr. Khastagir Udayan 26/8 Lake East 4th Road. Santoshpur Kolkata - 700075
207	058862	Mr. Ray Chaudhuri Prasun 4/1, Santalal Street Kolkata - 700030	221	059464	Ms. Agarwal Rashmi P - 141 C. I. T. Road Scheme VI M Kolkata - 700054
208	058872	Mr. Losaika Rajan Sr. Accounts Officer HPCL Industry House 10, Camac Street 7th Floor Kolkata - 700017	222	059482	Mr. Agarwal Vikas Kumar C/o Raj Kumar Agarwal 62 Santan Mistry Lane 4th Floor, Salkia Howrah - 711106
209	058882	Mr. Roy Soumya CL - 15 Sector - 2 Salt Lake City Kolkata - 700091			

223	059484	Mr. Bhattacharyya Subhayan 83 C/1A Chetia Road Kolkata - 700027	239	060381	Ms. Baid Meghana C/o Kesharichand Maheshkumar 14, Noormal Lohia Lane Kolkata - 700007
224	059512	Mr. Niyogi Siddhartha 2, Bireswar Banerjee Street Hooghly Bhadrakali - 712232	240	060461	Mr. Bubna Subhash Kumar Gagananchal Complex 37, Dr Abani Dutta Road Room No. 122 Ground Floor Salkia Howrah - 711106
225	059598	Mr. Tulsian Bishnu Kumar 2/35 Rajendra Prasad Colony Prince Anwar Shah Road Kolkata - 700033	241	060508	Mr. Chandak Abhishek M/s Prince Waterhouse B-3/1 Gillandra House 8, N.S. Road Kolkata - 700001
226	059635	Mr. Bajaj Manoj 418/3, G. T. Road (N) Pikhana Howrah - 711101	242	060509	Mr. Kedia Vikash Kumar C/o Jyoti Benachity Durgapur - 713213
227	059764	Mr. Roy Pradip Baliti Kuri (Seth Para) Howrah - 711402	243	060553	Mr. Agarwal Shyam Sundar M/s Shyam Kishan Agarwal & Co 54/5A Strand Road Om Bhawan 3rd Floor Kolkata - 700006
228	059781	Mr. Ghosh Kaustuv Kumar 4/1 Orient Row Park Circus Kolkata - 700017	244	060615	Mr. Kaushal Shekhar 62/A Kalikrishna Tagore Street Kolkata - 700007
229	059839	Mr. Agarwal Sanjay Kumar BE - 204 Salt Lake City Kolkata - 700064	245	060636	Mr. Saraogi Ishwari 78/1 Nimtolla Ghat Street Kolkata - 700006
230	059863	Mr. Patnaik Bala Mukunda 28/2 Gariahat Road (South) Kolkata - 700031	246	060712	Mr. Lohia Jitendra N.S.B. Road School More Chaw Complex Ranigang - 713347
231	059913	Mr. Bagla Prakash 218B, Chittaranjan Avenue Kolkata - 700006	247	060764	Mr. Purohit Ghanshyam P-7, Kalakar Street Kolkata - 700007
232	059990	Mr. Acharya Shovan Kumar Shanti Marg Hakimpura Angul - 759143	248	060804	Mr. Chaudhuri Avik D-3, Palash Apartments 15/1B Surah East Road Kolkata - 700010
233	060109	Mr. Chakraborty Suman 30, Fakir Para Road Kolkata - 700034	249	060813	Mr. Gilra Ashish Flat No - 701 37, Diamond Harbour Road Kolkata - 700027
234	060114	Mr. Baisya Manajit 111/5, Midnapur Road Girjapara Ranigung - 713347	250	060815	Ms. Navalakha Seema Flat No - 3 FE (Lotus Tower) Chitralakha Lane Usha Nagar Dispur Guwahati - 781024
235	060208	Mr. Saraf Rohit 11A, Kalakar Street Kolkata 700007	251	060816	Mr. Rout Rajesh Kumar Plot No - A/118 Saheed Nagar Bhubaneswar - 751007
236	060216	Mr. Agarwal Amit 113/1B, C. R. Avenue 8th Floor Kolkata - 700073	252	060831	Mr. Mohanty Debashisa 622, Rasulgarrh Sabar Sahi Bhubaneswar - 751010
237	060221	Mr. Bhalotia Lalit Kumar 71, Canning Street 4th Floor Room No - C - 452 Kolkata - 700001			
238	060332	Mr. Jhalaria Amit Kumar P - 122, Block B Lake Town Kolkata - 700089			

253	060880	Mr. Ray Sagarneel Price Waterhouse Plot Y - 14 Block - EP Sector V Salt Lake Electronic Complex Bidhari Nagar Kolkata - 700091	258	061191	Mr. Saraogi Raja 85, Balaram Dey Street Kolkata - 700006
254	060896	Mr. Rai Anand Prakash 152/7, Hardutta Rai Chamarla Road Howrah - 711101	269	061235	Mr. Khatua Guru Narayan C/o Ahed Ali Mondal 419/A Parichanan Tala Road Kolkata - 700041
255	060956	Mr. Gupta Suresh Kumar 40/1, Tahgra Road Block K-5 Kolkata - 700015	270	061237	Mr. Maheshwari Aditya Kumar Vardaan Market M.G. Road Khailpara Siliguri - 734405
256	060968	Mr. Kedia Ravi C/o Brij Chatrath 8, Circus Market Place Kolkata - 700017	271	061244	Mr. Shah Mahesh M/s Monohil (Pvt) Ltd. Lagos, Nigeria
257	060971	Mr. Dutta Prosenjit B/2, Regent Estate Kolkata - 700092	272	061284	Mr. Garita Satish Kumar S/o G. Rama Rao Powells Lane Berhampore 760022
258	060984	Mr. Goyal Sanjiv Kumar 27, Upendra Krishna Mondal Lane Tollygunge Phari Kolkata - 700033	273	061303	Mr. Ghosh Joydeep 10/D Mukherjee Para Lane Kolkata - 700026
259	061058	Mr. Bhattacharjee Raja 31, G.T. Road (North) 4th Floor Howrah - 711101	274	061325	Mr. Jain Sandeep C/o. The Jayshree Chemicals & Fertilisers Nand Bose Road Dist 24 Parganas (N) Kolkata - 700117
260	061067	Ms. Arora Minakshi 7E Garden Apts 25, Gariahat Road (S) Kolkata - 700031	275	061330	Ms. Mehta Minal 16/3 Round Tank Lane 3rd Floor Howrah - 711101
261	061070	Mr. Khan Belaluddin House No # 21 Apt. No. 5 Brooklyn Avenue PO : Box No. N - 7250 Nassau Bahamas	276	061360	Mr. Mohanta Mitra Bhanu C/o Uddhaba Charan Mohanta At: Basti Road Dist: Keonjhar Barbil - 758035
262	061080	Mr. Patni Manish 2 Ram Lochan Mullick Street Kolkata - 700073	277	061372	Mr. Sharma Vikash C/o Vinay Cements Limited 75C Park Street, 6th Floor Kolkata - 700016
263	061109	Mr. Gupta Sumit Block No : 59 Flat No - 1 Gopal Kunj Sher-e-Punjab Society Andheri East Mumbai 400 069.	278	061468	Mr. Keyal Ashish 5D Rameshwara Apts 19A Sarat Bose Road Kolkata - 700020
264	061123	Mr. Trivedi Amit Kumar 160, Mahatma Gandhi Road Kolkata - 700007	279	061497	Mr. Rawal Mihir 47/1A Shyambazar Street Kolkata - 700004
265	061141	Mr. Gupta Rahul 129/4 S.N.Roy Road New Alipore (South) Kolkata - 700038	280	061512	Ms. Deb Rima 52, Dhakuria East Road Kolkata - 700078
266	061143	Ms. Kapoor Moly 66, Block B Bangur Avenue Kolkata - 700055	281	061546	Mr. Agarwal Sunil Kumar 38, Parichanan Ghosh Lane 1st Floor Amherst Street Kolkata - 700009
267	061168	Mr. Sinha Nilanjan 11, Tala Park Avenue Kolkata - 700037	282	061610	Mr. Sharma Shrikant 4/25 Azad Ghar PO: Regent Park Kolkata - 700040

283	061621	Mr. Agarwal Ajay C/o M/s S.R. Batliboi & Co. 22, Camac Street Block - C, 3rd Floor Kolkata - 700016	297	062120	Mr. Sanwaria Shekhar C/o Lovelock & Lewes Salt Lake Electronic Complex Plot No - 4 -14(Bidhan Nagar) Block - EP Sector I Kolkata - 700091
284	061653	Mr. Ghosh Saugata 39/1, R.K. Street Flat No. 401 Uttarpara - 712258	298	062128	Mr. Agarwal Ashok C/o Jain Amar Store Main Road Rourkela - 769 001
285	061777	Mr. Agarwal Sanjoy Kumar C/O Binod Agarwal Sealdanga Kulti - 713343	299	062164	Mr. Saha Kiran 209, Purba Sinthee Road (Ghosh Para) Dumdum Kolkata - 700030
286	061796	Mr. Gutgutia Ravi C/o Mrs. A.D. Agarwal 74 Block - D, Bangur Avenue Flat No - 4B Kolkata - 700055	300	062169	Ms. Roy Chowdhury Srabanti C/o Prince Waterhouse Plot No Y - 14 Block - EP Sector - V Salt Lake Electronic Complex Bidhan Nagar Kolkata - 700091
287	061889	Mr. Agarwal Deepak Kumar 262/2 G.T. Road Lilua Howrah - 711204	301	062180	Mr. Agarwala Aditya Assistant Manager ICICI Bank Ltd Skystar Buildings Sevok Road Siliguri - 734401
288	061892	Mr. Jhunjunwala Jyoti 4A St. Anthony Koil Street T.V. Nagar (Anandha Inn Back Side) Pondicherry - 605003	302	062262	Ms. Lal Chandra Devjibhai 9, Khelat Ghosh Lane Opp. Lohia Hospital Kolkata - 700006
289	061934	Mr. Shah Rakesh 424/1, G.T. Road Kopur Goli Peel Khana 5th Floor Howrah - 711101	303	062299	Mr. Jhunjunwala Vikas Antra Apartment Block AE 8, Rabindra Pally Kestopur Main Road Kolkata - 700059
290	061945	Mr. Sharma Hemant Kumar 29, Mullick Street Burrabazar Kolkata - 700007	304	062336	Mr. Pradhan Ramesh Chandra Flat No. 202 2nd Floor Sidhartha Tower Ravi Talkies Square Bhubaneswar - 751002
291	061985	Mr. Seksaria Rohit 13, Jelia Para First Bye Lane (4th Floor) Ramkrishnapur Howrah - 711101	305	062352	Mr. Sharma Sandeep Vrindavan Garden Block A, Flat 4/C Pranami Mandir Road Punjabi Para, Siliguri - 734401
292	062002	Mr. Pattanaik Durga Prasad 201, Ganapati Tower Bomikhal Bhubaneswar - 751010	306	062388	Ms. Harlalka Neha C/o Mr. P.K. Harlalka 196/C Chittaranjan Avenue Kolkata - 700007
293	062024	Mr. Sharma Sumit Muktaram Babu Street Kolkata - 700007	307	062416	Mr. Rathi Dinesh Manager ICICI Bank Ltd. 2B Gorky Terrace Kolkata - 700017
294	062030	Mr. Jain Jogesh C/o C.B.M. Securities Nutanganj Kangramath Bankura - 722101	308	062424	Mr. Choudhary Sandeep C/o M/s BP/ Agarwal & Associates Chartered Accountants 408 Kamalalaya Centre 156A Lenin Sarani Kolkata - 700013
295	062041	Mr. Bagla Pankaj 218B, Chittaranjan Avenue Kolkata - 700006	309	062541	Mr. Barik Prashanta Kumar C/O Shri Prabhudatta Mishra Flat - 4 Pravati Apartment 40/15 Moore Avenue Kolkata - 700040
296	062080	Mr. Chatterjee Kaushik 59B, Ashutosh Mukherjee Road 1st Floor Kolkata - 700025			

306	062544	Ms. Sirkar Mou 131/B Bow Bazar Street Kolkata - 700012	324	072857	Mr. Sipani Prasan Kumar Thai Carbon Black Co. Ltd PO Box # 1, 44 Moo 1, Posa Muang, Anthong 14000 Thailand - 10330
311	062554	Mr. Lodha Sanjay Kumar C/o Mr. Anil Kumar Kedia 161/1 M.G. Road (1st Floor) Room No - 18 (Bangur Building) Kolkata - 700007	325	074479	Mr. Agarwala Nanda Kishore Chariot Cement Co. Industrial Estate Dist : Sundergarh Kalunga - 770031
312	062571	Mr. Kedia Samir 207, Bangur Avenue Block No - A Kolkata - 700055	326	074570	Mr. Sengupta Asim Sangeeta Apartments (Bldg No. 1) Flat No. 7 3rd Floor 22/23 Feeder Road Belgharia Kolkata - 700056
313	062589	Mr. Jaiswal Sunil 31/3C Harituki Bagari Lane Kolkata - 700006	327	080965	Mr. Goel Ram Kumar Bansal Building Main Road Rourkela - 769001
314	062649	Mr. Dutta Debraj 7/25 Netaji Nagar PO: Regent Estate Kolkata - 700092	328	086042	Mr. Istakur Rahman C/o. Mrs. Talebuddin Ahmed Faiz Ahmed Road Machkhowa Guwahati - 781009
315	062667	Mr. Patro Kishore Kumar Rampa Street Dist : Ganjam Berhampur - 760001	329	090952	Mr. Maheshwari Sudhir J.K. Papers Mill Q17 B Jayakar Pur Dist. Rayagada Rayagada - 765017
316	062690	Mr. Jain Rahul C/o Pradeep Jain 43, Brijdulal Street 1st Floor Kolkata - 700006	330	093202	Mr. Parida Sanjay Kumar B - 167 Dist : Angul Nalco Nagar - 759145
317	062700	Mr. Serapati Prafulla Kumar C/o Shri N.G. Nath Flat No - 101 Madhab Nilayam Apartment Lewis Road Bhubneswar - 751014	331	093246	Mr. Bansal Manoj Kumar Bansal Building Main Road Rourkela - 769001
318	062763	Mr. Jain Rishabh Takar Complex 1st Floor Arunachal Pradesh Naharlagun - 791110	332	094136	Mr. Pattanayak Rajib Lochan At / PO Sainkul Orissa Keonjhar - 758043
319	062784	Ms. Saraf Payal Block BL - 16 Sector - II Salt Lake City Kolkata - 700091	333	094490	Mr. Shah Sanjeev 410/1 Block - G Flat - 6 New Alipore Kolkata - 700053
320	062910	Mr. Jain Marish C/O Sharma Mansion 14, Rameshwar Malia Lane 3rd Floor Howrah - 711101	334	095078	Mr. Singh Surojit Deo Nivas Courtpetta (G M) Berhampur - 760004
321	062980	Mr. Agarwala Rajesh Room No - 107 T.C. Lekharu Market Opp : Rupashree Cinema A.T. Road Guwahati - 781001	335	097741	Mr. Prasad Saty Narayan 311/1B Ground Floor Prince Anwar Shah Road Kolkata - 700045
322	063007	Mr. Chaudhuri Aniruddha CS 2/1 Phase - 1 Golf Green Urban Complex Kolkata - 700095	336	098526	Mr. Gupta Ashok Kumar Room No - 6 Ramkrishna Bayan Siksha Sangha 2nd Floor Panitanki More Sevcke Road Siliguri - 734401
323	070930	Mr. Guha Tarun Kumar Beri Pukur Village Chandan Hati PO: Badu Dist : 24 PGS. North Barasat - 743202	337	098671	Mr. Pant Kapil Indian Oil Corporation Ltd (Pipeline Division) Guwahati Siliguri Product Pipeline PO: Noonmati Guwahati - 781020

	100166	Mr. Banerjee Uttio Sunny View Point 2nd Floor 61 - R Suren Sarkar Road Kolkata - 700010	342	204348	Mr. Mohanty Hara Prasad Block 108 # 05 - 703 Saragoon North Venue 1 Singapore - 550108
339	101396	Mr. Shah Kaushal Prankumar AD - 74 Sector - I Salt Lake City Kolkata - 700064	343	206029	Mr. Jose Joseph Manager Finance - Metal & Power Indian aluminium Company Limited 1 Middleton Street Kolkata - 700071
340	102171	Mr. Pati Biswajit D - 55 Maitree Vihar Ground Floor PO : E.C. Railway Colony Bhubaneswar - 751023	344	212170	Mr. Jena Ram Pada C/o Shankar Nath Saobjana Plot No - 1043 At : Laksmisagar (Near Trinath Temple) PO: Budheswari Bhubaneswar - 751006
341	113382	Mr. Sanghai Sumit Kumar ICICI Bank Limited 2B Gorky Terrace Gorky Sadan Kolkata - 700019			

DR. ASHOK HALDIA
Secy.

EMPLOYEE'S STATE INSURANCE
CORPORATION
New Delhi-02,

No.U-16/53/2005/(Kerala) : - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Kerala for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
Dr. M.G. Yesudasan	7.8.2006 to 6.8.2007	Kottarakkara

DR. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

**EMPLOYEE'S STATE INSURANCE
CORPORATION**

New Delhi, the 27th September 2006

No. U-16/53/PTMR/Mumbai/Med II.—

In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Sr. State Medical Commissioner, Mumbai for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
1. Dr. S.R. Karnalkar	1.10.2006 to 30.9.2007	Chalishaon (Maha)

DR. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI 110058 26th SEPTEMBER, 2006

No. 20-10/2005-S.R.(Kerala) Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) maintained a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Kerala and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby directs that the Central Register of Indian Medicine shall be published in the Gazette of India for general information.

Note:- Every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Kerala) from January 1997 to February 2005 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

P. R. SHARMA
Registrar
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

KERALA

PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
91769	Abdul Hafeel. A. M Mohinudheen. A. K	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1998	7323 12/02/01	Ambalath, Thoyakkevu PO, Thrissur (dt)
91770	Abdul Khadar. P. K. Yousuf Haji	BAMS Univ. of Kerala 1999	7072 10/12/99	P. K. House, Thariode North Post, Wynadu(dt), Kerala
91771	Abdul Khader. P. T Abdul Hameed. P. T	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7154 08/06/00	Kizhakkakalathi House, Triprangode P.O., Malappuram(dt), Kerala
91772	Abdul Muneer. E. Hydru. E.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7181 05/07/00	Elilkkal House, Chemmaram, Nadiuvath P.O., Wandoor Via, Malappuram(dt)
91773	Abdul Rafeeq. O. P Kunhalan Kutty. O. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7751 28/12/02	M. V. S. Ayurvedic Research Centre, Bye Pass Road, Kondotty, Malappuram(dt)
91774	Abdul Rasheed Valiyapoyil Pottammal Koyakutty. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7407 04/07/01	Valiyapoyil Pottammal, South Arayanikode, Vellalassery P.O., R. E. C. Via, Kozhikkodu(dt)
91775	Abdul Saboor. P Abdul Shukkoor	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7766 31/12/02	Shukriya, Parappur P.O., Kottakkal, Malappuram(dt), Kerala
91776	Abdul Sherif. A. M. NA	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7085 10/12/99	Ammanath House, Manalithara P.O., Thrissur(dt), Kerala
91777	Abdul Sukkur. M. Mohamed Abdul Kharim	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7110 23/12/99	Pulari House, Kolaranmokku, Coyalimanna P.O., Palakkad(dt), Kerala
91778	Abdul Waris. M. Ibrahim. M.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7182 05/07/00	11/320-A, Edaparathy, Kolathara P.O. Kozhikkodu(dt), Kerala
91779	Abdunnassar Abdulla Elayadath	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8293 25/01/05	Pulickal House, Paanippara P.O., Edavanna Via, Malappuram(dt), Kerala
91780	Abhilash. K. H Haridas. K	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7503 24/01/02	Kandan Kumarath Yalappil, Pulpalay P.O. Wynadu(dt), Kerala
91781	Abhilash. M Bhaskaran. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7820 08/06/03	Haritha, Santhi Nagar, Parappur P.O., Kottakkal, Malappuram(dt), Kerala

91782	Abhilesh. M. J Jacob. M. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7740 27/12/02	Muthuppeedika House, Gramodharanam Road, Ollur, Thrissur(dt), Kerala
91783	Abhilesh. S. R Raveendran. P. G	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7490 27/12/01	S. N. V. Bunglow, Pathanapuram, Kollam(dt), Kerala
91784	Abhiman. P. M Pacher. P. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7640 15/07/02	Ambat House, Cheruvannur P.O., Meppayur Via, Kozhikodu(dt), Kerala
91785	Aboobaker. P. A Abdul Rahman	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6979 20/02/99	Pakyara House, Udma PO, Kasaragodu
91786	Absar Mohammed. P. A Abdul Rahman. P	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2003	7839 11/07/03	Absar Mahal, Irimbillyam P.O., Valancheri Via, Malappuram(dt)
91787	Abu J. Mangalasseril Abu Joseph Mangalasseril	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2005	8315 23/02/05	Mangalasseril House, Mudavoor P.O., Muvattupuzha, Ernakulam(dt), Kerala
91788	Abubecker K. Kunharakutty	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8007 12/04/04	Kunduvayal House, Jarathingal, Kadapuzha P.O., Malappuram(dt), Kerala
91789	Aby Philip Philip Abraham	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7625 10/07/02	Varickanikuzhiyl House, Varambetta P.O., Wynadu(dt), Kerala
91790	Achuthan P. Kaliyodan P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8053 27/07/04	Panachikkal House, Edappetta P.O., Melattur Via, Malappuram(dt), Kerala
91791	Agnes Cleetus Cleetus. K. J	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6993 06/03/99	Kalluveetil House, Eliathuruth P.O., Laloor, Thrissur(dt), Kerala
91792	Ajai. P. J Jayaprakashan. P. K	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7221 04/08/00	Pulachikkattil House, Hospital Road, Mannarkkad PO, Palakkad(dt), Kerala
91793	Ajalkumar. K. S. Subramanian. K. V.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7157 08/06/00	Kunnathully House, Edakkalathur P.O., Thrissur(dt), Kerala
91794	Ajay. P. Vasudevan	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1996	7142 31/03/00	Palleeri House, Koottenad P.O. Palakkad(dt), Kerala
91795	Ajayakumar. S. Sreedharan. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7254 21/10/00	S. N. V. Sadanam, Chakkuvarackal P.O. Kollam(dt), Kerala

91796	Ajayan. U Unnikrishnan. P	BAMS Univ. of Kerala 2000	7287 22/11/00	TC 27/1937, Sreevalsam, Chirakulam Road Puthen Road Jn, Thiruvananthapuram
91797	Aji Alexander Alexander. C. J.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7018 16/07/99	Kochupurackal House, K. P. 1-194, Muttada PO, TVM-25 Thiruvananthapuram
91798	Aji Kumar. V. P Kurup. V. G. P	BAMS M.G Univ., Kottayam 1996	6734 22/01/97	SIB Complex, QTR. No. III/1, Karshaka Road, Ernakulam(dt), Kerala -
91799	Ajith . P. R Peethambaran. P	BAMS Univ. of Kerala 2001	7445 15/09/01	Cherukara Veedu, Chekkalavilakam, Kadakkavoor PO, Thiruvananthapuram(dt)
91800	Ajith A. K. V. Ramachandran Nambiar	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8301 25/01/05	Sri Devi, Pallikkara Road, Periya P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
91801	Ajith Jose Kuttikkat Jose. K. J	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7545 16/03/02	Thalakkottukara P.O., Kechery Via , Thrissur(dt), Kerala
91802	Ajith Kumar. M. L Madahavan Nair. K	BAMS Univ. of Kerala 1997	6745 07/02/97	Plavila Malay Puthen Bungalow, Kazhivoor P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala.
91803	Ajith Kumar. R. Raveendra Kurup	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1999	7134 03/03/00	Arun Nivas, Navalikulam P.O. , Thiruvananthapuram (dt), Kerala
91804	Ajith Kumar. T. P Pavithran. T. K	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1996	6750 29/03/97	Thiruthekkattu, Kurupankulagara PO Chert P.O., Cherthala ,Alappuzha(dt), Kerala-
91805	Ajith Kumar. V Chandran Vaidyar. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7621 09/07/02	Sindhu Nivas, Thiruvail P.O., Manjeri Via ,Malappuram(dt), Kerala
91806	Ajith. K. S. Sankaran Namboodiripad. K. N.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7089 10/12/99	Kanippayoor Mana, Brahmakulam P.O. Thalakkad via , Thrissur(dt), Kerala
91807	Ajith. V Vijayakumar. B	BAMS Univ. of Kerala 2002	7581 07/06/02	Ajith Bhavan, Pullurkonam, Vizhijam P.O., Neyyattinkara , Thiruvananthapuram
91808	Ajitha. T. R. Thathammal Ramu. T. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7654 16/07/02	Thathammal House, Pallapram, Ponnani P.O. ,Malappuram(dt), Kerala
91809	Ajithkumar. K. C Koran. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7354 15/03/01	Aras Bhavan, Near A. K. G. Stadium, Kuttikkol PO., Thaliparamba Via Kannur(dt)

91810	Ajlithkumar, V. S Vasudevan Nair	BAMS Univ. of Kerala 2001	7467 06/11/01	Susee Nilayam, T. C. 50/427, Kalady, Karamana PO, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
91811	Aju G. George A. George Kutty	BAMS Univ. of Kerala 2004	7960 06/02/04	Vattavila Veedu, Placode, Edakkidom PO, Ezhukone Via, Kollam(dt), Kerala
91812	Ajumal A. M. Ahammed Kunju Leeba	BAMS Univ. of Kerala 2004	7980 09/03/04	Noormanal, P. V. North, Thazhava P.O., Karunagappally, Kollam(dt), Kerala
91813	Ambika K. R. G. Muraliedharan Pillai	BAMS Univ. of Kerala 2004	8174 25/10/04	Kochupanangattu Veedu, Kunnathoor P.O., Kollam(dt), Kerala
91814	Ambika Sony V. N. Lakshmanan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7979 09/03/04	Varisseril House, Bhoothanham Colony PO, Pulpally, Wynadu(dt), Kerala
91815	Ambilil K. K. P. Karunakaran	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7884 28/11/03	Kavinal House, Ulavukkadu, Nooranad P.O., Alappuzha(dt), Kerala
91816	Ambilil Prabhakar Prabhakaran Nair, A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7419 11/07/01	Tripura House, Chungathara P.O., Malappuram(dt), Kerala
91817	Ambili Das. N Das. N. C	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7592 10/06/02	Neelan Kavil House, Kayakundu Road, Angadippuram, Malappuram(dt), Kerala
91818	Amjath S. Sasidharan K.	BAMS Univ. of Kerala 2004	8181 25/10/04	Charuvilaputhen veedu, Kilikolloor P.O., Punthalathazham, Kollam(dt), Kerala
91819	Amritha S. Somanathan T. S.	BAMS Univ. of Kerala 2003	7862 10/10/03	Sivaravindam, K.P. 8/359, Karakulam P.O., Thiruvananthapuram(dt)
91820	Amrutha. R. Nair Ramachandran Nair, P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7825 06/06/03	Amrutha Raj Vihar, Varappetty P.O., Kothamangalam, Ernakulam(dt), Kerala
91821	Amuda. G. R. Gopinathan Nair	BAMS Univ. of Kerala 1999	7023 17/07/99	Gokulam, Pakaloor, Pallichal P.O., TVM-20, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
91822	Anand Thomas Thomas. K. P.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1998	7013 28/4/99	Kallurekkal House, Kallupalam Road, Angamaly, Ernakulam(dt), Kerala
91823	Anand. V Sethu Madhavan. K. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7818 06/06/03	Athulya, Kovilakam Road Kottapapdi, Kottakkal, Malappuram(dt), Kerala

91824	Ananda Lakshmy, K. N Krishnan Nair, R	BAMS Univ. of Kerala 1996	6915 18/08/98	'Nirmal' E-24, Sastrinagar, Karamana, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
91825	Anandaraman P. V. Venkittarama Sharma P. A.	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8029 17/05/04	Anantha Nivas, Pady P.O., Kodaly, Thrissur(dt), Kerala
91826	Ancy P. Sunny Sunny, P. J	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6862 24/04/98	Quarter No. A-17, Fact Township, Udyogamandal, Emakulam(dt), Kerala
91827	Angana T. T. T. T. Aravindakshan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8215 15/12/04	Perilamkandiyil House, Pudukpanam P.O., Vatakara, Kozhikkodu(dt), Kerala
91828	Ani Padmanabhan Padmanabhan, T. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6951 22/12/98	Thalamittithe House, Edavanakkad P.O., Emakulam(dt), Kerala
91829	Anil Alexander Alexander, T. K	BAMS Univ. of Kerala 2001	7390 29/05/01	Padloppurackal Thenguvilayil, Komalloor P.O., Charumoodu Via, Alappuzha(dt)
91830	Anil Kumar S. Sivakumaran Nair P. R.	BAMS Univ. of Kerala 2004	7964 01/03/04	Siva Radha, District Court Ward, Thathambally PO, Alappuzha(dt), Kerala
91831	Anil Kumar, R Raghavan, G.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7258 24/10/00	Mangilvil Veedu, Muroorkonam, Venjeramoodu PO, Thiruvananthapuram(dt)
91832	Anil V. Kaimal Vasudeva Kaimal, T. N	BAMS Dr. MGR Med. Univ Chennai 1996	6902 22/06/98	'Sreenilayam', Thrikkariyoor P.O., Kothamangalam, Emakulam(dt), Kerala
91833	Anil, G Govinda Shenoy, V.V	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6794 06/08/97	Valiya parambuputhen Madham, Kalady Road, Perumbavoor, Emakulam(dt), Kerala
91834	Anila M. S. Muralieedharan Nair	BAMS Univ. of Kerala 2004	8185 25/10/04	Sruthi A-62, Sreenagar, Venchavode, Sreekariyam, Thiruvananthapuram(dt)
91835	Anila, R. S Ramachandran Nair, S	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2001	7426 17/07/01	Suravilla, K. P. Lane, Peroorkada P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
91836	Anilkumar, P Prasanna Kumar	BAMS Univ. of Kerala 2001	7389 29/05/01	Manail Padinjattathil, Kureepuzha, Kavanadu P.O., Kollam(dt), Kerala
91837	Anish George Mathew Kurias Mathew Kurias	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2001	7469 06/11/01	Kurias House, Kattampack P.O., Kottayam(dt), Kerala

91838	Anitha Mathew Mathew. T. C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7694 21/10/02	Thalakulathil House, Athlodi P.O., Koorachundu, Kozhikkodu(dt), Kerala
91839	Anitha Sukumar. K. Sukumaran. K. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7011 08/04/99	W/o Peethambaran. N.N., Nelliparambil House, Elthuruth P.O., Thrissur(dt)
91840	Anitha Varghese Varghese. E. T	BAMS Univ. of Kerala 1997	6772 15/05/97	Ettutharayil Puthen Veedu, Perungala PO, Kayamkulam, Alappuzha(dt), Kerala
91841	Anitha. V Sahadevan. M	BAMS Univ. of Kerala 1998	6910 17/08/98	Lekshmi Mandiram, Cherussery Bhagam, Chavara P.O., Kollam(dt), Kerala
91842	Anjali Sivaram Sivaraman Nair. P. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7521 14/03/02	Vrindavan, Chalakkara, New Mahe, Mahe, Kozhikkodu(dt), Kerala
91843	Anjali V. G. Balakrishna Kurup	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8087 13/09/04	Puthoor House, Kavumbhagam P.O., Thiruvalla, Pathanamthitta(dt), Kerala
91844	Anjana Krishnan Radhakrishnan Nair	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8160 13/10/04	Swapna Nivas, Sastri Road, Vaduthala, Cochin, Ernakulam(dt), Kerala
91845	Anjana N. V. N. Narayana Pillai	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8132 25/09/04	Nambiyannathu House, Fathimapuram P.O., Changanassery, Kottayam(dt), Kerala
91846	Anjana Nambiar T. K. Nambiar	BAMS Goa Univ., Goa 2003	8314 23/02/05	Cotton Hill Road, Varsha, Tiruvannur, Kozhikkodu(dt), Kerala
91847	Anjana Ramachandran Ramachandran Nair	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1999	7138 31/03/00	Narayana Mandiram, Ooramana P.O., Ernakulam(dt), Kerala
91848	Anjana. N Narayanaswamy. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7250 16/09/00	Neelamana Roshni, Irtvellur P.O., Chelalur, Kozhikkodu(dt), Kerala
91849	Anju C. Nair Chellappan Nair	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8098 13/09/04	Ezhakunnei House, Kizhakkombu P.O., Koodattukulam, Ernakulam(dt), Kerala
91850	Anju Thomas Thomas V. J.	BAMS Univ. of Kerala 2004	7955 03/02/04	Anjaly, T.C. 13796, Vadayakkadu Jn., Kunnukuzhy PO, Thiruvananthapuram(dt)
91851	Anjunath A. Padmanabhan P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7893 05/12/03	Kanakashree House, Near Anakkuzhikkara, Povattuparamba P.O., Kozhikkodu(dt) Kerala

91852	Anna Paul. K Paul Joseph. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7742 27/12/02	Kizhakkadath House, Thykattussery P.O. Ollur, Thrissur(dt), Kerala
91853	Anoop. V. R. Ramachandran. V. A.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	7035 17/09/99	Venmenad House, Pavaratty P.O. Thrissur(dt), Kerala
91854	Ansy Mathew Mathew. P. G.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7001 06/03/99	Puthenpurackal House, Poothole P.O., TCR-4, Thrissur(dt), Kerala
91855	Antony K. A. K. I. Augustine	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	7989 29/03/04	Kachipilly House, Kodungallur, Thrissur(dt)
91856	Anupa. G Pankajakshan. T. N	BAMS Univ. of Kerala 2001	7455 18/10/01	Ampady, Thonnalloor, Pandalam P.O. Pathanamthitta(dt), Kerala
91857	Anupama Krishnan Anantha Krishnan	BAMS Univ. of Kerala 2002	7594 10/06/02	Anandapadman, Eddakode, Nemom P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
91858	Anupama. V. K Mohandas. M. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7529 14/03/02	Sreenilayam, Oorakam Meimur P.O. Malappuram(dt), Kerala
91859	Anurag Talwar Kallash Talwar	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 1998	7043 25/09/99	Devi Kripa, Dhanvantari Nagar, C. N. Puram P.O., Palakkad(dt), Kerala
91860	Anzi M. S. A. K. Mohammed Kunju	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8214 22/11/04	Shaneena Manzil, Milk Society Road, B. Street, Nananthavady PO, Wynadu(dt)
91861	Aparna Das T. R. S. Das	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7987 09/03/04	Kunnumpurath, Vazhuvady, Thazhakara P.O., Mavelikkara, Alappuzha(dt), Kerala
91862	Arathi. P.S Sundara Gowda. P	BAMS, MD Univ. of Mysore, Mysore, Univ. of Kerala 1990, 1994	6944 23/11/98	Kanakampallam Farm, Nallepilly Post, Palakkad(dt), Kerala
91863	Aravindh. A. V Vasu. A. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7775 01/02/03	Alappat House, Arimpur P.O., Thrissur(dt), Kerala
91864	Arifa. V. P Aboobacker. V. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7763 31/12/02	Valupoyil House, Kakkavayal P.O., Kalpetta Via, Wynadu(dt), Kerala
91865	Arsallen Nisam Kabir Kabir. V. C.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7252 10/10/00	Nizam Cottage, Vadakkenchey P.O., Alathur, Palakkad(dt), Kerala

91866	Arshad, P Abdul Salam, P. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7350 13/03/01	Darussalam, Kuruppath, Kondotty, Malappuram(dt), Kerala
91867	Arul Jyothy, R Raja Singh, V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7826 06/06/03	Kizhakke Veedu, Thatamala P.O., Kollam(dt)
91868	Aruna, S. S Namboothiri, K. S	BAMS Univ. of Kerala 2000	7224 10/08/00	Shreyas, T. C. 34/735, SRA-48, Vattiyoor kavu PO, Thiruvananthapuram(dt)
91869	Arundhathy, K. S Sankaran, K. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7459 18/10/01	Kuttoth House, Edathirinjil P.O., Irinjalakuda Via, Thrissur(dt), Kerala
91870	Arunkumar, R. RamaKrishnan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8217 15/12/04	Arunodayam, Mulesherfchira, Muhamma Post, Cherthala, Alappuzha(dt), Kerala
91871	Arunkumar, V Vasu Achary, R	BAMS Univ. of Kerala 1998	6961 24/12/98	Valliya Veedu, Arakulam PO, Idukki(dt)
91872	Arya P. E. P. E. Krishnan Namboodiri	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8318 23/02/05	Thakkattumana, Anandapuram, Thrissur(dt)
91873	Asha Bohra Bhirm Singh Bohra	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8123 25/09/04	Vill Mudiyan, P.O. T.Q. Dt. Champawet, Uttaranchal State
91874	Asha George Thomas George Thomas	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8195 06/11/04	Medolli House, Pulled P.O., Thiruvalla, Pathanamthitta(dt), Kerala
91875	Asha Rani, M. S Ayyappan, M	BAMS Univ. of Kerala 2001	7453 04/10/01	26, Kalpaka Nagar, Chackal, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
91876	Asha Rani, S. S Sivanandan	BAMS Univ. of Kerala 2001	7398 11/06/01	K. V. Nivas, Ayathil P.O., Kollam-17, Kollam(dt), Kerala
91877	Asha, A Appukkuttan Pillai, R	BAMS M.G. Univ., Kottayam 1996	6725 16/01/97	Geetha Bhavan, Chothipara P.O., Idukki(dt) Kerala
91878	Asha, P Peethambaran, P. E	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7201 05/07/00	Asha Mandiram, Ravipuram Road, Kochi, Ernakulam(dt), Kerala
91879	Asha, P Sadanandan, P. K	BAMS Univ. of Kerala 2002	7716 19/11/02	Puliyasseril Mana, Mannarkkad, Palakkad(dt), Kerala

91880	Asna. S Karunakaran. P. K	BAMS Univ. of Kerala 2003	7772 01/02/03	Panachavilayil House, Malika, Thattayil PO Pandalam Via , Pathanamthitta, Distt. Kerala.
91881	Asha. S.T Thyagarajan. C. S	BAMS Univ. of Kerala 1997	6780 20/05/97	'Vrindavanam', Indira Gandhi Road, Kurakkanny, Varkala
91882	Ashida Vasudevan Vasudevan. C. H	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1997	6800 06/08/97	POThiruvananthapuram 'Rohini', Patturaikkal , Thrissur Kerala
91883	Asish Raphael. P Rappai. P. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7738 27/12/02	Paramban House, Chiyaram P.O. , Thrissur(dt),Kerala
91884	Askar Ali Thodengal Mohammedali. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7626 10/07/02	Thodengal House, Aripa PO Angadippuram ,Malappuram(dt),Kerala
91885	Aswathy Mohan Mohanan Pillai	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8089 13/09/04	Ushas, Adooparambu, Muvattupuzha , Ernakulam(dt),Kerala
91886	Aswathy. S Rajendran Nair. K	BAMS Univ. of Kerala 2001	7514. 28/01/02	Anjali, Temple Road, Thiruvallam P.O. Thiruvananthapuram(dt),Kerala
91887	Athira Panicker Ravindranatha Panicker. K. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7672 26/07/02	Devi Kripa, Ambattupalayam, Chittur College P.O. , Palakkad(dt),Kerala
91888	Augustin Fidalis. E Edward Fidalis	BAMS Univ. of Kerala 2002	7746 28/12/02	Renu Nivas, T. C. 45/865, Waits Road, Vallathura, Vallakadavu P.O. , Thiruvananthapuram
91889	Azmi. M. Raj Mohammed Raja	BAMS Univ. of Kerala 2003	7808 04/06/03	Hidayath, Alissery Ward ,Alappuzha(dt), Kerala
91890	Bebitha E. Gopalekrishnan K.	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	7968 03/03/04	Manohar House, Civil Station P.O. Kozhikkodu(dt),Kerala
91891	Bebithakumari. V. Haridasan Nair	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7131 03/03/00	Kallasamandiram, Kottakkal , Malappuram(dt),Kerala
91892	Beby Subhedra. K Ramakrishnan Embanthiri	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7328 28/02/01	Narayanalayam, Thrikkalangode P.O., Manjeri ,Malappuram(dt),Kerala
91893	Beiju. P. R Raghuvaran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7555 18/03/02	Pallathery House, Murikkingal P.O. Thrissur(dt),Kerala

91894	Bajisen Vallabhassery, R Rudradeva Panicker	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6812 20/09/97	Vallabhasseri House, Pallam P.O. Kottayam(dt), Kerala -
91895	Belakrishnan, M. T Thankatu, M. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7304 11/01/01	Mekkottil House, Pelakkattupayyoor, Koonammoochi, Thrissur(dt), Kerala
91896	Belamurall Gopalakrishna Bhat. V	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1997	6810 20/09/97	'Giriniwas', Edneer P.O., Chengala Via, Kasaragodu(dt), Kerala
91897	Balasubrahmanian, P Pasupalan, G	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7832 12/06/03	Thattatante Kizhakkathil, Mangad P.O Kollam(dt)
91898	Balasubramanya, S Harikrishna Bhat S	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1994	6811 20/09/97	Siddanakere House, Mullyur P.O., Kasaragodu(dt), Kerala
91899	Balraj, V Perachakutty, V	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2001	7422 11/07/01	Veluthadath House, Karanthur P.O., Kunnamangalam Via, Kozhikkodu(dt), Kerala
91900	Baspin, K Dharman, K. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7204 05/07/00	Indraprastham, Valapad PO, Thrissur(dt),
91901	Beegum Fousla, S. M Shahul Hameed	BAMS Univ. of Kerala 2001	7375 28/04/01	Shameer Nivas, House No: 41, Maitry Nagar, Sreekariam, Thiruvananthapuram
91902	Beena A. G. M. Gopalakrishna Pillai	BAMS Bangalore Univ., Bangalore 1994	8024 17/05/04	Prasadam, Mangad P.O., Kollam(dt), Kerala
91903	Beena K. T. P. N. Rajan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7901 05/12/03	Chithrampally House, Karuvambram P.O., Manjeri, Malappuram(dt), Kerala
91904	Beena, K. Das Sathyadas, J. R.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7050 18/10/99	Karthikappalil Veedu, Pongummoodu, Medical College PO, Thiruvananthapuram
91905	Beena, M. D. Dharmodharan Nair, P. G.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1999	7147 22/05/00	Marangattu House, Puthusserimala P.O., Ranny, Pathanamthitta(dt), Kerala
91906	Beena, P Vasudevan, K	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2000	7325 14/02/01	Nilambur Vaidyasala, Nilambur P.O. Malappuram(dt), Kerala
91907	Beena, P. G. Govindankutty, C.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7109 23/12/99	Akshaya, Kakkidippuram, Alankode P.O. Malappuram(dt), Kerala

91908	Bejoy V. J Janardhanan. V. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7321 12/02/01	Vadukkumchery House, Thrithalur West P.O., Thrissur(dt), Kerala
91909	Benny Mathew Mathew Varghese	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7416 07/07/01	Puliangikalayil House, Elamanore P.O. Padhanamthitta(dt), Kerala
91910	Benoy N. J Janardhanan. N. K	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2002	7602 01/07/02	Njarackal House, Veilaramkunnu P.O., Kumily, Idukki(dt), Kerala
91911	Bhagya Lekshmi P. Pankajakshan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8097 13/09/04	Ambady, Punnapra P.O., Alappuzha(dt)
91912	Bhavia Umanath Umanath. K	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1998	6930 17/09/98	5/681, 'Yadev', Rarichan Road, Kozhikkodu(dt), Kerala
91913	Bibi Catherine Antony Joseph Antony	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8092 13/09/04	Ililmoottil House, Anthinadu P.O., Pala, Kottayam(dt), Kerala
91914	Bibin M. Jacob A. T. Checko	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8019 22/04/04	Arumathara House, Kalithapram PO. Kannur Kerala
91915	Biji Gopinathan Kesavan Gopinathan	BAMS Univ. of Kerala 2004	8226 21/12/04	Biji Cottage, Sivagiri Road, Varkala P.O. P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
91916	Biji V. V. Viswambharan V. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8311 05/02/05	Velliamparambil House, Palazhi P.O., Pudukad Via, Thrissur(dt), Kerala
91917	Biji. M. S. Madhavan. K. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7184 05/07/00	Sree Nilayam, Kootanad PO, Palakkad(dt)
91918	Bijoy K. Kunhiraman Kammangad	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8040 17/05/04	Edamavvannur House, Meppayur P.O., Kozhikkodu(dt), Kerala
91919	Bijoy V Balakrishnan. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7623 10/07/02	Valiyapurakkai House, Perinthalmanna P.O., Malappuram(dt), Kerala
91920	Biju Balakrishnan. N Balakrishnan. N. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7202 05/07/00	Sreevalsam, Nandikkara PO, Thrissur(dt),
91921	Biju. K. V Raghavan Nair. K. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7357 16/03/01	Puthentheruvil, Taachampoyil, Thamarassery, Kozhikkodu(dt), Kerala

91922	Biju. M. S Madhavan. M	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6781 30/05/97	'Susruthi', Meenangadi P.O., Wynadu(dt), Kerala
91923	Bijumon. O. C Cherlyanakan. O. C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7415 07/07/01	Ottamachalil House, Kumeranaliore PO, Mukkom Via, Kozhikkodu(dt), Kerala
91924	Bilkis. C. K Kader. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7664 16/07/02	Chattukuiangara House, Karikkad P.O., Villannur, Thrissur(dt), Kerala
91925	Bimal. C. A Ayyappan. C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7823 06/06/03	Athira, Plot No: 538, 6th Lane, M. G. MG. Nagar, Punnunnu P.O., Thrissur(dt),
91926	Bimal. M. B Bhaskaran. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7660 16/07/02	Souparnika, Moolhikkara P.O., Thalassery, Kannur(dt), Kerala
91927	Bindhu John John. D	BAMS Univ. of Kerala 2002	7708 11/11/02	Kuzhinjzhikathu House, Nadutheri, Thalayoor P.O., Kollam(dt), Kerala
91928	Bindhu. B. S. Bhaskaran. N.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7027 06/09/99	Biju Sadanam, Panthalaicode P.O., Vattiappara Via, Thiruvananthapuram(dt) Kerala.
91929	Bindhu. V Yesodharan. K	BAMS M.G Univ., Kottayam 1996	6735 22/01/97	Kandalayil House, Adinadu South, Kattikadavu PO, Karunagappally, Kollam
91930	Bindu Joseph Joseph. K. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6788 08/07/97	Kanneetukandathil House, Koodaranthi P.O., Kozhikkodu(dt), Kerala
91931	Bindu Kamalobhavan Kamalobhavan. N	BAMS Univ. of Kerala 1998	6894 02/06/98	Puthuparambil House, Kuliathumon P.O. Pathanamthitta(dt), Kerala
91932	Bindu Menon. K Menon. G. K	BAMS Univ. of Kerala 2002	7724 19/11/02	Kotharamath House, Mathur East Palakkad(dt), Kerala
91933	Bindu Vijayan. N Vijayan. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7370 23/04/01	Chundukattil House, Munduparamba, Malappuram(dt), Kerala
91934	Bindu. K. K Kunjhan. K. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6791 18/07/97	'Aswathy', Kollazhi Parambil, Chalissey P.O., Palakkad(dt), Kerala
91935	Bindu. K. R Kumara Swamy	BAMS Univ. of Kerala 2000.	7238 10/08/00	Peroor Vilakath House, Karumanoor, Parassala PO, Thiruvananthapuram(dt)

91936	Bindu. P. P. Prabhakaran. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7114 23/12/99	C/o Shine Vaidyan. AK, Arakkal House, No: 35/1231, Indira Road, Palarivattom, Ernakulam(dt)
91937	Bindu. P. B (Pulipparambali) Balakrishnan. P. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6865 24/04/98	Pulipparambil House, 'Dwaraka' Koorkencherry P.O., Thrissur(dt), Kerala
91938	Bindu. S Mohanan Nair. K	BAMS Univ. of Kerala 1997	6773 15/05/97	'Aiswarya', T.C 10/1852, Near IAS Colony, Vattiyoor kavu P.O., Thiruvananthapuram
91939	Bindu. S Ravi Varma. K	BAMS Univ. of Kerala 1998	6913 18/08/98	Lakshmi Vilas, Thevanoor P.O., Ayoor (via), Kollam(dt), Kerala
91940	Bindu. V Kerala Varma	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6972 20/02/99	'Lakshmi, Vayalar P.O., Cherthala, Alappuzha(dt), Kerala
91941	Bindu. V. K Krishnan Kutty. V. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7530 14/03/02	Variammattu, Kallurutti, Thiruvampady Kozhikkodu(dt), Kerala
91942	Bindumol. S. K Radhakrishnan. C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7551 16/03/02	Bindu Nivas, Chiyanoor, Kokkur P.O., Malappuram(dt), Kerala
91943	Bini Upendran Upendran. N	BAMS Univ. of Kerala 1998	6960 24/12/98	'Ullas', Thattamala P.O., Kollam(dt)
91944	Bino Jose Joseph. K. V	BAMS Univ. of Kerala 2002	7591 10/06/02	T. C. 48/1079, Ambalathara, Poonathura P.O., TVM-26, Thiruvananthapuram(dt)
91945	Bino T. J. Thamarakshan V.	BAMS Univ. of Kerala 2003	7851 08/10/03	Aiswarya, Neelimukku, Thirumullavaram P.O., Kollam(dt)
91946	Bino Xavier Xavier. M. O	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7739 27/12/02	Mangan House, Lenin Nagar, Mannuthy P.O., Thrissur(dt), Kerala
91947	Binoi. K Kunhiraman	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2000	7272 10/11/00	Edamavannur House, Meppayur P.O. Kozhikkodu(dt), Kerala
91948	Binoy. A. P. Chandu. A. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7164 05/07/00	Binoy Nivas, Thamarassery, Chungam, Alappuzha(dt), Kerala
91949	Binoy. B. Bhaskaran. K. R.	BAMS Kuvempu Univ., Sharikarghatta 1999	7121 01/02/00	Karugattu House, Maniyarankudy P.O., Idukki(dt), Kerala

91950	Binu Alappat. A Antony Alappat. P	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2002	7634 15/07/02	Alappat Bhavan, Veliyanoor P.O. Thrissur(dt), Kerala
91951	Binu B. Nair N. Bhaskaran Nair	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8018 22/04/04	Saraswathy Nivas, Thiruvallom P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
91952	Binu C. Nair P. R. Chandrasekharan Nair	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7910 09/12/03	Pulickal House, Arunoottimangalam P.O. P.O., Kottayam(dt), Kerala
91953	Binu J. Abraham P. J. Abraham	BAMS Univ. of Kerala 2004	7957 06/02/04	Grace Villa, Eravankara, Kunnom P.O., Mavelikkara, Alappuzha(dt), Kerala
91954	Binu Raj. R. Rajendra Kurup. N.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7146 22/05/00	Aradhana, Thonnalloor, Pandalam, Pathanamthitta(dt), Kerala
91955	Binu. K. B Balan. K. K	BAMS Univ. of Kerala 2003	7809 05/06/03	Kattoor Vadakkumuri House, Kattoor P.O. Thrissur(dt), Kerala
91956	Binu. P. K Viswanathan. P. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7749 28/12/02	Leena Vihar, Nut Street PO Paravanthala Vadakara-4, Kozhikkodu(dt), Kerala.
91957	Bisini. S Syamaian. K	BAMS Univ. of Kerala 2003	7801 07/05/03	Venmathy, T. C. 8/1080, LIC Colony Road, Pongummodu, Medical College PO, Thiruvananthapuram(dt),
91958	Biya Mol Baby K. A. Baby	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2003	8121 25/09/04	Kizhakkaparambil, Mangalagiri, Olimkadav P.O., Palakkad(dt), Kerala
91959	Bobby. M. I Idichandy. G	BAMS Univ. of Kerala 2002	7593 10/06/02	Manimalayil, Chenkulam P.O., Oyyoor Kollam(dt), Kerala
91960	Braivin Camly. R Daniel. C	BAMS Univ. of Kerala 2002	7709 11/11/02	Lal Bhavan, Kurakkodu, Kudayal P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
91961	Brijula. P. N. Narayanan. P. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7173 05/07/00	Madhava Pharmacy, P. T. Usha Road, Kozhikkodu(dt), Kerala
91962	Chalthanya R. Menon Radhakrishna Menon. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6790 18/07/97	Kottillil Marath House, Marar Road, Thrissur(dt), Kerala
91963	Chandana V. A. T. V. Narayanan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7932 20/12/03	Chalthanya, Myladathadam, Azhikode P.O., Kannur(dt), Kerala

91964	Chendini. V. L Padmanabhan. C. K	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 1998	6939 23/11/98	29/2/21, 'Sweet Home', Kuthiravattom P.O., Kozhikkodu(dt), Kerala
91965	Chandy George George. K. C	BAMS Univ. of Kerala 1997	6740 07/02/97	Kaniampady, Factory ward, Alappuzha(dt), (dt), Kerala
91966	Chidhambara Babu. M Muthamperumal Pillai. C	BAMS Univ. of Kerala 1997	6743 07/02/97	Mele Veedu, Near Sri Mutharamnan Coll, Nedumangad P.O., Thiruvananthapuram
91967	Chinchinamol M. M. T. Jaya	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8083 13/09/04	Jaya Soudham, Kuttikattukara P.O., Alupuram, Kalamassery, Ernakulam(dt),
91968	Chithra Kumar. P Gangadharan. P	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2001	7460 18/10/01	Chandrika Ayurvedic Pharmacy, Cheruvannur, Feroke PO, Kozhikkodu(dt) Kerala.
91969	Chithra M. P. K. Mohanan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8194 06/11/04	Plakkudiyil House, Senapathy P.O., Santhanpara, Idukki(dt), Kerala
91970	Chithra. M. B Mukunda Karma. G	BAMS Univ. of Kerala 2002	7562 27/03/02	Haril Nivas, Thekkumbhagum, Thripunithura, Ernakulam(dt), Kerala
91971	Chitra Anand P. D. Chidanandan	BAMS Univ. of Kerala 2003	7868 13/10/03	Pattathil House, Kottamurt P.O., Changanacherry, Kottayam(dt)
91972	Chitra Krishnan. K Krishnan. K. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 2000	7196 05/07/00	Ushus, Silent Lane, Thrissur-4, Thrissur(dt), Kerala
91973	Chitra. A. Samuel Anselm Samuel	BAMS Univ. of Kerala 2001	7396 08/06/01	Vinod Bhavan, Nemom P.O., TVM-20, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
91974	Cini S. Sathya Seelan V.	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences Bangalore 2002	7892 28/11/03	Ushas, Near Badam Junction, Ezhukone P.O., Kollam(dt), Kerala
91975	Cini. C. Chandran Chandrasekaran. C. M.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7091 10/12/99	Choondapurakkal House, Santhi Nagar, Mannuthy P.O., Thrissur(dt), Kerala
91976	Danya C. S. Sankaranarayana Panicker	BAMS Univ. of Kerala 2004	8190 08/11/04	Sunil Bhavan, T.P. South, Haripad, Alappuzha(dt), Kerala
91977	Deepa. U. N Nirmalanandan. K	BAMS Univ. of Kerala 1998	6906 10/08/98	'Aswathy', Ambalanagar, Kowdilar, Thiruvananthapuram(dt), Kerala

91978	Deepa Jose Joseph. K. J	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7346 13/03/01	Konoor House, Adimali P.O., Idukki(dt)
91979	Deepa P. Balas P. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	7974 03/03/04	Deeapanjali, T.C. 11/1290, Mannuthi P.O. Thrissur(dt), Kerala
91980	Deepa. B. Nair Balachandran Nair. G	BAMS Univ. of Kerala 2002	7713 19/11/02	Puthupparampil House, Elikulam P.O., Poovarani Via, Kottayam(dt), Kerala
91981	Deepa. G Gopala Krishna Sarma. N	BAMS Univ. of Kerala 2001	7611 02/07/02	Raji Nives, North Street, Kazhakkuttom, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
91982	Deepa. K Govindankutty. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7351 15/03/01	Sreevalsam, Near Devaky Clinic, MG. Kavu P.O., Thrissur(dt), Kerala
91983	Deepa. L Unnikrishnan Nair. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7554 16/03/02	Krishnasree, Thuvayoor South P.O., Kadampnad, Pathanamthitta(dt), Kerala
91984	Deepa. M. S Madhavan. K	BAMS Univ. of Kerala 2001	7443 15/09/01	Sheeji Nivas, Mariyapuram P.O., Amaravila Via, Thiruvananthapuram(dt)
91985	Deepa. M. S Mithran. G. V	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2001	7600 01/07/02	T. C. 30/1149(1), Kallas, High School Road, Pettah PO, Thiruvananthapuram
91986	Deepa. N. Shenoy Narasimha Shenoy. G	BAMS Univ. of Kerala 2002	7700 11/11/02	Kandathil, Thirumalabhagam P.O., Thuvayoor, Alappuzha(dt), Kerala
91987	Deepa. P Muraliedharan Nair. K	BAMS Univ. of Kerala 2001	7515 28/01/02	A-16, Kaliyikkal, Pillaveedu Nagar, Kesavadasapuram, Thiruvananthapuram(dt) Kerala.
91988	Deepa. S Sukumaran Nair. P. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7180 05/07/00	Valsakh, T.C. 22/1014, Attukal, Manacadu PO. TVM-9, Thiruvananthapuram(dt)
91989	Deepan. V. K Raju. V. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7758 28/12/02	Haritham, Alankode PO, Malappuram(dt), Kerala
91990	Deeparani. S. Sivadasan. P.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7083 10/12/99	Deepa Bhavan, Ackolli, Valathungal P.O. Kollam(dt), Kerala
91991	Deepthi Balakrishnan K. Balakrishna Pillai	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8090 13/09/04	Darpana House, Perunnal P.O., Changanacherry, Kottayam(dt), Kerala

91992	Deepthi C. P. N. V. Kunhiraman	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8221 15/12/04	Lakshmi Nivas, Ponnampara, Peringome P.O., Payyannur Via, Kannur(dt), Kerala
91993	Deepthi G. D. K. Divakaran Pillai	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7908 08/12/03	Thejus, Charukadu, Chemmakadu P.O., Perinad, Kollam(dt), Kerala
91994	Deepthi Joseph Joseph. M. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7312 12/02/01	C/I Inasu. K. A, Kattookaran House, H. No: T.C. 33/1542, Kasturba Lane, Kookkanchery P.O., TCR-7
91995	Deepthi Nair. I Kamaiasanan Nair. N	BAMS Univ. of Kerala 1997	6768 15/05/97	'Prasanthi', Anayara P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
91996	Deepthi Rani. P. N Sreedharan. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6855 28/03/98	Kishore Nivas, Karanthur, Alappuzha(dt), Kerala
91997	Deepthi. A Baburajan. G	BAMS Univ. of Kerala 1998	6959 24/12/98	Lal Bhavan, Chithara P.O., Kollam(dt)
91998	Deepthi. D. C. Divakaran. K. M.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7119 31/01/00	Deepam, Pillathara P.O., Kannur(dt)
91999	Deepthi. G Gangadharan Nair. E. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7356 15/03/01	Samthripathi, Chelennur PO., Kozhikkodu(dt)
92000	Deepthi. J Janardhanan. S	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7222 04/08/00	Pachajanyam, Muliakulam North P.O., Near Valappilpady, Piravom, Ernakulam(dt)
92001	Deepthi. M. U Unni. V. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7307 12/02/01	Mannali House, Vadakkumpuram P.O. Ernakulam(dt), Kerala
92002	Deepthi. T. R Ramachandran Panicker. T. N	BAMS Univ. of Kerala 1997	6739 07/02/97	Thoppil west House, Thodupuzha East P.O., Idukki(dt), Kerala
92003	Deepthilal. P. L Pachan. S	BAMS Univ. of Kerala 2002	7583 07/06/02	Kottuvetumvila, Kizhakethil Veedu, Edavanaserry, Mynagapally P.O., Karunagapally, Kollam(dt)
92004	Deepthy. M. N Nandakumar. K	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2000	7271 10/11/00	Mayithara House, Veliyambam P.O., Pulpally, Wynadu(dt), Kerala
92005	Demilly Mathew T. M. Mathew	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8093 13/09/04	Thundathil House, Nedumanny P.O., Kangazha, Kottayam(dt), Kerala

92006	Devarajan. M. Mohanan Nair. P. P.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 1999	7067 28/11/99	Athurasanjeevani Ayurveda Vaidyasala, Kurichikara P.O., Thrissur(dt)
92007	Devi S. Raj V. S. Raj	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	7935 09/01/04	Thengil House, Nedumon P.O., Ezharankulam Adur, Pathanamthitta(dt), Kerala
92008	Devi. T. S. Sathyarajan. T. R.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7099 10/12/99	Devi Nilvas, Opp. Old Canara Bank, Wadakkanchery PO, Thrissur(dt), Kerala
92009	Devidas. A. K Krishnan. A. C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7209 05/07/00	Athrapplily House, Karikkad P.O. Thrissur(dt), Kerala
92010	Dhanya M. K. M. Kumaran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7902 05/12/03	Mancheri House, Purangu P.O., Kanhiramukku, Ponani, Malappuram(dt),
92011	Dhanya Umanath Umanath. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7179 05/07/00	Yadev, Near Passport Office, Erannhipalam P.O., Kozhikkodu(dt), Kerala
92012	Dhanya. M Balagopalan Nair. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7347 13/03/01	Kripa, Nailloomadu P.O., Thonicheal, Mananthavady, Wynadu(dt), Kerala
92013	Dhanya. R. Dev Sudevan. K	BAMS Univ. of Kerala 2002	7706 11/11/02	Kochupandazhikathu House, SRPM PO, Thazhava, Karunagappally, Kollam(dt)
92014	Dhanya. S Sankara Pillai. A. K	BAMS Univ. of Kerala 2002	7587 10/06/02	T. C. 28/577, Krishnan Kovil Road, Kaithamukku, Thiruvananthapuram(dt)
92015	Dileep Kadankot Karunakaran. C. K	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2001	7568 01/04/02	Viswanatha Pharmacy, Vankuleth Vayal, Azhikode P.O., Kannur(dt), Kerala
92016	Dileep Kumar T. V. Karunakaran T. V.	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7894 05/12/03	Divya Nilvas, Near Railway Gate, Padanckad P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
92017	Dileep Kumar. G Gunachandra Naik. N	BAMS Univ. of Kerala 2000	7239 10/08/00	Vasantham, Ulavalpu, Cherthala P.O. Alappuzha(dt), Kerala
92018	Dileep Kumar. P. P Purushothaman. N	BAMS Kuvempur Univ., Shankarghatta 1997	6931 28/09/98	Ambuja Nilvas, Udayampoor P.O. Ernakulam(dt), Kerala
92019	Dileep Senan Chandra Senan. K. K	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1998	7038 17/09/99	Krishnapurath, Thottomon, Ranny P.O. Pathanamthitta(dt), Kerala

92020	Dinesan, P. M. Madhavan Namboodiri	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7090 10/12/99	Puliassery Mana, Mannarkad P.O. Palakkad(dt), Kerala
92021	Dinesh, B Bhairatha Rajan, R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6787 08/07/97	'Sreevalsam', Near Rest House, Kottakkal, Malappuram(dt), Kerala
92022	Dinesh, K. S Subramanian, K. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7322 12/02/01	Vasudevi Nilayam, Peringanam, Chakkrapadam PO, Thrissur(dt), Kerala
92023	Dipti Vanath M. V. Bhaskaran	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	8284 11/01/05	Kezhakke Variyam, Perumangode, Sreekrishnapuram P.O., Palakkad(dt), Kerala
92024	Divya A. K. V. Madhusoodhanan Nair	BAMS Univ. of Kerala 2003	7864 10/10/03	Sree Dhanya, V.P. 13/387, Vazhottukonam, Kodunganoor P.O., Thiruvananthapuram
92025	Divya A. N. Balakrishna Pillai	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8041 25/05/04	Iswarya, Chewara Bridge PO, Kollam(dt) Kerala.
92026	Divya Sree A. S. A. Sadanandan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8020 22/04/04	Shreenidin, Uppala PO, Kasaragodu(dt) Kerala.
92027	Divya, K. Bhat Sadashiva Bhat, P	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2001	7774 01/02/03	Kodavanji House, Muliya P.O., Kasaragodu(dt), Kerala
92028	Divya, S. Kumar Kumar, K. P. S	BAMS Univ. of Kerala 2001	7447 15/09/01	Madhavam, T. C. 36/1369, J. P. Nagar, JPN-68, Vallakadavu P.O. Thiruvananthapuram(dt)
92029	Divya, T. A Anantharaman, T. S	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7279 15/11/00	Thachapully House, Banerji Road, Cochin, Ernakulam(dt), Kerala
92030	Dr. Venugopal, K Venkatakrishnan, K	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2001	7596 10/06/02	Prasad Nilaya, Kolikkaje, Movvar P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
92031	Durga, S. R. Sivaramakrishnan Nair	BAMS Univ. of Kerala 1999	7079 10/12/99	T. C. 18/53-3, Pavithram, Alappuram Road, Thirumala, Thiruvananthapuram(dt)
92032	Durgaprasad, K Gopalakrishna Bhat, B	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1999	7464 19/10/01	Undemane, Nirchal P.O., Kumbia Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92033	Ebey Abraham Abraham, M. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7518 14/03/02	Moongamakal House, Payam P.O. Kannur(dt), Kerala

92034	Edison. P Peter	BAMS Univ. of Kerala 1999	6981 20/02/99	Ayyathope, Sakthikulangara P.O., Kollam(dt), Kerala
92035	Eldho. A. P Poulose. A. V	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2002	7635 15/07/02	Areekal House, Thiruvor P.O., Angmaly Via, Ernakulam(dt), Kerala
92036	Elizabeth Earnest Earnest David	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7428 12/09/01	Kavarattu House, Sakthikulangara P.O. Kollam(dt), Kerala
92037	Fakrudeen. A Aliyarukunju. A	BAMS Univ. of Kerala 1997	6775 15/05/97	Zeena Manzil, Pantha, Pantha P.O., Kattakada Via, Thiruvananthapuram(dt),
92038	Faseela. E. I Ibrahim. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7427 17/07/01	Erakkath Hosue, Parayakad, N. Paravoor, Ernakulam(dt), Kerala
92039	Fasilu Rahman. T. K Mohammed Kutty Kurikkal. T. K	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1998	6940 23/11/98	Varanakkara, Kunmanam PO, Malappuram(dt)
92040	Fathima Rahma M. M. Mohammed Jaffer	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8307 05/02/05	Rangode Kalam, Kuthanur P.O., Palakkad(dt)
92041	Fathima Yasmeen K. M. Mohammed Shafi	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8049 30/06/04	Kaldar House, Paravan Adjukkam P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
92042	Fathima. P.V. Abdurahman. P. V.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7129 01/02/00	Illikkathodi House, Andiyurkunnu P.O. Kottappuram, Malappuram(dt) Kerala
92043	Febin. K. Anto Anto. K. P	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2002	7609 01/07/02	Kandamkulathy House, Kuzhoor P.O. Thrissur(dt), Kerala
92044	Finbe Baby Baby John	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8014 15/04/04	Kathelekattil House, Pulappally P.O., Wynadu(dt), Kerala
92045	Foustya K. Yousaf K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8186 25/10/04	Pothiyil Thottiparambali, Poovathani, Chethalloor P.O., Palakkad(dt), Kerala
92046	Francis. Aradan Je	BAMS Univ. of Kerala 1989	7077 10/12/99	Arattu Bungalow, Kolvia PO, Kollam(dt), Kerala
92047	Franco James. A. James. A. F	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7402 11/06/01	Aloor House, Thiroor, Mulankunnathu Kavu P.O., Thrissur(dt), Kerala

92048	Ganaraja. Y Gopalakrishna Bhat. Y	BAMS Bharthiar Univ., Coimbatore 1992	7263 07/11/00	Yelkana Kallamane House, Malre P.O., Perla Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92049	Ganesha Krishna. V Siri Krishna Bhat. V	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2001	7466 06/11/01	Varmudy House, Perla PO, Kasaragodu(dt), Kerala.
92050	Ganeshkumar. K Mahalinga Bhat. K	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta- 1998	7301 13/12/00	Kolenjithodi House, Nirchal P.O. Kasaragodu(dt)
92051	Ganga Prasad. N. M Madhusoodanan. G	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2001	7487 27/11/01	Valdyans Cottage, Kavalpara, Eravipuram P.O., Kollam(dt), Kerala
92052	Ganga. A Ayyappan. T	BAMS Univ. of Kerala 1998	6956 22/12/98	Vanachirayil House, Kaltumala P.O., Mavelikkara, Alappuzha(dt), Kerala
92053	Ganga. C. Chellappan. V. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7166 05/07/00	Madathil, Kandalloor P.O., Kayamkulam, Alappuzha(dt), Kerala
92054	Gayathri. S Ramakrishna Pillai. G	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2000	7303 11/01/01	Chakkolli, Perungala P.O., Kayamkulam Alappuzha(dt), Kerala
92055	Geetha Ravindran Pillai	BAMS Univ. of Kerala 2002	7585 10/06/02	Soorya Nivas, Calicut South Andaman, Andaman & Nicobar Island, NA(dt) Andaman and Nicobar
92056	Geetha Bhasi Bhaskaran. A	BAMS M.G Univ., Kottayam 1996	6722 02/01/97	'Geethalayam', Karamcode P.O., Kollam(dt) Kerala
92057	Geetha. V Madhavan. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6973 20/02/99	Chirakkalodi House, Thiruvannur P.O. Kozhikkodu(dt), Kerala
92058	Geetha. V Venugopalan. K. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7830 12/06/03	Ramamchangarath House, Avanur P.O. Mundur Via, Varadiyam, Thrissur(dt)
92059	Geethanjali G. R. Muralaeddharan Nair	BAMS Univ. of Kerala 2003	7863 10/10/03	Geethanjali, Kannimel, Pattazhy P.O. Kollam(dt)
92060	Geophi. V. G George. V. C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7198 05/07/00	Vadukkoot House, Perakam P.O., Chevakkad Via, Thrissur(dt), Kerala
92061	George Mammen Mammen. K. P	BAMS Dr. MGR Med Univ., Chennai 2002	7727 19/11/02	Kannan Kallai House, Pindimana P.O Kothamangalam, Emakulam(dt), Kerala

92062	Giby George Georgekutty. C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7638 15/07/02	Thadethil House, Pattikad P.O. Thrissur(dt), Kerala
92063	Gigi Mathew Devassykutty. I. O.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7161 04/07/00	Field Villa, Cheroor P.O., Thrissur Distt. Kerala.
92064	Gireesh Kumar. P. K. Kumaran Vaidiyar. P. T.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7092 10/12/99	Plassery House, Poovathussery P.O., Annamanada, Thrissur(dt), Kerala
92065	Girija S Kesavan Unni. K	BAMS Univ. of Kerala 1997	6771 15/05/97	Kausthubham', T.C 27/1293, Rishimangalam, Vanchiyoor P.O. Thiruvananthapuram
92066	Girijanand. M. S. Anandan. T.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7074 10/12/99	Girija Bhavan, Veliyapadam, Vilantham P.O., Kollam(dt), Kerala
92067	Godwin Selvan. S Selvaraj. J	BAMS Univ. of Kerala 2000	7286 22/11/00	Karkala Mekky Puthen Veedu, Parasuralkal P.O., Parassala, Thiruvananthapuram
92068	Gokul. N. V Narayanan Pillai. R	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6766 15/05/97	Vadakkapallathu House, Komana, Ambalappuzha, Alappuzha(dt), Kerala
92069	Gopakumar. G. O Gopinatha Pillai. K	BAMS Univ. of Kerala 2002	7715 19/11/02	Thunduvilakathu Veedu, Kothirakulam PO. Vempayam, Thiruvananthapuram(dt), Kerala.
92070	Gopakumar. S Sreekantan Nair. K	BAMS Univ. of Kerala 1997	6776 19/05/97	T.C 2/2139, 'Sreebhavan', Pattom P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92071	Gopakumar. S Sreekumaran Nair. K	BAMS Univ. of Kerala 2000	7285 22/11/00	Sreesanth, Athani Road, Vanchiyoor, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92072	Gopakumaran. K Bhaskaran. K	BAMS Univ. of Kerala 2001	7383 29/05/01	Karimbil House, Pallyerikkourai, Karlveliur P.O., Kannur(dt), Kerala
92073	Gopalakrishnan Mayandi. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7192 05/07/00	Vaiyaveettil, Mayyerichira, Valavannur PO, Kaipakanchery, Malappuram(dt)
92074	Gopika Gopan Gopakumar. K. S	BAMS Univ. of Kerala 2003	7797 07/05/03	Kuzhiyathuthekkathil, Pongalady, Paranthai PO, Adoor, Pathanamthitta(dt),
92075	Gopikrishna S. Sriram	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7906 08/12/03	T.C. 50/515 (4), Marwel D-10, Shivaikrpa, Maruthoorkadavu, Karaman Post, Thiruvananthapuram(dt)

92076	Gopikumar. V Gopinathan Nambiar. K. T	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1997	6784 08/07/97	'Sreejakam', Padanakkad P.O., Neeleshwar (Vta), Kasaragodu(dt), Kerala
92077	Gourisan. P. V Unnikrishnan Nambissan. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6936 14/10/98	Thekkethazhathel House, West Hill P.O. Kozhikkodu(dt), Kerala
92078	Goutam Kumar Bakshi Gobinda Pada Bakshi	BAMS Univ. of Calcutta, Calcutta 2003	8009 12/04/04	XXI/474, Shyamal Nivas, Fathimapuram Changanassery, Kottayam(dt)
92079	Govinda Sharma K. Anantha Bhat K.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2000	7978 09/03/04	Gosada House, Mowar P.O. Kasaragodu(dt),
92080	Gowri. G Govindan. M	BAMS Univ. of Kerala 1998	6923 18/08/98	Kizhakkakara Puthen Veedu, V.P. 2/174, Nirappili, Peyad PO, Thiruvananthapuram.
92081	Greeshma G. V. P. Gopi	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8000 03/04/04	Mangalapuram Nikarth, Parayakad P.O., Cherthala, Alappuzha(dt), Kerala
92082	Habeebulla. M. T. Seethi. M. T.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7176 05/07/00	Brothers Manzil, Perumukku, Alankode P.O., Malappuram(dt), Kerala
92083	Hafsath. K.T Mammuthy. K.T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7850 14/08/03	Karalkattil Thanduparakkad, Eriyad Punnappala, Malappuram(dt)
92084	Hamsa. A.V Vappunu. A. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6874 24/04/98	Arangathu Parambil House, Kanjirakode PO., Wadakkanchery (Vta), Thrissur
92085	Hari Krishnan. T. P Prabhakaran. T. K	BAMS Dr. MGR Med. Univ. Chennai 2002	7595 10/06/02	Thekkiny House, Kuthukuzhy P.O., Kothamangalam, Ernakulam(dt), Kerala
92086	Hari Kumar Namboothiri. K. U Unnikrishnan Namboodiri. K. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7736 27/12/02	Edassery Madom, Kovoar, Palayamkunnu P.O., Varkala, Thiruvananthapuram(dt),
92087	Haridas K. K. Achuthan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7921 09/12/03	Krishna Kripa, Mulagunnathukavu, Thrissur(dt), Kerala
92088	Harikrishna. T. N Narayanan Nair. A. P	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2001	7421 11/07/01	Thoriambath, Usha Nivas, Kaipetta P.O., Wynadu(dt), Kerala
92089	Harikumar. B Bhaskaran Nair. P	BAMS Univ. of Kerala 2000	7293 22/11/00	Kanathara House, Podiyadi P.O., Thiruvalla, Pathanamthitta(dt), Kerala

92090	Harilat. K. P Padmanabhan. K., K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7655 16/07/02	Karumanparambil House, Lal Sadan, Muthuvai, Puzhakkal P.O., Thrissur(dt) Kerala.
92091	Harimohan. C. M Chandramohan. S	BAMS Univ. of Kerala 1997	6769 15/05/97	Vikas Bhavan, North Myriagappally P.O. Kollam(dt), Kerala
92092	Harinathan. V. K. Viswanathan. K.	BAMS Kakatiya Univ., Warangal 1998	7144 12/04/00	Padmaleyam, Kanraimpuzha Temple Road, Chalakudy, Thrissur(dt), Kerala
92093	Harishanker. T. N Madhavan. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7753 31/12/02	Ambady House, Koodothunnal, Kaniyambetta P.O., Wynad(dt), Kerala
92094	Harvin George N. N. T. George	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7923 09/12/03	Nedumbakaran House, Kodakara P.O. Thrissur(dt), Kerala
92095	Haseef. P. V. Abdulla. P. V.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7156 08/06/00	Pullaravallil House, Nayangadi, Nhamanghat Post, Thrissur(dt), Kerala
92096	Haseena. P. H Hamsa. P.A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7414 07/07/01	Puthenpurayil House, Velupadam, Thrissur(dt), Kerala
92097	Hebeeb. P Abdullakutty. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7275 13/11/00	Ihsan, Kuruppath, Roodotty, Malappuram(dt)
92098	Hema Baby K. G. Baby	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8078 27/07/04	Kunnathully House, Khanna Nagar P.O., Thrissur(dt), Kerala
92099	Hema Chandran. C. K Govindan Nair. P. V	BAMS Univ. of Kerala 2003	7776 06/02/03	Presadam, Padiyothai P.O., Payyanur Via, Kannur(dt), Kerala
92100	Hema. L Surendran Achary. G	BAMS Univ. of Kerala 2002	7559 20/03/02	Chithira Bhavan, Mikkadu, Kottukkal P.O., Anchal, Kollam(dt), Kerala
92101	Hemachandran. B Balachandran. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6857 28/03/98	Santhiniethan, Pokunni, Vadavannur P.O., Palakkad(dt), Kerala
92102	Hemamalini. K. R Raghavan. K. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6996 06/03/99	Kanara House, Muththedi PO, Alagappa Nagar Va, Thrissur(dt), Kerala
92103	Hemanth Kumar. P Radha Kanthan Thirumulpad. T. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7535 14/03/02	Mandiram, Arukizhaya, Manjeri, Malappuram(dt), Kerala

92104	Hena Varma E K. K. C. Krishna Varma Raja	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7997 03/04/04	Sauram, 29/1808 A, Pipeline Road, Kottoli P.O., Kozhikkodu(dt), Kerala
92105	Hima Mohandas Mohandas. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7553 16/03/02	Himalayam, Katilkadavu P.O., Karunagapally, Kollam(dt), Kerala
92106	Hiran. V. R Venugopalan Nair. N	BAMS Univ. of Kerala 2002	7717 19/11/02	Neela Bhavan, TC 9/1816, Sankar Rd, Sasthamangalam, Thiruvananthapuram, Kerala.
92107	Hirunnisa. N K Pakku. N.K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6823 15/11/97	Vettukattil House, Ulliyeri P.O., Kozhikkodu(dt), Kerala
92108	Hitha. K. H. Haritharan. K K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7097 10/12/99	Kaikkanthra House, Kandassankadavu PO, Mangattukara, Thrissur(dt), Kerala
92109	Honey Joy T. J. Joy	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8317 23/02/05	Thyparambil House, Mullenkolly P.O., Pulpally, Wynadu(dt), Kerala
92110	Hridya Unnithan Unnithan. K. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7353 15/03/01	Lakshmi Krishna, Eroor South P.O., Thripunithura, Ernakulam(dt), Kerala
92111	Iby Jose K. M. Jose	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8130 25/09/04	Kizhakedathu House, Ranny P.O., Pathanamthitta(dt), Kerala
92112	Indhulekha A. C. Chekku Nair	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2003	8118 25/09/04	Ashwathi House, Karkitankunnu P.O., Alanallur Via, Palakkad(dt), Kerala
92113	Indhupriya G. T. R. Sankara Pillai	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8124 25/09/04	Raghava Mandiram, Kannetty, Karunagapally Kollam(dt), Kerala
92114	Indira. G. S Ganesan. V	BAMS Univ. of Kerala 1998	6954 22/12/98	'Brindaben', Post Office Lane, Peroorakada, Thiruvananthapuram(dt)
92115	Indu Lekha. V. C Chandrasekharan Nair. V. R	BAMS Univ. of Kerala 2000	7509 28/01/02	Lekha Nivas, Vazhappally, Kottoor P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92116	Indu Sekhar. R Raveendranathan Pillai. P	BAMS Univ. of Kerala 1998	6958 22/12/98	Raveendra Bhavanam, Inchakkadu, Kakkakunnu PO, Sooranad (via) Kollam(dt)
92117	Indu. A. Vishnu Nambodiri	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2000	7136 31/03/00	W/o M. G. Dileep Shankar, Ambika Sedan Pothaveoor PO, Chervathur Via, Kasaragodu(dt)

92118	Indu. G. Kumar Gopakumar. K. N	BAMS Univ. of Kerala 2001	7508 28/01/02	Indeevaram, Opp. Malayinkil Post Office, Malayinkil P.O., Thiruvananthapuram
92119	Indu. R Raghavan Nair. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7327 26/02/01	Indu Bhavan, Omelloor P.O. Pahananthitta(dt), Kerala
92120	Indu. V. L Vidyadharan. B. N	BAMS Univ. of Kerala 2001	7387 29/05/01	Vidya Vihar, Ayirooppara P.O., Pothencode Pothencode Via, Thiruvananthapuram(dt)
92121	Indulekha. C. G Gopinathan Nair. S	BAMS Univ. of Kerala 2002	7707 11/11/02	Induvihar, T. C. 8/1393, Ellipode, Thirumala, Thiruvananthapuram(dt)
92122	Ishwara Bhat. M Thirvikrama Bhat. K	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1999	7276 13/11/00	Manjalegiri House, Perla P.O., Kasargodu(dt), Kerala
92123	Jabidha. P Kunhimohamed. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7784 01/04/03	Soniya, Thirunavaya P.O., Malappuram(dt), Kerala
92124	Jabir Poolakundan Packer	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7759 31/12/02	Kuzhippuram P.O., Iringaliur, Vengara Via, Malappuram(dt), Kerala
92125	Jacob Kurian. K Kunju. K. K	BAMS Univ. of Kerala 2001	7382 29/05/01	Kollenthezathu House, Kalthacode PO. Puthur, Kottarakara, Kollam(dt)
92126	Jacquilin. S. L Stanly Martin	BAMS Univ. of Kerala 2001	7395 30/05/01	T. C. 32/922, Balanagar, Titanium P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92127	Jacquiline. A Antony. E. P	BAMS Univ. of Kerala 2002	7699 08/11/02	Triveni, VIII/192, Pappanamcode P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92128	Jaikrishnan. K. P Ravindranathan	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1999	7216 20/07/00	Sudakshina, Vinayaka Nagar, Tharekkad, Palakkad(dt), Kerala
92129	Jannathul Firdouse Kunhatan Gurukkal	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1998	7141 31/03/00	Changam Palli, Kizhakkathali, Edakkulam, Thirunavaya, Malappuram(dt), Kerala
92130	Jaseema Beegom. J. Jaleel. A.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7016 15/07/99	Kalioorkizhakkathali, Thamarakulam PO Mavelikkara, Alappuzha(dt), Kerala
92131	Jaseena Jamaluddeen. M. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7434 15/09/01	Mulamoottil House, Vadapuram P.O., Mampad, Malappuram(dt), Kerala

92132	Jasulakshmy. V Vasudevan. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7632 15/07/02	Jasulakshmy. V, 13/805, Edayar Street Mankavu, Palakkad(dt), Kerala
92133	Jaya Govinda. U Narayana Bhat. P	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1998	7757 28/12/02	Post Ukkinadka, Enmakaje Village. Kasaragodu(dt), Kerala
92134	Jaya Raghavan Raghevan. M.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1999	7125 01/02/00	Sri Ganesh, Chinmaya Mission Colony Vidyanagar PO. Kasaragodu(dt), Kerala
92135	Jaya Rajan. T Mani. G	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7662 16/07/02	Thoppyandavida House, Azheekkal, New Mahe P.O., Kannur(dt), Kerala
92136	Jaya. P. R Raghavan Nair. R	BAMS Univ. of Kerala 1997	6777 19/05/97	T.C. 25/844, Thycaud P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92137	Jaya. V. Vasudev Kamath. R.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7019 16/07/99	T. C. 17/2095, Maya Mandiram, Dr. Pal Road, Poojappura, TVM-12, Thiruvananthapuram
92138	Jayachandran. K Balan Nambiar. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7404 11/06/01	Krishna Sadan, Anchampeerika P.O., Mottammal Via, Kannur(dt), Kerala
92139	Jayachandran. N Indira. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1996	6736 22/01/97	Nattuvally House, Kizhuthani, Thanissey P.O., Thrissur(dt), Kerala
92140	Jayachandran. S. R Sreedharan Nair. K	BAMS Univ. of Kerala 2001	7380 28/05/01	Raj Bhavan, Karukone P.O., Anchal, Kollam(dt), Kerala
92141	Jayakrishnan. G Gopala Krishna Panicker. T. N	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2002	7601 01/07/02	Lekshmikripa, K. G. 162, Kalpaka Gardens, Pappanamcode, Thiruvananthapuram
92142	Jayakumary. R. S Reghunathan Nair. K	BAMS Univ. of Kerala 1997	6839 12/01/98	'Suprakashi', Ayathil P.O., Kollam(dt) Kerala
92143	Jayalakshmi G. R. Gopinathan Nair	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8152 12/10/04	Pankaja Kasthuri Ayurveda Medical College, Killy, Kattakkada, Thiruvananthapuram
92144	Jayalatha. P. R. Parameswaran Chettiar	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7117 06/01/00	Sree Bhavan, Pullmath P.O. Thiruvananthapuram(dt)
92145	Jayan K. Philip K. K. Philipose	BAMS Univ. of Kerala 2004	7959 06/02/04	Kottoorazhikathu Veedu, Karipuram, Mukkoodu PO Mulavana, Kundara, Kollam

92146	Jayan, P. Raghavan, N	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2001	7636 15/07/02	Rohini, Pottayil Lane, M. G. Road, Thrissur(dt), Kerala
92147	Jayanthi C. K. C. P. Krishna Pillai	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8141 25/09/04	Kottakattu House, Nariyapuram P.O. Pathanamthitta(dt), Kerala
92148	Jayanthi Vijayan P. Vijayan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8285 25/01/05	Jayanthi Nilayam, Kalesagar, Edakara P.O., Malappuram(dt), Kerala
92149	Jayaprabha. V. Kunjiketu	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7120 31/01/00	W/o Dr. Vijayagopalan. A. V. Arthikattuparambili House, Arthikad PO., Thrissur(dt)
92150	Jayaprakash. A. D. Dvakaran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7433 15/09/01	Arayamparambili House, Valappad P.O. Thrissur(dt), Kerala
92151	Jayaprakash. K. Gopalan Vaidyar. K.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1998	7012 28/4/9	Sree Hari Nilayam, Iringallur P.O., Vengara Via, Malappuram(dt), Kerala
92152	Jayaraj B. L. V. Balakrishnan Chettiyar	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8134 25/09/04	Neelithadam, Near C.H.C. Kumbia, Kumbia P.O., Kasaragodu(dt), Kerala
92153	Jayaram. P. Prabhakaran. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7651 18/07/02	Karthika, Kottanad P.O., Palakkad(dt) Kerala.
92154	Jayasankar. T. Thankappan. P. K.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7137 31/03/00	Karali House, Thekkevia P.O. Kollam(dt), Kerala
92155	Jayashree. K. Koodur Krishna Bhat	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1995	6824 15/11/97	Chethanadka, Kuntikana P.O., Peradala Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92156	Jayasree P. V. Ramachandran P. V.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8304 05/02/05	Jayasree Nilayam, Padinhattummuri P.O. Koottilangadi Via, Malappuram(dt)
92157	Jayasree S. M. Sreedharan Nair	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8128 25/09/04	Sree Nilayam, Raneyil P.O., Nooranad, Alappuzha(dt), Kerala
92158	Jayesh Kumar. P. D. Damodaran. P. N	BAMS Univ. of Kerala 2000	7294 22/11/00	Radha Nivas, Cherumoodu, Veilmon P.O., Kundera, Kollam(dt), Kerala
92159	Jeeja Sasi Sasi. G	BAMS Univ. of Kerala 1998	6905 29/05/74	C/o Suguna Rajan, D.F.O. Office, Rangat PO. Present, Alappuzha(dt) Kerala.

92160	Jeeja, M Rajakumar, K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7367 23/04/01	12/507, Sarika, Koppam, Palakkad(dt)
92161	Jeejo Chandran, O Chandran, O. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7410 07/07/01	Thulasi Bhavan, V. R. Puram P.O., Chalakudy, Thrissur(dt), Kerala
92162	Jeena P. Nair P. Padmanabhan Nair	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8156 13/10/04	Three "J" House, Niduvappuram, Kurivellur P.O., Kannur(dt), Kerala
92163	Jeena, N. G Ganardhanan, N. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6846 28/03/98	Shyaji, Puthiyangadi, Kozhikkodu(dt) Kerala
92164	Jeena, V Prabhakaran, V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6797 06/08/97	Ootholi House, Vengalam PO, Kozhikkodu Distt. Kerala
92165	Jeevan, G Govinda Pillai, P. S	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7423 12/07/01	Kuttimodathil House, Puthiyavilla P.O. Kayamkulam Via, Alappuzha(dt), Kerala
92166	Jeevankumar S. Shanavas T. P.	BAMS Univ. of Kerala 2004	8177 25/10/04	Sasi Nivas, T.D. Road, Kollam(dt)
92167	Jeszy P. Mathew Mathew, P. O	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6808 20/09/97	W/o Dr. Alex Sebastian, Chirayath House, Marathakkara P.O., Thrissur
92168	Jibini Sebastian Sebastian, M. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7653 16/07/02	Muttickal House, Elambachi P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
92169	Jibzy Varghese Varghese, K. M	BAMS Univ. of Kerala 2001	7470 06/11/01	Jibsha Villa, Kulanada P.O. Pathanamthitta(dt), Kerala
92170	Jilsy Jose Olickal Jose Joseph	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8319 23/02/05	Olickal House, Thodupuzha East P.O. Idukki(dt), Kerala
92171	Jilu, K. M. Vijaya Raghavan, K. G.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7162 05/07/00	Kodavamparambili, Malapurath, Kothashira P.O., Peringode Via, Palakkad(dt)
92172	Jina George M. A. George	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8154 12/10/04	Macriery House, Mavoli Paramba, Kuthiravattom P.O., Kozhikkodu(dt), Kerala
92173	Jinachandran, P. K Krishnan, P. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6875 24/04/98	Panangat House, Parvathi Nivas, Pay Bazar, Erityad P.O., Kodungalloor Thrissur Distt. Kerala.

92174	Jini Scarla P. Scarla	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8013 15/04/04	Padinjarekutta House, Pulikurumba P.O. Naduvil Vta ,Kannur(dt),Kerala
92175	Jinu. C. G. Gopi Vaidyar	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1999	7152 22/05/00	Chempenkulam House, Kumilly P.O. Idukki(dt),Kerala
92176	Jisha C. G. C. A. Gopi Vaidyar	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7985 09/03/04	Chempenkulam, Kumilly PO Peerumedu Taluk ,Idukki(dt),Kerala
92177	Jisha Panikkar. V. Panicker. V. V.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7020 16/07/99	Dalla, Kalliyoor P.O., Thiruvananthapuram, Distt. Kerala.
92178	Jisha. M. S Sekharan. M. C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7827 06/06/03	Mundakkal House, Alathur, Anandapuram P.O., Nellore Vta , Thrissur(dt)
92179	Jithesh Krishnan T. P. Krishnan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8135 25/09/04	Jyothi Krishna, Vadackal P.O. Alappuzhe(dt),Kerala
92180	Jithesh M. K. M. K. Kesavan Namboodiri	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8084. 13/09/04	Myiankodattimana, Thiruvagappura P.O. Pattambi Vta ,Palakkad(dt),Kerala
92181	Jithesh. M Madhavan Nlar. I	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6984 20/02/99	Aiswarya, Bismillah Road, Karuvamrum P.O., Manjeri, Malappuram(dt),Kerala
92182	Jithesh. P. V Viswambharan. P. K	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2000	7273 10/11/00	Ponnarassery House, Mattam P.O. Thrissur(dt),Kerala
92183	Jobin J. Madukutazhy Joy Mathew	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8143 08/10/04	Madukutakuzhy House, Parathode P.O., Kanjirappally Taluk ,Kottayam(dt)
92184	Johnnykutty Varughese John Varughese	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7924 08/12/03	Kizhalakayil House, Chelecompu P.O., Changanacherry ,Kottayam(dt),Kerala
92185	Jojo Davis Devassey. K. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7319 12/02/01	Kanjirathingal, Olarikara P.O., Pulazhy , Thrissur(dt),Kerala
92186	Jomol Mariam Thomas Mammen Thomas	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2000	7302 11/01/01	Sakthimangalam, Valanjavattom P.O Thiruvella ,Pathanamthitta(dt),Kerala
92187	Jose Vineeth V. T. V. V. Thomas	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8149 12/10/04	341438, Pratheesh House, Cml Station P.O. ,Kozhikodu(dt),Kerala

92188	Joseph Itteera Itteera. V. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7540 16/03/02	Vadakkan House, Meloor PO Chalakudy Via, Thrissur(dt), Kerala
92189	Joshna K. Abdurahiman K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8310 05/02/05	Near Udaya Trading Company, Chinakkal, Kandamani
92190	Joshna. T. K Madhavan. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7552 16/03/02	VII-126, Shrivana, East Palagad P.O., Thalassery, Kannur(dt), Kerala
92191	Joshy. K. R - Ramakrishnan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7432 15/09/01	Kattilaparambil House, Thanissery, Irinjalakuda, Thrissur(dt), Kerala
92192	Jouhar. K Kunhimohamed. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7417 07/07/01	Molath House, Areacode P.O. Malappuram(dt), Kerala
92193	Joyimon. J John. M	BAMS Univ. of Kerala 2002	7580 07/06/02	Palathadi Veedu, Paruthippally P.O. P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92194	Julie. L. Manohar Manoharan. P. A	BAMS Univ. of Kerala 2002	7610 02/07/02	Ambadi, Krishna Saras, Near Shyni Mosals, Perunna P.O., Changanacherry, Kottayam(dt)
92195	Jyothi Lakshmi. L Thankappan. R	BAMS Univ. of Kerala 2003	7796 07/05/03	Jyothi Bhavan, Ammakandakara, Adoor P.O., Pathanamthitta(dt), Kerala
92196	Jyothi P. R. P. P. Ramakrishnan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8023 17/05/04	Prasanth, S.R.K. Nagar P.O., Ottapalam Via, Palakkad(dt), Kerala
92197	Jyothi Prakash. C. S Sankunni Vaidyar. C. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6866 24/04/98	Krishna Ayurveda Pharmacy, Thevara P.O., Kochi, Emakulam(dt), Kerala
92198	Jyothi. K. S Sudevan. K. K	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1998	6933 28/09/98	Karimbat, Choor College P.O., Palakkad(dt), Kerala
92199	Jyothi. M Kutty. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7189 05/07/00	Jyothi Nivas, Pantheerankave, Kozhikkodu(dt), Kerala
92200	Jyothi. S Sadasivan Nair. N	BAMS M.G Univ., Kottayam 1996	6733 22/01/97	Nanathuputhen House, Kidangannoor P.O. Mezhuvell Via, Pathanamthitta (dt), Kerala
92201	Jyothish Kumar. V. Vidyandhan. M.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7031 15/09/99	Sudhalayam, Kallampally, Medical College P.O., Thiruvananthapuram(dt) Kerala.

92202	Jyothsna Madhuri Purnachander Rao. P	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2000	7369 23/04/01	Geetha Bhavan, Thekkumkoor Palace, S. H. Mount P.O., Kottayam(dt), Kerala
92203	K. B. Deepthi K. M. Bhaskaran	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8088 13/09/04	Kunnei House, Kalluvazhi P.O., Ottappalam, Palakkad(dt), Kerala
92204	K. Narayana Arimanithaya Krishna Arimanathaya	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8100 13/09/04	Srikrishna Nivas, Punjalkatte P.O., Belthangady Taluk
92205	K. P. Rinsana K. P. Saidalavi	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8147 12/10/04	K.P.S. Manzil, Anamengad P.O., Malappuram(dt)
92206	K. Sankaran Namboodiri K. Narayanan Namboodiri	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8136 25/09/04	Kannamkulathillam, Vadassery, Kankol P.O., Payyanur Via, Thaliparamba Taluk Kannur(dt)
92207	K. V. Santhi K. S. Viswanatha Samra	BAMS Univ. of Madras, Madras 2003	8115 25/09/04	Karthikaya Nilayam, Palliyi Lane, Dewant Dewan's Road, Cochlin, Ernakulam(dt)
92208	Kala G. S. Gangedharan K.	BAMS Univ. of Kerala 2004	7954 03/02/04	Kallias, Ampuvila, East Kallada, Kollam(dt)
92209	Kala V Veeraraghavan. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7519 14/03/02	Lakshmi Nivas, Down Bazar, Mananthavady, Wynadu(dt), Kerala
92210	Kannan. N Jayakumaran. N	BAMS Univ. of Kerala 2002	7586 10/06/02	Kamal, T. C. 10/1870/1, Kavalloor Lane, Vattiyoor kavu P.O., Thiruvananthapuram(dt)
92211	Kannan. V. Vijayan	BAMS Univ. of Kerala 1999	7126 01/02/00	Aswathy, Pattathanam, Kollam(dt) Kerala
92212	Karthik K. K. Vishnu Bhat	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8158 13/10/04	Koilkkaile House, Moovar P.O., Mulleria Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92213	Kavitha N. K. P. Narayanan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8059 27/07/04	Narayana Nivas, P.O. Kowappuram, Kannur(dt), Kerala
92214	Kavitha Nair. T Kamala Krishnan Nair. G	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 1998	6937 14/10/98	Nedumpurathum Villa, Punnamoodu, Varkala P.O., Thiruvananthapuram(dt)
92215	Kavitha. P Unni Krishnan. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7819 06/06/03	Sivam, Vaidyaratnam Road, Kottakkal Malappuram(dt), Kerala

92216	Kesava Prasad N. U. M. N. Namboodiri	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7937 27/12/03	Pazhadathmana, Ramanathapuram, Palakkad(dt), Kerala
92217	Kesavan Nampoothiri. K. G Govindan Nampoothiri	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7267 08/11/00	Kizhake Chandramana Iliam, Kondoar, Erattupetta P.O., Kottayam(dt), Kerala
92218	Kesini V. K. T. V. Arundhathi	BAMS M.G Univ., Kottayam 2004	8030 17/05/04	Balakrishna Colony, Ponnuveetil Lana, Opposite Devamatha Church, Patturajkkal, Thrissur(dt)
92219	Kiran Achutha Bhat Achutha Bhat. A.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7070 10/12/99	A-36, Fact Township, Udyogamandal P.O., Ernakulam(dt), Kerala
92220	Kiran. K. R Rajan. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7558 20/03/02	Peace Land, Edathitta P.O., Kodumon Pathanamthitta(dt), Kerala
92221	Koshy John. P John Panicker. P. K	BAMS Univ. of Kerala 2000	7257 24/10/00	Palavila House, Kampamcode, Vayakkal P.O., Kollam(dt), Kerala
92222	Kripa. V. S Ramachandran. V. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7465 03/11/01	Gurupavan Kavanat, Kottappadi, Kottakkal P.O., Malappuram(dt), Kerala
92223	Krishna Bhat G. S. Shankaranarayana Bhat G.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 1999	8022 17/05/04	Satwai House, Talekala Village, P.O. Meeyappadavu, Manjeshwar, Kasaragodu
92224	Krishna Des. P. K. Krishnan Bhattathiripad. P. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7168 05/07/00	Pathiyil Mana, Kodanad, Mezhatthur P.O., Thrithala Via, Palakkad(dt), Kerala
92225	Krishna Kumar A. Kunhiraman A.	BAMS Univ. of Kerala 2004	8184 25/10/04	Alikkal House, Mannarkkad College P.O., P.O., Kumaramputhur, Palakkad(dt), Kerala
92226	Krishna Kumar. K. R Ramankutty Vaidyar	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7431 15/09/01	1/317, M. G. Kavu, Thrissur(dt) Kerala
92227	Krishna Mohan B. R. B. Ramanna Poojary	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7995 03/04/04	Balakudlu House, Perla Post, Kasaragodu(dt)
92228	Krishna Prakash. P Gopalakrishna Bhat. P. K	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1998	7618 09/07/02	S/o Gopalakrishna Bhat. P. K, Permulha House, Post Perdaia, Kasaragodu(dt) Kerala.
92229	Krishna Prasad Sadasiwan. K	BAMS Univ. of Kerala 2002	7579 07/06/02	Krishna Vilasom, Anayara P.O., ARA-B-25, Thiruvananthapuram(dt), Kerala

92230	Krishna Prashantha E. Subramanya Upadhyaya J.	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8039 17/05/04	Edakkana House, Permude Post, Mangalpady Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92231	Krishna Raj. M Raghurama Bhat. K	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 1998	7299 13/12/00	Priya Nilaya, Manjalagiri, Perla P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
92232	Krishnakumari, K. V. Vella, K. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7132 03/03/00	23/26(3), Kausthubam, Vikas Nagar, Pallipuram P.O., Palakkad(dt), Kerala
92233	Krishnarej. S Harikrishna Bhat. S	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1997	6809 20/09/97	Siddanakere House, Mullyur P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
92234	Krishnareja. T Kesava Bhat. T	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1990	6970 20/02/99	'Viveka', Talengala House, Bagaru Village & Post, Kasaragodu(dt), Kerala
92235	Kshemalatha. K. K Kochukittenkrishnan Kutty	BAMS Univ. of Kerala 2003	7798 07/05/03	Kaleekkal Padinjarethil House, Muthoor P.O., Thiruvalla, Pathanamthitta(dt)
92236	Kumari V.S Aji Velayudhan. C	BAMS Univ. of Kerala 1997	6837 12/01/98	Saraswathy Bhavan, Vencode P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92237	Kumari Rajani. D.V Velukutty. R	BAMS Univ. of Kerala 1997	6774 15/05/97	Putthen Veedu, T.C 48/1097, Ambalathara, Poonthura P.O., Thiruvananthapuram
92238	Kuriose Zachariah Zachariah	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1999	7150 22/05/00	Chittattu House, Pazhavangadi P.O., Ranny, Pathanamthitta(dt), Kerala
92239	Lajana N. V. Narayanan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8047 30/06/04	Lajanes Vihar, Pudukal P.O., Nlleswar, Kasaragodu(dt), Kerala
92240	Lakshmi Karthikeyan K. Karthikeyan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8122 25/09/04	Sarada Mandiram, Ashram Road, Kalady P.O., Ernakulam(dt), Kerala
92241	Lakshmi. J. Nair Narayanan Nair. P. K	BAMS Univ. of Kerala 2003	7782 28/03/03	Aswathy, Neelawaram PO Kottarakara, Kollam(dt), Kerala
92242	Lakshmy Ravindran G. Ravindran Pillai	BAMS Univ. of Kerala 2004	8219 15/12/04	Sarangi, Ramnagar, Pappanamcode P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92243	Lal Krishnan Krishnan. K. N	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2001	7603 01/07/02	Karippelkudy House, Thuruthy P.O., Perumbavoor, Ernakulam(dt), Kerala

92244	Lal. K. S. Kumaraswamy Pillai	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7282 17/11/00	Lal Nivas, Neeleswaram PO, Neduvathoor, Kollam(dt), Kerala
92245	Lal. K.S. Sidharathan. K	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1996	6752 29/03/97	Kannoli House, Inchamudi P.O. Thrissur(dt), Kerala
92246	Lalitha. S Sundar Raj. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7405 11/06/01	Krishna Sada, Anchampeedika P.O., Mottammal Via, Kannur(dt), Kerala
92247	Lalu. T. R Rajagopalan. T. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7217 04/08/00	Thekkoot House, Valapad PO, Thrissur(dt)
92248	Latha. M Subramannyan. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7528 14/03/02	Pandaliparambll, Vaillikapatta P.O., Maukada Via, Malappuram(dt), Kerala
92249	Latha. P. K Krishnakutty. P. K	BAMS Univ. of Kerala 1997	6815 31/11/97	Parambikudy House, Iringole P.O. Perumbavoor, Ernakulam(dt), Kerala
92250	Latheesh Kumar. S. L Lakshmanan. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7190 05/07/00	Saleema, Netaji Road, Chirakkara P.O. Thalassery, Kannur(dt), Kerala
92251	Lathisha V. V. Lakshmanan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8008 12/04/04	Vengorammal House, Cheekknunmal West PO, Kakkattil, Kozhikkodu(dt)
92252	Leena P. Nair C. S. Parameswaran Nair	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8155 12/10/04	Thatottil House, Perungala P.O., Kayamkulam, Alappuzha(dt), Kerala
92253	Leena. P Sivaraman. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7543 16/03/02	Sreepathi, Puthuppariyaram P.O. Palakkad(dt), Kerala
92254	Leenakumari. P. H Hartharan. P. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7412 07/07/01	Plakkaparambil House, Anapuzha P.O., Kodungallur, Thrissur(dt), Kerala
92255	Lekha Mohan S. M. K. Mohana Das	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8229 31/12/04	Padiyath House, AVS Road, Kottakkal P.O., Malappuram(dt), Kerala
92256	Lekha. V. K Krishnan Nadej. R	BAMS Univ. of Kerala 1997	6748 07/02/97	Ramavilas, Pappanamcode P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92257	Lekha. V. K Vidyadharan. A	BAMS Univ. of Kerala 2001	7513 28/01/02	Rohini, T. C. 19/1774(3), Kesavan Nair Road, Poojappura, TVM-12, Thiruvananthapuram(dt) Kerala.

92258	Lekshmi M. K. G. Muralaeddharan Pillai	BAMS Univ. of Kerala 2004	8167 25/10/04	Iswarya (Changayil), Pudukkannoor, Perumpuzha P.O., Kollam(dt), Kerala
92259	Lekshmi M. V. R. Madhusoodanan	BAMS Univ. of Kerala 2003	7866 13/10/03	Ayam, T.C. 10/2220 (1), Kanjirampara P.O. P.O., Thiruvananthapuram(dt)
92260	Lekshmi P. S. N. Bhaskara Prasad	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2003	8119 25/09/04	Bhaskaravilasom, Elangamangalam, Enathu P.O., Pathanamthitta(dt), Kerala
92261	Lenin, S Sathyapalam. V	BAMS Dr. MGR Med. Univ Chennai 1998	6900 02/06/98	Sathya Vilas, Cherunniyoor PO, Varkala, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92262	Lija M. S. K. Subhas Chandran	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8082 13/09/04	Subhas, Kanhangad South P.O., Kasaragodu(dt), Kerala
92263	Liji Joseph Joseph Edamattam	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7916 09/12/03	Edamattam House, Karuvanchal P.O., Alakode Via, Kannur(dt), Kerala
92264	Lijo Kurian Kurian. A. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7833 12/06/03	Chungath Ayyanthole House, Mission Quarters Road, Opp. TVS Ex. Press Workshop, Thrissur(dt)
92265	Liju Johnson Johnson. M. J	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7409 07/07/01	Mathyottu Thekkethil, Pandithitta, Ambalanirapu PO, Thalavoor, Kollam(dt)
92266	Limson Jose Jose. C. D	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7403 11/06/01	Chalakkal House, Eravu PO, Thrissur(dt), Kerala.
92267	Liston K. Panakkal P. K. Kuriakose	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2004	8081 27/07/04	Panakkal House, Manniyoor, Guruvayur P.O., Thrissur(dt), Kerala
92268	Litty Tom N. A. Thomas	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8300 25/01/05	Nellikkal House, Parathanam P.O., Kootickal, Kottayam(dt), Kerala
92269	Lubna D. S. S. Sivaraaj	BAMS Univ. of Kerala 2004	7953 03/02/04	T.C. 21/973, Nedumcaud, Karamana PO, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92270	Lyla Jacob. M. Jacob Manjaly	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7139 31/03/00	W/o Adv. Paul Puthur, C76, A2 Kalhara Apartments, Kanjany Road, Ayyanthole, Thrissur-3, Thrissur
92271	Lyse Mohammed Mohammed Bin Ahamed	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	7045 11/10/99	Shifa, Marancheri PO, Malappuram(dt) Kerala.

92272	Madhu. K. N Raja. P. C. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7358 16/03/01	Puthan Kovilakom, Kappil PO, Wendoor Via, Malappuram(dt), Kerala
92273	Madhu. P. M Krishnan Namboodiri. P. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7520 14/03/02	Maraugatu Madam, Mandoor P.O. Kannur(dt), Kerala
92274	Mahabala Sharma. A Harikrishna Bhat	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2000	7284 20/11/00	Anil House, Perdala PO, Kasaragodu(dt)
92275	Mahadevan. M.S Subramania Iyer. M. V	BAMS Bharthiar Univ., Coimbatore 1993	6925 26/03/98	Mani Mandhir, 2/296, Govindarajapuram, Ambikapuram P.O., Palakkad(dt) Kerala
92276	Mahalakshmy. C Chinnaswamy. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7567 30/03/02	15/181(T. C-1-479), M. G. Nagar, Punkunnam, Thrissur(dt), Kerala
92277	Mahamed Musthafa. V Idru. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6844 18/03/98	Variyathody House, Kadungapuram P.O Angadippuram Via, Malappuram(dt).
92278	Mahesh P. S. Shankaranarayana Bhat U.	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7887 28/11/03	Paneyala House, Bellur Village P.O., Kinninagar, Mulleria Via, Kasaragodu Distt Kerala
92279	Mahesh. A. K Kunhikannan. A. N	BAMS Univ. of Kerala 1997	6767 15/05/97	'Alswarya', Chittilanchery P.O., Palakkad(dt), Kerala
92280	Mahesh. K Radhakrishna Menon. T. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7208 05/07/00	Malikkaparambil House, Annamanada P.O., Thrissur(dt), Kerala
92281	Mahesh. K. M Madhavan Vaidyar. K. G	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2001	7424 16/07/01	Kolapilly House, Vennala P.O., Kochin Ernakulam(dt), Kerala
92282	Majosh P. Jolly Jolly George	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8159 13/10/04	Peakkunael House, Akhilapuri, Matthenikunnu Road, Sulthan Batherl, Wynadu Distt.
92283	Mali. K. R. V. Ramakrishnan. K. K.	BAMS Bharthiar Univ., Coimbatore 1993	7041 25/09/99	Sreeragam, Arakkinar P.O., Calicut, Kozhikkodu(dt), Kerala
92284	Mallan Suma Padmanabhan Padmanabhan. P. N	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur 2001	7674 26/07/02	Pararath House, Sringapuram P.O., Kodungallur, Thrissur(dt), Kerala
92285	Mancy Alex Alex G. Chacko	BAMS Univ. of Kerala 2003	7869 13/10/03	Kochupadippura Veedu, Kadampnad South P.O., Pathanamthitta(dt), Kerala

92286	Maneesha Babu Babu Joseph	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8187 25/10/04	Kunnamkulangara House, Thalayed P.O., Unnikulam Via, Kozhikkodu(dt), Kerala
92287	Manesh Kumar, E. Easwaran Nampoothiri, V.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7100 22/12/99	Manesh Nivas, Elamadu P.O., Ayyoor Via, Kollam(dt), Kerala
92288	Mani, V Kunthikannan, V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7547 16/03/02	Cheruvilagam, Vallichal, Kodakkad P.O., Kasaragodu(dt), Kerala
92289	Manjary, S. P. Namboothiri, S. P.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	7048 18/10/99	Sreedhari, Kurichithanam P.O. Kottayam(dt), Kerala
92290	Manju George George N. J.	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8161 13/10/04	Nedungattu House, Valara P.O., Adimali, Adimali, Idukki(dt), Kerala
92291	Manju John John	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	7939 24/01/04	Podimattathil House, Kudianmala P.O., Naduvi Via, Kannur(dt), Kerala
92292	Manju Mithra, P. Karunakaran, P.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7022 17/07/99	TC. 41/1289, Pazhaya Vilekathu Veedu, Manacaud P.O., Thiruvananthapuram
92293	Manju Thomas M. G. Thomas Panicker	BAMS Univ. of Kerala 2003	7875 22/11/03	TC. 13/1654(2), Kalathil Lane, MPRA-61, Mulinjalalam, Medical College P.O. Thiruvananthapuram(dt)
92294	Manju, G. L NA	BAMS Univ. of Kerala 2000	7235 10/08/00	Valiyavila, Kunnathoor P.O., Kollam(dt)
92295	Manju, N. Thampan Narayanan Thampan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7241 10/08/00	H. No: 24, Ravi Nagar, Ambalammukku, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92296	Manju, P. K Kunju Kunju, P. J	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7569 12/04/02	Plamthottathil, Elavumthitta P.O., Nallanikunnu, Pathanamthitta(dt), Kerala
92297	Manju, T. V Govinda Warriar, K. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7255 24/10/00	Karukappilly Warriar, Karukappilly P.O. Kolenchery, Ernakulam(dt), Kerala
92298	Manju, V Vasu Pillai, G	BAMS Univ. of Kerala 2001	7394 30/05/01	Sreevalsam, Near Town Hall, Changampuzha PO, Cochlin, Ernakulam(dt)
92299	Manjusha B. N. S. Balachandran	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8060 27/07/04	Beena Sadanam, Thazhom P.O., Malayalappuzha, Pathanamthitta(dt), Kerala

92300	Manjusha Murali Muralleedharan. N	BAMS Univ. of Kerala 2003	7778 24/02/03	Mayuram, T. C. 3/123(1), Paruthipara, Patton P.O., Thiruvananthapuram(dt)
92301	Manjusha. A Dasappan. K. N	BAMS Univ. of Kerala 1998	6928 26/08/98	Ananda Bhavan, North Anyad P.O., Alappuzha(dt), Kerala
92302	Manjusha. E.V Vasu. E	BAMS Univ. of Kerala 1997	6834 12/01/98	House No. 1, Officers Nagar, Oottukuzhi Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92303	Manjusha. P. K Damodaran. P.K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7762 31/12/02	Chalil House, Pannikkottur P.O., Koduvely Via, Kozhikkodu(dt), Kerala
92304	Manjusha. V. S Sukumaran. P	BAMS Univ. of Kerala 1999	6982 20/02/99	AP. VIII/479, Aswathy, Mariamman Koli Street, Atinkuzhy, Kazhakkuttom P.O., Thiruvananthapuram(dt)
92305	Manoj C. John John T. C.	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8146 12/10/04	Panjikkattil MJ Bhavan, Ettukudukka P.O., Kannur Via, Kannur(dt),
92306	Manoj Kumar Subhadevan Subhadevan. D	BAMS Univ. of Kerala 1998	6966 26/12/98	'Ananda Bhavan', T.K.M. College P.O., Peroor, Kollam(dt), Kerala
92307	Manoj Kumar. S. Sivadasan. P.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7069 10/12/99	Deepa Bhavan, Ackolli, Valathungal P.O., Kollam-18, Kollam(dt), Kerala
92308	Manoj R. P. R. Raman Namboodiri	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8070 27/07/04	Puthilathu House, Keezhilam P.O., Perumbavoor Via, Ernakulam(dt), Kerala
92309	Manoj. C Chandrasekharan Nair. K	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6762 26/04/97	Mangalathu House, Thodupuzha East P.O. Idukki(dt), Kerala
92310	Manoj. K.V Kumaran. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7821 06/06/03	Kuniyan South, Karivellur P.O., Kannur(dt), Kerala -
92311	Manoj. N Narayana Pillai. P. R	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2001	7377 07/05/01	Divakara Vilas, T. C. 28/2881, Chettikulangara, Thiruvananthapuram(dt)
92312	Manoj. P. S Sidharathan. P. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6873 24/04/98	Pattali House, Talikulam P.O., Thrissur(dt), Kerala
92313	Manoj. R Ravindran. N	BAMS Univ. of Kerala 2001	7384 29/05/01	T. C. 4/2443, Udumpumala, EMS Nagar, Sreekaryam P.O., Thiruvananthapuram

92314	Manoj. S Sankara Narayana Iyer. V	BAMS Univ. of Kerala 2002	7714 19/11/02	Pulevelathu Vadekke Madom, Thulamparambu South, Haripad P.O. Alappuzha(dt)
92315	Mansoor Ali Gurukkal. C. H Mamimu Gurukkal. C. H	BAMS Dr. MGR Med Univ., Chennai 2002	7726 19/11/02	Changampally House, Katiparuthy, Valanchery PO, Malappuram(dt), Kerala
92316	Mary Asha Louls Luis. M.T	BAMS Bangalore Univ., Bangalore 1995	6861 21/04/98	Kizhakkootte House, Cheralayam, Kunnamkulam, Thrissur(dt), Kerala
92317	Mary Sushama. B Boniface. C. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1996	6795 06/08/97	Puthenkada Veedu, Kunjiracode, Kundara P.O., Kollam(dt), Kerala
92318	Mary. C. A. Augusty	BAMS Univ. of Kerala 1999	7103 23/12/99	Stella Maris Convent, Udayamperoor, Ernakulam(dt), Kerala
92319	Maya Gopinath Gopinath. T. K	BAMS M.G Univ., Kottayam 1996	6727 22/01/97	Valliyaveetil, Edathanattukara P.O., Alanalloor Via, Palakkad(dt), Kerala
92320	Maya Narayanan Narayana Menon. E	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7316 12/02/01	Vyreil House, Chenathunadu, Chalakyady P.O., Thrissur(dt), Kerala
92321	Maya. K. P Prabhakaran Nambiar. K	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7500 09/01/02	Kailas, Kunhippara, Kodakkad P.O., Trekarpur Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92322	Maya. S Sreedharan. A. K	BAMS M.G Univ., Kottayam 1996	6729 22/01/97	Sreevilas, Amalagiri P.O., Kottayam-36 Kottayam(dt), Kerala
92323	Maya. S Revindran Nair. P	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7274 13/11/00	Padmasree, Ambadimala, Thiruvankulam P.O., Ernakulam(dt), Kerala
92324	Mayadevi. R Chandrasekharan Nair. P. K	BAMS M.G Univ., Kottayam 1996	6731 22/01/97	'Madappalili', Thiruvor P.O., Cherthala, Cherthala, Alappuzha(dt), Kerala
92325	Meby Anna Zachariah T. S. Zachariah	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7996 03/04/04	Meby Cottage, Vazhuvady, Thazhakkara PO, Mavelikkara, Alappuzha(dt), Kerala
92326	Meera A. E. Rajendran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8079 27/07/04	Parameswaram, White Field Colony, Viyoor, Thrissur(dt), Kerala
92327	Meera P. Venu P. M. Venu	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8298 25/01/05	Vrindavan House, Viyyur P.O., Thrissur(dt)

92328	Meera. R Rajendran. K	BAMS Univ. of Kerala 2000	7290 22/11/00	T. C. 20/3229, Arcadia, D-42, Sree Devi Nagar, Karamana PO, Thiruvananthapuram
92329	Mersa Jose Joseph Gregory	BAMS Univ. of Kerala 2002	7703 11/11/02	Providence, Pazhaveedu P.O. Alappuzha(dt), Kerala
92330	Mini Habeeb Habeebullah. M	BAMS Univ. of Kerala 1997	6840 12/01/98	T.C 5/949, Devapalan Nagar, House No.20, Peroorkada PO, Thiruvananthapuram.
92331	Mini I. K. Narayana Pillai	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8038 17/05/04	Kalathoor Veedu, Perumkulam P.O., Kottarakkara Via, Kollam(dt), Kerala
92332	Mini N. H. N. Haridas	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7929 20/12/03	Harinivas House, Kurlchy P.O. Kottayam(dt)
92333	Mini. J Francis. P	BAMS Univ. of Kerala 1998	6909 17/08/98	Mini Mandiram, Perumon P.O., Perinad, Kollam(dt), Kerala
92334	Miri. K.C Chakkunni. K. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6835 12/01/98	W/o M.D David, Mallakkal House, Kunduvara Road, Chembukavu, Thrissur(dt).
92335	Mini. L Ayyan. S	BAMS Univ. of Kerala 2000	7511 28/01/02	Lekshmy Nivas, Nellimukkal P.O. Pathanamthitta(dt), Kerala
92336	Mini. N.C Raru. N.C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6796 06/08/97	Nediyachall House, Manipuram P.O., Koduvely Via, Kozhikkodu(dt), Kerala -
92337	Mini. P Podiyar. K	BAMS Univ. of Kerala 1998	6912 17/08/98	Nisha Nivas, Kakkadu PO, Kottarakkara, Kollam(dt), Kerala
92338	Mini. P Pankajekshan. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7541 16/03/02	Santhi Nilayam, Manakad P.O., Thodupuzha, Iduttki(dt), Kerala
92339	Mini. V. G George. C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7550 16/03/02	Vettikottil House, Vazhavatta P.O., Kaipeeta North, Wynadu(dt), Kerala
92340	Minimol. V. N Nelson. J	BAMS Univ. of Kerala 1997	6838 12/01/98	Vadakkathu Veedu, Malakulangara, Marayamuttom PO, Thiruvananthapuram(dt).
92341	Misha Rani K. Sahadevan P.	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7909 08/12/03	Pulari House, Karimulakkal, Komalloor P.O., Mavelikkara Taluk, Aleppuzha(dt)

92342	Mitra Das M. D. Mohan Das	BAMS Univ. of Kerala 2003	7856 08/10/03	Ambady, Sanathanapuram P.O. Alappuzha(dt)
92343	Mohamed Raphy. H Haneefa. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7560 21/03/02	Niharam House, Attayampathy, Govindapuram, Chittur, Palakkad(dt)
92344	Mohanam. M Maniyara Narayanan Nambiar	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7577 27/04/02	Madathil House, Achikanam P.O., Anandasram Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92345	Mohandas M. T. M. T. Bhaskaran	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2001	8224 21/12/04	Panjajanniam, Puthur P.O., Vatakara-4, Kozhikkodu(dt), Kerala
92346	Moldeenkutty. U Ullat Kunjalankutty Vaidyar	Arya Vaidya A.V.Patsala, Kottakkal 1938	6938 21/10/98	C/o UK. Medicals, Chemmad, Thiruvangadi P.O., Malappuram(dt), Kerala
92347	Molly Manuel Manuel. A. D	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7000 06/03/99	Alappatt Poovathingal (H), Nadathara P.O., Thrissur(dt), Kerala
92348	Mridani C. C. Sudhakaran	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2003	8110 25/09/04	Kunnekkat House, Kottappadi P.O., Kunnamkulam Via, Thrissur(dt), Kerala
92349	Mrithunjaya Prasad. S. V. Sankara Varier	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7153 22/05/00	Mannambath Varier, Manminda P.O. Kozhikkodu(dt), Kerala
92350	Muhammad Shanavas Thayyil Kammali. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7183 05/07/00	Koottil P.O., Mankada, Malappuram(dt)
92351	Muhammed Asaraf. P. V Aboobacker Haji. P. A	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2002	7725 19/11/02	Puthiya Veetil House, Chiyvanoor, Kokkoo P.O., Malappuram(dt), Kerala
92352	Muhammed Salih. R. A Abdulla. R. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7620 09/07/02	Sajitha Manzil, Vatanappally P.O., Thrissur(dt), Kerala
92353	Muhseena. H Hidurmuhammed. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7807 02/06/03	Priyadarshini, Kurakkod, Kallayil P.O., Mudathara, Kollam(dt), Kerala
92354	Mukesh E. P. V. Mukundan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7888 28/11/03	Mukthi, Povvalamkai, Puthariadukkam Via, Nileshwar, Kasaragodu(dt), Kerala
92355	Muraleedharan. A. K Kunhambu. A	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2000	7268 09/11/00	Pushpalayam, Battambara, Madhu Road, Kasaragodu(dt), Kerala

92356	N. A. Rajendran N. S. Ayyappan	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2003	8111 25/09/04	Nadeppilly House, Mattoor, Marottichodu, Kalady P.O., Ernakulam(dt), Kerala
92357	Nadasha. P. K Kareem. P. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7205 05/07/00	Shas Nivas, Chembukavu PO, Thrissur(dt)
92358	Nair Sandeep Damodharan T. M. Damodharan Nair	BAMS Univ. of Kerala 2004	8176 25/10/04	Vidya Sadan, Near Fire Station, Nut Street P.O., Valakara-4, Kozhikkodu(dt)
92359	Najeed. S Sainudeen. M	BAMS Univ. of Kerala 2001	7399 11/06/01	Devibharanam, Olakettiyambalam P.O., Mavelikkara, Alappuzha(dt), Kerala
92360	Najeed. T. K Mohamedali. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7831 12/06/03	Lighway House, Kodathoor, P. B. No: 679580 Perumpadappa P.O., Malappuram(dt)
92361	Nandakumar. K. P Krishnan. A	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2001	7406 14/06/01	Mynakam, Ravaneswar P.O., Palikkara Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92362	Narayana M. M. Venkatakrishna	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8225 21/12/04	Vrindavanam, Madhur PO, Kasaragodu(dt) Kerala.
92363	Narayanan. A. N Narayanan. A	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2000	7270 10/11/00	Alethiyoor Mana, Choondal P.O., Thrissur(dt), Kerala
92364	Nareesh. B Gopalakrishna Bhat. K. M	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1997	6974 20/02/99	S/o Gopalakrishna Bhat.K.M, Pannappala House, Karadka P.O., Kasaragodu(dt) Kerala
92365	Naseer. V. E Ebrahim. V. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6870 24/04/98	Valiyekath, Mudicode, Pattikkad P.O. Thrissur(dt), Kerala
92366	Naveen. A. N Nandanam. A.V	BAMS Dr. MGR Med. Univ Chennai 1997	6877 24/04/98	Andezhath House, Pattambi Road, Kunnamkulam, Thrissur(dt), Kerala
92367	Naveen. C. J. Chathu. K.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1999	7151 22/05/00	Kavitha, Koya Road Junction, West Hill P.O., Calicut-5, Kozhikkodu(dt)
92368	Neelima. K Unnikrishnan. C. H	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7565 30/03/02	Puthiyedath House, Trichambalam, Tallparamba, Kannur(dt), Kerala
92369	Neetha Bin Krishna Krishnankutty. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7214 17/07/00	Kurikkattil House, Arimpur P.O. Thrissur(dt), Kerala

92370	Neetha Mathew K. S. Mathew	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8015 12/04/04	Plavilayil Thejas, Anandapally P.O., Adoor, Pathanamthitta(dt), Kerala
92371	Neetha Surendran Surendran. K. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7542 16/03/02	Makkalikkal House, Cheruvathani P.O., Kizhur, Kunnankulam, Thrissur(dt) Kerala
92372	Nelson Luis. C. L Luis. K. A	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1998	6949 22/12/98	Chackalaparambil House, Kumbalanghy South P.O., Kochi, Emakulam(dt)
92373	Nelson. K. V Varghese. K. E	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7667 26/07/02	Kariyattil House, Valapad P.O., Thrissur(dt), Kerala
92374	Nicy Khan Moosa Khan	BAMS Univ. of Kerala 2004	8172 25/10/04	Naivar Cottage, College Road, Kollam(dt), Kerala
92375	Nicy. K. A Augustine. K. J	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7213 10/07/00	C/o Dr. Augustine. K. J, Kachappilly House, Kodungallur, Thrissur(dt)
92376	Niketh Narayan T. K. O. K. Narayanan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8010 12/04/04	Govind, Pallipoli, Mowencherry P.O. Kannur(dt), Kerala
92377	Nileena. P Peethambaran. M. N	BAMS Univ. of Kerala 2000	7292 22/11/00	Chandrakantham, Ramankulangara, Kavanadu P.O., Kollam(dt), Kerala
92378	Nisira K. Appunni K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7900 05/12/03	Anugraha, Thattanpady, Edappal P.O. Malappuram(dt), Kerala
92379	Nisira P. K. K. Koshy	BAMS Univ. of Kerala 2003	7870 25/10/03	Neja Nivas, Kottiyam P.O., Kollam(dt) Kerala
92380	Nisira Viswambaran Viswambaran. O. V	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2001	7496 27/12/01	Karuparambil, Cherapalichery P.O. Palakkad(dt), Kerala
92381	Nisira. C. K. Janardhanan Nair. P. N.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7172 05/07/00	Thripathy Nivas, Mayanad P.O., Calicut-8, Kozhikkodu(dt), Kerala
92382	Nisira. E. B Balachandran Nair	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2002	7665 16/07/02	Elayidathu Kunnel, Edavaramba P.O. Cherupuzha Via, Theliparamba, Kannur(dt)
92383	Nisira. L. R Raveendran. S	BAMS Univ. of Kerala 2001	7393 29/05/01	Sreevisakh, Edagramom, Karumom P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala

92384	Nisha. S Sasidharan. S	BAMS Univ. of Kerala 2001	7392 29/05/01	Lakshmi Nilayam, T. C. 5949-(1), Masjid Lane, Peroorkada, Thiruvananthapuram
92385	Nishant Narayan Narayan Singh	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7627 10/07/02	Malayamparambath House, Ariyallur P.O., Malappuram(dt), Kerala
92386	Nishanth Gopinath S. Gopinathan Nair	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8137 25/09/04	Nirmalayam, Kattoor P.O., Thiruvalla, Pathanamthitta(dt), Kerala
92387	Nishanth. S. Nair Sankara Pillai. M. K	BAMS Univ. of Kerala 2001	7451 03/10/01	Jaya Nives, Valathungal PO., Quilon-18, Kollam(dt), Kerala
92388	Nishitha K. S. P. Krishnan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7913 09/12/03	Karunya, Meleppuram, Olavakkode P.O. Palakkad(dt), Kerala
92389	Padmanabha Naik K. Govinda Naik K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7915 09/12/03	Khandige House, Perla P.O. Kasaragodu(dt)
92390	Padmanabhan. E. G. Gopalakrishnan.Potty	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7009 31/03/99	Edamanamadam, Perumthuruthu P.O. Kallara via, Kottayam(dt), Kerala
92391	Padmanabhan. K. Ayyappan. K Ayyappan. K	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1997	6822 05/11/97	Sreekrishna Vilhar, Edarikode PO Malappuram(dt), Kerala
92392	Pallathari Nambal Naboodiri Namboodiri. P. P	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6759 26/04/97	Pallathari Mana, Eroor P.O., Ernakulam(dt) Kerala
92393	Pambavasan. K. U Kokkattil. M. Unnichakkan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7639 15/07/02	Kokkattil House, Muriyad P.O., Thrissur(dt), Kerala
92394	Parameswaran. K. P Paramaswaran Namboothiri. K. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7320 12/02/01	Kaladi Mana, Perumpilavil Road, North Neda Guruvayur, Thrissur(dt)
92395	Pavithran. K. B Balakrishnan. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7360 16/03/01	Kodalil House, Nagalasseri P.O. Palakkad(dt), Kerala
92396	Pichappillil Mani Jektab (Jektab.P.M) Mani	Arya Valdy A.V.Patsala, Kottakai 1949	6880 24/04/98	Pichappillil house, Punnamattam. S, Kadavoor P.O., Muvattupuzha (Via) Malappuram(dt), Kerala
92397	Ponni Chandran M. N. Ramachandran Nair	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8164 13/10/04	Mangalasseri House, Eruva East P.O., Kayamkulam, Alappuzha(dt), Kerala

92398	Poomasree Mohan K. Chandramohan Nair	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8142 25/09/04	Poomapriya, Ezhamkulam, Parakode P.O. Pathanamthitta(dt), Kerala
92399	Prabeesh K. Prabhakaran Vaidyar	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8131 25/09/04	Kariyathan Kavil House, Koodaranhi P.O., Kozhikkodu(dt), Kerala
92400	Prabha Nair K. Krishnan Nair	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	8016 15/04/04	Malapalli House, Thalayar, Kuttoor P.O., Thiruvalla, Pathanamthitta(dt), Kerala
92401	Prabisha. M Mohandas. M	BAMS Univ. of Kerala 2003	7794 07/05/03	Ambily, Pallathu, Kalarcode, Santhanapuram P.O., Alappuzha(dt), Kerala
92402	Prabodh. R. Raghavan. R.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	7086 10/12/99	Abhayam, Silva Temple Road, Thotakattukara P.O., Aluva, Ernakulam(dt)
92403	Pradeep Bhattathiri J. Jaynarayana Bhattathiri	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8085 13/09/04	Vadakke Moodambadi Iiam, Keerikad P.O., Karthikapally Taluq, Alappuzha(dt)
92404	Pradeep. K. V Vidwadharan. N	BAMS Univ. of Kerala 1998	6919 18/08/98	'Kaipana', Ayathil, Ayethil P.O. Kollam(dt), Kerala
92405	Pradeep. R Rana Krishnan Achary. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7265 08/11/00	Achary Parampli, Nedumon P.O., Ezhamkulam, Pathanamthitta(dt), Kerala
92406	Pradeep. R Raghavan. R	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1998	7368 23/04/01	Geetha Bhavanam, S. H. Mount P.O. Kottayam(dt), Kerala
92407	Pradeepkumar. G. Pillai. A. G.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7122 01/02/00	Karthika, Sreeramapuram, Kailuvathukkal, Kollam(dt), Kerala
92408	Praja. R. K Kesavan. R. R	BAMS Univ. of Kerala 2002	7711 11/11/02	Devi Prabha, T. C. 30/1022, Mosque Lane, Pettah, Thiruvananthapuram(dt)
92409	Praja. G Gargadharan. P. P	BAMS Kuvempur Univ., Shanlughatta 1998	6948 22/12/98	'Rajeevi Nivas', Kuthiravattom, Kozhikkodu(dt), Kerala
92410	Prakash Mangalasseri Kunhiraman Nair. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6980 20/02/99	Mangalasseri, Chenoli Post, Perambra Via, Kozhikkodu(dt), Kerala
92411	Pra.rod K. V. K. V. Bhaskaran	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8140 25/09/04	Manikkam, Cheruvathur P.O. Kasaragodu(dt)

92412	Prapanch K. A. K. Prabhakaran	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8127 25/09/04	Sree Bhavan, Opp. Income Tax Office, Chowda P.O., Kannur(dt), Kerala
92413	Prasad. N Namboodiri. P. K	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1998	6950 22/12/98	Kolpurath Mana, 'Dwarka', Opp. Municipal Office, Shornur, Palakkad(dt)
92414	Prasad. V. R Raman. V. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7557 19/03/02	Veluthanar House, Manakkodi P.O. Thrissur(dt), Kerala
92415	Prasanna Lakshmi. K Sundara Bhat	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2000	7613 02/07/02	W/o Dr. Shrikrishna. V, Uttarakodange House, Kolyur P.O., Manjeshwara, Kasaragod(dt)
92416	Prasanna Namboodiri Namboodiri. P. K. N	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1996	6792 28/07/97	D/o Dr. P.K.N. Namboodiri, I.I.P. Cheruthuruthy, Thrissur(dt), Kerala
92417	Prasanth S. R. V. Sasikumaran Nair	BAMS Univ. of Kerala 2003	7852 08/10/03	ADRA-23, TC 29/1071, Chandravillasom, Palkulangara, Thiruvananthapuram
92418	Prasanth. A. S Sukumaran. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7641 15/07/02	Anandamandiram, Ambalapad, Kundukad P.O., Thrissur(dt), Kerala
92419	Prasanth. P Prabhakara Varier. V. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7767 31/12/02	T. C. 4/510, Sreevilas Lane, Kawdiar P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92420	Prasanth. R Raghavan. R	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1997	6947 22/12/98	IV/171, 'Abhayam', Temple Road, Thottakkattukara PO, Aluva, Ernakulam(dt)
92421	Praseena. E. R Ramankutty. E	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7113 23/12/99	Sreyas, Palakkadi, Chulloor P.O., Rec Vila, Kozhikkodu(dt), Kerala
92422	Prasheela. K Kunhiraman. K. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6985 20/02/99	Korothuparambil House, Chundale P.O. Wynadu(dt), Kerala
92423	Prasobh. K. P. Praseedan. K. P.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7149 22/05/00	Kalissaril House, Kongorpilly P.O. Ernakulam(dt), Kerala
92424	Praveen Kumar. K. C Kuttikrishnan Nair. C. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7546 16/03/02	Kizhakke Cheruvuparambil House, Kallloor P.O., Ponjanam North, Irinjalakuda Thrissur(dt)
92425	Praveen Kumar. P. S Purusothaman. P	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6782 08/07/97	Kochuvila Veedu, Chittayam, Inchavila P.O. Perinad, Kollam(dt), Kerala

92426	Praveen P. R. O. K. Ramachandran	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7930 20/12/03	Ayurvedasadanam, Parappa PO, Kasaragodu
92427	Praveen R. L. Ramachandran Nair	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7895 05/12/03	Sindhooram, Kannamath Kizhakkethil, Uliyacovil, Kollam(dt), Kerala
92428	Praveen, G. S Sasikumar. K. S	BAMS Univ. of Kerala 2000	7237 10/08/00	Thoppuvilakom, Vellanad P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92429	Praveen, M Unnikrishna Varrier. E. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6829 15/11/97	'Gayathri', Poozhithara, Kottakkal P.O. Malappuram(dt), Kerala
92430	Praveen, R. S Sasidharan Nair. S	BAMS Dr. MGR Med. Univ Chennai 1998	6901 22/06/98	T.C 49/223, 'Vishnu Priya', Kallattumukku, Manacaud P.O., Thiruvananthapuram.
92431	Pravith, N. K Natesan. K	BAMS Univ. of Kerala 2001	7446 15/09/01	K. N. Nivas, Edavankonam, Kattalkonam P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92432	Pravitha K. K. Subramanian	BAMS Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8230 31/12/04	Kakkarath House, Nhangattiri P.O., Pattambi Via, Palakkad(dt), Kerala
92433	Pravitha Kumari V. P. Sukumaran Nair	BAMS Univ. of Kerala 2003	7855 08/10/03	Karayadiputhen Veedu, Manappuram, Malayinkeezhu PO, Thiruvananthapuram
92434	Preetha. H Hartharan. C	BAMS Univ. of Kerala 2001	7388 29/05/01	Jyothis, West Fort, Mavellikara, Alappuzha(dt), Kerala
92435	Preetha. P Kunhikrishnan Nabiar. K	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1998	6929 08/09/98	'Sreehari', Mayyannoor P.O. Vadakara, Kozhikkodu(dt), Kerala
92436	Preetha. P. Prabhakaran. R.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	7047 18/10/99	Aswathi, Punthala P.O., Chengannur (R Dist) ,Alappuzha(dt), Kerala
92437	Preetha. P. R Purushothaman Nair. K	BAMS Univ. of Kerala 2002	7710 11/11/02	P. R. Bhavan, Perayam P.O., Pacha Via, Nedumangadu, Thiruvananthapuram(dt)
92438	Preetha. P. V Kunhiraman. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7309 12/02/01	Thoonoli House, Kolathuvayal, Anchampeedika PO, Kannur(dt), Kerala
92439	Preethan. S. Somarajan. V.	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 1999	7124 01/02/00	Preethragam House, Thalayolaparambu P.O., Kottayam(dt), Kerala

92440	Preethy. K. Ramakrishnan Ramakrishnan. K. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7206 05/07/00	Athira, House No: VI/417, Museum Cross Lane, Chembukkavu PO, Thrissur(dt)
92441	Preethy. M. P Sankaran. M. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7362 16/03/01	Puliyakkode House, Panamanna P.O. Palakkad(dt), Kerala
92442	Preethy. P Pushpangadan. C	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7435 15/09/01	Padippura Thekkethil, Karakkad P.O., Chengannur, Alappuzha(dt), Kerala
92443	Preeya. K. S Kochukrishnan. M	BAMS Univ. of Kerala 1997	6741 07/02/97	Priya Bhavan, Kollayil P.O., Madathara Via Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92444	Premjith S. Sathyapala Panikkar	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8216 15/12/04	Edakkulangara P.O., Karunagappally, Kollam(dt), Kerala
92445	Premkishore. K Sivaraman. K. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6853 28/03/98	Kootakkil House, Nellikode, Kozhikkodu Kerala
92446	Pritha Namblar Kunhiraman Nair. M. V	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2000	7269 09/11/00	Jyothsna, Chattanchal, Thekkil P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
92447	Priya M. Sundaram Sundaram Iyar. H	BAMS Univ. of Kerala 1998	6953 22/12/98	'Madhura', T.C 1/1480, Thaliyal, Karamana P.O., Thiruvananthapuram(dt)
92448	Priya Prasad Babu Rajendra Prasad. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7438 15/09/01	Kottakkavil, Neendoor, Vadakkekara, North Parur, Ernakulam(dt), Kerala
92449	Priya Prasad Prasad. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7573 27/04/02	Pulakkal House, Kundalassery P.O., Keralassery, Palakkad(dt), Kerala
92450	Priya Ravindran Ravindran Pillai. M.C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7848 14/08/03	Pourami, Muttom P.O., Haripad, Alappuzha(dt)
92451	Priya. A Ashokan. A. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7188 05/07/00	Gokulam Ramnagar, Vadakkanthara PO. Palakkad(dt), Kerala
92452	Priya. C. Nair Chandrasekhar Nair. P.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7034 16/09/99	Priya-Resmi House, Kuthiathode P.O. Alappuzha(dt), Kerala
92453	Priya. K Sekarani. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7549 16/03/02	Arunodayam, Kizhundu PO, Kannur(dt)

92454	Priya. K. G Gangadharan Nair. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7754 28/12/02	Kizhekke Eledathe House, Vengeri P.O., Calicut-10, Kozhikkodu(dt), Kerala
92455	Priya. K. S. Sankuru. K. R.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7078 10/12/99	Kaithvalappil House, Padiyoor P.O., Pinjalakuda via, Thrissur(dt), Kerala
92456	Priya. M Parameswaran. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7760 28/12/02	Prayaga, K. G. Padi, Tirur P.O., Malappuram(dt), Kerala
92457	Priya. S Sreedharan. A. K	BAMS M.G Univ., Kottayam 1996	6730 22/01/97	Sreevilas, Amalagiri P.O., Kottayam-35, Kottayam(dt), Kerala
92458	Priya. S Sreenivasan. N	BAMS Univ. of Kerala 1998	6920 18/03/98	'Sreevas', Palace Road, Vakkom P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92459	Priya. V. L. Viswanathan Pillai. K. S.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1998	7051 18/10/99	Ililkulathu Vayanakam, Njakkana P.O., Krishnapuram via, Kollam(dt), Kerala
92460	Priyadarsini. C. G Gopinathan. C. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6990 20/02/99	Chuliparambil, Elthuruth P.O., Kodungallur, Thrissur(dt), Kerala
92461	Pustipa J. T. Joseph	BAMS Univ. of Kerala 2004	7966 01/03/04	Pushpa Mandiram, Cantonment South Kollam(dt), Kerala
92462	Pustipa Kumari. S Thomas. M	BAMS Univ. of Kerala 1998	6957 22/12/98	Chettikulangara House, Near Karali, Parassala P.O., Thiruvananthapuram(dt),
92463	Pustipa. E Medhevan Embrandiri. E	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6848 28/03/98	Kottakkochi House, Haripuram P.O., Anandashramam Via
92464	Pustipam. D. Varghese. C.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7053 28/11/99	T. C. 13/1526, Kannam Moola, Medical College, Thiruvananthapuram(dt)
92465	R. Vinayak Nair V. R. K. Nair	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	7991 29/03/04	Swathi (Tharangom), Kannimelvilla, Thachottukavu, Peyad P.O. Thiruvananthapuram(dt) Kerala
92466	Ratheesh. S. R Ramadas. R	BAMS Univ. of Kerala 2001	7401 11/06/01	Gurudarsan, Sreenivasapuram P.O., Varkala, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92467	Ratheesh. N Krishnan. N. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6994 08/03/99	Neelath house, Ariyannur P.O., Thrissur(dt), Kerala

92468	Radha Krishnan, C Chandrasekharan	BAMS Univ. of Kerala 1998	6955 22/12/98	T.C 15/1543, House, No. 22, M.P. Appan Nagar, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram
92469	Radha Krishnan, K. R Rajappan Pillai, K. N	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1995	6756 15/04/97	Athimillam, Veliyanad PO Changanachery ,Alappuzha(dt),Kerala
92470	Radhakrishnan Melepurakkal M. Unnikutty Vaidyar	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8086 13/09/04	Melepurakkal House, Areacode Via, Ugrapuram P.O., Malappuram(dt), Kerala
92471	Radhamani, P Gangadharan, P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7186 05/07/00	Ganga Bhavan, Tirur-I, Malappuram(dt)
92472	Radhika Rani, R. K Ramakrishna Pillai, N	BAMS Univ. of Kerala 1998	6916 18/08/98	'Mini Jyothi', T.C-3/1405, Lakshmi Nagar, Pattom Palace PO, Thiruvananthapuram
92473	Radhika Ranjan Geethesh P. Ramachandra Ammannayya P.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1999	7925 09/12/03	Benaka Kripa House, Adhur P.O. Kasargodu(dt), Kerala
92474	Radhika, C Haridasan Nair	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2002	7663 16/07/02	Cheruvath House, Poonath Post, Naduvannur Via, Kozhikkodu(dt), Kerala
92475	Radhika, P. Radhakrishnan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7159 21/06/00	Theertham, Payerncherry, Iratty P.O. Kannur(dt), Kerala
92476	Ragesh R. Ravindran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8071 27/07/04	Ezhuvaapady House, Kizhakumury P.O., Peringottukara, Thrissur(dt), Kerala
92477	Raghavan, P. K Krishnan, C. K.	BAMS Univ. of Kerala 1997	6742 07/02/97	Chittilakkattu, Kottumpuzha P.O., Kothamangalam Via, Ernakulam(dt), Kerala
92478	Raghavan, R Ramachandran Panicker, K. K	BAMS Univ. of Kerala 1997	6746 07/02/97	'Ramanilayam', Kesavan Nair Lane, Poojapura, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92479	Rahana Rani, M Muraleedharan	BAMS Univ. of Kerala 2002	7590 10/06/02	Neelikunnath Veedu, Nallila P.O. Kollam(dt), Kerala
92480	Rahul, R. P Ramachandran Nair, R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7598 10/06/02	Remya, T. C. 50/905, Kalady, Karamana P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92481	Raj Mohan V. Velayudhan Pillai K.	BAMS Univ. of Kerala 2003	7853 08/10/03	Lalitha Mandiram, Chirakkara P.O. Edavattom, Kalluvathukkal, Kollam(dt)

92482	Raj Mohan. P. R Raniankutty. P. C	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2002	7604 01/07/02	Palanchery, Padivayal, Vaduvanchal P.O., Wynadu(dt), Kerala
92483	Rajalekshmi. R. Nair Rajendran Nair. T	BAMS Univ. of Kerala 2002	7697 05/11/02	Raj Vihar, Kavumthattu, Ayanimoodu, Vedivachan Coll P.O., Thiruvananthapuram.
92484	Rajan. P David. M	BAMS Univ. of Kerala 1997	6726 21/01/97	Pallivila Veedu, Karamanoor, Parassala P.O Thiruvananthapuram (dt), Kerala
92485	Rajani. S Pilla. M. S	BAMS Univ. of Kerala 2003	7803 07/05/03	K. Instt. of Hotel, Management-2, Catering Technology, GV Raja Rd.
92486	Rajasekharan Nair. G Gopnathan Nair. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7619 09/07/02	Kovalam, Thiruvananthapuram (Dt) Parvathy Vilasam, Vandiperiyar P.O. Idukki(dt), Kerala
92487	Rajasree G. K. S. Gopala Krishnan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8163 13/10/04	Kakkanattuchirayil, Kodimatha . Kottayam(dt), Kerala
92488	Rajasree. P Mohanan. B	BAMS Univ. of Kerala 2000	7227 10/08/00	Amruthukulangara Veedu, Thekkevila P.O., Kollam(dt), Kerala
92489	Rajasujitham. N. K Natarajan. C	BAMS Univ. of Kerala 2000	7226 10/08/00	Santhosh Bhavan, Thazham South, Chathannoor P.O., Kollam(dt), Kerala
92490	Rajeena. K. A Abdul Wahid. K. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7199 05/07/00	Kothaparambu P.O., Kodungalloor , Thrissur(dt), Kerala
92491	Rajeev S. P. Sudhakaran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8286 25/01/05	Anjali, Near Poly Hostel, Angadipuram P.O. Malappuram(dt), Kerala
92492	Rajeev. G Gopalan. C	BAMS Univ. of Kerala 2002	7599 14/06/02	Edatharuthel, North Kidapram, Perugalam P.O., Arthallore Via ,Kollam(dt)
92493	Rajeev. V. B Bralmadathan. V. M	BAMS Dr. MGR Med. Univ Chennai 1997	6863 24/04/98	Vaidya Mandham, Vadakkancheri P.O. Thrissur(dt), Kerala
92494	Rajeevan. V Ambu. K. V.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7163 05/07/00	Dhanwanthari Nivas, Trikaripur P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
92495	Rajesh Babu. E. K Kesavan. E.V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6903 22/06/98	K.W.A. Quarters, Moothanthara Palakkad(dt), Kerala

92496	Rajesh K. P. P. Anandan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8021 22/04/04	Anandam, Near Govt Hospital, Karivellur P.O., Kannur(dt), Kerala
92497	Rajesh Kumar E. P. Raghavan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8001 03/04/04	Palkulam House, Attenganam Post, Anandasramam Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92498	Rajesh Ramnath Ramanathan. M. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7418 11/07/01	Suvama, 37/576, Muttathil Lane, Kadavanthara, Cochin, Emakulam(dt)
92499	Rajesh T. G. P. G. Gopakumar	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7897 05/12/03	Sreedurga, Poovathussery P.O., Annamanada, Thrissur(dt), Kerala
92500	Rajesh. B Bhaskaran Nair. G	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6976 20/02/99	Anary Veedu, Thrikunnapuzha P.O. Alappuzha(dt), Kerala
92501	Rajesh. D Raghavan. D	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7352 15/03/01	Sreelakshmi, Old E. S. I. Road, Palikunnu P.O., Kannur(dt), Kerala
92502	Rajesh. K Karunakaran. K. N	BAMS Univ. of Kerala 1998	6946 15/12/98	Thattuvila House, Edavattom, Veilimon P.O. Kundara, Kannur(dt), Kerala
92503	Rajesh. K. S Sadasivan. K. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7563 30/03/02	Kanhangattu Parambil, Nedungottur, Shoranur, Palakkad(dt), Kerala
92504	Rajesh. M Padmanabhan Nair. K. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7525 14/03/02	Sunil Nivas, Nadiyattom PO Kuttippalam Via, Malappuram(dt), Kerala
92505	Rajesh. N Narayanan Naboodiri. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6847 28/03/98	Neelamana, Roshni, Irivallur P.O., Chelamur, Kozhikkodu(dt), Kerala
92506	Rajesh. P. V Narayanna. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7659 16/07/02	Mottammal House, Kannom, Ezhome P.O., Kannur(dt), Kerala
92507	Rajesh. R Rajendran. R	BAMS Univ. of Kerala 2001	7397 08/06/01	Melathil Veedu, Alenchery, Yeroor P.O. Kollam(dt), Kerala
92508	Rajesh. R Ramasubb. M	BAMS Univ. of Kerala 2002	7517 05/02/02	L.C. Bhavan, Kottammukku, Kollam(dt) Kerala
92509	Rajesh. V Vasu. M. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7411 07/07/01	Muthuvara House, Mulamkunnath Kavu, Thrissur(dt), Kerala

92510	Raji R. Sivadasi	BAMS Univ. of Kerala 2004	8169 25/10/04	Kavinte Melethil, Muthukattukara, Nooranad P.O., Alappuzha(dt), Kerala
92511	Raji. P. D Damodaran. C. P	BAMS Univ. of Kerala 1998	6908 10/08/98	S.K. Vihar, T.C 14/1379, Bakery Jn, Vikas Bhavan PO, Thiruvananthapuram
92512	Raji. S. R Rangaswamy. S	BAMS Univ. of Kerala 2001	7441 15/09/01	T. C. 17/1808(1)Pura(118), Sreerangam, Poojappura, Thiruvananthapuram(dt)
92513	Rajith. N. R Ramadas. N. K	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1998	6932 28/09/98	Nedumparambil House, Tharakalam, Chittur P.O., Palakkad(dt), Kerala
92514	Rajitha. R. Warriar Ramankutty. P. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7194 05/07/00	Panangattukara Warriar, Panangattukara P.O., Wadakancheri, Thrissur(dt)
92515	Rajkumar. K. C Chandrasekhara Warriar. A. K	BAMS Univ. of Kerala 1997	6763 26/04/97	Flat. No. 107, Prasanth Nagar, West Fort Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92516	Raju P. Purushothaman P.	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8028 17/05/04	Prarthana, Laxmi nagar, Kanhangad, Kasaragodu(dt), Kerala
92517	Rajula. R. S Ratrekaran. V. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7656 16/07/02	Surabhi, Kallur, Mattannur P.O. Kannur(dt), Kerala
92518	Rakhee R. M. Raghunathan Nair	BAMS Univ. of Kerala 2004	8179 25/10/04	Kaliara Veedu, Puthukulangara P.O. Nedumangadu, Thiruvananthapuram(dt)
92519	Rakhee Sukumaran V. A. Sukumaran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7914 09/12/03	Arackal House, Ayyanthole, Thrissur(dt)
92520	Rakhee. T. P Raghavan. A.V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6851 28/03/98	Thushara, Karuvacherry, South Bazar, Payyanur, Kannur(dt), Kerala
92521	Rakhi C. M. K. C. Mohanan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8139 25/09/04	Kaliyilazhikam, Thazhuthala, Kottiyam P.O. Kollam(dt), Kerala
92522	Ramana. G. V Viswanatha Sastry. G. K. V. S	BAMS Osmania Univ., Hyderabad 1992	7283 17/11/00	Kapila, Near Kerala Talkies, Kuthuparamba, Kannur(dt), Kerala
92523	Ramesan. E. K Gopalan. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6986 20/02/99	ECK house, Eraman P.O., Payyannoor, Kannur(dt), Kerala

92524	Ramesh Kumar. M. N Narayanan. C. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7824 06/06/03	Melapurakkal House, Chiramanengade P.O., Marathancode Via, Thrissur(dt),
92525	Rameshan C. Koran Nair C.	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8042 25/05/04	Near Muthappanar Kavu, Kanhangad South South PO, Kasaragodu(dt), Kerala
92526	Ramkumar. P Radhakrishna Varier. K.V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6852 28/03/98	Kailasa Mandiram, Kottukkal P.O., Malappuram(dt), Kerala
92527	Ramya Prabha. C Chandrasekharan. P	BAMS Dr. MGR Med Univ., Chennai 2001	7777 24/02/03	1772 Kozhivettur Veli, North Eroor, Tripunithura, Ernakulam(dt), Kerala
92528	Rani Raveendran Raveendran. V. S	BAMS Univ. of Kerala 2000	7516 28/01/02	Thayyisseril House, Memana, Oachira P.O., Kollam(dt), Kerala
92529	Ranjini Divakar T. N. Divakaran	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7961 16/02/04	Dinesh Estate, Karimbadi P.O., Vaithiri Taluk, Wynadu(dt), Kerala
92530	Ranjini M. M. Raghavan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8211 22/11/04	Love Dale, Nedumba, Vallyapoyil P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
92531	Raseenan Beevl. M. Mohammed Rafeek	BAMS Univ. of Kerala 1999	7075 10/12/99	Shabu Nivas, Pullimath P.O., Thruvananthapuram(dt), Kerala
92532	Rasheed. T. H Hamza. T. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7539 16/03/02	Theruvath, Chiramanagad P.O., Pannithadam, Thrissur(dt), Kerala
92533	Rasmi. P. R Rejan. P. F	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7536 16/03/02	Palaethingal House, Kachery, Nadathara P.O., Thrissur(dt), Kerala
92534	Ratheesh Kumar. C. Kuttalan Pillai. N. C.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7017 16/07/99	Sivakami Gardens, TC 26/1862, GPO Lane, TVM-1, Thiruvananthapuram(dt) Kerala
92535	Ratheesh P. Sukumaran M.	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8002 03/04/04	Nisha Nivas, Kottopadam PO. Mannarkkad Via, Palakkad(dt), Kerala
92536	Rathish. P. Radhakrishnan. P.	BAMS Dr. MGR Med, Univ., Chennai 1998	7039 17/09/99	Pooyath House, XII/201, Warriam Lane, Thrissur(dt), Kerala
92537	Ravi Mooss. E. T. Divakaran Mooss	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	7037 17/09/99	Thalikkattu Mana, Anandapuram P.O. Thrissur(dt), Kerala

92538	Rav Narayanakumar. K. A. Garapathi Namboodiri. K. A.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7178 05/07/00	Narayana Nivas, Kottakkal P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
92539	Ravshanker. K. S. Sreekumar. K. S.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7105 23/12/99	Arya Sankaram, Thirunakkara, Kottayam(dt) Kerala
92540	Ray Sudhan Suchakaran. V	BAMS Dr. MGR Med. Univ Chennai 1997	6860 28/03/98	Sudhakara Pharmacy, Vadasserikonam P.O., Varkala, Thiruvananthapuram(dt)
92541	Razena. K. Alikeya. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7101 23/12/99	Bismillah, Vayalar, Cherthala, Alappuzha(dt), Kerala
92542	Reahana. P. Ali. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7128 01/02/00	Parammal House, Cholakkal, Payyanad P.O., Manjeri via, Malappuram(dt)
92543	Reda. P. Rajm. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7502 24/01/02	Shantha Villa, Near Indore Stadium, Puthiyara P.O., Kozhikkodu(dt), Kerala
92544	Reda. P. V. Balakrishnan Nambiar	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7107 23/12/99	Sreenilayam, Karaperavoor, Mattannoor Via, Kannur(dt), Kerala
92545	Reda. V. R. Nair. S. R	BAMS Univ. of Kerala 2000	7289 22/11/00	TC 9/2076, Veenasree, Thamarakulam Lane Sasthamangalam PO, Thiruvananthapuram
92546	Reena Balakrishnan Balakrishnan Mudapathy	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8037 17/05/04	Chaithanya, Opp. C.M. College, Talap, Talap, Kannur(dt), Kerala
92547	Reena Santham. E.S Santham. E. S	BAMS Univ. of Kerala 1998	6922 18/08/98	'Santhalayam', Chani, Kanjiramkulam P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92548	Reena Warrior Karlppayoor Krishnankutty Warrior	BAMS Univ. of Bombay, Bombay 1994	8220 15/12/04	Kailasamandiram, Kottakkal P.O. Malappuram(dt), Kerala
92549	Reena. S Viswambharan. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7745 28/12/02	Hill View, T. C. 3/686, Muttada P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92550	Reepa Pavithram Pavthram. B	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2002	7576 27/04/02	Balakandy House, Talap, Kannur(dt)
92551	Rejini. H Hardas. V. N	BAMS Univ. of Kerala 2001	7400 11/06/01	Manimandiram, Komana. Ambalapuzha P.O., Alappuzha(dt), Kerala

92552	Reji Raj. R Rajagopalan. P. K	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2002	7693 21/10/02	Raj Sadan House, Santhi Nagar, Hospital Road, Perintalmanna P.O. Malappuram(dt)
92553	Reji Thomas Thomas	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7931 20/12/03	Koipurathu House, Karikkattoor P.O., Kanjirappally, Kottayam(dt), Kerala
92554	Reji V. A. Radhakrishnan Nair	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8227 21/12/04	Kakkachal House, Bandedka P.O., Chengala Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92555	Reji. K. R Rev. K. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6854 28/03/98	Thushara, M.I.E. P.O., Kunnamangalam, Kozhikkodu(dt), Kerala
92556	Rejith Daniel M. D. Varghese	BAMS Univ. of Kerala 2004	7993 31/03/04	Pallipurathu Puthen Veedu, East of iron Bridge, Kollam(dt), Kerala
92557	Rejitha. T. Raghava Menon. T.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7087 10/12/99	Thaliyakattil House, Karuvannur P.O. Thrissur(dt), Kerala
92558	Rejunath. E. K Vijayan Vaidyar. E. K	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1996	6755 29/03/97	Erattapallyali Kalikulathingal, Katampazhipuram, Palakkad(dt), Kerala
92559	Rekha T. B. T. V. Bhaskaran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8077 27/07/04	Thottathil House, Harinagar, Plot No.202, Punkunnam, Thrissur(dt), Kerala
92560	Rekha. B. Balagangadhara Menon. T.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7111 23/12/99	Krishna, Kaippallikundu, Kottakkal, Malappuram(dt), Kerala
92561	Rekha. D Ramakrishnan. V	BAMS Univ. of Kerala 2003	7802 07/05/03	Dhanya, Kalluvazhy P.O., Thiruvazhiyode Via, Palakkad(dt), Kerala
92562	Rekha. I. K Krishnan. I. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7317 12/02/01	Irimbranellur House, Perumbillissery, Cherpu P.O., Thrissur(dt), Kerala
92563	Rekha. N. S Sekharan. N. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6998 06/03/99	Nambukulangara House, Alathoor, Anandapuram P.O., Thrissur(dt), Kerala
92564	Rekha. P. K Govindan Kutty	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6983 20/02/99	Padinjarekandiyil House, Ekarool P.O. Unnikulam (via), Kozhikkodu(dt)
92565	Rekha. S. Devi Ramachandran Nair. S. D	BAMS Univ. of Kerala 2001	7386 29/05/01	Madhavam, T. C. 36/1369, JPN-68, J. P. Nagar, Vallakadavu P.O. Thiruvananthapuram(dt)

92566	Reniza A. A. Abdul Vahab	BAMS Univ. of Kerala 2005	8302 05/02/05	TC 9/1962, Kochar Road, Sesthamangalam P.O., Thiruvananthapuram(dt)
92567	Remya K. M. P. Raveendran	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7885 28/11/03	Vaishakhham, Naluthera, Mahe
92568	Remya Krishnan Unnikrishnan. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7306 24/01/01	Sreyas, Kanlumpal, Thrishoor Road, Kunnarnkulam, Thrissur(dt), Kerala
92569	Remya S. N. Sivanandan V. S.	BAMS Univ. of Kerala 2004	7949 30/01/04	Binu Bhavan, Puthen Vila, Kudappanakunnu P.O., Thiruvananthapuram(dt),
92570	Remya V. R Visvanathan. N	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2001	7564 30/03/02	Kanchanathu Bunglaw, Mukkola P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92571	Rence. P. Varghese Varghese	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7200 05/07/00	Palakkadan House, Adimaly P.O., Adimaly, Idukki(dt), Kerala
92572	Renjini. R. U. Rajnasari. P. A.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7085 10/12/99	Manipushpakom, Monvila, Pangappara PO, Karyavattom Via, Thiruvananthapuram
92573	Renjith C. K. K Chandran	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	7990 29/03/04	Vishnumaya, Manimandiram, Veliyetham Parambu, Nayarambalam P.O., Ernakulam Distt. Kerala.
92574	Renjith. M. R Ravindran Nair. M. N	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2001	7373 28/04/01	Mannalil, Anand Nagar, Kalmanom P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92575	Renjith. P. Gopinath Dr. Gopi. P. S	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2002	7608 01/07/02	Padinjare Tharayil Sestha Bhavan, UC. College PO., Aluva, Ernakulam(dt)
92576	Renjith. R. Raveendran Pillai. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7108 23/12/99	Reji Bhavan, Edakkulam P.O., Karunagappally, Kollam(dt), Kerala
92577	Renju. T. Yohannan Yohannan. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7645 16/07/02	Sini Nivas, AKG Junction, Karavanpalam, Kollam-1, Kollam(dt), Kerala
92578	Renu. S Subramanian Nambiar. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7203 05/07/00	Surabhi, Mezhatthur P.O., Trithala Via, Palakkad(dt), Kerala
92579	Reshma E. N. K Gangadharan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8144 08/10/04	Pratheeksha, Pathiriyad, Sankaranellur P.O., Kuthuparamba Via, Kannur(dt)

92580	Reshma Patinjarayil A. P. Raghavan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8062 27/07/04	Aravali, Kannadiparamba P.O., Kannur(dt)
92581	Reshma. K Choyikutty. K	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2002	7675 26/07/02	Sreevalsam House, Palath P.O., Kakkodi Via, Kozhikkodu(dt), Kerala
92582	Reshma. V. R Ramakrishnan. V.S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7413 07/07/01	Vallparambil House, Amballoor, Alagappa Nagar PO, Thrissur(dt), Kerala
92583	Reshmi A. R. Ravindran A. L.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2003	8101 25/09/04	Karuvani House, Chuduvathur, Shornur, Palakkad(dt), Kerala
92584	Reshmi Pushpan K. K. Pushpan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	7976 03/03/04	Ram Nivas, Koodal PO, Pathanamthitta(dt)
92585	Reshmi. M. Bhaskaran Bhaskaran. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7843 11/07/03	Devi Mandiram, Sulthan Battery, Wynadu(dt)
92586	Reshmi. M. L Marikantan Nair	BAMS Univ. of Kerala 2002	7588 10/06/02	Aazhakath M. R. A. E-10, Maruthankuzhi, Kanjirampara P.O., Thiruvananthapuram
92587	Reshmi. S Sasi. G	BAMS Univ. of Kerala 2002	7705 11/11/02	Kizhakke Veedu, Cherlazheekal P.O., Karunagappally, Kollam(dt), Kerala
92588	Reshmitha. K. M. Mathai. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7106 23/12/99	Reshmitha. K. M, Amala, St. Vincent's Colony, Calicut-6, Kozhikkodu(dt)
92589	Resmi Nair. P Muraleedharan Nair. G	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6845 21/03/98	Sareena, Ottukal street, Kalthamukku, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92590	Resmi. B Balakrishnan Nair. D	BAMS Univ. of Kerala 2001	7391 29/05/01	Padinjarekkara, Maruthorvattom P.O., Cherthala, Alappuzha(dt), Kerala
92591	Resmi. K. J Janardhanan Pillai. C. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7712 11/11/02	Reji Bhavan, Edakulangara P.O., Karunagappally, Kollam(dt), Kerala
92592	Resmi. K. M Somasundaran. K. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7371 23/04/01	Kizhakkekkara Melapat House, Rashmi, Manissery PO, Ottapalam, Palakkad(dt)
92593	Rhiju. K. Krishnan. G.	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 1998	7044 01/10/99	Rhiji Bhavan, Valayanchirangara P.O., Perumbavoor, Emakulam(dt), Kerala

92594	Rini. V. R Rappal. V. D	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	7305 24/01/01	Kottayil House, Kattampack, Neezhloor Via, Kottayam(dt), Kerala
92595	Robin Jacob Joy Mathew	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6977 20/02/99	Madukkakuzhy House, Parathode P.O. Kottayam(dt), Kerala
92596	Robin K. Joseph Joseph K. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8072 27/07/04	Kochunedungattu House, Arakkuzha P.O. Muvattupuzha, Ernakulam(dt), Kerala
92597	Romy. P. Mathew Mathunny. P. D	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7574 27/04/02	Kollannur House, T. C. 19/1112, East Fort, Thrissur(dt), Kerala
92598	Roopa Kuduva Rathnakar Kuduva	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8125 25/09/04	Aishwarya, Kolkeball Road, Adkathball, Kasaragodu(dt), Kerala
92599	Roopa Saraswathi. H Lakshmi Narayana Bhat. H	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 1998	7253 12/10/00	Ayyankavu House, Rajapuram P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
92600	Roopa. S Chandrasekaran. K. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7210 05/07/00	Maruthi, 22nd Miles, Manjeri, Malappuram(dt), Kerala
92601	Roshini. C Mohideen Ali Sahib	BAMS Univ. of Kerala 1997	6778 20/05/97	T.C 17/699, Vattavilakom Purayadam, Poojappura, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92602	Roshith. R Dr. Ravi. C. K	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2002	7617 02/07/02	Shankar Pharmacy, Manjummel P.O., Udyogamandal, Ernakulam(dt), Kerala
92603	Roshni Anirudhan Anirudhan. P. N	BAMS Univ. of Kerala 1998	6942 23/11/98	Pullarkattu House, G-9- Plot, FACT Nagar, Thripunithura, Ernakulam(dt)
92604	Roshni Padmanabhan. K Padmanabhan. K	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7505 24/01/02	Padmasree House, Puthur PO, Vatakara, Kozhikkodu(dt), Kerala
92605	Roshni. K. P Venugopalan. M. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6799 06/08/97	'Surabhi', Guest House Road, Malappuram dt), Kerala
92606	Roy Joseph. P. Joseph. P.D.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7088 10/12/99	Palamattam House, Eravu PO Thrissur(dt)
92607	S. Sreelekshmi M. Bhaskaran Nair	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	7989 03/03/04	Narayana Nilayam, Chengamanad P.O. Aluva, Ernakulam(dt), Kerala

92608	S. Sudheera Raghavan T.	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7983 09/03/04	Kalathyera House, Puliyanur, Podavoor P.O., Kasaragodu(dt), Kerala
92609	Sabari Nath. S Sedevan. C. G	BAMS Univ. of Kerala 2001	7442 15/09/01	J. P. Land, Kurumandal, Paravur, Kollam(dt), Kerala
92610	Sabeena. P. J Jabbar. S. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7741 27/12/02	Palayil House, Mudickal PO Nedumthode, Perumbavoor, Emakulam(dt), Kerala
92611	Sabitha M. P. M. P. Abdul Hameed	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7912 09/12/03	Nest, Kallidumbu, Edavanna P.O., Malappuram(dt), Kerala
92612	Sabitha Nayar. M. K Balagopalan Nayar. K	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2000	7249 08/09/00	D/o Dr. K. B. G. Nayar, Devi Kripa, Dhanwanthari Nagar, CN. Puram P.O., Muttumantha, Palakkad(dt)
92613	Sabna Krishnan. K Balakrishnan. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7647 16/07/02	Lai Sadan, Karuman Parambil House, Muthuvara, Puzhakkal P.O., Thrissur(dt)
92614	Sabna N. K. Moideen Kutty N. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7899 05/12/03	Vattathil House, Nelliparamba, Karuvambaram PO, Manjeri, Malappuram(dt), Kerala.
92615	Sadath. D. R. Dinakaran. R.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7080 10/12/99	Kootungal, Sakthikulangara P.O. Kollam(dt), Kerala
92616	Safna. K. S Sudhakaran. K. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7630 15/07/02	Govt. Quarts. No. R.H.C-6, Thiruvananth Temple Lane Civil Lines, Ayyanathole Thrissur-3, Thrissur, Kerala.
92617	Sahana. K. Rama Nalk. K.	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga 1996	7026 17/07/99	Rama Nivas, Ashwini Nagar, Kasaragodu(dt), Kerala.
92618	Saheer Alle Mamu Moulavi E.	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8281 11/01/05	Kaduppayil House, Chelavoor P.O. Kozhikkodu(dt), Kerala
92619	Sahida. T Alevi. T.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7363 16/03/01	Tharayil House, Kalampadi, Malappuram P.O., Malappuram(dt), Kerala
92620	Sahny. M. Soman Soman. M	BAMS Univ. of Kerala 1998	6968 28/12/98	'Aaramam', Kurumandal, Paravur P.O. Kollam(dt), Kerala
92621	Sally. S. P Naraboodiri. S. P	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6785 08/07/97.	'Sreedhary', Kurichithanam P.O., Kottayam(dt), Kerala

92622	Sajan Joseph V. S. V. L. Simon	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8312 05/02/05	Vadakkan House, Enamakal P.O. Thrissur
92623	Sajan. A. V Parameswaran Nambisan. T. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6988 20/02/99	Poumami, Near Kannangad, Temi P.O. Kuttur, Kannur(dt), Kerala
92624	Sajee Prasad Shanmugha Prasad. G	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6754 29/03/97	Ganga Bhavan, Koonayil, S. Paravoor P.O., Kollam(dt), Kerala
92625	Sajeera Kappan Rayankutty. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7729 09/12/02	Tharveeh, Muttumpuram, Kannamangalam PO, Vengara Via, Malappuram(dt), Kerala
92626	Saji Desayus Desayus. A. B	BAMS Univ. of Kerala 1997	6842 12/01/98	St. Mary's Cottage, Kazhakkuttom P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92627	Saji Oomman Oomman Alexander	BAMS Univ. of Kerala 1998	6918 18/08/98	Kunnei House, Pollethal P.O., S.L. Puram , Alappuzha(dt), Kerala
92628	Saji. S Sreedharan	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2001	7499 09/01/02	Shruthy, Parappur P.O., Kottakkal, Malappuram(dt), Kerala
92629	Sajina N. A. V. C. T. Mohammed Ali	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8063 27/07/04	Sajina Nivas, Temple Road, Payyanur, Kannur(dt), Kerala
92630	Sajish. E. K Krishnan. E. R	BAMS Univ. of Kerala 1997	6764 26/04/97	Edathedath House, Puzhakkal P.O., Muthuvara, Thrissur(dt), Kerala
92631	Sajith Kumar. G Gopi Das. C. K	BAMS Univ. of Kerala 2001	7468 06/11/01	Ullamadathil, Perumthuruthy P.O., Chalakuzhy, Thiruvalla, Pathanamthitta(dt)
92632	Sajith. M Chandran Nair. M	BAMS Univ. of Kerala 1998	6963 26/12/98	'Manjusha', Mangalassery, Vellamunda P.O., Wynadu(dt), Kerala
92633	Sajith. S. Chand Sathiesha Chandran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7642 16/07/02	Sathies Vilas, Eravathur P.O., Thrissur(dt), Kerala
92634	Sajitha. K. P. Khalid. K. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7127 01/02/00	Sajee Mahal, Cherapachery P.O., Ottapalam Taluk, Palakkad(dt), Kerala
92635	Sajitha. M. S Sulaiman. M. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7334 27/02/01	House No: 10765, Industrial Estate P.O., Palakkad(dt), Kerala

92636	Saktaria, K. N. Ahmed, K. N.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7177 05/07/00	Puliyil House, Kanchirammukku P.O. Malappuram(dt), Kerala
92637	Salabha, P. Kandan, P. I	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7643 16/07/02	1/463, Pushkala, Elanthur P.O., Kozhikkodu(dt), Kerala
92638	Salini Damodar Damodaran, V. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7314 12/02/01	Vaikkunel House, Pizhaku P.O. Kottayam(dt), Kerala
92639	Sam Sreedhar, S. Sreedharan Sasri, K. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7461 19/10/01	S. N. Nivas, Kuthiathode PO, Cherthala, Alappuzha(dt), Kerala
92640	Sandhya Govindh I. Govindan Kutty Nair R.	BAMS Univ. of Kerala 2003	7859 10/10/03	Sougandhika, Pathiyoorakala, Keerikadu P.O., Alappuzha(dt)
92641	Sandhya, M. V Gopalan, P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7597 10/06/02	Puthiyadathu House, Kunyan, Karvellur P.O., Kannur(dt), Kerala
92642	Sandhya, S Sasidharan, G	BAMS Univ. of Kerala 2002	7698 08/11/02	Pournami, Uliyakovil, Kollam(dt) Kerala.
92643	Sangeetha G. S. S. Gopalakrishnan Nair	BAMS Univ. of Kerala 2004	8180 25/10/04	Karthika, Melepanniyottu Kezhoor, Near Agricultural College, Vellayal P.O Thiruvananthapuram(dt)
92644	Sangeetha Gangadharan Nair V. Gangadharan Nair	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7922 09/12/03	Pullampoikayil House, Keezhavalpur P.O. Mallappally, Pathanamthitta(dt)
92645	Sangeetha M. K. Krishnan Kutty M. K.	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7999 03/04/04	Kuthinappurath House, Pulpally P.O., Wynadu(dt), Kerala
92646	Sangeetha, G. Gopala Pillai, K.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7015 12/07/99	Arun Vihar, Pakalkur P.O., Thiruvananthapuram(dt) Kerala
92647	Sanila, V. K Lakshmanan, V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7311 12/02/01	Sanila, Palikkulam P.O., Chirakkal, Kannur(dt), Kerala
92648	Sanju, S Sreedharan, N	BAMS Univ. of Kerala 1997	6765 26/04/97	'Dalla', Kalliyoor PO, Thiruvananthapuram dt), Kerala
92649	Sankara Narayanan, K. P Prabhakaran, K. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7822 06/06/03	Sankar Nivas, K.K. Nagar, Karakkad Road, Guruvayur PO, Thrissur(dt), Kerala

92650	Santhi. L.C Chandrasekharan Pillai. A. R	BAMS Univ. of Kerala 1998	6911 17/08/98	Varayannoor, Puthanambalam P.O. Kollam(dt), Kerala
92651	Santhi. V. N Narayanan. V. O	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7648 16/07/02	Salsadanam, Peumkulangara, Peruvamba P.O., Palakkad(dt), Kerala
92652	Santhini. T Thankappan. P. K	BAMS Univ. of Kerala 2000	7240 10/08/00	Sudarsanam, Mannadi Lane, Ambalamukku, Perurkada P.O., Thiruvananthapuram
92653	Santhosh. K. K. Krishnan. K. R.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7094 10/12/99	Koppully House, Ambalapad, Kundukad P.O., Thrissur(dt), Kerala
92654	Santhosh K. K. K. Kumaran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8069 27/07/04	Komattil House, Eravimangalam P.O., Thrissur(dt), Kerala
92655	Santhosh Kumar. P. Natesan. P.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	7025 17/07/99	Mullasseril House, S. L. Puram P.O. Alappuzha(dt), Kerala
92656	Santhosh Kumar. R. Ramachandran Unnithan. A.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	7046 18/10/99	Midhila, Thalachira P.O., Kottarakkara, Kollam(dt), Kerala
92657	Santhosh Kumar. T. V. Balan Velloth	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7167 05/07/00	Sukhavasa, Pachapalka P.O., Kannur(dt)
92658	Santhosh Raj. S. Sathyanesan. J	BAMS Univ. of Kerala 1999	7052 26/11/99	Neilikkavila Veedu, Powdikonam P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92659	Santhosh. M. B Balan. M. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6868 24/04/98	Makkalikkal House, Cheruvathani P.O. Kunnamkulam (Vla), Thrissur(dt),
92660	Santhoshkumar. P Madhavan Valdyar. P. K	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2001	7449 25/09/01	Palancheri, Thekkethara, Pazhayannur P.O., Thrissur(dt), Kerala
92661	Santhoshkumar. R. J Radhakrishnan. C	BAMS Univ. of Kerala 2001	7450 29/09/01	Santhosh Bhaven, Perumkoor, Kanchira P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92662	Sapthoena Ebrahim Ebrahim. T. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6987 20/02/99	Thannickal House, Kanjar PO, Idukki(dt)
92663	Sapna Kumari Althai. H. S	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1999	7756 28/12/02	Post Ukkinedka, Enmataje Village, Kasaragod(dt), Kerala

92664	Sapna. G. Nair Nair. K. G. K.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7021 17/07/99	Elathur, T. C. 23/1038/1, Thycaud, Thiruvananthapuram Distt. Kerala
92665	Sapna. P. P. Chandukutty. P. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7171 05/07/00	Sree Lakshmi, Old E. S. I Road, Pallikunnu P.O., Kannur(dt), Kerala
92666	Saranya. E. K Krishnan Namboodiri. E. M	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2002	7678 26/07/02	Pathiyil Mana, Mezhatthur, Thrithala P.O., Palakkad(dt), Kerala
92667	Sarat K. Babu K. R. Bahuleyan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	7933 20/12/03	Kalissery House, East Kadungaloor, West Kadungaloor P.O., Aluva, Ernakulam
92668	Sarath N. S. P. V. Sasikumar	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	7970 03/03/04	Saphalyam, 37/2014 A2, Near Ayyappa Temple, Jawahar Nagar, Kadavanthara, Cochin, Ernakulam(dt)
92669	Sarath P. P. G. Parameswaran	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8150 12/10/04	Puthen Purackal House, Kurumulloor Post, Kanakkary, Kottayam(dt), Kerala
92670	Saritha Menon. K Sudhakaran. C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7629 15/07/02	Karthika, Shanthi Nagar Road, Thiruvambady, Thrissur-1, Thrissur(dt) Kerala.
92671	Saritha S. B. Ramachandran	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8138 25/09/04	Saritharamyam, Machiyil, Padiyotchal P.O., Payyannur Via, Kannur(dt), Kerala
92672	Saritha Sahadev Sahadevan. R.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7006 06/03/99	T. C. 19/1901(5), Surabhi, Kesavan Nair Road, Poojapura, Thiruvananthapuram
92673	Sasi. M. P Sreedharan. M. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7765 31/12/02	Melapullyangattu House, Nanninda P.O., Kozhikkodu(dt), Kerala
92674	Sasmita. P Chandrasekharan. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6814 20/09/97	'Susmitham', Chittur College P.O., Chittur, Palakkad(dt), Kerala
92675	Satheesh. K Rajagopalan. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7752 28/12/02	Medhavi Nilayam, Pudiyankam P.O. Palakkad(dt), Kerala
92676	Satheesh. R Ramabhadran	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2002	7607 01/07/02	Anjali, Kumaramangalam P.O., Thodupuzha, Idukki(dt), Kerala
92677	Sathish Kumar. K. T Thirupathi Gowda. K. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7348 13/03/01	Kottakunnu House, Meenangadi P.O. Wynadu(dt), Kerala

92678	Sathy K. U. K. R. Umi Krishnan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	7971 03/03/04	Kolappally House, Vennala P.O., Kochi-28, Ernakulam(dt), Kerala
92679	Sathya Moorthi. K Thirumaleshwara Bhat. K	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1995	6881 11/05/98	'Shamana Clinic', Madoor, Kotekat P.O. Mangalore
92680	Sathya Narayana Bhat. K Madhava Bhat. K	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1998	7649 16/07/02	Kolchappe House, Post Malla, Kasaragodu(dt), Kerala
92681	Sathya Narayanan A. U. Krishna Bhat	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8157 13/10/04	Kapikkad House, Bellur P.O., Mulleria Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92682	Sathiyendra C. D. K. Damodara Ballal	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7984 09/03/04	Chengala Beedu, Cheroor PO, Kasaragodu
92683	Savitha V. R. V. S. Ravindran	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 2001	8283 11/01/05	Valsalyam, Edappal, Malappuram(dt)
92684	Savithri Devi. K. E Easwaran Namboothiry. V. K	BAMS Univ. of Kerala 2000	7512 28/01/02	Karakattililom, Karakkal P.O. Thiruvalla, Pathanamthitta(dt), Kerala
92685	Sebastian Francis. K Francis. K. J	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai. 1996	6751 29/03/97	Kizhakkootte House, Cheralayam, Kunnankulam, Thrissur(dt), Kerala
92686	Sebby. V.J Justus. I	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 1998	6962 26/12/98	'Ushus', Oppo.CSI.Church, Neyyatinkara P.O., Thiruvananthapuram(dt)
92687	Seeba. S. Balakrishnan Balakrishnan. K. V	BAMS Univ. of Kerala 2000	7228 10/08/00	B. S. Mandiram, N. P. 1/306, Nemom P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92688	Seema R. V. G. Ramachandran Pillai	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7927 09/12/03	Bhaskaravilasom, Nedumon P.O., Ezhamkula Via, Adoor Taluk, Pathanamthitta
92689	Seema. C. S Soman. C. K	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1999	7300 13/12/00	Chirayil House, Kottanellur P.O. Thrissur(dt), Kerala
92690	Seema. G. K Ganapathy. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7349 13/03/01	Mannayath Ilom, Neerveli P.O., Nirmalagiri Via, Kannur(dt), Kerala
92691	Seema. M. Chandran Chandran. M. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7566 30/03/02	Manaparambil House, Greeniketh, Thumboor, Thrissur(dt), Kerala

92692	Seema. R. Nair Ramakrishnan. C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7735 27/11/202	Seemaramam, Alumkuzhyvila Lane, Monvila, Kulathoor PO. Thiruvananthapuram
92693	Seema. T. S Thulaseedharan. S	BAMS Univ. of Kerala 1998	6924 18/08/98	T.C 16/501, 'Indeevaram', Jagathy, Thycaud P.O., Thiruvananthapuram(dt)
92694	Seemaja. G Gopalan. K	BAMS Univ. of Kerala 1997	6832 12/01/98	T.C 3/694, Deepthinagar, Muttada P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92695	Seena K. K. Govindan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8153 12/10/04	Sangamam, Met Muringodi P.O., Peravoor Via, Kannur(dt), Kerala
92696	Seena Kandoth Kunchappa. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6871 24/04/98	'Sreepadmam', Pinarayi P.O., Thalassery (Via), Kannur(dt), Kerala
92697	Seena S. K. G. Sidharthan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8091 13/09/04	Kala Bhavan, Muttapalam, Thachodu Post, Varkala, Thiruvananthapuram(dt)
92698	Seena. B. Madathil Balan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7333 27/02/01	Malappadi House, Cheruvannur P.O., Meppayur Via, Kozhikkodu(dt), Kerala
92699	Seena. C. S. Sadasivan Nair. V. E.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1999	7135 29/03/00	Anjaly. C. M. C. 24, Velorvetom, Cherthala P.O., Alappuzha(dt), Kerala
92700	Seena. N. K Krishnan. C	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7489 27/12/01	Krishna Vihar, Kunnoth, Killanthara P.O. Kannur(dt), Kerala
92701	Seena. S. K. M Neelakandan Namboodiri. S. K., M	BAMS Univ. of Kerala 2002	7702 11/11/02	Gayathri, Palappuram P.O., Ottappalam, Palakkad(dt), Kerala
92702	Seetha Lakshmi P. R. Prabhakaran Nair	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8126 25/09/04	Seetha Nivas, Perunna West P.O., Changanacherry, Kottayam(dt), Kerala
92703	Seetha Lekshmi R. M. M. Reghunathan Pillai	BAMS Univ. of Kerala 2004	8178 25/10/04	T.C. 55/2181, P.31, Dwaraka, Maniamkara Thoppu, Pappanamcode P.O. Thiruvananthapuram(dt)
92704	Semeer Babu K. M. Muhammed K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8054 27/07/04	Abhilash, Ittikattiri P.O., Palakkad(dt),
92705	Sethu Lekshmi R. Sadasivan P.	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8129 25/09/04	Sree Nilayam, Pallimukku, Kundara, Kollam(dt), Kerala

92706	Sethu Raj. K. S Santhan. A.	BAMS Univ. of Kerala 2002	7768 20/01/03	Swathi, Muhamma P.O., Alappuzha(dt), Kerala
92707	Sethunath. T Gopalakrishnan. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7185 05/07/00	Thambreni House, Neduva P.O., Parappanangadi, Malappuram(dt), Kerala
92708	Shabana. V. A Abdulrazak. V. P	BAMS Univ. of Kerala 2001	7507 28/01/02	Shifa, Mattancherry PO, Malappuram(dt)
92709	Shabeen K. Mayin K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8305 05/02/05	Solar Electricals, G.H Road, Kozhikkodu
92710	Shabeer Abdul Rauf Abdul Rauf	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7829 12/06/03	Vallyangadi Parambil House, Kundallypoor P.O., Chettuwa, Thrissur(dt)
92711	Shabna Beegam Moidu. P. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7211 05/07/00	Ihsan Kurupath, Kondotty P.O., Malappuram(dt), Kerala
92712	Shabna Das Shanmukha Das. A. C	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7248 04/09/00	Yuvatha, Eranikkal PO, Kozhikkodu(dt)
92713	Shabna P. K. Narayanan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8299 25/01/05	Swathi, Near Ayyappa Bhajana Mandir, Ramdes Nagar P.O., Kasaragodu(dt)
92714	Shabu. K. Devassy. K. L.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7093 10/12/99	Kanjirathingal House, Eravelour P.O. Thrissur(dt), Kerala
92715	Shafeer M. S. M. S. Subair	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8306 05/02/05	Mudavankattil House, Karupadanna P.O. Thrissur(dt)
92716	Shahana. A. K Khalid. A. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7207 05/07/00	Akathpeedikayil, inchamudy P.O. Thrissur(dt), Kerala
92717	Shahida. T. P. Aboobacker. T. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7175 05/07/00	Parethara House, Karuvenithuruthy P.O. Kozhikkodu(dt), Kerala
92718	Shalik Anwar. K. S Shali Pareed. K. S	BAMS Univ. of Kerala 2001	7326 26/02/01	Koppilly House, H.No. 210/17, Ansar Lane, Aluva, Emekulam(dt), Kerala
92719	Shalik Nisar. V. H Hamza. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7532 14/03/02	Varamangalath House, Trithala P.O. Ottappalam, Palakkad(dt), Kerala

92720	Shalini M. Bhaskar Bhaskar. M. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7315 12/02/01	Mandakathungal House, Moolepat, Pangamuck P.O., Thrissur(dt), Kerala
92721	Shejahan Chittothayil Abdu. C	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7191 05/07/00	Chittothayil House, Perumbadappa P.O. Malappuram(dt), Kerala
92722	Shajeev. M. M Meleppurakkal Madhavan	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2001	7430 15/09/01	Meleppurakkal House, Kandanassery P.O., Arakkaniyoor Via, Thrissur(dt) Kerala.
92723	Shaji Bose. S. Y Velayudhan Nadar. K	BAMS Univ. of Kerala 1997	6836 12/01/98	Dhanvilia, Meppukkada, Malayinkil P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92724	Shaji Raj. E. Rajan. E. N.	BAMS Univ. of Madras, Madras 1993	7040 25/09/99	3/1, Earath House, Kakkad, Kunnamkulam Thrissur(dt), Kerala
92725	Shaji. S Surendran. R	BAMS Univ. of Kerala 2001	7498 03/01/02	Poikavilia Puthen Veedu, Puthenkulam PO., Karimpaloor, S. Paravur, Kollam(dt)
92726	Shajitha Shahul Shahul Hameed. N.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7071 10/12/99	Vayalil Puthen Veedu, Thevally, Kollam(dt)
92727	Shaju. M. K Sreedharan. M. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7750 28/12/02	Sreemaj Bhavan, Edakutty Paramba, Vaillapuzha PO, Areacode Via
92728	Shalini Raj. G. R Reja Babu Kumar	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7643 18/07/02	Jijo Bhavan, Avanakuzhy, Nellimoodu PO, Neyyattinkara, Thiruvananthapuram
92729	Shameema. N. K Neelikutshi	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7247 25/08/00	Ameen Manzil, Tirurangedi, Malappuram(dt)
92730	Shammy. A. Abdul Rasheed. A.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7116 04/01/00	Navas Manzil, Cherukayalkara, Murukkumpuzha PO, Thiruvananthapuram(dt)
92731	Shamsad. P. Kunhi Mohammed Hajee	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7024 17/07/99	C/o Madathil Ayurvedic Centre, Valapuram PO, Pulamanthole Via, Malappuram Distt. Kerala.
92732	Shaniyaz S. M. Shajahan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8073 27/07/04	Shaji Manzil, Valacode P.O., Punalur, Kollam(dt), Kerala
92733	Shanthi Narayan. K Shankara Narayana Bhat. A	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1998	7679 26/07/02	Kodiadka House, Miyapadavu P.O., Manjeshwar Via, Kasaragodu(dt), Kerala

92734	Shanty Thomas Thomas P. T.	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8006 12/04/04	Padannamakkal House, Panathay P.O., Rajapuram Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92735	Shebin. P. A Saidalavi. P. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7494 27/12/01	Sonnet, Mapram, Cheruvayur P.O., Malappuram(dt), Kerala
92736	Sheby Francis Francis. M. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7737 27/12/02	Marokky House, Near Hospital Road, Chavakkad P.O., Thrissur(dt), Kerala
92737	Sheeba Thomas Thomas. C. G	BAMS Univ. of Kerala 2000	7236 10/08/00	Chirakadavil House, LIC Lane E, Pattom, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92738	Sheeba Varghese K. P. Gee Varghese	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8282 11/01/05	Kalarickal House, Keerampara P.O., Kothamangalam, Enakulam(dt), Kerala
92739	Sheeba. E. K. Anandan. E.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7160 03/07/00	Sheesha, Mokeri P.O., Panoor Via, Kannur(dt), Kerala
92740	Sheeba. P Unni Aydrui. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7526 14/03/02	Aashiyana, JN. Road, Perintalmanna, Malappuram(dt), Kerala
92741	Sheeba. S. Sudhakaran. P.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore 1998	7008 20/03/99	Vallabhasseril, Kottayam-3, Kottayam(dt)
92742	Sheela Chandran C. P. K. Pillai	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8096 13/09/04	Chethana, Yeroor P.O., Kollam(dt), Kerala
92743	Sheela G. R. Sukumaran Nair	BAMS Univ. of Kerala 2004	8171 25/10/04	Veliyl House, Vakkom P.O., Thiruvananthapuram(dt)
92744	Sheela. A Abdul Azeez. P.M	BAMS Univ. of Kerala 2001	7440 15/09/01	Musthafa House, Vavara Ambalam, Pothencode PO, Thiruvananthapuram(dt)
92745	Sheela. C. R Chellappan Nair. V	BAMS Univ. of Kerala 1997	6770 15/05/97	Kalppallyazhikethu Veedu, Navalikulam P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92746	Sheela. P Pundarikarshan. S	BAMS Univ. of Kerala 2002	7589 10/06/02	Lekshmi Nivas, TC.36/178/1, Eanchakkal, Vallakadavu P.O., Thiruvananthapuram
92747	Sheela. P. N Nedemaran	BAMS Univ. of Madras, Madras 1995	6807 20/09/97	'Radheyam', Pullimoodu, Mavelikkara Alappuzha(dt), Kerala

92748	Sheeja. S Vasudevan Nair. V	BAMS Univ. of Kerala 2000	7291 22/11/00	Archana, Venkulam, Edava P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92749	Sheeja. S Sasidharan. N	BAMS Univ. of Kerala 2002	7571 26/04/02	Sauseeya, Ayathil P.O., Kollam(dt)
92750	Sheena Kutty. M. I	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7561 27/03/02	Pallikezhakkathil Veedu, Thrippilazhikom P.O., Kuzhimalicadu, Kollam(dt)
92751	Sheena Vijayan. N. P. Vijayan. N.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7260 24/10/00	Anand, Mambaram PO, Kannur(dt), Kerala
92752	Sheena. M. A Balasundaram. M. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7622 10/07/02	Prasanth Vihar, Orkkatteri P.O., Veilikulangara, Vadakara, Kozhikkodu(dt)
92753	Sheena. M. K Kochu. M. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7628 12/06/03	Medaparambil House, Avinissery P.O. Thrissur(dt)
92754	Shehna S. R. K. Reghupalan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8099 13/09/04	Souparnika, Kizhakumkara, Kulethoor PO, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92755	Sheji U. K. Unni Krishnan Kidavu	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	7962 17/02/04	Nilambur Vaidyasala, Nilambur, Malappuram(dt), Kerala
92756	Shemna. N Sahadevan. N	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1996	6724 02/01/97	Nadukkandy House, Attanikkal, West Hill Kozhikkodu(dt), Kerala
92757	Sheril. M. A Aboobacker. A. E	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2001	7448 25/09/01	Mullurayil House, Nhamanahat P.O., Trichur-6, Thrissur(dt), Kerala
92758	Shero. S Sasidharan. V. G	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1998	6904 10/08/98	Santhi Nivas, Anakal PO, Kanjirapally, Kottayam(dt), Kerala
92759	Shibu Varghese K. P. Gee Varghese	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7952 30/01/04	Kalarickal House, Keerampara P.O., Kothamangalam, Ernakulam(dt), Kerala
92760	Shiji P. P. I. Varghese	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8189 25/10/04	Basil Nivas, North Kalpetta P.O., Wynadu(dt), Kerala
92761	Shiji P. K. P. A. Karappan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8290 25/01/05	Pullissery House, Thottippal P.O. Pudukad Via, Thrissur(dt), Kerala

92762	Shiji Valsan V. Valsan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8295 25/01/05	Shiji Nivas, Karamcode P.O., Chathanmoor, Kollam(dt), Kerala
92763	Shiji Varghese Varghese. K. C. D	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1998	7277 13/11/00	Chelaparambath House, Mattoor, Kalady, Kalady, Ernakulam(dt), Kerala
92764	Shiji. R.S Sankunni. N	BAMS Univ. of Kerala 1998	6967 26/12/98	Lakshmy Vihar, Kurumandal, S.Paravoor P.O., Kollam(dt), Kerala
92765	Shijin. K. B Balan. K. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7556 16/03/02	Kozhparambali House, Edassery P.O. Thrissur(dt), Kerala
92766	Shijoy V. S. V. V. Subramannian	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8288 25/01/05	Chithira Nivas, Thottakkara, Pookkottumpadam P.O., Malappuram(dt), Kerala
92767	Shiju Mathew Mathew. I	BAMS Univ. of Kerala 2003	7795 07/05/03	Manjara Mootil, Chenkulam P.O., Kottarakara, Kollam(dt), Kerala
92768	Shilpa Kumari. S Saremal. A. Jain	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1999	7308 12/07/01	Midhila, Thalachira P.O., Kottarakara, Kollam(dt), Kerala
92769	Shimi Krishnan V. Krishnan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8151 12/10/04	Muhavoor House, Mamala PO, Ernakulam(dt)
92770	Shimlimol. K. T Achuthan. K. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7457 18/10/01	Shimju Nivas, Angadipuram P.O. Malappuram(dt), Kerala
92771	Shimmi S. Raj V. Rajendran	BAMS Univ. of Kerala 2003	7858 08/10/03	Varil Veedu, Koonayil, Paravur P.O. Kollam(dt)
92772	Shimmy. C. F Francis. C.V	BAMS M.G Univ., Kottayam 1996	6738 22/01/97	Chooreparambali House, SFX Church Road, H. No. XXXVI/313, Kaloor, Kochi-17
92773	Shimna V. V. N. P. Bhaskaran	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8094 13/09/04	Vimal Villa, Kannookara P.O., Badagara, Kozhikkodu(dt), Kerala
92774	Shine. S Sadasivan Pillai. M. K	BAMS Univ. of Kerala 2003	7793 07/05/03	Surabhi, Kairali Nagar, House No: 77, Thirumullavaram P.O.; Kollam-12, Kollam
92775	Shini. T. K. Kunhi Krishnan. T. R.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1998	7007 06/03/99	T. R. K. Nivas, Valanchery P.O. Malappuram(dt), Kerala

92776	Shrinisha Shanmugham Shanmughan. C. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7764 31/12/02	Chomattil House, Konathukunnu P.O., Pyngode, Irinjalakuda Via, Thrissur(dt)
92777	Shinita. K. S Krishnan. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7527 14/03/02	Karunya, Meleppuram, Olavakkode P.O., Palakkad(dt), Kerala
92778	Shiny Mary Lewis Gasper B. Lewis	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8075 27/07/04	Mary Flora, Bolargudde, Udyavara P.O., Udupi (Karnataka)
92779	Shiny. K. M Muttan. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7197 05/07/00	Ittamanparambil, Kakkad, Kunnamkulam, Thrissur(dt), Kerala
92780	Shreeja. T. S Thankappan Achari. A	BAMS Univ. of Kerala 1998	6926 26/08/98	T.C 50/1620, 'Dhanya', Thaliyal, Karamana Karamana PO, Thiruvananthapuram(dt)
92781	Shreenath K. Rajagopal K.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 1998	8046 20/06/04	Vishakha Kolari, Perdale P.O Kasaragodu(dt), Kerala
92782	Shyam Prasad M. Ramachandra Bhat	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8223 15/12/04	Mahalakshimpuram, Thekkil P.O., Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92783	Shyam. V. L Viswanathan Pillai. K. S	BAMS M.G Univ., Kottayam 1996	6749 29/03/97	Illikkulathu House, Vayanakam, Njakkanal PO Krishnapuram Via, Kayamkulam Alappuzha, Distt. Kerala
92784	Shyamala. N. Sharma Sharma. K. N	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 1998	7612 02/07/02	Koipady Village, Bonanthaya House, Kumbila Post, Kasaragodu(dt), Kerala
92785	Shyju. O Bhaskaran Nair	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7330 26/02/01	Shyju Nivas, Kannankara PO, Kozhikkodu(dt)
92786	Shylaja Kumari. B Chandra Sekharan Pillai. K	BAMS Univ. of Kerala 2001	7439 15/09/01	Kulathinal Puthen Veedu, Kodumon East P.O., Pathanamthitta(dt), Kerala
92787	Shyni. K. S. Sudhakaran. K. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7010 08/04/99	W/o Dr. Saju. K. B, Kumbalaparambil House, Edathiruthy P.O., Thrissur(dt)
92788	Siby Kuriakose Kuriakose. E. K	BAMS Dr. MGR Med. Univ Chennai 1997	6827 15/11/97	Eruppakkattu House, Chengalam P.O. Kottayam(dt), Kerala
92789	Siju C. Thomas C. C. Thomas	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8148 12/10/04	Cherusseril House, Nazareth Hill P.O. Kuravilangad, Kottayam(dt), Kerala

92790	Silja Rahmat Beegam Badarudeen. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7261 24/10/00	Malayil Vadakkathil, Puthiavilla. P.O., Kayamkulam, Alappuzha(dt), Kerala
92791	Simkin Suryan Suryan Krishnan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2005	8313 05/02/05	Simkin Villa, Kolazhy P.O., Thrissur(dt)
92792	Sindhu Antony Antony. C. C	BAMS M.G. Univ., Kottayam 1996	6728 22/01/97	Plot No. A-64, Glinagai Noth, Kadavanthar P.O., Kochi, Ernakulam(dt), Kerala.
92793	Sindhu Das. H Haridasan. S	BAMS Univ. of Kerala 2001	7372 23/04/01	Kamalalayam, Manapally North, Kollam(dt)
92794	Sindhu K. K. Karthikeyan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8291 25/01/05	Melethundiyil House, Kidangoor P.O. Kozhenchery Taluk, Pathanamthitta(dt).
92795	Sindhu K. K. G. Kamalasan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8294 25/01/05	2/239, Deepasudha, Nazareth Road, Aluva Ernakulam(dt), Kerala
92796	Sindhu Nhalippurath Krishnan. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7364 16/03/01	Nhalippurath House, Moorkkanad P.O., Kolathur Via, Malappuram(dt), Kerala
92797	Sindhu Ramachandran Ramachandran. K	BAMS Univ. of Kerala 2001	7510 28/01/02	Prasanth, Krishnapuram PO, Kayamkulam , Alappuzha(dt), Kerala
92798	Sindhu Thilakarajan Thilakarajan. P. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6992 06/03/99	W/o Arun T. S, Thandassery House, Kizhakkummuri P.O., Peringottukara, Thrissur(dt).
92799	Sindhu. B Babu. N	BAMS M.G. Univ., Kottayam 1996	6737 22/01/97	'Sindhu Bhavanam', Kodamthuruth, Kuthiathode PO Cherthala, Alappuzha(dt) Kerala
92800	Sindhu. K Narayanan. K	BAMS Univ. of Kerala 2003	7804 07/05/03	Kunnakkad Sreevalsam, Pulappatta P.O., Palakkad(dt), Kerala
92801	Sindhu. M Balakrishnan Nair. P	BAMS Dr. MGR Med. Univ Chennai 1997	6828 15/11/97	8/1865, Chandra Ayurveda Medical store, Palace Road, Mattanchery, Kochi-2, Ernakulam(dt), Kerala
92802	Sindhu. S Sankaranikutty Marar. M	BAMS Dr. MGR Med. Univ Chennai 1998	6882 12/05/98	Sree Valsam, Cheiakkara PO, Thrissur(dt) Kerala
92803	Sindhulatha. P. S Warrier. G. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6879 24/04/98	'Jyotsna', Pandamangalam, Kottakkal Malappuram(dt), Kerala

92804	Sini Sathyan Sathyadevan. A	BAMS Univ. of Kerala 1998	6927 26/08/98	Sini Vihar, Thazhuthala, Kottiyam P.O. Kollam(dt), Kerala
92805	Sini. C. S Sathia Babu. C. S	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2001	7456 18/10/01	Perayil House, Mangad P.O., Quilon-15, Kollam(dt), Kerala
92806	Sini. P. M Mathias Xavier	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6975 20/02/99	Sibini House, Koodathal, Bzr P.O., Thamarassery, Kozhikkodu(dt), Kerala
92807	Siny John. A John. A. K	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7506 24/01/02	Arthikkatt House, Nhamanghat P.O. Thrissur(dt), Kerala
92808	Sirosha. M Harsha Jothy. M. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7313 12/02/01	Mullangath House, Near S. N. School, Kanimgalam P.O., Thrissur(dt), Kerala
92809	Sithara Dharmaraj Dharmarajan. K. V.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7165 05/07/00	Anjaly, Eranholi P.O., Kannur(dt), Kerala
92810	Sitharathna. M Harayanan Bhat. M	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1998	6971 20/02/99	'Viveka', Talengala (H), Bagaru Village & Post, Kasaragodu(dt), Kerala
92811	Sivakumar. V. P Viswanathan. G	BAMS Univ. of Kerala 2003	7799 07/05/03	Pushpakam, R-6, Ram Ngr, Pappanamcode, TVM-18, Thiruvananthapuram(dt), Kerala.
92812	Sivaprasaden. V Purushothaman. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7657 16/07/02	Sugunalayam, Thalakkuiathur, Kozhikkodu(dt), Kerala
92813	Sivasandhya. P. S Parameswaran. N	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2001	7374 28/04/01	Sivasaras, T. C. 10/2161, Kanjirampara P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92814	Smini. J. Moonjely Uthup. M. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7133 03/03/00	Moonjely House, Kuttikad P.O., Thrissur(dt), Kerala
92815	Smitha J. C. K. Ravi	BAMS Univ. of Kerala 2003	7854 08/10/03	Lekshmi Nilayam, T.C. 53/1928, Kulakudiyoorkonam, Nemom P.O. Thiruvananthapuram
92816	Smitha Kumari. A. R. Ramakrishna Pillai	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1999	7148 22/05/00	Aresekal Panayil Puthen Veedu, Vilangara, Nellikunnam PO, Kottarakara Kollam(dt)
92817	Smitha M. Lakshmana Guptan M.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8025 17/05/04	Vathamkolly House, Mannampatta P.O. Palakkad(dt), Kerala

92818	Smitha Mohan P. V. P. N. Mohan Kumar	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8309 05/02/05	Panki, Palakkal P.O., Thrissur(dt), Kerala
92819	Smitha Nair. M. K. Balagopalan Nayar. K.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 1999	7042 25/09/99	Devi Kripa, Dhanwanthari Nagar, C. N. Puram P.O., Palakkad(dt), Kerala
92820	Smitha Nambiar. K. Bhaskaran Nambiar. N.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1998	7014 28/4/99	Madhavi, Near Alekkatt Temple, Perinthalmanna PO, Malappuram (dt), Kerala
92821	Smitha Rani K. S. J. Sukumaran	BAMS Univ. of Kerala 2003	7865 10/10/03	Kamalalayam, Kaithamkuzhi, Moongode, Peyad P.O., Thiruvananthapuram(dt)
92822	Smitha Ravi M. P. Ravi	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7898 05/12/03	Thottathil House, Annamanada P.O., O., Kaloar, Thrissur(dt), Kerala
92823	Smitha S. C. Thankappan	BAMS Univ. of Kerala 2004	8182 25/10/04	Sreyas, T.C.8/201, Thirumala P.O., Thiruvananthapuram(dt)
92824	Smitha S. R. Sivadasan V.	BAMS Univ. of Kerala 2004	8173 25/10/04	Smithesh Nivas, Pavumpa South P.O., Manappally North Via, Karunagappally, Kollam(dt)
92825	Smitha S. Sivan K. Sadasivan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	7982 09/03/04	Ushas, Vellakkulangara, Manakkala P.O., Iadoor, Pathanamthitta(dt), Kerala
92826	Smitha Thomas. K. Thomas. K. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7096 10/12/99	Kalan House, Nellore P.O., Thrissur(dt)
92827	Smitha V. Vasudeva Kurup M. N.	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8036 17/05/04	Mangalasseril House, Alckadu, Kodumon P.O., Pathanamthitta(dt), Kerala
92828	Smitha. A. V Subramonlan. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7761 31/12/02	Karuthedathu House, Arukizhaya, Manjeri P.O., Malappuram(dt), Kerala
92829	Smitha. B Balakrishnan Panicker	BAMS Univ. of Kerala 2001	7452 03/10/01	Elavangath House, Evoor North P.O., Eroor, Alappuzha(dt), Kerala
92830	Smitha. K. Ravikumar. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7068 09/12/99	Kavitha, Vattoly Bazar P.O., Balussery Via, Kozhikkodu(dt), Kerala
92831	Smitha. N Kunhiraman Nair. K	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2000	7215 18/07/00	Kairos, Mera Nagar-166, TC. 24/1649, Thycaud PO TVM-14, Thiruvananthapuram

92832	Smitha. P Bharatha. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7658 16/07/02	Pola House, Near Vishachikithsakendram, Pappinisseri, Kannur(dt), Kerala
92833	Smitha. R Sankunni. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7538 16/03/02	Pandiyat House, Nadathara P.O. Thrissur(dt), Kerala
92834	Smitha. T. V Vasu. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7537 16/03/02	Preetharagali, Thalayolapparambu Kottayam(dt), Kerala
92835	Smitha. V. K. Krishnan. V. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7251 25/09/00	Mallakara House, Thimiri P.O., Cheruvathur Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92836	Sogi P. George P. M. George	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	7992 29/03/04	Perumbalath House, Kuravilangadu P.O. Kottayam(dt), Kerala
92837	Sohini S. Thulasidasan	BAMS Univ. of Kerala 2003	7857 08/10/03	C.K.V. Mandiram, Kuzhiyam, Azhoor, Perunguzhy, Thiruvananthapuram(dt)
92838	Soj. R. Ravikumar. P.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7084 10/12/99	Chandrika Land, Kotarakkary, Murukkumpuzha PO, Thiruvananthapuram Distt. Kerala.
92839	Soja. H. Haridas. N.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7082 10/12/99	Green View, Nedunganda Post, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92840	Solomon. A Augustinose. F	BAMS Univ. of Kerala 1997	6747 07/02/97	Pottentevila (Salomandiram), Koduvila P.O. East Kallada, Kollam(dt), Kerala
92841	Sona. K. B Balakumaran. K.S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6999 06/03/99	Kondarappassery House, Kundaliyur P.O. Engandiyur, Thrissur(dt), Kerala
92842	Sonia Joseph Joseph Mathew	BAMS Univ. of Kerala 1999	7033 16/09/99	Kallookkunel House, Parathodu P.O. Kanjirappally, Kottayam(dt), Kerala
92843	Sony Soman Somasekharan Nair. N	BAMS Univ. of Kerala 1997	6833 12/01/98	Narayana Bhavan, Kizhakekara, Kottarakara PO Kollam(dt), Kerala
92844	Sony V. R. P. Vijayan	BAMS Univ. of Kerala 2004	8170 25/10/04	Vrindavan, Thekkevila P.O., Kollam(dt)
92845	Sony. J. P Joseph. P. J	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7534 14/03/02	Puthenkalayil House, Chennaiode P.O., Wynadu(dt), Kerala

92846	Sooraj, P. R. Rajappan Vaidyar	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2001	7486 27/11/01	Pulikkal House, South Naluvazhi, North Paravur, Ernakulam(dt), Kerala
92847	Sooraj, R. Rajagopalan, M. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6789 08/07/97	5/1943, 'Venus', St. Vincent's Colony Road, Eranthipalam P.O., Kozhikkodu
92848	Sooraj, S. Surendran Nair, K	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6793 28/07/97	'Prem Vilhar', Thiruvankulam P.O., Ernakulam(dt), Kerala
92849	Sooraj, S. N. Narayanan, A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7769 01/02/03	Ayyappari House, Meppayur P.O., Kozhikkodu(dt), Kerala
92850	Sophy Thomas K. K. C. Thomas	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8133 25/09/04	Kalan House, Nellore P.O., Thrissur(dt)
92851	Soudath, C. A. Abduluty, C. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7436 15/09/01	Cholassery House, Velupadam P.O. Thrissur(dt), Kerala
92852	Soumini T. T. V. V. Thankappan	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2003	8114 25/09/04	Santhy, Kattakada, Thiruvananthapuram(dt),
92853	Soumya Damodaran Damodaran Namboothiri	BAMS Kuvempu Univ., Shankerghatta 2001	7437 15/09/01	Nettiakkattu Mana, Kizhakkombu P.O., Koothattukulam, Ernakulam(dt), Kerala
92854	Soumya Sagar C. K. Vidiya Sagar	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8210 22/11/04	Chengankal House, Temple Road, Thodupuzha, Idukki(dt), Kerala
92855	Sowmya Chandran A. Chandran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8303 05/02/05	Kottakunnu House, Meenangadi P.O. Wynadu(dt), Kerala
92856	Sree Raj, R. Rajan, N	BAMS Univ. of Kerala 1998	6893 02/06/98	'Narayan', Puthenmadom Compound, Thevally, Kollam(dt), Kerala
92857	Sree Raj, V. S. Viswanathakurup, N	BAMS Univ. of Kerala 2001	7379 28/05/01	Santhi Bhavan, Melattinkal, Alamedcode PO, Attingal, Thiruvananthapuram(dt)
92858	Sree Vidiya P. R. Raveendran Nair P. K.	BAMS Univ. of Kerala 2003	7861 10/10/03	Payanummootil Veedu, Neduvathoor, Neleswaram P.O., Kottarakkara, Kollam(dt)
92859	Sreedevi C. S. Subramanian	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7911 09/12/03	Sreevihar, New Gardens Lane, Ayyanthole P.O., Thrissur(dt), Kerala

92860	Sreedevi G. Nair Gopalakrishnan Nair	BAMS, Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2003	8120 25/09/04	Kanakakumari, Chathanthara PO, Kollamula Pathanamthitta(dt), Kerala
92861	Sreedivya K. Ramachandran	BAMS, R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7907 08/12/03	Yashass, Near Kallalam Co., Talap, Kannur Distt, Kerala.
92862	Sreeja M. C. M. S. Chandran	BAMS, R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8191 06/11/04	Vrindavanam House, Attore P.O., Kuttur, Thrissur(dt), Kerala
92863	Sreeja P. B. Bhaskaran P. P.	BAMS, R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7998 03/04/04	Parasserivil House, Pulpally P.O., Wynadu(dt), Kerala
92864	Sreeja S. V. Shanmughan	BAMS, Univ. of Calicut, Calicut 2005	8308 05/02/05	M-26, A-8, Anuradha, Indira Nagar, Kallepully P.O., Palakkad(dt), Kerala
92865	Sreeja C. Ramadas. P	BAMS, Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7278 14/11/00	Nilambur Vaidya Sala, Nilambur, Malappuram(dt)
92866	Sreeja K. V Velayudhan. K. K	BAMS, Univ. of Calicut, Calicut 2001	7324 12/02/01	Kuzhupilly House, Panangad, Thrissur(dt)
92867	Sreeja O. K Kuttappan. G	BAMS, Univ. of Kerala 2000	7229 10/08/00	Thrupura, Kadappakkada P.O. Kollam-8, Kollam(dt), Kerala
92868	Sreeja. R Rajappan Nair. A	BAMS, Univ. of Kerala 2000	7295 22/11/00	Karthika, Sanathanapuram P.O., Alappuzha(dt), Kerala
92869	Sreeja. S Rajasekharan Nair. P	BAMS, Univ. of Kerala 1998	6921 18/08/98	'Rajeevam', Industrial Estate P.O., Pappanancode, Thiruvananthapuram(dt)
92870	Sraeja. S. L. Sreedharan. K. N.	BAMS, Univ. of Calicut, Calicut 1999	7118 31/01/00	Sree Lakshmi, Attenganam P.O., Anandashram Via, Kasaragodu(dt)
92871	Sreeja. V. P. Padmanabhan Nair	BAMS, Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1999	7140 31/03/00	Lal Bhavan, TC 24/175, Eliakom Nagar, Thycaud PO. TVM-14, Thiruvananthapuram
92872	Sreejan. S. D Dhananjayan. S	BAMS, Univ. of Kerala 2003	7800 07/05/03	Sreeja Cottage, Arankamugai, Aralumoodu P.O., TVM-23, Thiruvananthapuram(dt)
92873	Sreejit S. P Pillai. V. S	BAMS, Univ. of Kerala 2002	7747 28/12/02	Nanthirical Puthen Veedu, Edavattom, Vellimon P.O., Kundera, Kollam(dt), Kerala

92874	Sreejith C. P. K. Parameswaran Nair	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8228 31/12/04	Thejas, Ambalamukku, T.C. 5/7, Peroorkada P.O., Thiruvananthapuram(dt)
92875	Sreejith Krishnan P. M. Krishnan Nair	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	7972 03/03/04	Parampurathu House, Peroor P.O. Kottayam(dt), Kerala
92876	Sreejith. A. P. Kunhiraman. K. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7002 06/03/99	Pathikaran House, Annur P.O., Payyanur Via ,Kannur(dt),Kerala
92877	Sreejith. K. P Padmanabhan Nampoothiri. K. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7212 05/07/00	Kondamaruku Mana, Methiny P.O. Ramapuram Via ,Kottayam(dt), Kerala
92878	Sreejith. K. P Sreekumaran Namboothiri. K. P	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2002	7606 01/07/02	Karuthedath Mana, Mattarakkal P.O. Perithalmanna ,Malappuram(dt), Kerala
92879	Sreejith. S Sivadasan Nair. M. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7748 28/12/02	Sreevilla, Thirurkad PO., Malappuram(dt), Kerala
92880	Sreejith. T. V. Govindan. K. V.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7130 01/02/00	Vadakkumbadu, Karivellur P.O. Kannur(dt),Kerala
92881	Sreekala K. K. Karunakaran	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8017 22/04/04	Sivananda Mandiram, Kurumathur PO, Karimbam Via ,Kannur(dt), Kerala
92882	Sreekala Rani K. Krishna Prabhu	BAMS Univ. of Kerala 2004	8175 25/10/04	T.C. 20/2658-1, Ganesh Bhavan, Karamana PO, Thiruvananthapuram(dt)
92883	Sreekala. N. P Parameswaran Namboodiri. N. P	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6786 08/07/97	Sreekuroor Mana, Parampuzha P.O. Kottayam(dt), Kerala -
92884	Sreekala. V. K Sivaraman Achari. V. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7420 11/07/01	Valiyaparambil House, Farook College PO. ,Kozhikkodu(dt),Kerala
92885	Sreekanth. V. S Vamadevan Pillai. G	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7644 16/07/02	Sreeland, Kottuvankonam, Poothakulam P.O. ,Kollam(dt),Kerala
92886	Sreekumar J. S. Sugunan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7896 05/12/03	Jayakumar Bhavan, C.M.C-27, Cherthala P.O. ,Alappuzha(dt),Kerala
92887	Sreekumar. G. S. Gangadharan Nair. G.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1998	7066 26/11/99	Dwaraka, Chitharal P.O., Arumana Via, Kanyakumari ,NA(dt), Tamil Nadu

92888	Sreela. K. S. Sadasivan Nair. K. G.	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2002	7614 02/07/02	Kolathu Sreebhavanam, Pathirickal P.O., Pathanapuram, Kollam(dt), Kerala
92889	Sreela. R. Raman Namboothiri. M. R.	BAMS Univ. of Kerala 2001	7444 15/09/01	Mangalathillam, Thamelam, Poojapura P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92890	Sreela. Sankar Sankaran. A.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7408 07/07/01	Sreela, 19/1986, P. B. No-548, Chalapuram, Kozhikkodu(dt), Kerala
92891	Sreelatha. C. V. Velai. C. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7174 05/07/00	Cheerankuttiinjil, Keerthi, Kallumpuram, Kadavallur P.O., Thrissur(dt)
92892	Sreelatha. K. Ramashastry. K.	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 1999	7779 24/02/03	Shiranthadka House, Padre P.O., Perla Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92893	Sreelatha. P. G. Gopalan Nair. P. K.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7028 09/09/99	T. C. 28/1191, Pandarathoppu. Sreekantheswaram, Thiruvananthapuram(dt)
92894	Sreelekha. L. Nanoo. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7572 27/04/02	Manimandiram, Njakkana P.O., Krishnapuram, Alappuzha(dt), Kerala
92895	Sreelekha. M. S. Sukumaran. M. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6820 03/11/97	Mullassery House, Vemballore PO, Edavilangu (via), Thrissur(dt), Kerala
92896	Sreelekha. R. S. Rama Pisharady. B.	BAMS Univ. of Kerala 2002	7728 19/11/02	Pranavam, T. C. 8/569(1), Odankuzhy Rd, Thirumala, Thiruvananthapuram(dt) Kerala.
92897	Sreeni. T.V. Vasudevan Pillai. N.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6760 26/04/97	Karadampalili, Pilapuzha (North), Haripad P.O., Alappuzha(dt), Kerala
92898	Sreeni. R. Ramachandran Nair	BAMS Univ. of Kerala 2001	7381 29/05/01	Palappurathu House, Karuvatta P.O. Alappuzha(dt), Kerala
92899	Sreenivasan. T. Madhavan Nair. K.	BAMS Univ. of Madras, Madras 1987	7366 23/04/01	Kappat House, Mankada PO, Malappuram(dt)
92900	Sreeraj. I. P. Purusho	BAMS Univ. of Kerala 1999	7073 10/12/99	Sreeja Bhavan, Venkulam, Edava P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92901	Sreethy. K. S. Sreenivasan. K. K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7115 23/12/99	Komathukattil House, Maravancherry, Chengaloor P.O., Thrissur(dt), Kerala

92902	Sreevidya P. K. Vasudevan Nambudiri	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8165 13/10/04	Kuttiyattu Iliam, Chelannur, Kozhikkodu(dt)
92903	Srinath G. T. P. Govindan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8095 13/09/04	49/654, Kousthubham, Ayyanthole P.O. Thrissur(dt), Kerala
92904	Sripathy, K. Krishna Vadhyar. V	BAMS Univ. of Kerala 2001	7429 12/09/01	House No: KP 12/143, Gokulam, Thirumala Thekke Nada, Thuravoor P.O.
92905	Subaida Kelanpadikkal Ali Kelanpadikkal	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7523 14/03/02	Alappuzha(dt) Kerala Karuppan Veetil House, Chowallur, Kadanassery P.O., Thrissur(dt), Kerala
92906	Subha K. K. K. V. Damodaran	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8074 27/07/04	C. P. House, Chuzhalli PO, Sreekanadapuram Kannur(dt), Kerala
92907	Subha V. M. V. K. Mukundan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8080 27/07/04	Vattekkatt House, Anjoor P.O., Mondoor Thrissur(dt), Kerala
92908	Subha. P. Balakrishnan. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7531 14/03/02	Santhi Nivas, Karuvambrum P.O. Manjeri, Malappuram(dt), Kerala
92909	Subha. P. K Kunjan Nair. A. K	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2002	7616 02/07/02	Pulickal House, Methala PO, Kuruppampady Via, Ernakulam(dt), Kerala
92910	Subhash. M Muraleedharan Panicker	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7548 16/03/02	Manmandirum, Karumady P.O., Ambalappuzha, Alappuzha(dt), Kerala
92911	Subhasree G. H. Haridasan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8003 03/04/04	Akkilpoyil House, Nanninda P.O. Kozhikkodu(dt), Kerala
92912	Subi. K. S Sudhakaran. K. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7318 12/02/01	C/o Latheesh. V. R. Vadakkumchery House, Kundaliyoor P.O., Thrissur(dt)
92913	Subimol. J Jalaludeen	BAMS Univ. of Kerala 1997	6783 08/07/97	Panackal Vadakathil, Memana, Oachira P.O., Kollam(dt), Kerala
92914	Subin. V. R Raman Nambudiri. V. S	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2002	7605 01/07/02	7/921, Vaidyamadham, Kalpathy P.O. Palakkad(dt), Kerala
92915	Subramanya Bhat K. Thirumaleshwara Bhat K.	BSAM Univ. of Mysore, Mysore 1977	8027 17/05/04	Sri Ganesh, Kanchikatta, Kumbia Post, Kasaragodu(dt), Kerala

92916	Suchith M. S. M. S. Suseelappan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2002	7891 28/11/03	T.C. 34/1574, Ayyappas, Saw Mill Road, Kurkencherry, Thrissur(dt), Kerala
92917	Suchithra. P. Viswanathan Namboothiri. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7264 08/11/00	Narayana Mangalath, Nellore P.O. Thrissur(dt), Kerala
92918	Sudha Dev D. S. C. Sudhakaran	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	7981 09/03/04	Devasudha, Mayyanad Road, Kottiyam P.O., Kollam(dt), Kerala
92919	Sudha Kumari. K. G Gopalakrishnan. K. T	BAMS Univ. of Kerala 2001	7385 29/05/01	Sunil Bhavan, Kaipuzha North P.O., Kulanada, Pathanamthitta(dt), Kerala
92920	Sudha Menon. U. P Radhakrishnan. V. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6989 20/02/99	Unniparambathu Patta Veedu, Near Chanayil Temple, Kodungalloor P.O. Kottayam(dt)
92921	Sudha S. Damodaran Pillai K.	BAMS Univ. of Kerala 2004	8183 25/10/04	Sudheer Bhavan, Kannimel Thery, Pattazhy P.O., Kollam(dt), Kerala
92922	Sudha V. M. P. Sreedharan Nair	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8050 30/06/04	Padmavilasam, Tholicode P.O., Punalur, Kollam(dt), Kerala
92923	Sudha. K Sankaran. M	BAMS Dr. MGR Med. Univ Chennai 1998	6899 02/06/98	Kanat House, Anandapuram P.O. Thrissur(dt), Kerala
92924	Sudha. M. Madhusoodanan. T.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7104 23/12/99	Pankaj Nivas, G. R. H. S. Road, Kottakkal P.O., Malappuram(dt), Kerala
92925	Sudheer Kumar. K. P Parameswaran Namboothiri. K. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1996	6995 06/03/99	Kuriyedathu Mana, Avittathur P.O., Kalletimkara (via), Thrissur(dt), Kerala
92926	Sudheer. A. V Vasudevan. A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7359 16/03/01	Ambadi P.O., Nilambur. R. S., Malappuram(dt)
92927	Sudheer. E. V. Chindan. M.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7170 05/07/00	Sreenilayam, Karivellur P.O., Kannur(dt)
92928	Sudheer. K. K Karunakaran. V.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7533 14/03/02	Kandalammal House, Vavay P.O., Koduvely, Kozhikkodu(dt), Kerala
92929	Sudheer. M Devadasan. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7524 14/03/02	Sandhya House, Perikkencheri, Chevayoor P.O., Kozhikkodu(dt), Kerala

92930	Sudheesh P. N. P. K. Narayana Sarma	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8058 27/07/04	Parampoorilom, Thuruthicadu P.O., Mallappally, Pathanamthitta(dt), Kerala
92931	Suhas Narayanan. P. K. Vasudevan. P. K.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2001	7463 19/10/01	Suhas Narayanan. P. K, Kunnath Mana, Surya Kanthi, Santhi Nagar, Thiruvambady, Thrissur(dt)
92932	Suja P. K. R. Janardhanan Nair	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	7988 20/03/04	Karthika, Kuttipuram, Malappuram(dt), Kerala
92933	Suja. G. Nair Nair. M. G	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7310 12/02/01	Souparnika, Thazhe Chowva P.O. Kannur(dt), Kerala
92934	Suja. M. George. V. J	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 2002	7676 26/07/02	H. No: 32/101, Sujasree, Ram Nagar, Vadakkanthara P.O., Palakkad(dt)
92935	Sujatha. A. Anandan. N	BAMS Univ. of Kerala 1997	6841 12/01/98	'Souparnika', Anchalumoodu, Perinadu P.O., Kollam(dt), Kerala
92936	Sujatha. J. R. Ramachandran Potty. L	BAMS Univ. of Kerala 1998	6945 23/11/98	'Yamuna', T.C 28/1050, Sreekantawaran Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92937	Sujatha. P. Govindankutty. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7098 10/12/99	Pournami, Sundara Iyer Road, Ottapalam-I Palakkad(dt), Kerala
92938	Sujeesh E. P. Sasikumar E. I.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8055 27/07/04	Erattu Purakkada Veedu, Ponani South Malappuram(dt), Kerala
92939	Suji Jayan Jayan. M. V.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7155 08/06/00	Nethrabhavan House, Eraviperur P.O. Pathanamthitta(dt), Kerala
92940	Sujith. K Gangadhara Menon. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7544 16/03/02	Vattekkattu House, Kalathode P.O. Thrissur(dt), Kerala
92941	Sukumaran. R. Raman	BAMS Univ. of Kerala 1999	7030 14/09/99	Kuzhivila Veedu, Pulippara, Thevarukuzhi, Nedumangadu P.O., Thiruvananthapuram
92942	Sulfeekker. A Ahamed	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7193 05/07/00	Prakash, Palappetty P.O., Velliancode Via, Malappuram(dt), Kerala
92943	Suma. A. P Balakrishnan Embrandiri. A. P	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1997	6779 20/05/97	Bhardra Vilas, Pattana, Nilesishwar, Kasaragodu(dt), Kerala

92944	Sumam Babu K. M. Babu	BAMS Univ. of Kerala 2004	7956 03/02/04	Kaippallazhikathu Veedu, Maruthamonalpally, Pooyappally P.O., Kollam(dt)
92945	Suman Das, M. L Madhava Panicker	BAMS Dr. MGR Med. Univ. Chennai 2002	7578 06/06/02	Lal Sumam, Anayara P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92946	Sumesh Vasudevan C. Vasudevan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7886 28/11/03	Ajantha, Azhooor, Pathanamthitta(dt) Kerala
92947	Sumi. A Abdul Vahab	BAMS Univ. of Kerala 2003	7780 05/03/03	New Cottage, Vazhimukku, Balaraapura Thiruvananthapuram (dt), Kerala
92948	Sumi. A. K Karanakaran, A. A	BAMS Univ. of Kerala 2000	7288 22/11/00	T. C. 9/1904, Kaveri, Pullaikonam Lane, Sasthamangalam, Thiruvananthapuram
92949	Sunandan, M. N Narayanan Namboothiri, M. K	BAMS SCSVM., Kanchipuram 2001	7615 02/07/02	Mamkulathillam, Punnavayam, Asamannoor P.O., Perumbavoor Via, Ernakulam(dt)
92950	Sunil Paul Paul, M. A	BAMS Univ. of Kerala 1998	6914 18/08/98	TC 2/1932, Marina, GRA-20, Gowreesapattom Thiruvananthapuram Distt. Kerala
92951	Sunil, M. V Narayanan Nambiar, V. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6856 28/03/98	H. No. 30/171, Aswathi, Cherukunnathuparamba Kozhikode Medical College PO, Kozhikkodu(dt)
92952	Sunil Babu, P. P Abdul Salam	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7522 14/03/02	Sixes, V. I. P. Road, Wandoor P.O. Malappuram(dt), Kerala
92953	Sunil Chandra, A Pullema Raju	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1999	7696 30/10/02	A-118, Asoka Apartments, Marine Drive, Kochi, Ernakulam(dt), Kerala
92954	Sunil John Thykkattil Johny, T. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1997	6830 15/11/97	Thaikkattil House, Kottekad, Kuttur P.O. Thrissur(dt), Kerala
92955	Sunil Mathew K. K. Mathew	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 1997	8145 12/10/04	Karottu House, Mutuchira P.O. Kottayam(dt), Kerala
92956	Sunil, K. John John, K	BAMS Univ. of Kerala 1997	6744 07/02/97	Ananda Bhavan, Enathu P.O. Pathanamthitta(dt), Kerala
92957	Sunina P. R. P. S. Raman	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8316 23/02/05	Surabi House, Guruvayur P.O., Anakkotta Road, Thrissur(dt), Kerala

92958	Sunitha Kumari. K. K Krishnan Nair. P. N	BAMS M.G Univ., Kottayam 1996	6732 22/01/97	Kolathnayathu House, Vadavucode P.O. Ernakulam(dt), Kerala
92959	Sunitha R. T. T. N. Thankappan Nair	BAMS Univ. of Kerala 2004	7948 30/01/04	Rugmini Sadanam, Pettah PO. Kannammoola, Thiruvananthapuram(dt)
92960	Sunitha S. E. Sundaran	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8218 15/12/04	H.No.87/C, MTS Colony, Kanwar Road, Hubli
92961	Sunitha. K. S Kanat Sivan	BAMS Dr. MGR Med. Univ Chennai 1997	6878 24/04/98	'Subhavan', Anandapuram P.O., Thrissur(dt) Kerala
92962	Surekha Pai B. Ramakrishna Pai	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1999	8048 30/06/04	Mangalassery, Vellamunda PO, Wynadu(dt) Kerala.
92963	Sureksha Kurian Kurian Mathew	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8162 13/10/04	Illickal House, Anickad P.O., Kottayam(dt)
92964	Suresh Kumaran. P. K.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7145 22/05/00	Indeevaram, Pariyaram PO, Kottayam(dt)
92965	Suresh Chundakunnummal Papphissery Krishnan Nambiar. P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7169 05/07/00	Chuzhalli P.O., Sreekanthapuram Via, Kannur(dt), Kerala
92966	Suresh Kuma... v Velayudhan Pillai. V	BAMS Univ. of Kerala 2003	7847 14/08/03	Sree Priya, T. C. 46/51, Vallyasala, Chalai P.O., TVM-36, Thiruvananthapuram
92967	Suresh Kumar. V. C Kunhiraman Nambiar. C. V	BAMS Univ. of Kerala 1997	6843 16/01/98	'Santhi', Mayyil P.O. Kannur(dt), Kerala
92968	Suresh Kumara. K Mahabala Bhat. M	BAMS Dr. MGR Med Univ., Chennai 1995	7734 09/12/02	Koolakkodu House, Perdala, Kasaragodu (dt), Kerala
92969	Suresh. P. NA	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7112 23/12/99	Thattante Kizhakkathil, Mangad P.O. Kollam(dt), Kerala
92970	Suresh. V Vishwakumar	BAMS Univ. of Kerala 1999	6991 06/03/99	Lavanya, Pallanakad P.O., Cherthala Alappuzha(dt), Kerala
92971	Surya Satheesan Satheesan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	7975 03/03/04	Suresh Nivas, Mudakkal PO Avanavancherry Via, Thiruvananthapuram(dt)

92972	Sushanth. C. K Nanu. C. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7570 12/04/02	Puthiyottil House, Near. R. S. Road, Vadakara, Kozhikkodu(dt), Kerala
92973	Susmita K. V. K. V. Subramaina	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8056 27/07/04	Kalathil Veliyapurakkal, Madhurima, 33/142, Marikkunnu P.O., Kozhikkodu(dt)
92974	Swapna Jose M. U. Jose	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8188 25/10/04	Moolakkatte House, Mullenkolly P.O., Pulpally, Wynadu(dt), Kerala
92975	Swapna. P. Balan Balan. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7652 16/07/02	Ekkalam Parambil House, Pookayil PO. Naduvilangadi, Tirur, Malappuram(dt) Kerala.
92976	Swapna. P. Narayanan Narayanan. E. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7628 15/07/02	Vrindavanam, Eravimangalam P.O. Thrissur(dt), Kerala
92977	Syal Kumar. A. J Jayakumar. A. K	BAMS Dr. MGR Med. Univ Chennai 1997	6859 28/03/98	Anadalat House, Kunnamavu P.O., Alwaye, Ernakulam(dt), Kerala
92978	Syam Kishan K. V. Leela Krishnan V.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2004	8057 27/07/04	Sreesadanam, Meenadathur P.O., Thanalur Via, Malappuram(dt), Kerala
92979	Syam Kishore Rajendran. S.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1999	7143 31/03/00	Pazhoor Padippura, Kakkad P.O., Piravom, Ernakulam(dt), Kerala
92980	Syam. B Bhargavan. K	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7495 27/12/01	Bhargava Bhavan, Parippally P.O. Kollam(dt), Kerala
92981	Symon Thankachan Thankachan. D	BAMS M.G Univ., Kottayam 1996	6897 02/06/98	Thazhepuliathara Veedu, Thevalappuram P.O., Puthur, Kollam(dt), Kerala
92982	T. Sanand Ratnam T. Rajaratnam	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2004	8105 25/09/04	Mannariparamba, Govindapuram Post, Kozhikkodu(dt), Kerala
92983	Tenson. A Alexander. J	BAMS Univ. of Kerala 1998	6965 26/12/98	'Biju Bhavanam', Valathungal P.O. Kollam(dt), Kerala
92984	Teslin Sunny Sunny Mathew	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8292 25/01/05	Kattamkottil House, Gandi Nagar Colony, Thodupuzha East P.O., Idukki(dt)
92985	Testy Merita Eapen. P.J	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6978 20/02/99	Pallickavayalil (H), Kallanode P.O., Kakkayam (via), Kozhikkodu(dt), Kerala

92986	Thahina, A. Kareem; Abdul Kareem Ravuthar	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7497 27/12/01	Green Field, Nedumon P.O. Panamthitta(dt), Kerala
92987	Thahira, V. A Aboobacker Poovil	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	6997 06/03/99	W/o Mohamed Basheer, K.A, C/o K.K. Aboobacker Haji, Karippamkulam House, Kizhuppillikkara PO, Thrissur Distt.
92988	Thara Lakshmi, S Balakrishna Pillai, K	BAMS Univ. of Kerala 2002	7701 11/11/02	Lakshmi Vilasom, Pallarimangalam, Mavelikkara-7, Alappuzha(dt), Kerala
92989	Thasneen A. M. A. K. M. Moideen	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7890 28/11/03	H.No.61/19, Lissy Junction, North Ernakulam, Kochi, Ernakulam(dt), Kerala
92990	Thejasimhan, R Rajamani, M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7361 16/03/01	Kavalamkode Finix, Vadavannur P.O. Palakkad(dt), Kerala
92991	Thomas Koshy Jacob Koshy, P	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6758 26/04/97	Kaiekkal Bliss villa, Alencherry Eroor P.O Anchal, Kollam(dt), Kerala
92992	Thushara P. C V. M. Jayachandran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8289 25/01/05	Sharavanam, Kohinoor, Thenhipalam P.O. Malappuram(dt), Kerala
92993	Thushara U. Menon U. Unnikrishna Menon	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7903 05/12/03	Anaswara, Pawdamangalam, Kottakkal PO, Malappuram(dt), Kerala
92994	Twinkle U. S. Krishnan Unnikrishnan Nair C.	BAMS Univ. of Kerala 2003	7934 09/01/04	Twinkle House, Valakom P.O., Kottarakara, Kollam(dt), Kerala
92995	Udayaganesha B. B. Shankaranarayana Bhat	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8222 15/12/04	Kudiamoolle House, Miyapadavu Post, Manjeshwara Via, Kasaragodu(dt), Kerala
92996	Uma K. Sankar Sankaran, K. K	BAMS M.G. Univ., Kottayam 1996	6723 02/01/97	'Maya Nivas', Thayyoor P.O., Thrissur(dt), Kerala
92997	Uma Karthik Karthikeyan, N. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7365 16/03/01	Thulasi, Ponoth Road, Kaloor, Cochin Ernakulam(dt), Kerala
92998	Uma Rani, L. R Rajagopalan Nair, D. V	BAMS Univ. of Kerala 2000	7225 10/08/00	T. C. 16/677, Jagathy, Thycaud P.O. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
92999	Uma S. Thampi V. Sri Kumaran Thampi	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8298 25/01/05	Alengaden House, Park View Road, Irinjalakuda, Thrissur(dt), Kerala

93000	Uma Venugopal Venugopal, T. S.	BAMS Univ. of Kerala 2002	7704 11/11/02	Krishnapriya, Vidyannagar, Perunna, Changanacherry, Kottayam(dt), Kerala
93001	Unni, G Gopalakrishnan, G.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2001	7454 18/10/01	S. G. Bhavan, Cheravally, Kayamkulam, Alappuzha(dt), Kerala
93002	Unnikrishnan, A. K Karappan, A. V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6858 28/03/98	Ankarathu House, Elinjipara P.O. Thrissur(dt), Kerala
93003	Unnikrishnan, K. G. Gopalakrishna Pillai, G.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7036 17/09/99	Manthara House, Edakulangara P.O. Karunagapally, Kollam(dt), Kerala
93004	Unnikrishnan, K. R Kavirajan, K.	BAMS Univ. of Kerala 1998	6934 09/10/98	Kesava Bhavanam, Kunnumpuram, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
93005	Unnikrishnan, R. G. Gopinathan Pillai, K. S.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7081 10/12/99	Pamavilas, Ulunthy, Peringalipuram P.O. Ennakkadu, Alappuzha(dt), Kerala
93006	Usha Kumari, P. K Kunhikannan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7624 10/07/02	Kunneth House, Kariyambadi P.O., Meenengadi Via, Wynadu(dt), Kerala
93007	Usha Saluja, P. V Venugopalan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7218 04/08/00	Karthika(Near Temple), Arukizhaya, Manjeri P.O., Malappuram(dt), Kerala
93008	Usha, C Narayanan, V	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2000	7281 17/11/00	Vannathan Veedu, Parappa, Parappa P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
93009	Ushakumari, K. Thankaoppan	BAMS Univ. of Kerala 1999	7032 16/09/99	T. C. 4/547, H-Lane, Sree Vilas Lane, Kowdiar P.O., Thiruvananthapuram(dt)
93010	Uthara Babu, R. Babu, K.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7076 10/12/99	Iswarya, Karuna ICE Plant, Parimananam, Neendakara P.O., Kollam(dt), Kerala
93011	V. Asokan T. Vasudevan Potti	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	7967 03/03/04	C/o S. Ramachandran Potty, TC, 37/1376, KRRA-1, Kothalam Road
93012	Vandana Gopalakrishnan Gopalakrishnan, K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7650 16/07/02	Thazhatharayil House, House No: 5/506A, Kadakkarappally P.O., Cherthala Alappuzha(dt)
93013	Vandana Rani, M Madhavan Potty, V	BAMS Univ. of Kerala 1998	6964 26/12/98	'Sivalayam', T.C 6/513, Vattiyookavu P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala

93014	Vani Shree. A Mahalinga Bhat. A	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	7755 28/12/02	IX-A, Annapoorna, Main Road, Perla, Kasaragodu(dt), Kerala
93015	Vasudevan. K Vasudevan Naboodiri. K	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	6761 26/04/97	Kizhakkiniyakath Mana, Kuttippala P.O., Edarikode Via, Malappuram(dt), Kerala
93016	Veena G. L. Gouthaman G.	BAMS Univ. of Kerala 2004	7958 06/02/04	Sreelekshmy, T.C. 27/682-1, Vanchiyoor P.O., Thiruvananthapuram(dt), Kerala
93017	Veena Venugopal Venugopal. K	BAMS Univ. of Kerala 1998	6969 02/01/99	'Veena', 17/749, A-25, Chitra Nagar, Podjappura, Thiruvananthapuram(dt) Kerala
93018	Veena. N. S Narayana Varma Thampian. R	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7661 16/07/02	Venus House, Pilathara PO, Kannur(dt) Kerala.
93019	Veera Cholan. R Rengaraju. V	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1996	6757 16/04/97	'Yuvatha' House, Eranhikkal P.O., Elathur Via, Kozhikkodu(dt), Kerala -
93020	Venkata Girisha. P Narayana Bhat. P	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 1997	6826 15/11/97	Pottippala House, Nekraje P.O., Kasaragodu(dt), Kerala
93021	Venkatesh. K. T Thirumaleswara Bhat. K	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7485 19/11/01	Kerekody House, Miyapadavu P.O., Manjeshwara Via, Kasaragodu(dt), Kerala
93022	Venugopal. K. Shama Bhat. K.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1993	7259 24/10/00	Yethadka PO, Kasaragodu(dt), Kerala
93023	Venugopal. P Purushothaman Nair. N	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6876 24/04/98	Puthiya Veedu, Anchumala, Cheilkuzhy P.O., Nedumon (Via), Kollam(dt), Kerala
93024	Vibhu Muralaheedharan K. G. Muralaheedharan Nair	BAMS Univ. of Kerala 2003	7860 10/10/03	321, A.K.G. Nagar, Peroorkada, Thiruvananthapuram(dt)
93025	Vidhu M. M. M. M. Govindan Namboodiri	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2002	8076 27/07/04	Athira, Pallikkunnu P.O., Kannur(dt)
93026	Vidya G. K. K. Nair	BAMS Univ. of Kerala 2003	7867 13/10/03	Siva Sallam, Sanathanapuram P.O., Kalarcode, Alappuzha(dt)
93027	Vidya Narayanan Narayanan. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7462 19/10/01	Karuthethil House, Animpur P.O., Thrissur(dt), Kerala

93028	Vidyadharan, A. V Viswanathan, A. S	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6872 24/04/98	Adimathara House, Asokapuram, Aluva, Ernakulam(dt), Kerala
93029	Vidyotheekumar, P. V Viswanathan, P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2001	7458 18/10/01	Kaliath House, Palikunnu, Kannur-4, Kannur(dt), Kerala
93030	Vijay Carolin Vijayarajan, K.	BAMS Univ. of Kerala 2000	7296 06/12/00	Thodiyil House, Tangassery P.O. Kollam(dt), Kerala
93031	Vijaya Krishnan T. C. K. L. Kerala Varma Raja	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2002	8166 13/10/04	Krishna Mandir, Nileseshwar, Kasaragodu(dt),
93032	Vijaya Lekshmi, K. T Karunakaran, K.T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6850 28/03/98	Vijaya Ragam (H.O), Irivallur P.O., Chelannur Via, Kozhikkodu(dt), Kerala
93033	Vijayakumar, C. A Aravindakshan, M. A	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6753 29/03/97	Chathrattil House, Muriyad P.O. Thrissur(dt), Kerala
93034	Vijayakumar, S. Sankara Pillai	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7158 21/06/00	Vijaya Bhavanam, Edakkulangara P.O., Karunagappally, Kollam(dt), Kerala
93035	Vijayapali, J. J Jeyagopal, J	BAMS Univ. of Madras, Madras 1987	7637 15/07/02	Capsulation & Pharmacouncals, Aroor Alappuzha(dt), Kerala
93036	Vijith Sasidhar P. Sasidharan	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8052 30/06/04	Padinjarekkara PO Vaikom, Kottayam(dt),
93037	Vinatha M. B. M. Balakrishnan Nair	BAMS R.G. Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	8012 15/04/04	Ponnumthuruthil House, Eloor East, Udyogamandal PO, Aluva, Ernakulam(dt)
93038	Vineesh, V Velayudhan Nambiar, NCR	BAMS NTR Univ., of Health Sciences, Vijayawada 2002	7783 01/04/03	Krishna Nivas, Kavil P.O., Naduvannur Via, Kozhikkodu(dt) Kerala
93039	Vinitha Gopal Gopala Pillai, P. K.	BAMS Univ. of Kerala 1999	7029 09/09/99	Ashvini, T. C. 21/1862, Near Chuttumala Elankom, Karamana, Thiruvananthapuram
93040	Vinitha, P. J Janardhanan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7187 05/07/00	Poruthiyil House, Cherpalcherry P.O. Palakkad(dt), Kerala
93041	Vinitha, R Ramakrishna Pillai, K. G	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2000	7195 05/07/00	V/414, Pranavam, Alampallam Road, Chandranagar PO, Palakkad(dt), Kerala

93042	Vinod Kumar. M.V Balakrishnan Nambiar. K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1998	6849 28/03/98	Kavitha, Maniyat PO, Kasaragodu (dt) Kerala
93043	Vinod Kumar. T Velayudhan. T	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7681 26/07/02	Krishna Kripa, Vadoth, Maniyankode Post, Kalpetta Via, Wynadu(dt), Kerala
93044	Vinod Kumar. V. K Dr. Karunakaran Nair. G	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 1997	6813 20/09/97	Kallarathala, Vadakke Benglow, Elluvial PO Karakonam, Thiruvananthapuram
93045	Vinod R. P. V. Raveendran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8297 25/01/05	Kottakkal Arya Valdhayasala Branch, Kallai Kallai Road, Kozhikkodu(dt), Kerala
93046	Vinod. D. S. Damodaran Nair. K. T.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 1999	7102 23/12/99	Krishna Kripa, Barracks Road, West Hill PO, Near Freemasons Hall, Kozhikkodu
93047	Vinod. K. Krishnan Nampoothiri. K.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai 1999	7049 18/10/99	Kalloor ilam, Thalavady P.O., Thiruvalla via, Alappuzha(dt), Kerala
93048	Vinod. N Nathu. P. V	BAMS Univ. of Kerala 2001	7378 26/05/01	Chalthanya, Ranny PO, Pathanamthitta(dt)
93049	Vinosh. N. S Subramannyan. N. R	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2000	7425 16/07/01	Nangelil House, Pulluvazhy P.O., Kunnathunadu, Ernakulam(dt), Kerala
93050	Vinoy Vigneswar Vigneswaran. V	BAMS Univ. of Kerala 1998	6935 09/10/98	'Thoppil', Ackanattukara, Kallumala P.O., Mavelikkara, Alappuzha(dt)
93051	Vinu Vijayan. P Vijayan. K	BAMS Univ. of Kerala 2002	7582 07/06/02	T. C. 46/214-(1), Janakimandiram, Paruthikuzhy, Poonthura P.O., Thiruvananthapuram(dt)
93052	Vinu Vijayanath Babu Vijayanadan	BAMS Univ. of Kerala 2002	7584 10/06/02	Veda, T. C. 25/2629, Kunnumpuram, TVM-1, Thiruvananthapuram(dt), Kerala
93053	Vishnu G. C. Gopakumar	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2003	7986 09/03/04	Ragam, Eramalloor P.O., Cherthala, Alappuzha(dt), Kerala
93054	Vishnu Nampoothiri. S Subramanian Nampoothiri. V	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7266 08/11/00	Kochupurackai, Thailvalli ilam, Mathilbhagam, Tiruvalla PO, Pathanamthitta
93055	Vishnu Nampoothiry. K. S Sankaran Nampoothiry. K. K	BAMS Univ. of Kerala 1998	6952 22/12/98	Kudalmana Sreeganga, Sanathanapuram P.O., Alappuzha(dt), Kerala

93056	Vishnu Prasad. K Vasudeva Bhat. K	BAMS Univ. of Mysore, Mysore 2000	7298 13/12/00	Kodenkila House, Padre P.O. Kasaragodu(dt), Kerala
93057	Vishnu Prashanth A. V. Bhat	BAMS Univ. of Kerala 2004	7965 01/03/04	Giri Nilaya, Mullugiri, 14/465, Manjeshwar Manjeshwara, Kasaragodu(dt), Kerala
93058	Viswanath K. K. Narayanan	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences Bangalore 2003	7889 28/11/03	Valiyavayal House, Poothanganam P.O. Pulur, Anandhashram Via, Kasaragodu Distt Kerala
93059	Viswanathan. U Umadethan. B	BAMS Univ. of Kerala 1998	6917 18/08/98	'Uppuparambil', Karikkakam Beach PO. Thiruvananthapuram(dt), Kerala
93060	Vivek P. K. Vijayan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2005	8287 25/01/05	Victory, Mannath Poyil PO Pokkottumpadam, Malappuram(dt)
93061	Vivek Sankar Kumar. M. S	BAMS Kuvempu Univ., Shankarghatta 2001	7376 07/05/01	Sankaralayam, Eroor West P.O., Thripunithura, Ernakulam(dt), Kerala
93062	Volga E. K. E. K. Nair	BAMS Univ. of Kerala 2004	8168 25/10/04	Volga mandir, Paravanadukkam P.O., Kalanad Via, Kasaragodu(dt), Kerala
93063	Vrinda Kumari. M Nandakumar. M	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2002	7743 27/12/02	Karnikaram, Kohinoor, Thenhipalam P.O., Malappuram(dt), Kerala
93064	Vrinda Madhavan. K Madhavan Nair. P	BAMS Mangalore Univ., Mangalore 2001	7501 09/01/02	Srilakshmi, Nelkala Road, Anangoor, Kasaragodu(dt), Kerala
93065	Vrinda Roy R. V. Suresh Mohan Roy	BAMS R.G.Univ. of Health Sciences, Bangalore 2004	8196 06/11/04	Amritham, Valloor Road, Poonithura P.O., Kochi-17, Ernakulam(dt), Kerala
93066	Yamini Balakrishnan. U. B Balakrishna Pillai. P	BAMS Univ. of Calicut, Calicut 2003	7806 02/06/03	Ponnushas, T. C. 23/147(1), Vailiyasala, Chalai PO., Thiruvananthapuram(dt)
93067	Yamuna. A Achuthan Nair. P	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai 2000	7256 24/10/00	Puthissery House, Puthenpally P.O., Mammiyoor, Guruvayoor, Thrissur(dt)

P. R. SHARMA
Registrar
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE
KERALA

PART - II - UNNANI

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
8744	Iftikharuddin Khan Abdul Rahim Khan	B.U.M.M.S. Muslim Univ., Aligarh 1981	6943 23/11/98	Calicut Unani Hospital & Research Centre, Kallal, Kozhikode-3, Kozhikkodu, Distt. Kerala

P. R. SHARMA
Registrar
Central Council of Indian Medicine
New Delhi